

प्रकाशक
हिंदुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०
इलाहाबाद

मूल्य { सजिल्द—५।।)
बिना जिल्द—३।)

मुद्रक—श्यामसुन्दर श्रीवास्तव
कायस्थ पाठशाला प्रेस
इलाहाबाद

विषय-सूची

विषय
(१) पूर्वजगण	५
सेठ अमीनचंद	३
वा० फतेहचंद	१५
वा० हर्षचंद	२२
वा० गोपालचंद्र	३३
(२) भारतेदु वा० हरिश्चंद्र	५४
बाल्यकाल, पर्यटन	५४
आकृति और स्वभाव	६५
शील और दान	६६
सत्य-प्रियता	७३
परिहास-प्रियता	७४
गुणियों का सत्कार	७७
रुचि-वैचित्र्य	८४
लेखन तथा आशुकवित्त्व शक्ति	८६
समाज-सुधार	८९
देश-सेवा	९३
भाई का इनसे अलग होना	१०१

विषय			पृष्ठ
गवर्नमेंट की कृपा और कोष	१०६
सन्मान	१०८
भारतेंदु की पदवी	११३
चित्ता, रोग तथा स्वर्गवास	११४
संतति तथा स्त्री	१२४
चंद्र में कलंक	१२६
मित्रगण	१३२
स्फुट वार्ता	१५०
(३) रचनाएँ	१५६
नाटक	१५६
राजभक्ति	१७४
धर्मग्रंथ	१८२
काव्य	१८५
स्फुट ग्रंथ तथा लेख	१६२
इतिहास	१६५
समाचार-पत्र	२००
(४) आलोचना	२०८
भाषा तथा शैली	२१३
नाट्यशास्त्र-ज्ञान	२२१
चरित्र-चित्रण	२२७
प्राकृतिक वर्णनों की कमी	२३६
गीति-काव्य	२४०
खड़ी बोली तथा उर्दू	२५१
भाषा-सौंदर्य	२५६
लोकोक्ति	२६५
अनुवाद	२६७

विषय		पृष्ठ
नवीन रस	...	२७१
अलंकार	...	२८१
प्रेम	...	२८५
ईश्वरोन्मुख प्रेम या भक्ति	...	२८८
देश-प्रेम	...	२९३
आरसी	...	३००
नेत्र	..	३०३
आँसू	...	३०६
विरह-वर्णन	...	३०८
संयोग शृंगार	...	३१८
हिन्दी-साहित्य स्थान	...	३२३
(५) परिशिष्ट-अ (पत्र-न्यवहार)	...	३२५
(६) परिशिष्ट-आ (भारतेंदु जी के विषय में कुछ लोगों की सम्मतियाँ)	...	३३३
(७) परिशिष्ट-इ (भारतेंदु जी की रचनाओं की सूची)	...	३४३
(८) परिशिष्ट-ई (पुस्तकों की सूची)	...	३४७

C

प्रस्तावना

आचार्यवर दंडी ने बहुत ठीक कहा है कि—

आदिराजयशोविम्ब्रमादर्शं प्राप्य चाङ्मयम् ।

तेषामसन्निधानेऽपि न स्वयं पश्य नश्यति ॥

ब्राह्मी रूपी दर्पण में पूर्वनरेशो के यश रूपी प्रतिबिम्ब के प्राप्त रहने पर उनके न रहने पर भी वे नष्ट नहीं होते । अर्थात् कवियों तथा लेखकों द्वारा निबद्ध पहले के महाराजाओं के कीर्ति स्वरूप जीवनचरित्रों के रहते हुए उन राजाओं के नष्ट हो जाने पर भी वे जीवित से बने रहते हैं । उनके विचार उनकी कृतियाँ सदा बनी रहती हैं और वर्तमान तथा भविष्य के मनुष्यों के लिये आदर्श होती हैं । मनुष्य की कृतियों में, यदि देखा जाय, तो अमरत्व की मात्रा सबसे अधिक पुस्तकों ही को प्राप्त है । महाकवियों तथा सद्-ग्रन्थकारों की रचनाएँ ही अमर पद को प्राप्त हो सकती हैं । विशाल स्मारक भवन, दृढ़तम मन्दिर, चित्र आदि सभी नष्ट हो जाते हैं पर ये अमर ग्रन्थ रह जाते हैं । आज से दो चार सहस्र वर्ष पहिले लोगों के क्या विचार थे, वे क्या सोचते समझते थे, उन सब का पता इन ग्रन्थों से लग जाता है पर उस समय की अन्य मानवी कृतियाँ कभी कभी टूटी फूटी अवस्था में अन्वेषकों द्वारा खोज निकाली जाती हैं । पुस्तकों में एक विशेषता यह भी है कि उनसे हम मनुष्य के बाह्य स्वरूप के साथ साथ उनके हृदयस्थ भावों तथा विचारों को भी जान सकते हैं और उनके पठन से वे सजीव के समान कष्ट में सहानु-

भूति दिखलाते हुए तथा आनन्द में महयोग देते हुए पाए जाते हैं। साथ ही ये ग्रंथ सब को समान रूप से प्राप्य हैं, हाँ यदि वे उनसे लाभ उठा सकते हैं। ससार में वे ही अमर हैं जिन्होंने सत्काव्य रचे हैं या जिन लोगों ने सत्कवियों को आश्रय दिया है। इस समय जिन प्राचीन लोगों के नाम मनुष्य के जिह्वाग्र पर रहा करते हैं उन दानवीरो, अवतारों, महात्माओं आदि का पता सद्ग्रंथों ही से हम लोगों को चल रहा है। किसी कवि ने ठीक कहा है कि—

दरुमीकप्रभवेण रामनृपतिर्व्यासेन धर्मात्मजो,

व्याख्यातः किल कालिदासकविना श्री विक्रमांको नृपः ।

भोजशिवतपविलहणप्रभृतिभिः कर्णोऽपि विद्यापतेः,

ख्यातिर्यान्ति नरेश्वराः कत्रिवरैः स्फारैर्नभेरीरवैः ॥

मनुष्य स्वभावतः समाजप्रिय है और यही कारण है कि वह सर्वदा मनुष्य ही के विषय में विचार-रत रहता है। किसी भाषा के समग्र साहित्य को देखिए, सभी में मनुष्य तथा उसकी कृति और विचार भरे हैं। इसलिए सुलिखित जीवनचरित्र के पढ़ने में, देखा जाता है कि मनुष्य को सबसे अधिक आनंद मिलता है। कहानियों तथा उपन्यासों में मनगढ़त कल्पित चरित्र चित्रण होने से उनसे अधिक मनोरंजन होता है और नाटकों में भी इसी कारण अधिक तमाशाई इकट्ठे होते हैं। इतिहास भी सैकड़ों मनुष्यों की जीवनियों का संग्रह मात्र है। बड़े बड़े सत्काव्य आदर्श नायकों के चरित्र ही चित्रित करते हैं, जिन्हे लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं।

आदर्श वीरो, महात्माओं, महाकवियों आदि के सच्चे जीवनचरित्र से जो अलभ्य लाभ उठा सकते हैं, वह अवास्तविक कल्पना-प्रसूत कथानकों से कभी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि एक सत्य है और दूसरा असत्य। उन महान् पुरुषों के दुःख सुख के अनुभवों को, कठिन समय के कार्यों को तथा विचारों को अपना आदर्श बना सकते हैं। जीवनचरित्र कभी पुराने नहीं हो सकते। सत्ययुग के हरिश्चन्द्र और त्रेता के रामचन्द्र के चरित्र आज तक सब के लिये अनुकरणीय हैं। जीवनचरित्र यह भी उपदेश देता है कि मनुष्य

क्या हो सकता है और क्या कर सकता है। एक महान व्यक्ति की जीवनी पाठकों के हृदय में उत्साह, आशा, शक्ति और साहस भर देती है और उन्हें उस आदर्श तक उठने को प्रोत्साहित करती है। साहित्य का इन कारणों से जीवन चरित्र एक विशेष अंग है पर हिन्दी में ऐसे जीवन चरित्रों की बहुत कमी है।

हिन्दी साहित्य के इतिहास में सर्वोत्तम नौ कवि चुने गए हैं जिनमें आठ सरस्वती के वरपुत्र ब्राह्मण हैं और एक इन्हीं भारतेन्दु जी ने उस रिजर्व्ड क्षेत्र में जाकर मदाखलत बेजा किया है। इन भारतेन्दु जी की सबसे पहिली जीवनी उनके देहात पर उनके परम मित्र प० रामशंकर व्यास जी ने चंद्रास्त के नाम से प्रकाशित की थी। इन्होंने बड़ी जीवनी लिखने का भी विचार किया था और सन् १८९४ ई० के पत्रों में सूचना निकाली भी थी कि जिनके पास भारतेन्दु जी की जीवनी के लिये उपयुक्त सामग्री हो वे उसे उनके पास भेजें या पत्रों में प्रकाशित कर दे, पर चन्द्रास्त के बाद वे कुछ न लिख सके। भारतेन्दु जी के फुफेरे भाई स्व० बा० राधाकृष्णदास जी ने सं० १९०० में निकलनेवाली सरस्वती के प्रथम भाग में भारतेन्दु जी की एक सक्षिप्त जीवनी प्रकाशित की थी, जिसे उन्होने चार वर्ष बाद संशोधित और परिवर्द्धित करके पुस्तकाकार छपवाया था। इस सौ पृष्ठ की पुस्तक ऐसे नर-रत्न की जीवनी कहलाने के लिए अपर्याप्त थी और इसपर भी पहिले प्रवासी नामक पत्र में और फिर उसी की देखा देखी समालोचक नामक पत्र में उसी समय कटाक्ष किया गया था कि सगे सबधियों को अपने लोगों का जीवन चरित्र लिखना न चाहिए। प्रवासी की आलोचना कुछ अधिक कठोर थी। भारतेन्दु जी की मृत्यु के बीस वर्ष बाद किसी अन्य को कलम न उठाते देख यदि बा० राधाकृष्णदास जी ने एक छोटी सी जीवनी लिख डाली तो उस पर भी आक्षेप पुरस्कार में मिला। सत्य ही गैरी से कोई मतलब नहीं अपने भी न लिखे, चलो बस छुट्टी हुई। किसी शायर ने ठीक कहा है—

तुम्हें गैरों से कब फुरसत हम अपने गम से कब खाली।

चलो बस हो चुका मिलना न तुम खाली न मैं खाली ॥

खड्गविलास प्रेस के स्वामी बा० रामदीन सिंह जी भी भारतेन्दु जी की वृहत् जीवनी पं० रामशंकर व्यास जी ने लिखवाने के प्रयत्न में थे और उसके लिए साधन एकत्र करते रहते थे। इनके स्वर्गवास होने पर तथा व्यास जी के जीवनी लिखना अस्वीकार करने पर इनके पुत्र रामरणविजय सिंह के आग्रह से बा० शिवनन्दन सहाय जी ने इसे लिखना स्वीकार किया और यह पुस्तक पहिली बार सन् १९०५ ई० में प्रकाशित हुई। इसके अनंतर भारतेन्दु जी की रचनाओं पर यद्यपि छोटे छोटे लेख निकलते रहे पर पुनः किसी ने उनकी जीवनी लिखने का प्रयास नहीं किया। इनमें राय वहादुर बा० श्याम सुन्दरदास जी लिखित भारतेन्दु जी की जीवनी जो नाटकावली की भूमिका में दी गई है अवश्य उल्लेखनीय है। दस बारह वर्ष होते आए कि मैंने इन दोनों जीवनों को पढ़ा था और उसी समय से एक जीवनी लिखने का मुझे भी उत्साह हुआ पर उन दोनों पुस्तकों के उपक्रमों के पढ़ने से उत्साह अवश्य मद्ध पड़ गया था। हाँ, सामग्री जो कुछ उपलब्ध हो जाती थी वह एकत्र करता जाता था। सं० १९८३ वि० में जब मैंने बा० गोपालचन्द्र उपनाम गिरिधरदास रचित जरासधवधमहाकाव्य का संपादन किया और उसकी भूमिका के लिए कवि परिचय तैयार करने लगा तब 'विचार था कि इस ग्रंथ की भूमिका में बा० गोपालचन्द्र तथा उनके पूर्वजों की विस्तृत जीवनी दी जाय पर नई नई बातों का पता लगते रहने और इस ग्रंथ की भूमिका के बढ़ जाने के डर से वैसा नहीं किया गया।' इस प्रकार साधन एकत्र होते रहने पर भारतेन्दु जी की जीवनी लिखने का विचार दृढ़ होता गया। साथ ही वह भाव की अपन ही मातामह को जीवनी लिखने से मुझपर, स्यात् बा० राधाकृष्णदास जी से भा अथिक् आत्मश्लाघा का दाष लगाया जायगा, शिथिल होता गया और इस प्रकार यह जीवनी क्रमशः तैयार होने लगी। प्रायः तीन वर्ष से अधिक हुआ कि भारतसर्कार द्वारा सस्थापित 'हिन्दुस्तानी एकेडेमी' के मंत्रो महादय का पत्र मिला कि मैं भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र का जीवनचरित्र लिखकर उक्त सस्था को प्रकाशित करने के लिये दूँ। इस पत्र के प्राप्त होने पर वह जानो कुछ शीघ्रता से लिखो जाने लगी, जो अब पूर्ण हो गई।

ऐसे जीवनचरित्रों की भूमिका में प्रायः लेखकगण दिखलाते हैं कि उन्होंने लेखनी उठाने के लिए अपने नायक को किन किन कारणों से चुना है। इस कारण को बतलाने में वे उन नायकों के औदार्य, शील, सौजन्य, वीरता, कर्म, कार्यशक्ति, कवित्व आदि की प्रशंसा कर दिखलाते हैं कि उनकी जीवनी से देश को बहुत कुछ लाभ पहुँच सकता है। मैं ऐसा करना उचित नहीं समझता और इसलिये इस विषय पर कुछ भी नहीं लिखता। भारतेन्दु जी का नाम ही यदि इसके लिये उपयुक्त न समझा जाय तो पृष्ठों गुण वर्णन भी काफी नहीं हो सकता। यहाँ शृंगार सप्तशति के रचता पं० परमानन्द जी का केवल एक श्लोक उद्धृत कर देना पर्याप्त है—

हरिश्चन्द्रस्या ऽभूद्विबुधरघुनाथश्चिर सुहृद्

हरिश्चन्द्रस्येव प्रकटित सुधः पूर्ति सुखकृत् ।

महीयस्येन्मीलकुवलयकराकारविभया

महीयस्या जज्ञे शरदिवसुकीर्त्या शशिसखी ॥

इस कार्य में मुझे बहुत सज्जनों से सहायता मिली है और उन लोगो का मैं हृदय से अनुगृहीत हूँ। बा० राधाकृष्णदास जी के पितृव्य बा० पुरुषोत्तमदास जी, रायकृष्णदास जी, बा० जयशकरप्रसाद जी, बा० गोकुलदास जी जयपुरी, बा० जगन्नाथदास जी बी० ए० 'रत्नाकर', पं० गणेशदत्त त्रीपाठी आदि सज्जनों ने भारतेन्दु जी के विषय में कितनी ज्ञातव्य बातें बतलाई हैं। भारतेन्दु जी का पुस्तकालय बिलकुल अस्तव्यस्त था और वहाँ कुछ दिन बराबर जा कर उन सब को ठीक कर अपने लिये उपयोगी पुस्तकों का छाँटना तथा फिर उन्हें वही पढ़कर अपने मतलब की बातों को नोट करना सम्भव नहीं था, इसलिये उनसे विशेष लाभ नहीं उठा सका। कवि-बचन-सुधा आदि की फाइलें भी कटी फटी अपूर्ण हैं। पहिले कभी कभी एक या दो पुस्तकें छाँट कर घर ले आता था और उनसे नोट लेकर पुनः लौटा देता था। एक बार रफ कागज़ पर लिखे गए बा० गोपालचन्द्र जी के साठ पैसठ पद मिले जिनकी मैंने एक नई कापी तैयार करा ली। इस कार्य में कुछ देर होने पर मेरे ममेरे भाइयों में से एक साहब ने उसके लिए तकाजा

किया और स्पष्ट कह देने पर उन्हें कुछ ऐसा करना नागवार मालूम हुआ। सेवक कवि का पद्यमय मुद्राराक्षस उक्त पुस्तकालय में मिल चुका था और उसे भारतेन्दु जी के मुद्राराक्षस से मिलान करने के लिए मैंने मँगवाया। इस पर सूचना मिली कि हस्तलिखित प्रतियों के घर के बाहर जाने का नियम नहीं है इसलिये यहीं आकर देख सकते हैं। सत्य ही 'घर फूँकने वाले' के दौहित्र को इससे अधिक आशा रखनी ही नहीं चाहिए थी। हाँ जो कुछ सहायता इसके पहिले मिल चुकी थी, क्योंकि इसके बाद कभी मैंने एक चिट के लिए भी नही लिखा है, उसके लिए मैं उनकी सज्जनता का सर्वदा आभारी रहूँगा।

इसके अनंतर इश्वर की कृपा से बहुत से कागजात पत्र, पत्रिकाएँ आदि आप से आप मिलती गईं, जिनसे इस जीवनी के लिखने में बहुत सहायता मिली। कुछ कागजात की नकल कचहरी से ली गई। दैवात् किस प्रकार सहायता पहुँचती रहती है, उसका एक उदाहरण यह है कि एक बार एक ब्राह्मण देवता अपने मकान का कागज कुछ सम्मति लेने के लिये मेरे पास लाए, जिससे माधवी के विषय में बहुत कुछ ज्ञात हो गया और इसका उल्लेख पुस्तक में हो भी चुका है।

सबसे अधिक मैं इस कार्य में अपने मित्र पं० केदारनाथ पाठक का आभारी हूँ जिन्होंने कई प्रकार से मेरी सहायता की है। बहुत सी पत्र पत्रिकाएँ जिनमें कुछ सामग्री मिल सकती थी इन्होंने एकत्र की और किस पुस्तक में कौन उपयोगी अंश प्राप्त हो सकता है उसकी सूचना बराबर देते रहे। कितनी पुस्तके इधर उधर से माँग लाए जिनसे कुछ भी नई बातों का पता लग सकता था। तात्पर्य यह कि इस ग्रंथ के लिये सामग्री जुटाने में इन्होंने जो परिश्रम उठाया है उसके लिए यह हमारे ही नहीं प्रत्युत् इसके प्रत्येक पाठक के धन्यवाद के पात्र हैं।

इस ग्रंथ में भारतेन्दु जी के जो कई चित्र दिये गये हैं उनके लिये बा०


राधाकृष्णदास जी बी० ए० को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने अपने चित्र संग्रह में से इनके फोटो लेने की आज्ञा सहर्ष दे दी थी ।

सबके अंत में प्रांतीय सरकार तथा हिन्दुस्तानी एकेडेमी को धन्यवाद देना उचित है जिनके कारण यह ग्रंथ इतने मनोरंजक रूप में पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रहा है ।

दीपमालिका }
१६६१

—ब्रजरत्नदास

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र



भारतेन्दु जी



भारतेन्दु जी (कैलोरामस्वधा)

पूर्वज-गण

हिन्दी के सुप्रसिद्ध महाकवि वा० गोपालचन्द्र उपनाम गिरिधरदास के पुत्र आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता, हिन्दी प्रेमियों के प्रेमाराध्य तथा पं० प्रतापनारायण जी मिश्र के कथनानुसार 'प्रातः स्मरणीय' गोलोकवासी भारतेन्दु वा० हरिचन्द्र जी ने निज उत्तरार्द्ध भक्तमाल में अपने वंश का परिचय निम्नलिखित दोहों में दिया है—

वैश्य—अन्न कुल में प्रवट, बालकृष्ण कुलपाल ।
ता सुत गिरधर-चरन-रत, वर गिरिधारी लाल ॥
अमीचंद [तिनके तनय, फतेचंद वा नंद ।
हरषचंद जिनके भए, निज कुल-सागर-चंद ॥
श्री गिरिधर गुरु सेह के, घर सेवा पधराइ ।
तारे निज कुल जीव सब, हरि पद भक्ति द्वाइ ॥
तिनके सुत गोपाल सखि, प्रगटित गिरिधर दास ।
कठिन करमगति मेटि जिन, कीनी भक्ति प्रकास ॥
मेटि देव देवी सकल, छोड़ि कठिन कुल रीति ।
थाप्यो गृह में प्रेम जिन प्रगटि कृष्ण-पद प्रीति ॥

पारवती की कोख से तिनसों प्रगट अमंद ।
गोकुल चंद्राग्रज भयो भक्त दास हरिचंद ॥

पूर्वाक्त उद्धरण से यह ज्ञात हो जाता है कि इनके पूर्वजों में राय बालकृष्ण तक का ही ठीक ठीक पता चलता है। सेठ बालकृष्ण के पूर्वजों का दिल्ली के मुगल सम्राट्-वंश से विशेष संबंध था, पर उस शाही घराने के इतिहासों में इस वंश का कोई उल्लेख मुझे अभी तक नहीं मिला। जिस समय शाहजहाँ का द्वितीय पुत्र सुलतान शुजाअ बंगाल का सूबेदार नियुक्त होकर बंगाल प्रांत की राजधानी राजमहल को आया था, उस समय इनका वंश भी उसी के साथ बंगाल चला आया। जब बंगाल के नवाबों की राजधानी राजमहल से उठकर मुर्शिदाबाद चली गई तब यह वंश भी मुर्शिदाबाद में आ बसा। इन दोनों स्थानों में इनके पूर्वजों के विशाल महलों के खंडहर अब तक वर्तमान हैं।

मुर्शिदाबाद में इस वंश की कई पीढ़ियों ने बड़े सुख से दिन व्यतीत किये थे। सेठ बालकृष्ण के पौत्र तथा गिरधारी लाल के पुत्र सेठ अमीन चंद

अंगरेजी इतिहासों में अमीनचंद तथा हंडर के इतिहास में उमाचरण नाम दिया गया है। फ़ारसी के इतिहासों में अमीनचंद नाम पाया जाता है। कहीं कहीं पुराने ग्रंथों में अमीरचंद नाम भी मिलता है। पर उस घराने के पुराने कागज़ात में अमीनचंद ही लिखा है। इनके पुत्र वा० फतहचंद ने काशी आकर चौखम्बे वाला मकान क्रय किया था जिसके वैनामे में, जो ३ शवान १२०३ हि० (सन् १७८६ ई०) को लिखा गया था, फतहचंद वल्द अमीनचंद बिन गिरधारी लाल लिखा हुआ है। एक दूसरे कागज़ में फ़ारसी अंश में अमीनचंद और उसी की हिन्दी प्रतिलिपि में, दोनों एक ही कागज़ पर हैं, अमीनचंद लिखा है। अमीनचंद के दो पुत्रों का नाम फतेचन्द और हुकुमचन्द हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि नाम में फ़ारसी शब्दों का प्रयोग उस समय होने लगा था। ज्ञात होता है कि नवाब दरवार से अधिक संबंध होने के कारण फ़ारसी शब्द 'अमीन', जो सेठों के लिए बहुत उप-

के समय में बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व फैल चला था और इन्होंने इन नवागतुक व्यापारियों की सहायता कर बंगाल की नवाबी को नष्ट करने में योग भी दिया था। उसी के फल स्वरूप इनकी वह दशा हुई थी जिसका वणन आगे किया जायगा। उस समय इनका मान भी विशेष था, जिससे इनके तीन पुत्रों को राजा और एक को राय बहादुर की पदवी प्राप्त हुई थी। सेठ अमीनचंद इतिहास प्रसिद्ध पुरुष हो गए हैं और इनके पिता तथा दादा का कुछ भी वृत्तान्त नहीं मिलता, इसलिए उन्हीं का परिचय पहले दिया जाता है।

मुगल-साम्राज्य का अवनति-काल औरंगजेब की मृत्यु से आरंभ होता है और इसी काल में इस जर्जरित साम्राज्य की सीमा पर के सेठ अमीरचंद प्रान्तों के अर्धक्षगण धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे थे। औरंगजेब के पौत्र अजीमुशान तथा प्रपौत्र फरुखसिअर की सूबेदारी के समय में मुर्शिद कुलीख़ाँ बंगाल का दीवान था, जो फरुखसियर के सम्राट् होने पर बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। इसकी मृत्यु पर इसका दामाद शुजाउलमुल्क तथा उसके अनंतर उसका पुत्र सर्फराज ख़ाँ क्रमशः प्रांताध्यक्ष (सूबेदार) नियत हुये। सन् १७४० ई० में अलीवर्दी ख़ाँ ने सर्फराज ख़ाँ को युद्ध में मार कर बंगाल पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार देखा जाता है कि ये लोग नाम मात्र के मुगल-सम्राट् के अधीनस्थ कहलाते थे पर वास्तव में स्वतंत्र थे। अलीवर्दी के पुत्र न थे, पर तीन कन्याये थीं, जो इसके बड़े भाई हाजी मुहम्मद के तीन पुत्रों को व्याही गई थीं। इन सभी कन्यायों को सताने थी पर इनमें सबसे छोटी

युक्त है, नाम में लाया गया है और उच्चारण अमी सा करने तथा लिखते लिखते चंद्रविट्टु के लुप्त हो जाने से अमीचंद रह गया है। फारसी में चन्द्रविट्टु के न होने से पूरे वर्ण 'नूँ' का प्रयोग होता है। निखिलनाथ राय की 'मुर्शीदाबाद काहिनी,' पुस्तक के ६७ पृ० पर भी अमीनचंद ही दिया है।

पुत्री को जैनुल-आवदीन से जो एक पुत्र था उसपर अलीवर्दी खाँ की अत्यधिक ममता थी। सन् १५५६ ई० मे यही बालक सिराजुद्दौला की पदवी से बंगाल का नवाब हुआ।

सन् १६४४ ई० मे मुगल सम्राट् शाहजहाँ की बड़ी पुत्री जहाँआरा बेगम के सुवासित वस्त्रों मे किसी प्रकार आग लग गई और बुझाए जाने तक मे वह अत्यंत जल गई। देशी हकीमों से विशेष लाभ न होने पर सूरत से प्रेवील वाउटन नामक एक डाक्टर बुलाया गया, जिसने शीघ्र ही उसे आरोग्य कर दिया। पुरस्कार पूछने पर उस निस्वार्थ देश प्रेमी ने यही माँगा कि उसके देशवालों को बंगाल मे बिना कर दिए व्यापार करने तथा कोठी बनाने की आज्ञा दी जाय। अपने इच्छानुकूल फर्मान लेकर वह राजमहल पहुँचा जहाँ बंगाल के प्रांताध्यक्ष और शाहजहाँ के द्वितीय पुत्र सुलतान शुजाअ का दरबार लगता था। यहाँ भी इसने शुजाअ के जनाना महल के एक असाध्य रोगी को अच्छा कर दिया, जिससे शाहजादा भी बहुत प्रसन्न हुआ और उसकी रक्षा मे हुगली मे कोठियाँ खुल गईं। इसकी शाखाएँ भी पटना, कासिम बाजार, ढाका और बालासोर में स्थापित हो गईं। सन् १६८९ ई० तक इन लोगों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ा पर उसी वर्ष बंगाल के नए प्रांताध्यक्ष नवाब शायस्ता खाँ के क्रोध मे पड़ कर जाँव चानैक को अपने साथियों के साथ मंदराज चले जाना पड़ा। इसके दूसरे ही वर्ष अंग्रेज वरिष्क फिर से बुलाए गए, जिन्होंने कलकत्ते के उत्तर सूतालूटी मे कोठी स्थापित की। सन् १६९५ ई० में वर्धमान के एक जमींदार शोभा सिंह के बलवा करने पर इनको अपनी रक्षा के लिए दीवाल बनाने की आज्ञा मिल गई। सोलह सहस्र रुपये भेंट देकर नए प्रांताध्यक्ष अजीमुशान से सूता लूटी, गोविन्दपुर और कलकत्ता नामक तीन ग्राम क्रय कर लिए और फोर्ट विलियम के कलकत्ता ग्राम में पड़ने से उस कुल स्थान का नाम कलकत्ता पड़ गया। सन् १७१३ ई० मे विलियम हैमिल्टन नामक डाक्टर ने फर्कसिअर के मृगी रोग को अच्छा कर दिया, जिस पर उसने प्रसन्न हो डाक्टर के माँगने पर कलकत्ते के

पास के अड़तीस ग्राम अंग्रेजों को दे दिए और देश के भीतर व्यापार करने तथा टकसाल बनाने का भी अधिकार दे दिया ।

इस प्रकार देखा जाता है कि कलकत्ता नगर की उन्नति का आरम्भ अठारहवीं शताब्दि के साथ साथ हुआ है । सेठ अमीनचंद, जो अत्यंत व्यापार कुशल थे, नए अंग्रेज वाणिकों के साथ व्यापार करने से अधिक लाभ की सभावना देखकर कलकत्ते आ बसे थे । इनके परिवार के और लोग राजमहल तथा मुर्शिदाबाद में रहते थे पर जब इन्हे यहाँ अधिक लाभ होने लगा तब इन्होंने यही अपने रहने को बड़े बड़े महल और उद्यान आदि बनवाए । इनकी अनेक प्रकार से सुसज्जित विशाल राजपुरी, पुष्प वृक्षादि से सुशोभित विख्यात उद्यान, माणिक्य माणिकादि से परिपूर्ण राजभांडार, सशस्त्र सैनिकों से भरा हुआ सिंह द्वार तथा अनेक विभाग के असंख्य सेवकों की भीड़ को देखकर लोग इन्हे केवल व्यापारी महाजन न समझ कर राजा मानने लगे थे । नवाब के दरबार में जिस प्रकार सेठों में जगत सेठ की इज्जत थी, उसी प्रकार वाणिकों में अमीनचंद की प्रतिष्ठा थी । इनका सम्मान इतना था कि इनके नौ पुत्रों में से तीन को राजा की और एक को रायबहादुर की पदवी मिली थी । अंग्रेजों ने अपरिचित देश में आंतरिक व्यापार बढ़ाने के लिये इन्हीं अमीनचंद पर पहिले पहिल विश्वास किया था और इन्हीं के सहयोग से गाँव गाँव में दादनी (अगाऊ) बाँट कर कपास और कपड़े क्रय करते थे । परन्तु ग्रामवासियों से परिचित हो जाने पर अंग्रेजों ने इनकी धीरे धीरे उपेक्षा करनी आरम्भ की । नवाब के दरबार में भी इनका मान था और अंग्रेजों को इन्हीं के द्वारा नवाब से लिखा पढ़ी करने में विशेष सुविधा होती थी । इसी प्रकार अंग्रेजों की समिति में भी इनकी प्रधानता होने से कुछ सज्जन इनसे द्वेष रखने लगे और इन पर लालच के कारण चीजों का भाव बढ़ाने तथा माल को बिगाड़ने का दोष लगाया । कंपनी ने इन्हे ठीका देना छोड़ दिया पर ये अपने प्रभूत धन से स्वयं व्यापार करने लगे । अस्तु ।

जिस समय सिराजुद्दौला बंगाल के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ

उस समय अंग्रेजों और अमीनचंद के बीच विश्वास का अभाव ही नहीं वरन् मनोमालिन्य का भी सूत्रपात हो गया था, जो स्वार्थ के अनुसार बढ़ता घटता रहा। अलीवर्दी खाँ की प्रथम पुत्री घसीटी वेगम का दीवान, महाराज राजवल्लभ सिराजुद्दौला सिंहासन से उतार कर वेगम के नाम पर स्वयं बंगाल-विहार उड़ीसा की नवाबी करने का स्वप्न देख रहा था और इसे साधारणतः लोग सभव समझ रहे थे। यही कारण था कि जब इसका पुत्र कृष्णवल्लभ (कृष्णदास) भागकर कलकत्ते आया और अमीनचंद की रक्षा में रहने लगा तब अंग्रेजों ने इसे शरण न देकर सिराजुद्दौला का पक्ष अवलंबन करने का साहस नहीं किया। सिराजुद्दौला को यह देखकर अत्यंत क्षोभ हुआ और उसने यह वृत्तांत मृतोन्मुख अलीवर्दी से कह सुनाया अलीवर्दी को मृत्यु पर सिराजुद्दौला ने नवाब होते ही दो ही तीन दिन के अनंतर एक पत्र इसी विषय पर कलकत्ते के गवर्नर को लिखा कि वे कृष्णदास को उनके धन आदि के साथ नवाब के पास भेज दे।

अंग्रेजों ने नवाब से सशक्त होकर कलकत्ते से नवाब के जासूसों को निकालने का तथा किसी को फिर से न आने देने का सतत प्रयत्न किया था पर सिराजुद्दौला के चर विभाग के प्रधान राजाराम रामसिंह के भाई इस पत्र को लेकर व्यापारी के वेश में १४ अप्रैल को ही कलकत्ते पहुँच गए और अमीनचंद से मिलकर उन्हीं के साथ हॉलवेल से जाकर उन्होंने भेट की। दूसरे दिन गवर्नर डूक तथा काउंसिल ने यही निश्चय करना उचित समझा कि रामरामसिंह का भाई छद्मवेश में आकर पहले अमीनचंद के मकान पर ठहरा था, जिससे कंपनी से इस समय मनोमालिन्य है और उसी ने कंपनी पर पुनः प्रभुत्व जमाने के लिये यह कुटिल कौशल रचा है। ऐसा निश्चय कर उस पत्र तथा पत्रवाहक दोनों ही को अंग्रेजों ने अपमानपूर्वक नगर से बाहर निकाल दिया। ऐसा करने का कारण ऊपर लिखा जा चुका है, परन्तु जब अंग्रेजों ने देखा कि सिराजुद्दौला गौरव के साथ सिंहासनरूढ़ हो गया है, तब उन्होंने डर कर कासिम बाजार के अपने एजेन्ट मिस्टर वॉट्स को लिख भेजा कि यदि

नवाब के दरवार में इस तिरस्कारपूर्ण व्यवहार के वजह से कोई बात उठे तो उसका अपने वकील द्वारा उन कारणों का वर्णन कर, जिसका उल्लेख किया जा चुका है, समाधान कर देगे। इस कैफियत को सुनकर सिराजुद्दौला ने उसे अनसुनी कर दिया और उस विषय पर पुनः कुछ न लिखा।

इंगलैंड और फ्रांस के बीच समरानल प्रज्वलित होने की आशंका से फोर्टविलियम को दृढ़ करने के लिए अंग्रेजों ने नई दीवाल बनानी आरंभ कर दी, जिसका पता जासूसों से पाकर सिराजुद्दौला ने, जो पूर्णियाँ की ओर शौकतजंग को दमन करने को ससैन्य अग्रसर हो रहा था, एक पत्र गवर्नर को लिखा, जिसमें उसने नई दीवाल न बनाने की मनाही की थी। इसके उत्तर में डेक ने जो कुछ लिखा उससे अधिक क्रुध होकर सिराजुद्दौला पूर्णिया की चढ़ाई रोक कर उसी समय कलकत्ते की ओर सेना सहित वेग से बढ़ा। पहली जून को वह कासिम बाजार पहुँचा और उसने उस पर अधिकार कर लिया। इसके अनंतर नवाब कलकत्ते की ओर बढ़े और १६ जून को वहाँ पहुँचे।

इसी बीच १३ जून को एक पत्र अंग्रेजों ने उस गुप्तचर से बलात् ले लिया, जिसे राजाराम रामसिंह ने गुप्त रूप से अमीनचंद के पास भेजा था। यह विचार कर कि उनके मित्र अमीनचंद का आक्रमण के समय कुछ अनिष्ट न हो, उन्होंने इस पत्र में केवल सम्मति दी थी कि वे वहाँ से हटकर किसी निरापद स्थान को चले जायँ। अंग्रेजों ने यह पत्र पाकर तत्काल ही अमीनचंद को पकड़ कर कारागार में बंद कर दिया और उसी प्रकार कृष्णदास को भी बँदी कर दिया। अमीनचंद का घर, वैभव, सामान आदि कहीं हटा न दिया जाय, इसलिए कुछ गोरे सैनिक उनकी देख भाल को उनके घर के चारों ओर नियुक्त किए गए। इनके एक सवधी हजारीमल्ल थे, जिनके हाथ अमीनचंद का कुल कार्यभार रहता था। ओर्म आदि कृत अंग्रेजी इतिहासों में इनका संबंध जिस शब्द द्वारा अंगूठ किया गया है, उससे अपने यहाँ के कई संबंधों साला, बहनोई, साढ़ू आदि का अर्थ निकल सकता है पर संसार में देखा जाता

है कि विशेष कर प्रथम संबंधी ही इस प्रकार दूसरों के कार्य सँभालने में अधिक दक्ष होते हैं, इससे हज़ारीमल्ल जी अमीनचंद के साले ही जान पड़ते हैं। अस्तु, जब इनके नाम अंग्रेजों का वारंट आया, तो ये स्त्रियों की शरण में चले गए, पर जब गोरे अंतःपुर में घुसने का प्रयत्न करने लगे तो अमीनचंद के सिपाही जो लगभग तीन सौ के थे गोरो से भिड़ पड़े। बहुतेरों ने अग्नि-वर्षा से धराशायी होकर प्राण दिए, बायल हुये और यथाशक्ति प्रयत्न किया पर वं सफल न हो सके। जब उनके वृद्ध जमादार जगन्नाथ या जगमंत सिंह ने जो सदृश जात क्षत्रिय था, देखा कि अब ये फिरंगी शीघ्र ही अंतःपुर में प्रविष्ट हुआ चाहते हैं तब उसका रक्त खौल उठा। उसके स्वामी के पवित्र कुल की कुल बधुओं पर परपुरुष की छाया पड़े और उनके निष्कलंक शरीर यवनों के स्पर्श से कलकित हों ऐसा विचार ही उस स्वामिभक्त क्षत्रिय वीर के लिए असह्य हो उठा। उसने, यह भट निश्चय कर लिया कि वह उस अंतःपुर तथा उन अंतःपुर-वासिनियों ही को न रहने देगा। उसने तुरंत प्राचीन-हिन्दू गौरव नीति के अनुसार एक बड़ी चिता जला दी और स्वामी के परिवार की तेरह कुलबधुओं के सिरों को धड़ से अलग कर चिता में डाल दिया। अनुकूल वायु पा कर चिता भभक उठी और सिंह द्वार तक का भवन, अग्नि के लपट में भस्म हो गया। जगन्नाथ ने यद्यपि उसी सती-शोणित-सिक्त तलवार से आत्महत्या करना चाही थी पर उसका अभी समय नहीं आया था।

नवाब सिराजुद्दौला ने इसी जगन्नाथ सिंह की सहायता से, जो अंग्रेजों से अपने स्वामी का बदला लेने के लिए नवाब के कैम्प में चला गया था, पूरव की ओर से जहाँ अंग्रेज-सतर्क नहीं थे, कलकत्ता के उस अंश पर अधिकार कर लिया, जिसमें देशी व्यापारी अधिक थे। गवर्नर डूक, जंगी कैप्टेन मिनचिन आदि बहुत-से अंग्रेज फलतः भाग गये और हॉलवेल की अध्यक्षता में बचे हुए यूरोपीयन फोर्टविलिअम की रक्षा के प्रयत्न में लगे। हॉलवेल ने इस संकटमय समय पर उन्हीं अमीनचंद की शरण ली, जिसके धन-जन का एक ही दो दिन पहिले उन्हीं के भाइयों द्वारा नाश हुआ था। उनके गिड़-

गिड़ाने पर अमीनचंद* ने हुगली के फौजदार राजा मानिकचंद के नाम एक सिफारशी चिट्ठी लिख दी, जो दीवाल पर से नीचे डाल दी गई। इसमें अनेक कातरोक्तियों के साथ नवाब की अनुग्रह भिक्षा प्राप्त करने के लिये राजा मानिकचंद से प्रार्थना की गई थी। उसी आशय का दूसरा पत्र राय दुर्लभराम के नाम भी गिरा दिया गया और संधि का झंडा भी खड़ा किया गया। इन पत्रों के फलरूप नवाबी सेना की ओर से एक मनुष्य सुलह का झंडा लेकर आया। अभी बातचीत हो रही थी कि कुछ अंग्रेजों ने जो पीकर उन्मत्त हो रहे थे, पूर्वी फाटक खोल दिया। इससे से नवाबी सेना भीतर घुस आई और २१ जून को कलकत्ते पर अधिकार हो गया। अंग्रेज सब पकड़े गए। संध्या के समय पाँच बजे दरबार हुआ जिसमें अमीनचंद और कृष्णदास जी सामने लाए गये। नवाब ने क्रोध न प्रकाश कर इनसे आदरपूर्ण व्यवहार किया। इसके अनंतर वह घटना घटी, जो 'कालकोठरी की हत्या' के नाम से छोटे मोटे इतिहासों में पाई जाती है। वा० अक्षयकुमार मित्र ने इसका युक्तिपूर्ण खंडन किया है।* इस कहानी को पहिले-पहिल कहनेवाले हॉलवेल ने अमीनचंद पर यह भी दोष लगाया था कि इन्हीं ने अंग्रेजों द्वारा अपने पर किए गए निर्दय व्यवहार का बदला लेने के लिए राजा मानिकचंद से कह कर अंग्रेजों की यह दुर्गति कराई थी। पर जिस प्रकार इनकी पहिली उक्ति झूठी साबित हो चुकी है, उसी प्रकार इनकी यह दूसरी उक्ति भी ग्राह्य नहीं है।

कलकत्ते की लूट से जो कुछ प्राप्त हुआ था वह नवाब के आशानुरूप नहीं था। अन्य देशी महाजन अपने धन सामान को हटा सके थे, पर अमीनचंद अंग्रेजों के कठोर व्यवहार से ऐसा नहीं कर सके, इससे उनके कोष से चार लाख रुपया सिक्का तथा बहुत सा सामान प्राप्त हुआ था। कंपनी का बहुत सा सामान हट बढ़ गया था, जिससे केवल बीस लाख रुपये का माल कलकत्ते में बच गया था। इन सबका भी अधिकांश सैनिकों ने लूट लिया

* दो एक अंग्रेजी रिव्यूओं में इसके मंडन का इधर कुछ प्रयास होता हुआ दिखला रहा है।

था, जिससे नवाब के कोष में बहुत ही कम लूट पहुँच सकी थी। इसके अनन्तर ३००० सैनिकों के साथ राजा मानिकचंद को कलकत्ते में छोड़ कर दूसरी जुलाई को नवाब लौट गये। कलकत्ते का नाम अली नगर रखा गया। लौटने के दो तीन दिन पहिले नवाब ने अँग्रेजों को शहर में अपने अपने घर जाने की आज्ञा दे दी, जहाँ अमीनचंद ने उनके खाने पीने की सब व्यवस्था कर दी थी। स्यात् इन्हीं के अनुनय विनय ही से अँग्रेजों को यह आज्ञा मिली थी परन्तु एक पिथकड़ सरजेट ने एक मुसलमान को मार डाला, जिस पर क्रुद्ध हो नवाब ने आज्ञा दी कि कोई भी यूरोपियन उसके राज्य में न रहे। ऐसी आज्ञा होते ही सभी अँग्रेज फ़ैक्टरी तथा उच्च अधिकारी फ़ैक्टरियों को भाग गये।

इस प्रकार कलकत्ते से निकाले जाने पर अँग्रेजों ने फलता में डेरा डाला और वही से सहायता के लिए मद्राज और बंबई की कोठियों को लिखा। २२ अगस्त को रहूनिया स्कूनर नामक जहाज पर कौंसिल बैठी जिसमें खोजा पैट्रोस के द्वारा प्राप्त अमीनचंद का पत्र पढ़ा गया। इसमें उन्होंने अँग्रेजों की सहायता करने का वचन दिया था। अमीनचंद की सहायता से राजा मानिकचंद भी अँग्रेजों के पक्ष में हो गए और ५ वीं सितम्बर को उनका एक पत्र भी आया, जिसमें उन्होंने सहायता करने का वचन दिया था तथा बाजार खोलने की आज्ञा का 'दस्तखत' भी भेजा था। मद्राज से लॉर्ड क्लाइव के अधीन सहायता भी आ पहुँची। २७ दिसंबर को अँग्रेजी सेना फलता से चलकर बजबज के पास पहुँची। यहाँ से क्लाइव ने ५०० सैनिकों के साथ बजबज दुर्ग लेने को प्रस्थान किया, पर मानिकचंद के आ जाने पर उसे लौट जाना पड़ा। ऐसा होने पर भी मानिकचंद बजबज छोड़कर लौट गए। इसके अनन्तर कलकत्ते पर भी दो घटों की अग्निवर्षा होने पर अधिकार हो गया। हुगली नगर कलकत्ते से १३ कोस उत्तर था, उस पर भी धावा कर अँग्रेजों ने उसे लूट लिया।

ठीक लूट के समय ही समाचार मिला कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया है। तब क्लाइव ने घबड़ाकर जगत सेठ को लिखा कि वे नवाब से प्रार्थना कर सधि करा दें। नवाब हुगली के लूटे जाने के कारण बहुत क्रुद्ध

होकर ससैन्य कलकत्ते जाने की तैयारी कर रहा था, इससे संधि का अवसर न देखकर जगत सेठ ने अपने एक दक्ष कर्मचारी रंजीतराय को सेना के साथ कर दिया। अमीनचंद भी सेना के साथ गए। इस प्रकार नवाब की सेना में अंग्रेजों के दो हितैषी भी थे। नवाब ने कलकत्ते पहुँचकर अमीनचंद के बाग में, जो मराठा डिच के भीतर कलकत्ते के उत्तर-पूर्व के भाग में था, दरबार किया। वहीं रंजीतराय वॉल्श और स्क्राफ्टन नाम के दो अंग्रेज प्रतिनिधियों को दीवान राय दुर्लभ के सामने लाया। उसने जाँच कर तब दरबार में पेश किया। नवाब ने उनकी बातें सुनकर दीवान से सब बातों को निश्चित करने की आज्ञा दी और स्वयं दरबार से उठ गए। अमीनचंद ने गुप्त रूप से इन प्रतिनिधियों को सतर्क कर दिया कि वे अपनी रक्षा करें। वे यह सुनकर रातों-रात अपने कैंप को भाग गए। क्लाइव ने यह समाचार पाकर लड़ने की ठानी और रात्रि ही में सेना सहित अमीनचंद के बाग की ओर बढ़ा। कुछ युद्ध होने के अनंतर एक सौ से अधिक सैनिक खोकर क्लाइव को लौट जाना पड़ा। नवाब की आज्ञा से रंजीतराय ने क्लाइव को पत्र लिखकर इस मारकाट का कारण पूछा और वहाँ से तीन मील हटकर दूसरे स्थान पर पड़ाव डाला। अमीनचंद तथा रंजीतराय के प्रयत्न से नौ फरवरी को संधि हो गई, जो अलीनगर की संधि के नाम से विख्यात है।

इसके अनंतर क्लाइव ने १२ फरवरी को अमीनचंद को नवाब के पास स्वीकृत संधिपत्र के साथ भेजा और साथ ही यह भी कह दिया था कि वह इस बात का पता लगावे कि नवाब चन्द्रनगर पर चढ़ाई करने की उसे आज्ञा देंगे या नहीं। सिराजुद्दौला इस विषय पर मौन रह गया और 'मौनं समति लक्षण' के अनुसार १८वीं को क्लाइव चन्द्रनगर की ओर ससैन्य बढ़ा। फ्रेच ने पता पाते ही कई पत्र नवाब को भेजे, जिस पर नवाब ने अग्रद्वीप से जहाँ तक वह पहुँच चुका था, अंग्रेजों को चन्द्रनगर पर चढ़ाई न करने का कठोर आज्ञापत्र भेजा। इसी समय वॉट्स अमीनचंद के साथ मुर्शीदाबाद को रवाना हुआ और १८वीं ही को हुगली में अमीनचंद को पता मिला कि फ्रेच गवर्नर को नवाब ने एक लाख रुपये सहायता दी है और हुगली के फौजदार नंदकुमार

को अंग्रेजों के चढ़ाई करने पर फ्रेंच की सहायता करने की आज्ञा भेजी है। अमीनचंद ने नंदकुमार को समझा-बुझा कर अंग्रेजों के पक्ष में कर लिया, जिससे वह अपनी सेना सहित अंग्रेजी सेना के मार्ग से हट गया। २१वीं को वाट्स और अमीनचंद अग्रद्वीप पहुँच गए। सिराजुद्दौला ने उसी समय अमीनचंद को बुलाकर क्रुद्ध स्वर से पूछा कि क्या अंग्रेज संधि की शर्तों को तोड़ना चाहते हैं। वाट्स ने अमीनचंद से पहिले ही बहुत अनुनय विनय किया था कि वे फ्रेंच की चढ़ाई आदि को एक वार ही अस्वीकार कर लेंगे और इसी के अनुसार अमीनचंद ने नवाब के दरवार के एक ब्राह्मण का पद स्पर्श करते हुये उत्तर दिया था कि 'अंग्रेज कभी संधि भंग न करेंगे। उनके ऐसी सत्यप्रिय जाति पृथ्वी पर नहीं है। वे जो कहते हैं वैसा ही करते हैं।'† इस धर्म शपथ से सिराज शान्त हो गया और मीर जाफर के अधीन जो सेना फ्रेंच की सहायता को वह भेज रहा था उसे नहीं भेजा। क्लाइव द्वारा प्रेषित इसी आशय का एक पत्र मिलने पर नवाब निश्चिंत हो कर मुर्शिदाबाद लौट गए।

वाट्स और अमीनचंद चंदननगर पर चढ़ाई करने की आज्ञा लेने के लिए वरावर पड़यंत्र करते रहे। इसी समय पठानों का उपद्रव दिल्ली में बढ़ रहा था और उनके द्वारा वंगाल पर आक्रमण होने की आशंका हो रही थी। इस समय अंग्रेजों से सहायता लेने की इच्छा भी सिराज के हृदय में प्रबल हो रही थी। इस अनुकूल अवसर को क्लाइव ने जाने नहीं दिया और नवाब की सहायता के वहाने चंदननगर की ओर अग्रसर हुआ। सिराजुद्दौला की आज्ञा के अनुसार हुगली की सेना फ्रेंच के सहायतार्थ नंदकुमार की अधीनता में चंदननगर पहुँच चुकी थी और राजधानी से दूसरी सेना राय दुर्लभ की अध्यक्षता में जा रही थी। अमीनचंद ही की मध्यस्थता से नंदकुमार

१० अप्रैल सन् १७५७ का सेलेक्ट कमेटी में अमीनचंद को इस कार्य के लिए विशेष धन्यवाद दिया गया था।

† [२५-२-१७५७ की सेलेक्ट कमेटी की प्रोसीडिंग्स ।]

चंदननगर से ससैन्य हट गए और मार्ग ही में उन्होंने राय दुर्लभ को भी रोक लिया। अंग्रेजों ने फ़ौजों को परास्त कर चंदननगर पर अधिकार कर लिया। नवाब और अंग्रेजों के मध्य का यह विरोध अब बहुत बढ़ गया था और साथ ही क्लाइव भी युद्ध करने को अब तैयार था।

नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में इसी समय एक षड्यंत्र का आरंभ हुआ। मानिकचंद, राय दुर्लभ, जगतसेठ के पुत्र माहताबराय तथा स्वरूपचंद, मीर जाफर आदि प्रधान सरदार गण सिराजुद्दौला से बिगड़ गए थे और उसे गद्दी से उतारना चाहते थे। २३ अप्रैल को यार लतीफख़ाँ ने वॉट्स से एकांत में मिलने के लिए लिखा था। यह दो हज़ारी मंसबदार था और सेठों से भी उनके रक्षार्थ वेतन पाता था। वॉट्स ने अमीनचंद को यार लतीफ से भेंट करने को भेजा, जिसने कहा कि 'यदि अंग्रेज उसको नवाब बनाने में सहायता दें तो वह उनके इच्छानुकूल संधि कर लेगा और रायदुर्लभ तथा सेठों ने उसका साथ देने का प्रण किया है। वॉट्स ने इस षड्यंत्र को पसंद कर क्लाइव को लिखा और वह भी इससे बहुत प्रसन्न हुआ। परंतु इस बात चीत के दूसरे ही दिन मीर जाफर ने भी यही प्रस्ताव किया। यार लतीफ से इसका प्रभुत्व अधिक था, इससे अंत में इसे ही नवाब बनाने का निश्चय हुआ।

क्लाइव यह समाचार पाकर बिना विलंब किए कलकत्ते लौट आया और १ लो मई की कमेटी में मीर जाफर की सहायता कर उसे गद्दी पर बिठाने तथा सिराजुद्दौला को गद्दी से उतारने का निश्चय किया। संधिपत्र की जो पांडुलिपि तैयार हुई थी उसमें चौथी, पाँचवी, छठी और सातवीं शर्तों का सारांश इस प्रकार था कि कलकत्ते की लूट में जो हानि हुई थी उसकी पूर्ति के लिए कंपनी को एक करोड़, अन्य अंग्रेजों को पचास लाख, हिन्दू मुसलमान निवासियों को बीस लाख और आर्मीनियों को सात लाख मिलना निश्चित किया जाय। १४ मई को यह संधि पत्र मीर जाफर से स्वीकृत होकर लाट आया आरसाथ ही मीर जाफर ने लिख भेजा कि यह सब षड्यंत्र अमीनचंद से छिपा रखा जाय। सेठों ने यह देखकर कि इस षड्यंत्र में यदि अमीनचंद

का हाथ अधिक रहेगा तो उसके सफल होने पर उसी की धाक अँग्रेजों में अधिक रहेगी और उनके स्वार्थ को धक्का लगेगा। सेठों के दलाल रंजीत राय पर भी नवाब की बड़ी कृपा थी, जिसे अमीनचंद ने उखाड़ दिया था इससे भी वे बुरा मानते थे। इसी लिये उन्होंने मीर जाफर को वैसा सुभाया था। पर अमीनचंद उस षड्यंत्र को आरम्भ से जानते थे, इससे उनसे छिपाना असभव था।

इस षड्यंत्र के आरम्भ करने वाले तथा उसकी सफलता के लिये सतत प्रयत्न करते हुए अमीनचंद का भी प्राण सर्वदा शंका में रहता था और इसी लिए वे अपनी सेवाओं का पुरस्कार पाने की भी आशा लगाए थे। कलकत्ते में अँग्रेजों ही के कारण ये धन जन की पूरी हानि उठा चुके थे जिसकी भी पूर्ति करना आवश्यक था। कंपनी द्वारा अकारण बड़े घर में बंद होने के बाद भी अपनी इच्छा से यह मुर्शिदाबाद में रहते हुए कंपनी की सब प्रकार से सहायता कर रहे थे। इन विचारों से षड्यंत्र के सफल होने पर उसमें भाग माँगना उन्होंने उचित समझा। “किसी भी रूप में राजद्रोह दोष है और जिस राजद्रोह में अमीनचंद ने योग दिया था, उसमें धोखा और प्रतारणा की मात्रा भी अधिक थी। तब भी अमीनचंद अन्य षड्यंत्र-कारियों से किसी प्रकार बुरे नहीं थे। कलकत्ते के भागे हुए गवर्नर और गुप्त समिति के अन्य सदस्य जब लाखों रुपये ‘मशीन चलाने के लिए’ ले रहे थे तो इन्हीं की निज सेवाओं का मूल्य, जिसने मशीन को चलता रक्खा, अधिक माँगने का दोष क्यों लगाया जाय” (वेवरिज कृत ‘ए कौम्प्रिहेसिव हिस्टरी ऑव इंडिया, जि० १ पृष्ठ ५८३)। अंत में वाट्स ने दुहराई हुई पांडुलिपि को भेजते समय, जिसमें तीस लाख रुपया अमीनचंद को देना तै पाया था लिखा था कि यदि अमीनचंद की इच्छा के विरुद्ध किया जायगा तो वह सब हाल नवाब से कह देगा। इस पर गुप्त समिति के सदस्यों ने यही निश्चय किया कि इस ‘अर्थ पिशाच’ अमीनचंद का कुछ भी न दिया जाय। परन्तु उसे किस प्रकार धोखे में रखा जाय वह निश्चय नहीं हो रहा था। प्रत्युत्पन्नमति क्लाइव ने मि० मैलेसन के शब्दों से ‘लूट में एक साथी को भाग न देने का अप्रतिष्ठित एक

उपाय' निकाल ही लिया। उपाय यही किया गया कि लाल रंग के एक कागज पर संधि-पत्र लिखा गया, जिसमें अमीनचंद को भी भाग मिलने का उल्लेख था, पर श्वेत पत्र पर, जो असली संधिपत्र था, इसका कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया। बेड़ाध्यक्ष (एडमिरल) वॉटसन के जाली संधिपत्र पर हस्ताक्षर करने में इतस्ततः करने पर क्लाइव ने लूसिंगटन से उनका हस्ताक्षर बनवा दिया। अमीनचंद का अँग्रेजों को सत्यप्रियता पर इतना विश्वास था कि वे उनके लिए शपथ तक खा चुके थे, इससे उन्होंने इस संधिपत्र को देखकर कुछ भी संदेह नहीं किया। इन दो संधिपत्रों के सिवा एक और गुप्त संधिपत्र था, जिससे सेना के जल तथा स्थल विभागों को और कंपनी के अन्य सज्जनों को भी धन मिलने वाला था। इस प्रकार तीन संधिपत्र लिखे गये थे। इन पर मीर जाफर का हस्ताक्षर कराने को वॉटस स्वयं ५ जून का स्त्री वेश में पालकी पर बैठ उसके घर गया और कुरान का शपथ खाकर तथा मीरन के मस्तक पर हाथ रख कर मीर जाफर ने उन पर हस्ताक्षर कर दिया। सैरुलमुताखरीन लिखता है कि 'दोनों महाजनान मजकूर (कुछ लोग जगत सेठ और अमीनचंद मानते हैं) इसके जामिन हुए।' पर अमीनचंद नाम ठीक नहीं है क्योंकि वे ३० मई को ही मुर्शिदाबाद से चले गये थे। यहाँ जगतसेठ के दोनो पुत्र महताब राय और स्वरूपचंद से तात्पर्य हो सकता है। ये संधिपत्र मीरजाफर के विश्वासी अनुचर अमीरबेग के हाथ १० जून को कलकत्ते पहुँच गए।

अमीनचंद को मुर्शिदाबाद से दूर कर कलकत्ते ले जाने का भार स्क्राफ्टन पर छोड़ा गया था। उसने इन्हे यह समझाया कि सवि तो हो ही गई है और दो तीन दिन में युद्ध छिड़ ही जायगा, इससे उस समय इस स्थूल देह के साथ घोड़े पर चढ़ कर भागना सम्भव न होगा, इस कारण पहिले ही से भागने का प्रबंध करना चाहिये। अमीनचंद भी यह उचित समझकर कलकत्ते की ओर स्क्राफ्टन के साथ चल पड़े। इससे यह ज्ञात होता है कि अमीनचंद स्थूलकाय थे। ए० के० राय साहब ने अपने सेन्सस रिपोर्ट में कुछ प्रवाद वाक्य लिखे हैं, जिनसे इनकी लंबी डाढ़ी का पता चलता है।

प्रवाद वाक्य यों है—गोविंदगमेर छाड़े। वनमाली सरकारें बाड़ी। ओमी-चाँदेर दाड़ी। प्लासी के मैदान में राय दुर्लभ राय से इनसे भेंट हुई और इन पर जाल खुल गया पर स्क्राप्टन के इस कथन पर कि अंत में निश्चित हुआ संधिपत्र अभी मीर जाफर तक को नहीं ज्ञात है, इन्हें कुछ शान्ति मिली। १८ जून को ये कलकत्ते पहुँचे जहाँ इनका दिखौआ स्वागत किया गया।

१२ जून को वाँटस् भी मुर्शिदाबाद से भागे। तब सिराजुद्दौला ने युद्ध ही ठान कर कलकत्ते की ओर चढ़ाई की और इधर क्लाइव भी तीन सहस्र सेना के साथ कटोपा और अग्रद्वीप होते हुए प्लासी के मैदान में पहुँचा। क्लाइव को आशा दिलाई गई थी कि युद्ध नाम मात्र को ही होगा पर जब उसने नवाब की सेना की व्यवस्था और युद्ध देखा तब अमीनचंद को बुला कर उनकी भर्त्सना करने लगा कि पहिले यही कहा गया था कि 'केवल साधारण युद्ध होने पर ही काम निपट जायगा और कुल सेना नवाब के विरुद्ध है पर यह सब उलटा ही हो रहा है।' अमीनचंद ने नम्रभाव से कहा कि मीरमदन और मोहनलाल ही युद्ध कर रहे हैं, वे ही स्वामि भक्त हैं, उनके पराजित होते ही फिर कोई अस्त्र न चलावेगा। फलतः क्लाइव ने प्लासी युद्ध में विजय प्राप्त किया, सिराजुद्दौला पकड़ा जाकर मार डाला गया और मुर्शिदाबाद में राजकोष वाँटने को सेठों के गृह पर समिति बैठी। अमीनचंद बिना बुलाए ही साथ गए थे पर सत्रण में उन्हें योग नहीं देने दिया गया। कोष में केवल डेढ़ करोड़ रुपये थे और संधि के अनुसार दो करोड़ पिछ्तर लाख देना था। इसके सिवा १६½ लाख क्लाइव को, ८ लाख वाँटस् को और १० लाख अन्य साहवों को भेंट करना था। अंत में यही निश्चय हुआ कि इस समय आधा आधा दिया जाय और आधा तीन वर्ष में किश्त करके चुकाया जाय। इसके अनन्तर "क्लाइव और स्क्राप्टन दोनों ही अमीनचंद के पास गए और स्क्राप्टन ने हिन्दुस्तानी भाषा में कहा कि 'अमीनचंद लाल कागज का संधिपत्र जाली था, तुम्हें कुछ भी न मिलेगा।' यह सुनकर वे बेहोश हो गए और उसके नौकर पालकी पर लिटा उन्हें घर ले गए।.....कुछ दिन के अनन्तर वह क्लाइव के यहाँ गया जिसने उसे किसी तीर्थ स्थान को जाने की सम्मति दी।"

मालदा के पास के सुप्रसिद्ध तीर्थ में गए और पागल होकर लौटे ।...इसी हालत में डेढ़ वर्ष रह कर मृत्यु हो गई ।।” (ओर्म कृत ‘मिलिटरी ट्रैजैक-शान्स’, जिल्द २ पृष्ठ १८२) बकलैड कृत इंडियन वायोग्राफिल डिक्शनरी में इनकी मृत्यु का ५ दिसम्बर सन् १७५८ ई० को होना लिखा है ।

अमीनचंद से जो कुछ व्यवहार किया गया था वह उनके योग्य ही था पर क्या इस कारण वैसा दुर्व्यवहार करनेवाले क्षम्य हैं ? हाँ, कुछ इतिहास लेखकों ने केवल क्षम्य ही नहीं माना है पर ऐसा दुर्व्यवहार करने के लिए बाध्य होने के कारण क्लाइव को ‘शहीद’ तक मानी है । पर सत्य प्रिय लेखक यही कहते हैं कि यह सब जाल केवल रुपये ही के लिये किया गया था और सबर्था निंद्य है । प्रत्येक पाठक पर ही कुल वृत्त पढ़कर अपनी राय ठीक करना छोड़ देना उचित समझकर इस विषय पर विशेष नहीं लिखा गया ।

इतना लिखना अवश्य उपदेशमय ज्ञात होता है कि इन षड्यंत्रकारियों में मुख्य मुख्य का कैसा अन्त हुआ । मीरजाफर कोढ़ी होकर मरा, सिराजुद्दौला को मारनेवाले मीरन पर वज्रपात हुआ, अमीनचन्द पागल होकर मरे, जगतसेठ दोनो भाई मीरकासिम द्वारा मारे गये और क्लाइव ने आत्महत्या कर ली । राजा राजवल्लभ ऐसा दरिद्र होकर मरा कि उसकी विधवा पत्नी को कंपनी से प्रार्थना कर, पेट पालन के लिये पेशन प्राप्त करनी पड़ी थी । मेन के ‘हिन्दू लाँ ऐंड यूसेज’ नामक पुस्तक के सप्तम संस्करण के पृ० ५३८ पर लिखा है कि ‘देशी लोगों का सबसे प्राचीन ज्ञात दान प्रत्र प्रसिद्ध अमीनचन्द ही का है । यह सन् १७५८ ई० का लिखा है । जब अंग्रेजी न्यायालयों से अंग्रेजी अख्त शख का प्रभुत्व बढ़कर था ।’ यह विल अर्थात् वर्सायतनामा ‘साहित्य संहिता’ में जस्टिस शारदा चरण मित्र द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिस लेख का प्रधान लक्ष्य यही सिद्ध करना था कि ‘अमीनचंद वंगाली नेई’ ।

लंडन में वर्णसंकर सन्तानों के पालन के लिये एक फाँडलिंग अस्पताल बना है, जिसकी नींव सन् १७३९ ई० में कैप्टेन कोरम ने डाली थी । पार्लियामेंट ने भी कानून पास कर १०००० पाउंड सहायता दी । सन् १९०७ ई० की रिपोर्ट में इसके मददगारों अर्थात् चन्दा देने वालों में एक दानी का नाम

अंग्रेजी में यों लिखा है—कलकत्ते के एक काले व्यापारी अमीचन्द ने सन् १७६२ ई० में १८७५० रु० सहायता दी थी । (सरस्वती भाग ९- सं० १९०८ पृष्ठ ५००-४) । पं० प्यारे लाल मिश्र बार एटर्नी ने उक्त संस्था के मंत्री से लिखा पढ़ी की और अन्त में यह निश्चय हुआ कि आगे से रिपोर्टों में यह लिखा जाय कि 'कलकत्ते के एक भारतीय व्यापारी मिस्टर अमीचंद ने १८७५० रु० दान दिया था ।'

सेठ अमीनचंद के पुत्र बा० फतेहचंद्र इस घटना से अत्यंत उदास हो गए और अपने पिता की मृत्यु हो जाने पर सन् १७५९ ई० वावू फतेहचन्द्र में काशी चले आए । काशी के एक अत्यंत प्रसिद्ध नगर-सेठ गोकुलचंद जी की कन्या से इनका विवाह हुआ, सेठ गोकुलचंद के पूर्वज ने, स्यात् उनके पिता ही रहे हों, अन्य नगर सेठों तथा सर्दारों का साथ देकर काशी के वर्तमान राजवंश को यह राज्य दिलाने में बहुत उद्योग किया था, जिस कारण वे उस राज्य के महाजन नियुक्त हुए थे और उन्होंने प्रतिष्ठा-पूर्ण नौ-पति की पदवी प्राप्त की थी । इस वंश में काशी के अग्रवालों का चौधराहट भी थी !

काशी के राजवंश के मूलपुरुष मनसारां को सन् १७३८ ई० के लगभग काशी की जमींदारी तथा राजा की पदवी दिल्ली के सम्राट् मुहम्मदशाह से मिली थी । इसके अनंतर बुर्हानुलमुल्क नवाब सआदतखाँ के अवध में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने पर बनारस भी उसी राज्य के अधीनस्थ हो गया । इसी समय जिन नौ महाजनो ने राजा मनसारां की सब प्रकार से सहायता दी थी, उन्हीं को नौपति की पदवी मिली थी । यह पदवी अब तक प्रसिद्ध है पर उन नौ वंशों में अब एक वंश का भी पता नहीं है । विवाहादि शुभ कार्यों तथा शोक के अवसर पर पगड़ी बँधवाने के लिए स्वयं काशिराज इन वंशों में पधारते थे । यह मान अब तक उस कुल में विवाह करने के कारण बा० हर्षचंद के वंश को प्राप्त है । सेठ गोकुलचंद को अन्य कोई संतान नहीं थी, इससे वावू फतेहचंद ही उनके उत्तराधिकारी हुए ।

बा० फतेहचंद्र हनुमान जी के परमभक्त थे और वे प्रति मंगलवार को

हनुमान घाट के बड़े हनुमान जी का दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन प्रसादी माला पहिरे हुए वे घर चले आए और उतारते समय उसमें से एक वानराकृत हनुमान जी की स्वर्ण प्रतिमा गिर पड़ी, जो केवल अंगुष्ठ-प्रमाण थी। उसी समय से उस प्रतिमा की सेवा बड़ी भक्ति से होने लगी और अब तक ये महावीर जी उस वंश के कुलदेव माने जाते हैं।

ता० १८ सफर सन् १२५४ हिजरी का लिखा हुआ फारसी का एक ग्रन्थ है, जिसमें गवर्नर जेनरल की ओर से राजा महाराजाओं तथा रईसों को जिस प्रकार के कागज पर तथा जैसी प्रशस्तियों से पत्र लिखे जाते थे। उनका विवरण दिया है। उसमें इनकी प्रशस्ति यो लिखी है—बा० फतेहचन्द्र साहू—बाबू साहेब मेहबान दोस्तान-सलामत—खात्मा—कागज अफशाँ- (चमकता-हुआ) मुह्र खुर्द (मुहर छोटी)।

सन् १७४० ई० में मनसा राम की मृत्यु पर बलवन्त सिंह राजा हुये और सन् १७७० ई० इनकी मृत्यु होजाने पर नवाब वजीर शुजाउद्दौला यह राज्य-हड़प जाने का विचार कर रहे थे पर अँग्रेजों के विरोध करने पर चेतसिंह राजा हुए। सन् १७७६ ई० में बनारस राज्य सरकारी साम्राज्य में मिला लिया गया। सन् १७८१ ई० में राजा चेतसिंह के बलवा के शांत होने पर बनारस नगर अँग्रेजों के अधिकार में आ गया। बाबू फतेहचन्द ने इसके प्रबन्ध में अँग्रेज अफसरों की बहुत सहायता की थी। सन् १७८८ ई० में जोनाथन डंकन साहब काशी के रेजीडेंट तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त होकर आए थे और इन्होंने द्वासी बंदोबस्त करने तथा बच्चों के मार डालने की प्रथा उठाने में पूरा उद्योग किया था और सफलता प्राप्त की थी। बाबू फतेहचन्द्र ने इनकी इन सत्कार्यों में बहुत सहायता की थी, जिसके लिये डंकन साहब ने इन्हे बहुत धन्यवाद दिया था।

बा० फतेहचन्द के काशी में आकर बस जाने के कुछ समय के अनंतर [उनके बड़े भाई राय रत्नचंद्र बहादुर भी मुर्शिदाबाद से यहीं चले आए और रामकटोरे वाले बाग में रहने लगे। उनके साथ राजसी ठाट के पूरे सामान थे।

संतरी का बराबर पहरा रहता था। इनकी सवारी के साथ में डंका, निशान, माहीमरातिब और नकीब भी चलते थे। बा० गोपालचन्द जी के समय तक नकीब की प्रथा थी। रामकटोरे वाला वाग काशी जी में इस वंश का पहिला स्थान समझा जाता है और यहीं राय रत्नचंद्र बहादुर ने अपने ठाकुर श्री लाल जी को पधराया था, जो अबतक वर्तमान हैं। विवाह तथा पुत्रोत्सव के अनंतर डीह डिहवार (गृहदेवता) की पूजा अब तक यहीं होती है। ठाकुर जी की मूर्ति, गरुडस्तम्भ तथा चक्रस्थापन को देखकर यह ज्ञात होता है कि वे उस समय तक श्री संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने अवस्था अधिक पाई थी। इनका लिखा हुआ एक वसीयतनामा सन् १८२० ई० का है, जिसमें इन्होंने अपने कुल ऐश्वर्य का उत्तराधिकारी बा० हर्षचंद्र तथा राय रामचंद्र की स्त्री वीवी बदाम कुंअरि को माना है। राय रत्नचंद्र बहादुर को केवल एक पुत्र रायचंद्र थे, जो यौवनकाल ही में सन् १८१५ ई० में परलोक सिधारे। उनका एक अल्पवयस्क लड़का गोपीचंद्र भी उनके कुछ दिन बाद अकाल काल कवलित हो गया। इससे बाबू हर्षचंद्र ही अंत में उनकी संपूर्ण संपत्ति के मालिक हुए। उस वसीयतनामे में लिखा है कि वे राजमहल तथा मुर्शिदाबाद से आए थे जहाँ उनके उद्यान और मकान आदि हैं। उसमें यह भी लिखा है कि वे जगत सेठ के यहाँ बहुत सी चल संपत्ति भी छोड़ आए हैं, जिसके भी ये ही दोनों उत्तराधिकारी हैं। इस वसीयतनामा के लिखने के कुछ ही दिन बाद ये लगभग अस्सी वर्ष की अवस्था में परम धाम को चले गये।

बाबू फतेहचन्द्र जी जिस समय काशी आए थे, उस समय उनकी अवस्था दस बारह वर्ष के लगभग रही होगी, इससे उनका जन्मकाल सन् १७४७ ई० के आसपास होना चाहिए। हम लोगों की जाति में कुछ वर्षों पहिले बारह तेरह वर्ष की अवस्था विवाह योग्य होने की अतिम सीमा मानी जाती थी। इसी से उनका जन्मकाल अनुमान किया गया है। काशी आने से प्रायः तीस वर्ष बाद सन् १७८९ ई० में (इशावान १२०३ हिजरी) चौखम्भावाला मकान सेठ गोकुलचन्द्र के पुत्र गोविंदचन्द्र से क्रय किया गया था और वैनानामे में क्रेता का नाम बा० फतेह चन्द्र बल्द अमीनचन्द्र बिन गिरिधारीलाल दिया है।

एक दूसरी जायदाद के खरीद का एक कागज़ सन् १८११ ई० का है, जो बाबू हर्षचंद के नाम से है, जिससे ज्ञात होता है कि बाबू फतेहचंद्र इसके पूर्व गत हो चुके थे। वा० हर्षचंद्र के बाल्य काल ही में उनके पिता पंचत्व को प्राप्त हुए थे और उसके बाद रायचन्द्र तथा उनके पुत्र की मृत्यु पर लोगों के उभाड़ने से वे अपने पितृव्य राय रत्नचंद्र बहादुर से लड़ पड़े थे। परन्तु स्वार्थी पुरुषों की धूर्तता को समझते ही वे अपने पूज्य पितृव्य के पैरों पर जा गिरे और अपना अपराध क्षमा करा कर पुनः उसके स्नेह के पात्र हुए। इसी मिलन के अनंतर ही वह वसीअतनामा लिखा गया होगा। इन तर्कों से ज्ञात होता है कि वा० फतेहचंद्र की मृत्यु सन् १८१० या उससे दो एक वर्ष पहिले हुई होगी। वे काशी में लेन-देन का व्यवहार करते थे।

पूर्वोक्त बातों के समर्थन के लिये ही एक कागज़ का नीचे विवरण दिया जाता है जो सन् १८१८ ई० का एक फैसलनामः है। यह सदर अदालत दीवानी का फैसलः है जहाँ मुनसिफ की डिगरी पर अपील की गई थी। राय रत्नचंद्र के पुत्र रायचन्द्र के बजड़े पर नियुक्त एक नौकर निहाल मल्लाह ने नवंबर ४ थी सन् १८१६ ई० को राय रत्नचन्द्र पर बाकी वेतन का दावा किया, जो सं० १८७२ के अगहन से सं० १८७३ के कार्तिक मास तक का बाकी था। ४ जुलाई सन् १८१७ ई० को डिगरी हुई और अपील का फैसला ७ जनवरी सन् १८१८ को दिया गया। दावा में दिखलाया गया है कि रायचन्द्र की मृत्यु तक वेतन उन्हीं से बराबर मिलता रहा था। और उनके मरने ही पर यह रुका भी था। इससे रायचन्द्र की मृत्यु का सं० १८७२ के अगहन ही में होना निश्चित है। रायरत्नचंद्र पुत्रशोक तथा भ्रातृ-पुत्र के भगड़े के कारण स्यात् वेतन आदि न दे सके होंगे। गवाहों ने यह भी दिखलाया है कि वेतन का देना कोठी वा० फतेहचंद्र ही पर लाजिम है, इससे यही ध्वनि निकलती है कि भगड़े के अनन्तर वा० हर्षचंद्र ने अपने पितृव्य से अपील की डिगरी तक क्षमा प्राप्त कर ली हो। इस फैसले में भी अर्थात् सन् १८१८ ई० में बाबू हर्षचंद्र का अल्पवयस्क होना लिखा गया है। इससे ज्ञात होता है कि इनके पिता इन्हे बहुत छोटा ही छोड़ कर मरे थे।

बाबू फतेहचंद के यह एक मात्र पुत्र थे। यद्यपि काशी में इनके पिता
 को आए लगभग पचास वर्ष हो गए थे पर अपने प्रशंस-
 बाबू हर्षचंद नीय गुणों से जन साधारण में ये इतने प्रसिद्ध हो गये कि
 इनकी कोठी का नाम अब तक काले हर्षचंद ही के नाम से प्रसिद्ध है।
 तत्कालीन ग्राम्य गीतों में लोग इनका गुणानुवाद किया करते थे।
 काशी में इनके प्रतिष्ठा तथा सम्मान का यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जब
 सन् १८४२ ई० में गवर्नमेन्ट ने आज्ञा दी कि प्राचीन तौल की पन्सेरियाँ
 उठाकर अंग्रेजी पन्सेरी जारी हो तब काशीवासी विगड़ खड़े हुए
 और बाजार बंद कर दिया। तीन दिन तक हड़ताल रहा। उस समय
 काशी के कमिश्नर प्रसिद्ध मार्टिन रिचर्ड गबिन्स थे, जिनकी अवस्था
 उस समय पचीस वर्ष की थी। इन्होंने इस झगड़े को निपटाने के लिये
 पंच मानना निश्चित किया और बा० हर्षचंद, बा० जानकीदास† और
 बा० हरीदास‡ साहू को पंच माना। काशीवासियों ने भी इन लोगों को
 पंच स्वीकार कर लिया। बाग सुंदरदास में बहुत बड़ी पंचायत हुई और
 अंत में यह निश्चित हुआ कि पुरानी पन्सेरियाँ ज्यों की त्यों जारी रहें।
 कमिश्नर साहू भी इस निश्चय से सहमत हो गए—और नगर में बड़ी
 खुशी मनाई गई। इस निश्चय के अनुकूल आज्ञा लेकर जब ये तीनों
 सज्जन हाथी पर सवार होकर चले, तब बा० हर्षचंद, जो सरपंच थे, मध्य

* उस समय अग्रवाल साव घराने में भी एक हर्षचंद थे जो इनसे रंग में अधिक गौर थे, इस कारण वे गोरे हर्षचंद और ये काले हर्षचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए।

† यह साव घराने के एक धनाढ्य महाजन थे और काशीवासी इन्हें भी बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इन्हीं के सुपुत्र बा० महावीरप्रसाद जी से बा० गोपालचंद जी की पुत्री का विवाह हुआ था।

‡ यह गुजराती वैश्य महाजन थे, जिनके वंश में सराफी की चौधराहट बहुत दिनों तक रही।

मे बैठे थे और उनके दोनो ओर दोनों पंच बैठे थे । मोरछल हो रहा था बाजे बज रहे थे, सारे नगर को प्रजा साथ मे खुशी मनाती हुई चल रही थी और स्त्रियाँ खिड़कियों से पुष्पवर्षा कर रही थीं । इसी धूस धाम की तैयारी के साथ वह जुलूस नगर भर में घुमाया गया था । ❀

काशी के दो मेले भारत प्रसिद्ध हैं । पहिला चौकाघाट का भरतमिलाप है और दूसरा बुढ़वा मंगल । यहाँ चैत्र शुक्ल प्रथमा से नया वर्ष मना जाता है इसलिये चैत्र कृष्ण दूसरा मंगल वर्ष का अंतिम मंगल होता है । यही

❀ मेरे यहाँ एक पुराना जमादार नौकर था, जिसका नाम जयगोविंद सिंह था । इसके पिता दुर्गासिंह प्रसिद्ध तलवरिया थे, जिन्होंने काशी में अच्छा नाम लड़ाई भिड़ाई में प्राप्त किया था और ईश्वर गंगी मुहल्ले के (मनुष्यरूपी) एक बाघ कहलाते थे । इस वृद्ध नौकर की लगभग १५ वर्ष हुये मृत्यु हो गई । वह इस हड़ताल, बड़े बलवे तथा राममंदिर के बलवे के बारे में छंदों तथा अपनी भाषा में बहुत सा हाल हम लोगों को लड़कपन में सुनाया करता था, पर उस समय उन बातों का कुछ महत्व नहीं जान पड़ता था । इस पंसेरी विषयक कुछ अंश जो ध्यान में आता है, वह इस प्रकार है—

देवी सेन बंगले घबडाए । तोप तिलंगा माँगत भए ॥
 बड़ा साहब बहुत समझाया । गुस्सा हो बंगले पर आया ॥
 चढ़ा सिपाही लै पच्चासा । धै बाँध के रक्खा पासा ॥
 तीन कम्पनी एक कप्तान । चौक चाँदनी पहुँचे आन ॥
 कासी क लोगन जाफत किया । ईँटा जूता भडाभड़ दिया ॥
 धर धर पकड सो धर भई सोर । पूरव पच्छिम दूनो ओर ॥
 जुलहा छोड़ ले ताना बाना । हमको है पंचायत जाना ॥
 सेख सैयद मुगल पठान । हारे जीते कसम कुरान ॥
 हिजड़ चमक घर बैठे जाय । देखो मुआ यह साहब आय ॥
 चारो बरन छतीसो कोम । हलाखोर बस खोमो डोम ॥
 कैदी छोड़ किया सब ठंडा । सौ के ऊपर ग्यारह गंडा ॥

मंगल वृद्ध या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। मंगल का दिन ही विशेषतः दुर्गा जी के दर्शन के लिये मान्य है; उस दिन बहुत से नागरिक गण नाव पर सवार होकर दुर्गा जी के दर्शन को जाया करते थे। धीरे धीरे कुछ लोगों ने नावों पर नाच कराना भी आरंभ कर दिया और अन्त में काशीराज और बा० हर्षचंद्र के परामर्शानुसार इस मेले को वर्तमान रूप दिया गया। तब से मेला चार दिन तक मंगल से शुक्रवार तक रहने लगा। बा० राधाकृष्णदास लिखते हैं कि उन्होंने कई बार महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह बहादुर को भारतेन्दु जी से यह कहते हुए सुना था कि 'इस मेले का दूल्हा तो तुम्हारा ही वंश है', बा० हर्षचंद्र का निज का कच्छा बड़ी तैयारी के साथ पटता था और उसपर लोगों के बैठाने का प्रबन्ध बड़ी मर्यादा के साथ किया जाता था। जाति भाइयों में नाई द्वारा निसंत्रण भी फेरा जाता था और सभी कोई गुलाबी रंग की पगड़ी और टुपट्टा पहिन कर आते थे। जिन के पास ये वस्तु न होती थीं उन्हें इनके यहाँ से मिलती थीं। चारों दिन निमंत्रित सज्जनों के भोजन का भी प्रबन्ध रहा करता था। इस प्रथा को बा० गोपालचन्द्र जी ने भी अपने समय तक निवाहा था। काशीराज इन्हें बहुत मानते थे इससे मोरपंखी पर सवार होकर इनके कच्छे की शोभा देखने आते थे। यह काशीनरेश के महाजन थे तथा राज्य की अशर्फियाँ इनके यहाँ सुरक्षित रखने को रहती थीं, जिनके लिये इन्हे अगोरवाई मिलती थी। बा० फतेहचंद्र जी के श्वशुर-घराने की निस्संतान समाप्ति होने पर उस वंश की चौधराहट इन्हीं के वंश में चली आई थी इसलिये बा० हर्षचंद्र बिरादरी वालों को बहुत मानते थे। बुढ़वामंगल की भौति होली के अवसर पर तथा अपने और बा० गोपालचंद्र के जन्म दिवसों पर वरावर बिरादरी की जेवनार तथा महफिल होती थी। पंचक्रोशी श्राद्धादि के वहाने भी वर्ष में बीसों बार बिरादरी तथा ब्राह्मणों का जेवनार करते थे। प्रायः नित्य ही दस पाँच जातिभाई इनके साथ खान-पान में सम्मिलित होते थे। इन सब कारणों से बिरादरी में इनके वंश का बहुत मान था।

इस वंश में काशी के अग्रवाल जाति की चौधराहट चली आ रही है, इसलिये इस विषय में कुछ लिखना आवश्यक है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि

पछाही अग्रवाल जाति के पहिले दो चौधरी होते थे। एक चौधराहट बा० हर्षचंद के ससुराल वाले वंश पे थी, जिसके नष्ट होने पर उसके उत्तराधिकारी बा० हर्षचंद को वह रिक्थ क्रम मे मिली थी। इन्होंने जाति भाइयो का खूब आदर सत्कार कर उन्हें अपने वश मे रखा। प्रायः नित्य ही बीस पचीस भाई इनके साथ व्यालू मे शरीक रहते थे। भारतेन्दु जी के समय मे दूसरे चौधरी बा० शीतलप्रसाद जी और उनके भाई थे। इन लोगों के पिता बा० मोतीचंद तथा पितामह बा० खुशहालचंद तक चौधराहट होने का पता हे। ये अन्तिम सभी लोग दीर्घजीवो थे और इनके पहिले मछरहट्टा फाटक के किसी राजा जी को चौधरी होने का पता मिलता है। भारतेन्दु जी के वंश वाले अमीर थे और उनके प्रतिद्वंद्वी चौधरी के यहाँ धनाभाव था इससे पहिले वंश की धाक जाति पर जम गई थी। भारतेन्दु जी को इस पर इतना गर्व था कि एक बार इन्होंने यहाँ तक कह डाला कि 'हम पैर के अँगूठे से यदि किसी के माथे पर टीका काढ़ दे तो वह अग्रवाला हो जाय।' गर्वग्रहारी भगवान ने अपने भक्त की इस अहंता को मिटाने का अवसर ला दिया। दरभंगा वाले का प्रश्न छिड़ा जिसमे उसने बड़ा रुपया व्यय कर जाति में मिलने का प्रयास किया था। भारतेन्दु जी तथा बा० शीतलप्रसाद दोनो ही चौधरी जाति में मिलाने के पक्ष मे हो गए पर जाति वालों ने नहीं माना। यहाँ तक कि किसी बा० सुन्दरदास के यहाँ पंचायत बैठने लगी और जाति का एक चिट्ठा तैयार होने लगा। भारतेन्दु जी इतने पर भी अपनी बात पर डटे रहे पर जब बा० बुलाकीदास जी ने उस चिट्ठे पर हस्ताक्षर कर दिया तब वे अपनी एकमात्र कन्या को न छोड़ सके और पाँच रुपये अपने ही ठाकुर जी को भेंट कर प्रायश्चित्त की। बा० शीतलप्रसाद अपनी बात पर अड़े रहे, इसलिये वे जाति के बाहर रह गए। बा० शीतलप्रसाद तथा उनके भाई निस्संतान भी थे इसलिये पछाही अग्रवालों की चौधराहट इसी वंश मे कुलकुला कर रह गई।

इनकी सवारी बड़े धूम धाम से निकलती थी। पचास साठ सिपाही, आसा, बल्लम, तलवार, बटूक लिये साथ रहते थे। यह जामा पगड़ी आदि पहिर कर तामजाम पर सवार होकर निकलते थे और आगे आगे नकीब

बोलता चलता था। इन्होंने बड़े दीवानखाने की एक मंजिल कुछ विवाद हो जाने के कारण एक ही रात्रि में उठवाई थी। इसके ऊपर ठाकुर जी का स्वर्ण कलश सुशोभित एक मन्दिर है जो नव कोटि नारायण नाम से प्रसिद्ध है। इनके समय में श्रीगोपाल मन्दिर के गोस्वामी गिरिधर लाल जी की विद्वत्ता तथा चमत्कार-शक्ति के लिये प्रसिद्ध हो रहे थे, इसलिये वे भी उनके शिष्य हुए। वे महाराज इन पर बहुत स्नेह रखते थे तथा उनकी पुत्री श्री श्यामा बेटी जी भी इन्हे भाई के समान मानती... और भ्रातृ-द्वितीया पर टीका काढ़ती थीं। बा० हर्षचन्द्र भी वैसे ही गुरु भक्त शिष्य थे। इन्हीं गुरु जी की आज्ञा से वल्लभ कुल के प्रथानुसार इन्होंने अपने यहाँ ठाकुर जी की सेवा पधराई। श्री मदनमोहन जी की धातु विग्रह युगलमूर्ति की सेवा को इनके यहाँ होते सौ वर्ष से अधिक हो गये। जिस समय श्री गिरिधर जी महाराज श्री जी द्वार से श्री मुकुंदराय जी को काशी पधरा कर लाये थे, उस समय वाराणसी आदि की तैयारी का कुल भार इन्हीं पर था, जिसे बड़े समारोह के साथ इन्होंने पूरा किया था। श्री मुकुंदराय जी की वार्ता में इसका पूरा वर्णन दिया है।

श्री गिरिधर जी महाराज ने कार्तिक सुदी २ सं० १८९५ को बा० हर्षचन्द्र के नाम एक मुख्तारनामा लिख दिया था। इससे जब वे काशी के बाहर पधारते थे तब मन्दिर का सारा कार्य इन्हीं के हाथ में रहता था। श्री श्यामा बेटी जी ने बा० गोपालचन्द्र के नाम इसी प्रकार का एक मुख्तारनामा १४ मार्च सन् १८५२ ई० को लिखा था। श्री गिरिधर जी महाराज जब कभी बाहर पधारते थे तब इन्हे बराबर पत्र लिखते थे। आवश्यकता पड़ने पर इन पर वहाँ से हुंडियाँ भी लिखते थे जिन्हे यह बराबर सकारते थे। एक बार श्रीगिरिधर जी महाराज को चालीस सहस्र रुपये की आवश्यकता पड़ गई, तब उन्होंने बा० हर्षचन्द्र से इसका प्रबन्ध कर देने को कहा। इन्होंने कोल्हुआ तथा नाटी इमली वाले दोनों बाग महाराज को तत्काल भेंट कर दिये कि इन्हे बेच कर काम चला ले। उसमें से केवल कोल्हुआ का बाग ही चालीस सहस्र में विक्रय हुआ और नाटी इमली का बाग अब तक मन्दिर के पास 'मुकुंद विलास' के नाम से बचा हुआ मौजूद है।

श्री मुकुन्दराय जी के काशी पधारने पर मन्दिर के व्यय चलाने के लिये यहाँ के महाजनों ने बा० हर्षचंद को मुखिया बनाकर एक चिट्ठा खड़ा किया, जिससे काशी के सभी व्यापारी सवा पाँच आने सैकड़े काटकर मंदिर को देने लगे। मन्दिर का यह पैसा तो अब तक कटता है पर कोई मन्दिर को देते हैं तथा कोई अन्य धर्म कार्य में लगा देते हैं। श्री गिरिधर जी महाराज ही ऐसे चरित्रवान तथा चमत्कार-शक्ति पूर्ण थे कि उन्होंने इस विश्वनाथ पुरी में वैष्णवता की जड़ जमा दी। यह ऐसे सरल प्रकृति के थे कि गोस्वामी कुल के प्रथानुसार अपना जन्मोत्सव आदि तक न मनाते थे। बा० हर्षचन्द ने बहुत आग्रह कर इसे आरम्भ किया, पर सब व्यय इन्हीं को उठाना पडा था, क्योंकि महाराज मन्दिर का एक पैसा भी अपने इस उत्सव के लिये नहीं लेना चाहते थे। अब यह उत्सव श्री मुकुन्दराय जी के घर के सभी सेवक मनाते हैं।

गोपालमंदिर के दोनों नक्कारखाने इन्हीं के यहाँ से बने हैं। इनमें एक तो बा० गोपालचन्द जी के जन्म पर और दूसरा भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र जी के जन्म पर बनवाया गया था।

बा० हर्षचंद जी का बा० जानकीदास तथा जौनपुर के राजा शिवलाल दूबे से बहुत स्नेह था। इनका स्वाभाव अत्यंत नाजुक तथा अमीरी का था। घर में बाहर भीतर फुहारे बने हुए थे, जिससे ग्रीष्म ऋतु में ये जहाँ बैठते थे वहीं फुहारे छूटने लगते थे। एक बार बा० जानकीदास जी ने इन्हे बीमे का कार्य करने की सम्मति दी पर इन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया कि 'अपनी जान को बखेड़े में कौन फँसाये और नावों की चिंता में सब आनन्द कौन मिट्टी में मिलावे।' काशी में भारतसरकार ने इनकमटैक्स के सवा लाख रुपये वसूल करने को समिति बनाई थी, उसका प्रबंध इन्ही के हाथ में था।

सन् १८३४ ई० में कंपनी की ओर से काशी के महाजनो से व्यापार की अवस्था तथा सोना-चाँदी की खपत की कमी के कारण पूछे गये थे, जिसका उत्तर इन्होंने दिया था। बा० राधाकृष्ण दास ने प्रश्न तथा उत्तर

स्वलिखित भारतेन्दु की जीवनी में प्रकाशित किया है, जिसको तत्कालीन देश दशा का कुछ चित्रण समझ यहाँ ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है ।

१ प्रश्न—सन् १८१९ ई० से चाँदी और सोना की खरीद कम हुई है या अधिक और इसका कारण क्या है ?

उत्तर—सन् १८१९ ई० से चाँदी और सोने की खरीद बहुत कम हो गई है । चाँदी की खरीद में कमी का कारण यह है कि जब बनारस में टकसाल जारी थी, चाँदी का लेन देन जारी था, इससे भाव भी उसका मँहगा था । और जब से टकसाल बन्द हुई तबसे इसकी बिक्री कम हो गई इससे भाव भी गिर गया ।

सोने की खरीद कम होने का कारण यह है कि उस समय इस प्रांत के लोग सुखी थे और देहाती लोग भी बड़ा लाभ उठाते थे, इसलिये सोने की बाहरी खरीदारी अधिक होती थी और भाव भी मँहगा था । और अब चारों ओर दरिद्रता फैल गई है, तो सोने की खरीद कहाँ से हो ।

२ प्रश्न—क्या कोई ऐसा दस्तूर नियत हुआ है जिससे चाँदी-सोना का लेन देन कम होकर हुण्डी और किसी दूसरे प्रकार का एवज मबावजः जारी हुआ है ?

उत्तर—सोने-चाँदी के बदले में कोई दस्तूर हुँडो का जारी नहीं हुआ है, व्यापार की कमी, कि जिसका कारण चौथे प्रश्न के उत्तर में लिखा जायगा और भाव के गिरने से यह कमी हुई है ।

३ प्रश्न—टकसाल बन्द होने से बाहरी सोना चाँदी की आमदनी कम हो गई है या नहीं ?

उत्तर—टकसाल बन्द हो जाने से एक बारगी बाहरी आमदनी सोना चाँदी की कमी हो गई है ।

४ प्रश्न—इस बात पर विचार करके लिखिए कि सन् १८१३ व १८१४ से अब तक का भाव हुँडियावन का बड़े बड़े हिसाबों में पर्ता फैलने से कमी के कारण व्यापार में अन्तर पड़ा है, या सन् १८१८ वा १८१९ में सोना चाँदी की आमदनी की कमी से ?

उत्तर—सन् १८१३ से १८२० वा १८०२ तक इस प्रांत के लोग बड़ा लाभ उठाते थे । और हर तरह का रोजगार जारी था । और भाव हुँडियावन उस सन् से अब कम नहीं है । वरन् अधिक है, यद्यपि उन सबों में बनारस के पुराने सिक्के की चलन थी जिसकी चाँदी में बढ़ा नहीं था जब से फरुखावादी सिक्का चला उसके बढ़ा के कारण हुँडियावन का भाव हर देसावर में बढ़ गया । हाँ इन दिनों अवश्य फरुखावादी सिक्का जारी रहने पर भी भाव हुँडियावन गिर गया है रोजगार की कमी के कारण नीचे निवेदन करता हूँ ।

१—परम उपकारी कंपनी बहादुर की सरकार से कि जो उपकार का भंडार और प्रजा पोषण की खानि है सूद की कमी हो गई कि सन् १८१० तक सब लोग सरकार में रुपया जमा करके छः रुपया सैकड़ा वार्षिक सूद लेते थे और पाँच रुपये से होते होते चार रुपये तक नौबत पहुँच गई । प्रजा का काम कैसे चले ?

२—अंगरेज साहबों के कारबार बिगड़ जाने से, कि जिनकी ओर से हर जिलों में नील की बड़ी खेती होती थी और उससे जमींदारों को बड़ा लाभ होता था, जमींदारों को कष्ट है और खेती पड़ी रह गई ।

३—अदालत के अप्रबन्ध और रुपया के बसूल होने में अदालत के डर के कारण कारबार देन लेन महाजनी कि जिससे सूद का अच्छा लाभ था एक दम बढ़ हो गया ।

४—साहब लोगों के बहुत से हाउस बिगड़ जाने से बहुतेरे हिन्दुस्तानियों के काम, लाखों रुपया मारे जाने के कारण बन्द हो जाने से दूसरा काम भी नहीं कर सकते ।

५—विलायत से असबाब आने और सस्ता बिकने के कारण यहाँ के कारीगरों का सब काम बन्द और तबाह हो गया ।

६—सरकार की ओर से इस कारण से कि विलायत में रूई पैदा न हुई। यहाँ से रूई की खरीद हुई इससे भी कुछ लाभ था पर वह भी बन्द हो गई इन्ही कारणों से रोजगार में कमी हो गई है ।

५ प्रश्न—चलन के रूपया की रोजगार के काम में आमदनी कलकत्ता से होती है या नहीं, यदि होती है तो उसका खर्च अनुकूल और प्रतिकूल समय में क्या पड़ता है ?

उत्तर—कलकत्ता से बहुत रूपया चालान नहीं आता और यदि कुछ रूपया आता है तो लाभ नहीं होता बरञ्च बीमा और सूद की हानि के कारण बाटा पड़ता है इसी से रूपया के बदले में हुंडी का आना जाना जारी है ।

द० वा० हर्षचंद

ता० २९ जुलाई सन् १८३४ ई०

वा० हर्षचंद जी ने श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने को पुरी का यात्रा की थी और कलकत्ते से एक दिन प्रसिद्ध लाला बाबू के यहाँ मेहमान भी रहे थे । उनके 'श्रीकृष्ण चन्द्रमा जी, के मंदिर में प्रभूत ऐश्वर्य था । इनकी उपस्थिति में ही बालभोग का प्रसाद सौ ब्राह्मण एक ही प्रकार का उपरना पहिरे हुये चाँदी ही के थालों में लाए थे जो सब फलाहारी था ।

वा० हर्षचंद के दो विवाह हुए थे । पहिला विवाह चंपतराय अमीन की पुत्री से हुआ था, जिनका उस समय ऐसा ऐश्वर्य था कि सोने के बरतन बरते जाते थे । अब चंपतराय अमीन के वाग के सिवा इनका कोई चिन्ह नहीं रह गया । इस विवाह से इन्हे कोई संतान नहीं हुई । इनका दूसरा विवाह वा० वृन्दावन दास की लड़की श्यामा वीवी से हुआ, जिनसे इन्हे पांच संतान हुई । दो कन्याएँ बचपन ही में जाती रही, शेष तीन का वंश चला । इन्हीं वा० वृन्दावनदास से कोल्हुआ और नाटी इमलीवाले दोनों वाग मिले थे, जिन्हे इन्होंने श्रीगिरिधर जी महाराज को भेट में दे दिये थे ।

दूसरे विवाह से भी दो कन्याएँ ही होने पर तथा अवस्था अधिक हो जाने से यह पुत्र के लिए कुछ दुःखित रहते थे । एक दिन श्रीगिरिधर जी महाराज ने इन्हे इस प्रकार उदास मुख देखकर प्रश्न किया और कारण जानने पर कहा कि तुम जी छोटा न करो, इसी वर्ष पुत्र होगा । उसी वर्ष मिति पौष कृष्ण १५ स० १८९० को कवि वा० गोपालचन्द्र का जन्म हुआ । इस

कारण तथा गुरु में अटल भक्ति रखने ही से इन्होंने कविता में अपना उपनाम गिरिधरदास रखा था। इसके अनन्तर इन्हे दो कन्याएँ हुई।

बा० हर्षचंद्र की प्रथम पुत्री यमुना बीबी का जन्म भाद्रपद कृष्ण ८ सं० १८९२ के और छोटी पुत्री गंगा बीबी का जन्म भाद्रपद कृष्ण ४ सं० १८९४ वि० को हुआ था। पुत्र तथा पहिली पुत्री का तो इन्होंने स्वयं विवाह किया था और गंगा बीबी का उनके बाद बा० गोपालचन्द्र ने किया था। यमुना बीबी का विवाह राजा पट्टनीमल बहादुर के पौत्र राय नृसिंहदास से हुआ था, जिनके एकमात्र पुत्र राय प्रह्लाददास हुए। इनकी एक कन्या सुभद्रा बीबी भी थी, जिनका विवाह साव घराने के एक रईस बा० वैद्यनाथ प्रसाद से हुआ था। इनके पुत्र यदुनाथ प्रसाद उर्फ भैया जी थे, जिनके दो पुत्र—अद्वैतप्रसाद और जगन्नाथप्रसाद वर्तमान हैं। राय प्रह्लाददास के पुत्र राय कृष्णदास जी खड़ो बोली के सुकवि तथा चित्रकला के अच्छे ज्ञाता हैं। दूसरी कन्या गंगा बीबी का विवाह बा० गोपालचन्द्र जी के समय में मिर्जापुरा के एक रईस बा० कल्याणदास से हुआ था। इन्हे दो पुत्र और एक कन्या हुई जिनका नाम बा० जीवनदास, बा० राधाकृष्णदास और लक्ष्मीदेवी था। प्रथम बचपन ही में जाते रहे। द्वितीय हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक और कवि हुए, जिनकी जीवनी काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित की गई है। इनके एक पुत्र बा० बालकृष्णदास वर्तमान हैं।

बा० गोपालचन्द्र का विवाह दीवान राय सिरोधरलाल की कन्या पार्वती देवी से स० १९०० में बड़े समारोह के साथ हुआ था। वाराणसी इतनी लम्बी निकली थी कि वर घर ही पर था कि वाराणसी का निशान समधी साहब के शिवाला वाले घर तक जा पहुँचा था, जो इनके गृह से तीन मील दूर था। राय साहब ने भी आदर सत्कार में खूब उदारता दिखलाई थी, यहाँ तक कि कूओं में चीनी के बोरे छुड़वा दिए थे।

बा० हर्षचंद्र को भी हिन्दी से बड़ा प्रेम था और 'गिरिधर चरितामृत' के प्रणेता बा० हरिकृष्णदास टकसाली ने लिखा है कि ये कविता भी करते थे पर अब तक उनकी कविता का अंशमात्र भी देखने में नहीं आया।

बा० हर्षचंद जी का स्वर्गवास ४२ वर्ष की अवस्था में सं० १९०१ वि० के वैशाख कृष्ण १३ को हुआ। उस समय इनके पुत्र बा० गोपालचन्द्र जी की अवस्था ग्यारह वर्ष की थी इसलिए अपनी मृत्यु के दस दिन पहिले इन्होंने वैशाख वदी ३ सं० १९०१ को एक वसीयतनामा लिखा, जिसकी नकल नीचे दी जाती है। इसके अनुसार इनके मित्र बिज्जीलाल कोठी के प्रबंधकर्ता नियत हुए परन्तु प्रबंध सतोषदायक न होने से बहुत कुछ हानि हुई। बा० गोपालचन्द्र के नाना बा० वृन्दावनदास तथा श्वशुर राय खिरोधर लाल ने बिज्जीलाल के विरुद्ध अदालती कार्रवाई की पर वसीयतनामे के कारण वे कुछ न कर सके। बा० गोपालचन्द्र दो वर्ष बाद स्वयं ही सब कार्य देखने लगे, जिससे फिर कोई कुछ गड़बड़ न कर सका। ८७ वर्ष पहिले की अदालती हिन्दी का नमूना होने से यहाँ इस वसीयतनामे की प्रतिलिपि दी जाती है।

श्री गिरिधर लाल जी सहाय

श्री ठाकुर जी

नकल मुताबिक
असल
बसुकाबलः महम्मद अली
नायब मुहाफिज दफ्तर


मुहर अदालत
दीवानी बनारस
सन् १२१०

स्टाम्प
आठ आना

नकल
रामचन्द्र

लि० हरखचन्द्र वेढा बाबू फतेहचन्द्र साह के पोता अमीचन्द्र साह के अग्रवालें आगे हमने अपने होसहवास सों सरीर अनित जान कर अपना वसीयतनामा इस भाँति किया कि जहाँ ताई श्री जी हमको अच्छा रखें तहाँ ताई हम मालिक हैं बाद हमारे वेढा हमारा चि० गोपालचन्द्र मालिक देना लहना जायदात हियाँ व दिसावर की माल असवाव मनकूला गैर मनकूला यावर जंगम सब का मालिक हमारा वेढा है वेढे की उमिर छोटी समझ के मोहत्तमीम काम का वासते हिफाजत माल असवाव वगैरः व हवेली लहना

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र



भारतेन्दु जी (यौवनावस्था)



भारतेन्दु जी (प्रीढ़ावस्था)

देना मामिला अदालत की वा सब तरह सो हिफाजत लड़के मजकूर की विजीलाल दोस्त हमारा जो है सो करै बसलाह समधी राय खिरोधर लाल के व हमारे हियाँ के गुमास्ते वा अमले वगैरे जो कोई विजीलाल के कहे मूजिब न चलैँ उसको न रखै वा इस मुताबिक नी लोखने के अमल में लावै जब बेटा हमारे बरस एक इस का सब तरह सों होसियार होय तब उसको समभाय दे वा छोटी बेटी हमारी गंगो का बेयाह जिस मूजिब जमुना का भया है उस मूजिब कर दे गहना, कपड़ा वासन वगैरे घर मी तयार है जो कुछ नगदी लगै सो लगाय दे मिति वैशाख वदी ३ सं० १९०१ ।

लिखा दमोदरदास नकलनवीस

द० खास

ने हिंदी हर्फ मे

मुकाबिला किया जगन्नाथप्रसाद

साखी हरकिसुनदास अग्रवाला कबूलियत

खजांची

बा० हरखचन्द जी की

साखी छेदीलाल अग्रवाल

साखी बेनीराम नागर कबूलियत

कबूलियत हरखचंदजी की

बा० हरखचन्द जी

साखी पुनवासी खानसामा

साखी ईश्वर सेव नागर कबूलियत

कबूलियत बाबू हरखचन्दजी

बा० हरखचन्द जी

बाकलम बेनीराम

महाकवि बा० गोपालचन्द्र उपनाम गिरिधरदास

जिस प्रकार इन महाकवि का जन्म श्री गिरिधर जी महाराज की कृपा से हुआ था उसी प्रकार उनके शुभाशीर्वाद ही के फल अनुरूप इनकी प्रतिभा तथा ज्ञान का प्रस्फुटन हुआ था । बाल्यकाल मे ये बड़े ही चंचल स्वभाव के थे । एक बार इन्होंने राय रत्नचन्द्र बहादुर के पालतू कबूतरों का दर्वा, जो विशेषतः इन्ही के कारण बहुत सुरक्षित रखा जाता था, छत तथा मुँड़ेरा डाँक कर खोल दिया और सब कबूतरों को, जो सख्या में कई सौ थे तथा बहुमूल्य थे, उड़ा दिया । रायसाहब के सोना गुलाम ने, जो इन्हीं कबूतरों पर नौकर था, बड़ा क्रुद्ध हुआ और इन्हे मारने के लिए दौड़ा । यह भागकर हाँफते हुए अपने पिता बा० हर्षचन्द के पास पहुँचे, जिन्होंने इनकी रक्षा की और इन्हे

धमकाया भी । इनके इस चपलता से उदास चित्त होकर यह इन्हें साथ लेकर गोस्वामी गिरिधर लाल जी महाराज के पास गए और यह वृत्तान्त उन्हें सुनाया महाराज ने कुछ मुस्करा कर कहा कि इसके औद्धत्य से तुम दुखी मत हो, शिक्षा के लिए भी अधिक क्लेश मत उठाओ, यह आपही अच्छा विद्वान और कवि होगा तथा तुम्हारे वश का नाम बढ़ावेगा ।

वास्तव मे किसी धनाढ्य पुरुष के एक मात्र पुत्र का लालन पालन कितने लाड़ चाव से होता है यह सभी जानते हैं । उस पर यह ग्यारह वर्ष ही की अवस्था मे पितृ-स्नेह से वंचित हो गये थे । दो वर्ष बाद ही यह अपने प्रभृत ऐश्वर्य की देख-रेख तथा प्रबंध करने में लग गये । इस प्रकार इनकी शिक्षा का कुछ भी प्रबंध न हो सका पर अपने गुरुवर के आशीर्वाद तथा सहवास से इनकी प्रतिभा ऐसी विकसित हुई कि नियमपूर्वक शिक्षा न प्राप्त करने पर भी यह संस्कृत तथा भाषा के अनुपम विद्वान हुए तथा दोनों ही के सुकवि हुए । 'यौवनं धन संपत्तिः प्रभुत्वम्' रहते भी अविवेकता का लेश भी नहीं था और यह ऐसे सच्चरित्र थे कि लोग इन पर भक्ति रखते थे । काशी के कमिश्नर सि० गबिन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बा० गोपालचन्द्र 'परकटा फरिश्तः है ।' यह बड़े ही सरल स्वभाव के थे और इन्हें क्रोध कभी नहीं आता था । यह गवर्नमेंट के विश्वासपात्र थे इसी से बड़े बलवे के समय बनारस रेजीडन्सी का कीमती सामान इन्हीं के यहाँ रखा गया था । आर्मस ऐक्ट पास होने पर इन्हें तलवार बन्दूक मिलाकर ४८ शस्त्र रखने की आज्ञा मिली थी ।

विद्या की इनकी अभिरुचि ऐसी थी कि प्रचुर धन व्यय करके इन्होंने अपने घर सरस्वती-भवन स्थापित किया था जिसमें बहुत से अलभ्य तथा अमूल्य पुस्तको का संग्रह है । इन ग्रंथों का पहाड़ बनाकर तथा उस पर सरस्वती जी की मूर्ति स्थापित कर आश्विन शुक्ला सप्तमी से नवमी तक उत्सव मनाया जाता था । इस पुस्तकालय का मूल्य भारतेन्दु जी को डा० राजेन्द्रलाल मित्र एक लाख रुपये दिलवाते थे, पर इन्होंने नहीं दिया । इनकी कवित्व शक्ति जन्मसिद्ध थी और प्रतिभा ईश्वरप्रदत्त थी । यही कारण था कि शिक्षा,

मनन तथा अभ्यास की कमी होते भी तेरह वर्ष की अवस्था ही में इन्होंने वाल्मीकीय रामायण से बड़े ग्रंथ का छन्दोबद्ध भाषानुवाद स० १९०३ वि० में समाप्त कर दिया था। संस्कृत में कई स्तोत्र आदि लिखे हैं, जो प्रसिद्ध हैं। ये उर्दू की भी कविता करते थे, पर बहुत कम करते थे। उर्दू की इनकी केवल दो गज़लें मिली हैं, जिनके एक शेर में आप कहते हैं—

“दास गिरधर तुम फ़कत हिंदी पढ़े थे खूब सी।

किस लिए उर्दू के शायर में गिने जाने लगे ॥”

इनकी कृतियों की विवेचना आगे की जायगी।

इनके धार्मिक तथा सामाजिक विचार कैसे थे, इस पर भारतेन्दु जी ने स्वयं अपने ‘नाटक’ नामक ग्रंथ में लिखा है, जिसका कुछ अंश उद्धृत किया जाता है। ‘उनके सब विचार परिष्कृत थे कि वैष्णव व्रत पूर्ण के हेतु अन्य देवता मात्र की पूजा और व्रत घर से इन्होंने उठा दिया था। लेफ्टिनेन्ट गवर्नर टौमसन साहब के समय काशी में लड़कियों का जब पहिला स्कूल हुआ तो हमारी बड़ी बहिन को इन्होंने उस स्कूल में प्रकाश्य रीति से पढ़ने बिठा दिया। यह कार्य उस समय में बहुत कठिन था, क्योंकि इसमें बड़ी ही लोक-निन्दा थी। हम लोगों को अंग्रेज़ी शिक्षा दी। सिद्धान्त यह कि उनकी सब बातें परिष्कृत थीं और उनको स्पष्ट बोध होता था कि आगे काल कैसा चला आता है।

कविता तथा भगवत्सेवा का इन्हें व्यसन सा था। यह बहुत सवेरे उठते तथा नित्य कृत्य से निवृत्त होकर कुछ कविता लिखते थे। यदि बीच ही में कुछ ध्यान आ गया तो उसे लिखकर तब दूसरा कार्य करते। कम से कम पाँच भजन बनाए बिना भोजन नहीं करते थे। कविता से निपट कर श्री ठाकुरजी की सेवा में स्नान करते तथा पूजन करते। इसके अनंतर श्रीमुकुन्द-राय जी का दर्शन करने जाते और लौट कर कविता लिखते। दस-ग्यारह बजे भोजन करने के बाद दरबार लगता और घर का काम-काज देखा जाता था। दोपहर को कुछ देर सोते और उसके उपरांत तीसरे पहर के दरबार में कवि-

कोविदों का आदर-सत्कार तथा काव्य चर्चा होती थी। इस प्रकार इनका प्रायः समग्र दिन सेवा पूजा तथा कविता लेखन में बीतता था।

इन्हे पुष्पो का बड़ा शौक था। संध्या तथा रात्रि में भी जहाँ कलम कागज़ रक्खा रहता वहाँ गुच्छे गजरे भी रखे रहते थे। पानदान, इत्रदान के पास सुगंधित शमःदान भी रहता था। रात्रि में भी कुछ कविता करते थे। चौखंभा वाले अपने मकान में श्री ठाकुर जी के मंदिर के पीछे उन्हीं के निमित्त एक पाई बाग बनवाया था और बीच बीच में छोटी छोटी नालियाँ बनाकर उसमें फुहारे लगवाए थे। बाग का भी इन्हे शौक था और इसी से रामकटोरा वाले बाग के सामने के तालाब का जीर्णोद्धार कराया था। यह तालाब चारों ओर से पक्का है और पहिले इसमें जल भी भरा रहता था पर नल ऊँची हो जाने से अब पानी कम रहता है। इसी तालाब पर एक मंदिर बनवा कर देवताओं को मूर्तियाँ स्थापित करने का इनका विचार था पर वह पूर्ण न हो सका। मूर्तियाँ बड़ी सुन्दर बनी थीं। सन् १८६४ ई० की कृषि प्रदर्शनी में इनके बाग के फूलों पर इन्हे पुरस्कार तथा सनद भी मिली थी।

गंभीरता के साथ साथ स्वभाव विनोदप्रिय भी था। अपनी एक चिड़चिड़ही मौसी पर निम्नलिखित कविता बनाई थी।

घड़ी चार एक रात रहे से उठी घड़ी चार एक गंग नहाइत है ।
 घड़ी चार एक पूजा पाठ करी घड़ी चार एक मंदिर जाइत है ॥
 घड़ी चार एक बैठ बिताइत है घड़ी चार एक कलह मचाइत है ।
 बलि जाइत है ओहि साइत की फिर आइत है फिर आइत है ॥

अपने घर के श्री ठाकुरजी की सेवा और दर्शन का इन्हे ऐसा अनुराग था कि इन्होंने कभी यात्रा का विचार ही नहीं किया। चरणाद्रि में श्री महाप्रभु जी के दर्शन को कभी जाते तो दूसरे ही दिन लौट आते थे। यहाँ तक कि मृत्यु के समय जब इन्होंने अन्य सभी मोह-विकार को तृणवत् त्याग दिया था तब भी ठाकुरजी के सामने यही कहा था कि „दादा तुम्हें बड़ा कष्ट होगा।” पाँच वर्ष की जब अवस्था थी तब मुडन के लिए मथुरा तथा वैद्यनाथ जी

गये थे । भारतेन्दु जी के जन्म के अनंतर स० १९०७ वि० मे पितृ ऋण से मुक्त होने के लिये यह एक बार गया गये थे । पंद्रह दिन की गया का विचार करके यह गये पर श्रीठाकुर जी के दर्शन अर्चन न मिलने से यह ऐसे विकल हुए कि तीन ही दिन वहाँ ठहर कर लौट आए । वैष्णवधर्म पर ऐसा विश्वास था कि इन्होंने

मेदि देव देवी सकल, छाँड़ि सकल कुल रीति ।

थाप्यो गृह में प्रेम जिन, प्रगट कृष्ण पद प्रीति ॥

इनके सरल स्वभाव तथा श्री ठाकुर जी में अनुराग ही के कारण तत्कालीन साधु, महात्माओं की भी इन पर कृपा रहती थी और यह भी उनकी सेवा शुश्रुषा कर उन्हें प्रसन्न रखते थे । राधिकादास जी, रामकिंकरजी, तुलसीराम जी, भगवतदास जी आदि उस समय के प्रसिद्ध महात्मा थे । ये लोग रामानुजी संप्रदाय के संत थे और इनसे बहुत स्नेह रखते थे । एक दिन बा० गोपालचन्द्र जी ने विनोद में किसी महात्मा से कहा कि भगवान श्री कृष्णचन्द्र मे भगवान श्री रामचन्द्र से दो कलाएँ अधिक थीं अर्थात् इनमें सोलहों कला थीं । उक्त महानुभव ने उत्तर दिया 'जी हाँ, चोरी और जारी ।' कभी कभी इन महात्माओं की कथा भी बड़े समारोह के साथ इनके यहाँ होती थी ।

बुढ़वासंगल का मेला यह भी अपने पिता के समान ही बड़े समारोह से मनाते थे । जाति-भाइयो के निमंत्रित करते और उन लोगो मे गुलाबी रंग के पगड़ी दुपट्टे वितरित करते थे । एक वर्ष की घटना है कि यह कच्छे के साथ के बजड़े मे सन्ध्यावन्दन कर रहे थे और छत पर लोग बैठे हुये थे । सन्ध्या से निवृत्त होकर यह ज्यो ही ऊपर आए कि सभी लोग प्रतिष्ठा के लिए खड़े होकर एक ओर हो गये । इस कारण नाव एकाएक एक ओर कुल बोझ आ जाने से उलट गई और सभी लोग जलमग्न हो गये । यह घटना चौसट्टी घाट पर हुई थी जहाँ जल बहुत गहरा है । बा० गोपालचन्द्र की बड़ी पुत्री भी उसी नाव पर थी । यह स्वयं तैरना भी नहीं जानते थे पर उस अशरण

शरण की कृपा ने सभी को बचा लिया । यहाँ तक कि सब डूबी हुई वस्तु, घड़ीयंत्र आदि भी मिल गईं । कविव्य शक्ति इस अवगाहन से चैतन्य हो उठी और उन्होंने तुरत एक पद बनाया जिसका अंतिम पद यों है—

गिरधरदास उबारि दिखायो भवसागर को नमूना ।

इस मेले के सिवा अन्य त्योहारों तथा अपने और पुत्रों के वर्ष गाठों पर भी ये जलसे कर जाति-भाइयों का सत्कार किया करते थे । यह इसी प्रकार सुकवियों, लेखकों तथा विद्वानों का भी खूब आदर-सत्कार करते थे । इनकी सभा सरदार कवि, बाबा दीनदयाल गिरि, पं० ईश्वरदत्त जी 'ईश्वर' पं० लक्ष्मीशंकर व्यास' कन्हैयालाल लेखक, माधोराम जी गौड़, गुलावराय नागर तथा वा० बालकृष्ण दास टकसाली आदि से सुशोभित रहती थी । एक बार ठाकुर कवि के शिष्य विश्वेश्वर शर्मा मिश्र 'ईश्वर' जी कवि मिश्र को एक चश्मे की आवश्यकता हुई थी तो आप एक कवित्त बना लाए जिसका अंतिम चरण यों है—

खसमा मुखी के मुख भसमा लगाइवे को

एहो धनाधीस हमें चाहत एक चसमा ॥

इन्हीं 'ईश्वर' कवि ने भारतेन्दु जी के जन्म पर श्रीमद्भागवत की पुस्तक के लिए एक प्रार्थनापत्र संस्कृत-हिंदी दोनों भाषा की कविता में लिखकर दिया था और वा० गोपालचंद्र जी ने बड़े आदर तथा श्रद्धा से उक्त पुराण उन्हे दिया था । उक्त पत्र कविवचनसुधा के जि० २ नं० २१ में प्रकाशित किया गया था ।

'शंभु' उपनाम के एक कवि ने एक अलंकार ग्रंथ ही स्यात् इनके लिये बनवाया था, जिसके कुछ पद प्राप्त हैं । एक छंद की अंतिम पक्ति इस प्रकार है—

“कहै 'शंभु' महाराज गोपालचंद्र जू धरमराज की सभा ते सभा रावरी सरस है ।” वा० गोपालचन्द्र जी ने स्वरचित बलराम कथामृत के आरम्भ में

देवताओं द्वारा विष्णु भगवान को चौरात्रवे वरवै छंद मे 'स्तुति आभूषण' भेट कराया है—

“इमि अस्तुति—आभूषण रचि सुर वृन्द ।
दियो कियो तेहि धारन हरि सानंद ॥

इसी स्तुति आभूषण की स्तुति-प्रकाशिका नाम से सरदार कवि ने विस्तृत व्याख्या की है। इसकी हस्तलिखित प्रति का लिपिकाल सं० १९१५ है। इस टीका के रचनाकाल का दोहा यो है—

“लोक विभू ग्रह संभु सुत, रद सुचि भादो मास ।
कृष्ण जन्मतिथि दिन कियो, पूरन तिलक विलास ॥”

बा० गोपालचन्द्र को भाँग पीने का कठिन व्यसन लग गया था और वह इतनी अधिक भाँग पीने लगे थे कि अंत मे इसी ने इनका प्राण हरण कर लिया। इसी व्यसन के कारण जलोदर रोग से यह ग्रस्त हो गये और गंगा सप्तमी को वैशाख सुदी ७ सं० १९१७ वि० को इनकी मृत्यु हो गई।

कविवर बा० गोपालचन्द्र कविता में गिरिधरदास, गिरिधारन, गिरिधर उपनाम रखते थे। इनमे एक विशेषता थी कि यह इच्छानुसार सरल तथा क्लिष्ट दोनों ही ढंग की कविता करने मे सिद्धहस्त थे। गर्गसंहिता आदि ग्रंथों मे यह सरल शैली पर कथा कहते चले गये हैं पर जब जरासंध वध महाकाव्य, भारतीभूषण आदि ग्रंथों में अपना काव्य-कौशल दिखलाया है तो यमक, अनुप्रास, श्लेषादि अलंकारों से पद्यों को इतना चमत्कृत किया है कि उन्हे किसी किसी स्थल पर समझना कठिन हो जाता है। इन्हीं अलंकारो के कारण कहीं कहीं ऐसे असाधारण शब्दो का प्रयोग किया है कि साधारण हिन्दी कोषों मे उनका अर्थ भी नहीं मिलता। यमक और अनुप्रास की छटा इनकी कविता में जैसी आई है वैसी अन्यत्र नहीं मिलती। यह विद्वान थे और इनकी प्रतिभा भी अलौकिक थी। इन्होंने अलंकार, रस आदि पर रीति ग्रंथ भी लिखे हैं। कविता करने का इनका अभ्यास इतना बढ़ा चढ़ा था कि सत्ता-

ईस वर्ष की छोटी अवस्था ही में मृत्यु हो जाने पर भी इसी बीच इन्होंने बीस सहस्र से अधिक पद बना डाले । यह सहृदय भी थे पर इनकी कविता में विद्वत्ता तथा काव्यकला का जितना परिचय मिलता है उतना इनको सरसता का नहीं मिलता । संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान पं० शिवनाथ जी मनीषानन्द ने स्वा० वावू कृष्णचंद्र जी से इनकी कुछ कविता सुनकर कहा था कि यह हिंदी में नैषध की कोटि की कविता करते थे । अस्तु, अब इनकी कविता के विषय में विशेष न लिख कर इनकी रचनाओं का विवरण देते हुए उनसे प्रधान प्रधान पर कुछ विवेचना लिखी जायगी ।

बा० गोपालचन्द्र को प्रथम श्री पार्वती देवी से चार सन्तानें हुई थीं जिनके नाम अवस्थानुसार मुकुन्दी बीबी, बा० हरिचन्द्र वा० गोकुलचन्द्र तथा गोविन्दी बीबी था । प्रथम कन्या का विवाह इन्होंने स्वयं साहू घराने के प्रसिद्ध घनाढ्य तथा संभ्रांत रईस बा० जानकीदास के द्वितीय पुत्र बा० महावीरप्रसाद से किया था । इन्हीं महावीरप्रसाद के बड़े भाई राजा जी थे, जिनके यहाँ गिन्नियाँ सुखलाई जाती थीं, गलाए हुये बहते सोने में कागज की नाव चलाई जाती थी इत्यादि । इस प्रकार की अनेक कथाएँ इनके विषय में सुनी जाती हैं । ये दोनों भाई निस्सन्तान मर गये और इनका वंश समाप्त हो गया, जिससे अतुल धन की स्वामिनी होते हुए भी मुकुन्दी बीबी अपने पिता के घर पर आकर रहने लगी । अन्य तीनों संतानों का विवाह पीछे से हुआ था, जिसके प्रवधक इन लोगों के फूफा राय नृसिंह दास थे । भारतेंदु जी का विवाह शिवाले के रईस बा० गुलाबराय की कन्या श्रीमती मन्नो देवी से, बा० गोकुचन्द्र का वा० हनुमानदास की कन्या श्रीमती मुकुन्दी देवी से तथा गोविन्दी बीबी का पटना के रईस राय राधाकृष्ण रायबहादुर से हुआ था । केवल बीच को छोड़कर अन्य दोनों विवाह बड़े धूमधाम से हुए थे । गोविन्दी बीबी के एकमात्र पुत्र राय गोपीकृष्ण जी० ए० पचीस वर्ष ही की अवस्था में काल कवलित हो गये थे ।

प्रथम स्त्री पार्वती देवी की मृत्यु पर उसी वर्ष सं० १९१४ के फाल्गुन में बा० गोपालचन्द्र ने वा० रामनारायण की कन्या श्रीमती मोहन बीबी से

दूसरा विवाह किया, जिससे इन्हे दो संतानें हुईं पर दोनों ही कुछ दिन की होकर जाती रहीं। मोहन बीवी की मृत्यु भाष कृ० १० सं० १९३८ को हुई थी।

रचनाएँ

पूज्यपाद भारतेन्दु जी का एक दोहा इस प्रकार है—

जिन श्री गिरिधरदास कवि, रच्यो ग्रंथ चालीस।

ता सुत श्री हरिचंद को, को न नवावै सीस ॥

इससे इतना पता लगता है कि बा० गोपालचन्द्र जी ने चालीस ग्रंथ लिखे थे, जिनमें कुछ का अस्तित्व है, कुछ का नाम ज्ञात है और बाकी का कुछ भी पता नहीं है। जिनका अस्तित्व है, उनका परिचय पहले दिया जाता है।

१—जरासंध-वध महाकाव्य—यह वीररसपूर्ण महाकाव्य है, जिसके केवल साढ़े दस सर्ग प्राप्त हैं। इस अपूर्ण ग्रंथ को भारतेन्दु जी ने सं० १९३१ तथा ३२ में सं० १८७५ की हरिश्चन्द्रचंद्रिका खण्ड दो में निज यंत्रालय में लीथो में छापकर प्रकाशित किया था। इसके अनंतर पूरे पचास वर्ष बाद इसका दूसरा संस्करण श्री कमलमणि ग्रंथमाला कार्यालय काशी द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो अब प्राप्त है। पुराने संस्करण की केवल कुछ सुरक्षित प्रतियाँ कभी दिखला जाती हैं। इस काव्य की कथा मे कंस वध पर क्रुद्ध होकर जरासंध का मथुरा पर चढ़ाई करना, दोनों पक्ष की सेनाओं के वीरों का वर्णन, मथुरा का घेरा, युद्धारभ और पश्चिम तथा उत्तर के द्वारों पर की लड़ाई का वर्णन आया है। अंतिम सर्ग अपूर्ण था, जिसे इस ग्रंथ के लेखक पूने रा किया है। संस्कृत के सर्ग वध महाकाव्य के रूप में ही इसकी रचना हुई। यह वर्णनात्मक काव्य है, इससे कथा भाग इसमें कम है। सैन्य संचालन, वीरों की दूर्पोक्तियाँ सैन्य चतुरंग के वर्णन आदि से काव्य भरा है। यमक आदि से ग्रंथ परिसुप्त है। गजबंध, अश्वबंध आदि चित्र काव्य भी हैं।

वीर रसपूर्ण होते हुए भी इसमें शब्दों के तोड़ने-मरोड़ने, पिचची करने का प्रयास नहीं किया है, तिस पर भी ओज में कभी नहीं आने पाई है। इन ग्यारह सर्गों में ७०० के लगभग यह हैं। चतुरंग पंचक नाम से अश्व, हाथी, रथ, पदाति के पाँच पाँच कवित्त अलग पुस्तकाकार सन् १८६६ ई० में भारतेन्दु जी की आज्ञा से गोपीनाथ पाठक ने लाइट छापाखाना में छापा था।
उदाहरण—

[निर्मात्रिक चित्र, छप्पय]

फरफर फरकत अधर चपल हय चरन चपल सम ।
नयन दहन वतरनव समद तन लखत अपर जम ॥
परम धरमधर धरम करम कर सरस गरम रन ।
धरत कनकमय वरन परम बल नदत सजल घन ॥
गरधर हरसम जस जग फवल नवत सफल नर वर जवर ।
पर धरत अचल हलचल करत टरत सभय वनकर बवर ॥

[कवित्त]

सोर तमचोर को अथोर फैलो चारों ओर ,
दुरी तम सैन ज्यों कुमति बुध दंडिता ।
कंज कैदखाने सों निकलि चले अलि वृन्द ,
पति दोसा दोस सों सरोस भई खंडिता ॥
'गिरिधर दास' कहै सकुची कुमोदिनी यों ,
देखि पर पुरुष लजात जैसे पंडिता ।
बरुन अरुनताई छाई छिति छोरन लौं ,
बिबलौं तरनि विंन प्राची करी मण्डिता ॥

[छप्पय]

सूर-सुवन सुत सूर सूर दुति चलयो सूर वर ।
कुंडल मीन अकार कमठ समधरे चरन कर ॥

सित बराह तिय ख्यात सुजस जरसिंह कोपधर ॥

सँग भट बावन सहस सबै भृगुपति सम धनुधर ।

अभिराम बीर बलराम को बीर धीर बुध-मुकुट-मनि ।

पर कों न मिलत कलकी घड़ी सगर जाके संग उनि ॥

[कवित्त]

कज्जल सो रंग मोहैं सज्जल जलद जोहि ,

उज्जल बरन बर रदन सोहावते ।

मूल मखतूल की कुसुंभन सों बोरी मनो ,

कुंभन सों धुव धाम कुंभन गिरावते ॥

जंभ अरि-बाहन अचंभ भरे जोहि जिन्हैं ,

दभ भरे रंभ खंभ चीरि महि नावते ।

अकरि अकरि करि डकरि डकरि बर ,

पकरि पकरि कर सिक्कर फिरावते ॥

२—भारती भूषण—यह अलंकार का एक अत्युत्तम ग्रंथ है। इसमें एक एक दोहे में लक्षण तथा एक एक में उदाहरण दिया गया है इससे लक्षणों का अच्छी प्रकार स्पष्टीकरण हो गया है। इसमें ३७८ दोहे हैं। जो हस्तलिखित प्रति मेरे सामने है वह सं० १९१० की लिखी हुई है। यह कवि के समय की लिखी हुई है, इससे यह ज्ञात होता है कि इस ग्रंथ का रचनाकाल भी वही है। इसकी एक छपी प्रति भी है जो ५० या साठ वर्ष पुरानी है। उदाहरण के लिये दो दोहे उद्धृत किए जाते हैं। असंगति अलंकार का लक्षण और उदाहरण—

काज हेतु इन दुहँन की असंभाव्यता पत्र ।

अति विरुद्ध जानी परै प्रथम असंगति तत्र ॥

सिंधु जनित गर हर पियो मरे असुर समुदाय ।

नैन बाल नैनन लग्यो भयो करेजे घाय ॥

३—भाषा व्याकरण—भाषा के पद्य विषयक कुछ नियमों का विचार इस में पद्य में किया गया है। यह पुस्तक खड्ग विलास प्रेस में सन् १८८२ ई० में छपी थी। इसमें १२५ पद हैं उदाहरण—

बहुधा कवि की रीति हलन्तहि उकारान्त करि ।
 वरनहि पै नहिं अपर अर्थ जहँ होइ तहाँ परि ॥
 रामहि जैसे रामु होइ धन धनु नहिं होई ।
 राम रामु दौंड शुद्ध अशुद्ध सुधनु है सोई ॥

यह ह्रस्व उकारांतहि लखौ सब विभक्ति में सुबुध जन ।
 सोड एक वचन में होत हैं तँह न होत जँह बहुवचन ॥

४—रस रत्नाकर—इसमें हाव भावादि का वर्णन है। यह अपूर्ण था और भारतेन्दु जी ने इसे पूर्ण करने के विचार से हरिश्चन्द्र मेगजीन में निकालना आरम्भ किया। इसका साथ साथ संपादन करते हुए नायिकाभेद, जो नहीं लिखा गया था, भी देते जाते थे और उदाहरण में अपनी तथा अपने पिता की रचनाओं को देते थे। यह अपूर्ण ही रह गया। हरिश्चन्द्र मेगजीन नं० ६ से एक उदाहरण उद्धृत किया जाता है।

जाहि विवाहि दियो पितु मातु तै पावक साखि सबै जग जानी ।
 साहव सो 'गिरिधारनजू' भगवान समान कहैं मुनि ज्ञानी ॥
 तू जो कहै वह दच्छिन है तो हमै कहा वाम है वाम अयानी ।
 भागन सों पति ऐसो मिलै सबहीन को दच्छिन जो सुखदानी ॥

५—ग्रीष्म वर्णन—इसका विषय इसके नाम से ही ज्ञात होता है। भारतेन्दु जी ने इसे स्वरचित भूमिका सहित हरिश्चन्द्र मेगजीन के भाग १ संख्या ८ में प्रकाशित किया है। उदाहरण—

जगह जराऊ जामें जड़े हैं जवाहिरात ,
 जगमग जोति जाकी जगलों जमति है ।
 जामैं जदुआनि जान प्यारी जात रूप ऐसी ,
 जगमुख बवाल ऐसी जोन्ह सी जगति है ।

‘गिरिधरदास’ जोर जबर जवानी को है ,
जोहि जोहि जलजहू जीव में जकति है ।
जगत के जीवन के जियसों चुराय जाय ,
जोए जोषिता कों जेठ जरनि जरति है ॥

६—मत्स्य कथामृत—इसमे मत्स्यावतार की कथा सन्नेप मे कही गई है । इसमे १५ पद है और पाँच प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है । यह सं० १०१६ के भाद्रपद मे समाप्त हुआ था ।

७—कच्छप कथामृत—इसमे कच्छप देव की कथा विस्तारपूर्वक कही गई है । चौदह प्रकार के छंदों के ४२५ पदों मे यह ग्रंथ सं० १९०८ की कातिक वदी ८ को समाप्त हुआ था ।

करन चहत जस चारु कछु कछुवा भगवान को ।
करि हैं नदकुमार अपने चरित महान को ॥

८—वाराह कथामृत—इसमें १०१ छंदों में वाराह अवतार की कथा कही गई है, उदाहरण—

विरंचिशंभुखेवितं । श्रियार्चितश्रियान्वितं ॥
मुकुन्दमञ्जलोचनं । अघौघवृन्दमोचनं ॥

९—नृसिंह कथामृत—१०५ पदों में नृसिंह कथा का वर्णन है । यह वैशाख सु० १४ को समाप्त हुआ था, संवत् नहीं दिया हुआ है । उदाहरण—

भयो भयंकर शब्द महान गगड गड गडडड ।
फड्यौ खंभ डै खड कराल ककड कड कडडड ॥
बड्यो कोटि रवि तेज कमविक कमडड डड डडडड ।
भगे दनुज गन देखि सरूप ससड सड सडडड ॥
डड डडड डडड परवत गिरहिं हडड हडड हाजी धरनि ।
अहि कमठ कोल करि थर थरे भए तेज तें हत तरनि ॥

१०—वामन कथामृत—वामनावतार की कथा विस्तार से ८०१ पदों मे

कही गई है यह ग्रंथ सं० ११०६ के कार्तिक शुक्ला १२ को समाप्त हुआ था ।
इसमें लगभग चालीस प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है । उदाहरण—

मख महि चलि आवैं, तेज आकास छावैं ।
लखि सुर सुख पावैं, मोद भारी बढावैं ॥
हरि बटु गुन गावैं, फूल माला चढावैं ।
बलि रिपु बलि जावैं, जै मनावैं सुहावैं ॥

११—परशुराम कथामृत—इसमें संक्षेपतः १०१ पदों में परशुराम जी की कथा वर्णित है । यह सं० १९०६ के अगहन कृष्ण प्रतिपदा को पूर्ण हुआ था ।

१२—राम कथामृत—यह एक विषद ग्रंथ १००१ पदों का है । इस ग्रंथ में रामजन्म के अश्वमेध यज्ञ तक की कथा का वर्णन किया गया है । इसकी रचना का समय नहीं दिया हुआ है । यह केशवदास की रामचन्द्रिका की रीति पर अनेक छंदों में प्रणीत है । ये सातों कथामृत 'अवतार कथामृत' के नाम से नवलकिशोर प्रेस से छपे थे । दूसरे खंड में अन्य तीनों कथामृत छपने को थे । उदाहरण—

हाथी घोरा बैठे जोधा नाना बानै त्यागै हैं ।
ते लौ औ लौ के भाई के देहैं जाके लागै हैं ॥
राजा की सो सेना भारी चारो आसा सों धाई ।
राका!राजै लोपै कों ज्यों मेघों की औली आई ॥

१३—बलराम कथामृत—यद्यपि इसके नाम से बलराम जी की कथा का वर्णित सेना ज्ञात होता है पर वास्तव में कृष्ण चरित्र ही प्रधान है और उसके साथ साथ उनके बड़े भाई का चरित्र वर्णन अवश्यंभावी है । बलराम जी दशावतार में परिगणित नहीं हो सकते और सब कथामृत एकत्र दशावतार कथामृत के नाम से प्रसिद्ध है । आपने श्रीकृष्ण जी के लिए बलबंधु शब्द बहुत प्रयोग किया है तथा वे बड़े भाई थे स्यात् इसीलिए उन्हीं के नाम

को प्रधानता दिखलाने को ग्रंथ का नाम यह रखा है। इस ग्रंथ में ४७०१ पद हैं। ब्रजलीला, प्रवास लीला तथा द्वारिका जी की लीला सभी क्रम से वर्णित हैं। ब्रजलीला के अतर्गत १३२ छंदों में नखशिख का वर्णन करते हुए अंग-प्रत्यंगों के साथ साथ आभूषणादि शृंगार, हावभाव, सुकुमारता आदि विषय भी अत्यंत सुचारु रूप से कहा गया है। आठ पटरानियों के विवाह आदि का भी वर्णन अच्छी प्रकार किया गया है। महाभारत की कथा भी संक्षेप में आ गई है। १२० पदों में बलराम जी की यात्रा, इत्वलब्ध आदि वर्णित है। २७० दोहों तथा ८ कवित्तों में विदुर जी द्वारा नोति कहलाई गई है। ब्राह्मणों द्वारा २०० पदों में वेद, पुराण, दर्शन, स्मृति, आयुर्वेद आदि का सार दिया गया है। ७५० पदों में श्रीकृष्ण जी से ज्ञान तथा भक्ति पर उद्धव को उपदेश दिलाया गया है। इस ग्रंथ में रचनाकाल नहीं दिया गया है पर बा० राधाकृष्णदास ने लिखा है कि यह ग्रंथ १९०६ से १९०८ के बीच में लिखा गया है। पर यह ठीक नहीं है क्योंकि भारतेन्दु जी की 'लै ब्योड़ा ठाढ़े भए' इत्यादि दोहों की रचना उनके कम से कम पाँच वर्ष से अधिक अवस्था होने पर ही हुई होगी। भारतेन्दु जी का जन्म सं० १९०७ वि० में हुआ था इससे इस ग्रंथ की रचना सं० १९१२, १३ तक या बाद तक अवश्य होती रही होगी। इसकी हस्तलिखित प्रति सं० १९२७ की लिखी है। उदाहरण—

किधौं अनुराग राजधानी सरसानी चारु,

लताधौं प्रवाल की रसाल दरसात हैं ।

कुमकुम सिंधु किधौं रुद्र रस कोस वर ,

किधौं इन्द्र गोपका समूह सरसात है ॥

'गिरिधरदास' किधौं उजराज पाको चारु ,

मंगल की सेज रूप मंगल विभात है ।

किधौं कामिनी के कंठ मानिक जटितहार ,

बानिक परम परमानि कल खात है ॥

जमकी अनुजा दनुजारि-प्रिय जग जाके जपें सो लखे जमना ।

पटरानी अहै 'गिरिधारन' की बखि धारन पाय सकै जमना ॥

श्रुति गावत है महिमा महिजा समदान दया प्रज संजम ना ।

श्रुति स्याम सरूप सो संजमनी संजमनी समनी जमना ॥

१४—बुद्ध कथामृत—यह २५ पदों की एक छोटी सी पुस्तिका है । यह कार्तिक सुदी १३ को रचना है । संवत् नहीं दिया हुआ है पर १९०६ की रचना है ।

१५—कल्कि कथामृत—यह भी २५ पदों की छोटी पुस्तिका है । यह कार्तिक सुदी १४ को रची गई है । इसमें भी संवत् नहीं दिया है पर १९०६ ही की यह रचना है ।

१६—नहुष नाटक—भारतेन्दु जी ने लिखा है कि यह हिन्दी का पहिला नाटक है । यह अपूर्ण था पर जितना था उसका भी थोड़ा अंश बच गया है । वा० गदाधर सिंह कहते थे कि उन्होंने इस नाटक की पूरी प्रति कन्हैयालाल लेखक के यहाँ देखी थी और नवलकिशोर प्रेस जाकर वहाँ से गुप्त हो गई थी । सन् १८४१ ई० में जब भारतेन्दु जी नौ वर्ष के थे तभी यह नाटक लिखा गया था । इसका प्रथम अंक कवि वचन सुधा के पहिले वर्ष की एक संख्या में वा० राधाकृष्ण दास के संयोग से मिल गया था, जिसे उन्होंने प्रकाशित कर दिया था । इस नाटक में संस्कृत के चाल पर पद्य का आधिक्य है । केवल प्रस्तावना तथा प्रथम अंक ही में एकसठ पद है । सूत्रधार की बात ही को लेकर नाटक का आरम्भ होता है इसके प्रथम अंक में वृत्रासुर बध का वर्णन तथा इन्द्र को ब्रह्महत्या लगना दिखलाया गया है । गद्य की भाषा साधारण बाल चाल की है । उदाहरण—

कार्तिकेय—यह सुनि प्रनाम करि सब देवता दधीच पै जाय हाथ जोरि कहन लागे ।

“जय सुनि मंडल धरम घर पर उपकारक शार्ज ।

दीन बन्धु करुना सदन साधहु सुर को कार्ज ॥”

१७—गर्ग संहिता—संस्कृत गर्गसंहिता तथा अन्य ग्रंथों की कथाओं का सार लेकर इसकी रचना की गई है । यह गोलोक, वृन्दावन, गिरिवर, माधुरी,

मथुरा, द्वारावती, विश्वजित, हलधर और विज्ञान नामक नौ खंडों में विभक्त है। यह रामायण की चाल पर दोहों चौपाइयों ही में लिखा गया है। कहीं कहीं अन्य छन्द भी मिलते हैं। यह ग्रंथ सं० १९१४ के भाद्रपद कृष्ण १३ बुधवार को समाप्त हुआ था। इस ग्रंथ की बड़े आकार में तीसरे छपी हुई दूसरे और तीसरे खंड की एक प्रति भी देखने में आई जो सं० १९०५ में छपी थी। इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ग्रंथ सं० १९०५ में ही आरम्भ हो गया था। नवलकिशोर प्रेस द्वारा यह सम्पूर्ण ग्रंथ सन् १८९८ ई० में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ४७८ पृष्ठ हैं और प्रतिपृष्ठ में २४ पक्तियाँ हैं। उदाहरण—

गज सम बुंद लगे बरसावन । गरजि गरजि घन घोर मचावन ॥
 धार सकल सहतीर समाना । वात उदावत बिटप मकाना ॥
 तड़ तड़ तड़ित टूटि महि परई । अंबर मँह कठोर कड़ कडई ॥
 भयो भयंकर शब्द दिसन मे । सूक्ति व बूक्ति परै सो छन में ॥
 आरत है सिगरे ब्रजवासी । बदे कृष्ण चरन सुखरासी ॥
 तुम्हरे भाषे हम गिरिहिं, पूज्यो क्रतु कहँ त्यागी ।
 रच्छहु अत्र यह कोप ते, जाहिं कहाँ सब भागी ॥

१८—एकादशी माहात्म्य—आरम्भ में एकादशी व्रत किस प्रकार किया जाना चाहिए यह बतलाकर चौबीसों एकादशी बारह महीनों की तथा दोनों पुरुषोत्तम मास की एकादशियों की महिमा बतलाई गई है। यह कुल ग्रंथ रागों में है। यह ग्रंथ भारतेन्दु जी की आज्ञा से उनके मित्र कुँअर जाहरसिंह ने सं० १९२५ में आगरे में छपवाया था। यह कथा के पत्रों के आकार में ४६ पृष्ठों में है और प्रत्येक पृष्ठ में १० पक्तियाँ हैं। रचना-काल नहीं दिया गया है। उदाहरण—

बोले धरम सुनो यह बानी ।
 आसिन प्रथम एकादसि कहिगै 'गिरिधर लाल' जगत सुददानी ॥
 कहत स्याम है नाम इन्दिरा पितरन सरगदेव सुख खानी ।
 बाजपेय फल मिलात सुनन सों सो हम बरनत तुमहिं कहानी ॥

१६—प्रेम तरंग—यह पुस्तक मल्लिकचन्द्र और कम्पनी तथा ए० के० ब्रदर्स द्वारा प्रकाशित हुई है। ग्रंथ कर्ताओं में स्वर्गीय श्री बाबू गोपाल चन्द्र उपनाम गिरिधर दास जी तथा भागतेन्दु हरिश्चन्द्र का नाम दिया है। इसमें ६४ पृष्ठ और २६१ पद हैं, जिसमें बाबू गिरिधर दास के २३, बाबू हरिश्चन्द्र के २०४ और ३४ 'चन्द्रिका' उपनाम के हैं। अंतिम ३४ बँगला के हैं। इसकी एक और प्राचीनतर प्रति मिली है, जिसमें केवल १८० पद हैं। इसमें बँगला पद विलकुल नहीं है। उदाहरण—

तुम बिनु पतित पावन कौन ?
 तनकही सब दोष मेदौ सुनो राधा रौन ॥
 और सुर की करै पूजा तुमहिं सजि के जौन ।
 'दास गिरिधर' कूप खोदत गंग तट पर तौन ॥

२०—ककारादि सहस्रनाम—संस्कृत भाषा में कृष्ण-भगवान के एक सहस्रनामों का श्लोकबद्ध किया है जिनमें प्रत्येक नाम 'क' से आरंभ होता है। दो सौ दस श्लोक हैं। अंतिम दो श्लोक में रचना का समय आदि यों दिया है—

गिरिधरदासे नामि विरचितं कृष्णनामवरमणिभिः खचितं ।
 हारमिदं वहते यः कंठे तस्य रतिःस्यात् कौस्तुभकंठे ॥
 व्येष्टे मासि सिते पक्षे चतुर्दश्याम् रवौ दिने ।
 संपूर्णं भगवन्नाम सहस्रं केशवस्य तु ॥

इसमें संवत् नहीं दिया है पर जो छपी प्रति मेरे सामने है वह 'सं० १९०७ श्रावण कृष्ण पचम्यां चन्द्रवासरे' को सुधारकर यंत्रालय से प्रकाशित हुई थी।

२१—कीर्तन के पद—इसकी केवल एक हस्तलिखित 'रफ' प्रति मिली है, जिसमें ६२ पद हैं। इनमें परज, विहाग, भैरवी आदि अनेक राग-रागिनी हैं। ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली दोनों ही में पद रचे गये हैं। उदाहरण—

चोरी दही मही की करना, घर घर घूमना, हो जाल ।
 पर नारिन सों नेह लगाना, सुंदर गीत मनोहर गाना ॥
 यमुना तट ग्वालन को लेके जूमना, हो लाल ।
 मटुकी के कर टूक पटकना, अँचरा गहि गहि हाथ झटकना ।
 उम्ककि उम्ककि उर लाय लाय मूख चूमना, हो लाल ।
 'गिरिधरदास' कहै हम जाना, तुमने सुख इस ही में माना ।
 निडर होय गोकुल में झुकि झुकि झूमना हो लाल ॥

२२—मल्लार के पद—सं० १९१३ वि० की लिखी एक हस्तलिखित प्रति में मल्लारों के दो छोटे छोटे संग्रह हैं। एक में २८ और दूसरे में २४ पृष्ठ हैं। मल्लार राग ही के कीर्तन के पद इसमें विशेषतः संगृहीत हैं। उदाहरण—

देखो सखि पावस भूपति आयो ।
 फारे फारे घन, हाथी दल लीने ढंका गरजि बजायो ॥
 मोतीमाल धरे बकमाला घनगन जल बरसायो ।
 इन्द्रधनुष कर धनुष विराजत विजुरी सुहायो ॥
 दादुर मागधसूत पुकारत मोरन नाच नचायो ।
 हरी करी सगरी धरनी कहँ जीवन बास बसायो ॥
 नए नए पत्र तरुन को दीने रजगन धोय बहायो ।
 सूर तेज को लोपन कीनी ग्रीसम ताप नसायो ॥
 सीतलसखा समीर सुगंधित ब्रज जन पास पठायो ।
 गिरिधरदास पास प्रभु क्रीडन कारन आयो सब मन भायो ॥

२३—वसंत के कीर्तन—२३ पृष्ठ का छोटा सा संग्रह है। जिसमें वसंत ही के पद हैं। उदाहरण—

आनंदय विशदानंदकंद । अनिता वृन्दं श्रीनंदनंद ।
 कोमल विशाल यमुना तटेषु । हे वंशीधर वंशा बटेषु ॥
 कुसुमाकर घर कुसुमा करेषु, सौरभ संपन्न मनोहरेषु ।
 'गिरिधरदास' हृदये सदैव, कुरु सदन मंगल कृन्मुदैव ॥

२४—बहार-—बहार शब्द फारसी है जिसका अर्थ बसंत है । यह प्रायः पचास पृष्ठ के छोटे आकार का ग्रंथ है, जिसमें बसंत, काफी, भैरवी कई राग के पद हैं । उदाहरण—

नवल लाल सों नवल राधिका नव बसन्त ब्रज खेलैं हो ।
जमुना नवल नवल वृन्दावन नव अवीर रंग रेलैं हो ॥
नवल निकुंज नवल दुम डारै नव किंसुक अनुकूलै हो ।
नवल सखी अरु नवल सखा सब नवल सुनावत गारी हो ।
'गिरिधरदास, नवल जोरी पर तन मन धन बलिहारी हो ॥

भारतेन्दु जी की याददाश्त के आधार पर बा० राधाकृष्णदास ने जो सूची दी है उनमें से वाल्मीकि रामायण, एकादशी की कथा, छंदार्णव, नीति, अद्भुत रामायण, लक्ष्मी नखशिख, वार्ता संस्कृत, गयायात्रा, गयाष्टक, द्वादश दल कमल का मुझे कुछ भी पता नहीं मिला । इनमें से प्रथम ग्रंथ, कहा जाता है कि इन्होंने तेरह वर्ष की अवस्था ही में बनाया था, जिसका कुछ अंश वालाबोधिनी में छपा था । इसका एक दोहा यों है—

पति देवत कहि नारि कहँ और आसरो नाहिं ।
सर्ग सीढ़ी जानहु यही वेद पुरान कहाहिं ॥

दूसरी पुस्तक का नाम स्यात् भ्रमवश दोवारा लिख गया है । चौथी पुस्तक 'नीति' का बा० राधाकृष्ण जी ने जो उदाहरण दिया है वह बलराम कथामृत में विदुर-द्वारा कथित नीति से लिया गया है पर भारतेन्दु जी का उससे तात्पर्य नहीं है । यह वाला-बोधिनी में प्रकाशित हुई थी, जिसका शीर्षक 'नीति विषयक इतिहास' रखा गया है । यह हितोपदेश का अनुवाद है । इसकी भाषा बड़ी ही सरल प्रौढ़ तथा विषय के अनुकूल ही है । उदाहरण—

इमि बक कीनी दुष्टता वृथा कलह अज्ञान ।
गयो हंस को राज सब पर पच्छी सनमान ॥
जो पर पच्छी पुरुष को मनुज करत विस्वास ।
सो पावत हुत नास है जानहु गिरिधर दास ॥

पूर्वोक्त रचनाओं के सिवा संकर्षणाष्टक, रामाष्टक, कालियकालाष्टक, दनुजारिस्तोत्र, रामस्तोत्र, शिवस्तोत्र, गोपालस्तोत्र, राधास्तोत्र, भगवतस्तोत्र और बारहस्तोत्र दस स्तुतियों का संग्रह कवि लक्ष्मीरामकृत संस्कृत टीका सहित बा० राधाकृष्णदास जी को मिला था, पर उन्होंने उनमें से किसी का एक भी उदाहरण नहीं दिया है। इस प्रकार यद्यपि अब प्रायः इनकी सभी रचनाओं के नाम मिल गये हैं पर केवल आधे के लगभग ग्रंथों का विवरण स्वयं देखकर दिया जा सकता है।

हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका (सन् १९७८ दिसम्बर की संख्या) में चालीस पद का एक संग्रह, जिनमें सवैया, कवित्त, छप्पय, तथा कुंडलियाँ ही हैं, प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार देखा जाता है, इनकी कविताएँ इधर उधर पड़ी हुई हैं और इनके धनाढ्य उत्तराधिकारियों में से आज तक किसी ने भी उनका उद्धार करना अपना कर्तव्य नहीं समझा, केवल 'अपव्ययी' भारतेन्दु जी ही जो कुछ कर सके थे वही अब तक हुआ है। पूर्वजों के धन बाँटने तथा यश के सामी होने में सभी आगे बढ़े रहते हैं पर उनकी कीर्ति को रक्षा के लिये एक पाई व्यय करना घर फूँकना समझते हैं।

बाल्यकाल-पर्यटन

पुण्यतोया भागीरथी के तट पर स्थित पवित्र विश्वनाथपुरी काशी में भाद्रपद शु० ५ ऋषि पचमी सं० १९०७ (९ सितम्बर सन् १८५० ई०) को सोमवार के दिन प्रातःकाल भारतेन्दु वा० हरिश्चन्द्र ने अवतीर्ण होकर हिन्दी-साहित्य के गगनांगण की द्वितीया के चन्द्र के समान शोभायमान किया था । वा० गोपालचन्द्र का पुत्र होकर जाते रहते थे इसलिए भारतेन्दु जी की माता अपने मायके शिवाले चली गईं थीं और वहीं नानिहाल में इनका जन्म हुआ था । इनकी माता इन्हे पाँच वर्ष की अवस्था का और पिता दस वर्ष की अवस्था का छोड़कर परलोक सिधारे थे । इसी बीच इतनी छोटी अवस्था ही में इन्होंने अपने पिता से महाकवि को अपनी चंचल प्रतिभा से विस्मित कर दिया था । एक बार 'वलराम कथामृत' की रचना के अवसर पर यह भी पिता के पास जा बैठे और पिता से स्वयं कविता बनाने की बड़े आग्रह से आज्ञा माँगने लगे । पिता ने बड़े प्रेम से आज्ञा देते हुए कहा कि 'तुम्हें अवश्य ऐसा करना चाहिए ।' कहते हैं कि वा० हरिश्चन्द्र जी ने उसी समय निम्नलिखित दोहा बनाया ।

तै व्योँदा ठढ़े भए श्री अनिरुद्ध सुजान ।

वायासुर की सेन को हतन लगे भगवान ॥

वा० गोपालचन्द्र जी ने बड़े प्रेम से पुत्र के उत्साह को घटाने के लिये इस दोहे को अपने ग्रन्थ में स्थान दिया और कहा कि 'तू मेरा नाम बढ़ायेगा'

इसी प्रकार एक दिन बा० गोपालचन्द्र जी के स्वरचित 'कच्छप कथामृत' के एक सोरठे की व्याख्या उन्हीं के सभा के कई कवियों में हो रही थी। भारतेन्दु जी भी उसी समय वहीं आ बैठे और सब की बातों को सुनते हुए अंत में एकाएक बोल उठे कि 'बाबूजी हम अर्थ बतलाते हैं। आप वा (उस) भगवान का जिस वर्णन करना चाहते हैं, जिसको आपने कछुक छुवा है अर्थात् जान लिया है।' इन नई उक्ति को सुनकर पिता तथा सभासदगण चमत्कृत हो उठे और इनकी बहुत प्रशंसा करने लगे। सोरठे की प्रथम पंक्ति यो है—

करन चहत जस चारु कछु कछुवा भगवान को ।

इसी प्रकार एक बार जब इनके पिता तर्पण कर रहे थे तब इन्होंने प्रश्न किया था कि 'बाबू जी, पानी में पानी डालने से क्या लाभ ?' धार्मिक प्रवर बा० गोपालचन्द्र ने सिर ठोका और कहा कि 'जान पड़ता है तू कुल बोरेगा'। बचपन की साधारण अनुसंधानकारिणी बुद्धि का यह एक साधारण प्रश्न था, जो इनके जीवन में बराबर विकसित होती गई थी। यह धार्मिक तथा सामाजिक सभी प्रश्नों के तथ्य निर्णय में दत्तचित्त रहते थे। इनके पिता का अभिशाप भी इनमें धार्मिक श्रद्धा की कमी होना बतला रहा है न कि जैसा बा० राधाकृष्ण जी ने लिखा है कि 'देव तुल्य पिता के आशीर्वाद और अभिशाप दोनों ही एक एक अश में यथासमय फलीभूत हुए अर्थात् हरिश्चन्द्र जैसे कुल-मुखोज्वलकारी हुए वैसे ही निज अतुल पैतृक संपत्ति के नाशकारी भी हुए।' तर्पण में विश्वास न रखना धार्मिक अश्रद्धा है। धन से धर्म में बहुत विभिन्नता है, दोनों के मार्ग भिन्न हैं। जो धन ही से धर्म समझता है उसके लिए दोनों एक हैं। भारतेन्दु जी के धर्म तथा समाज के सम्बन्ध में कैसे विचार थे यह अलग लिखा गया है।

भारतेन्दु जी का मुंडन संस्कार अल्पावस्था ही में हुआ था और जब यह तीन वर्ष के थे तभी इनको कंठी का मंत्र दिया गया था। जब इनकी अवस्था नव वर्ष की थी तभी सुप्रसिद्ध विद्वान पं० घनश्याम जी गौड़ ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और वल्लभ संप्रदाय के गोस्वामी श्री ब्रज-

लाल जी महाराज ने इन्हे गायत्री मंत्र का उपदेश दिया । इस उत्सव में मह-
फिल और जेवनार की बड़े समारोह से तैयारी हो रही थी कि वा० गोपाल-
चन्द्र जी का स्वर्गवास हो गया, जिससे जेवनार के लिये बनी हुई कुल
मिठाई आदि दीन दुःखियों में वितरित कर दी गई । भारतेन्दु जी उनकी मृत्यु
के समय का वृत्तांत इस प्रकार कहा करते थे कि 'पिता जी की वह मूर्ति
अब तक मेरी आँखों के सामने विराजमान है । तिलक लगाए बड़े तकिए के
सहारे बैठे थे । दिव्य काँति से मुखमंडल देदीप्यमान था । देखने से कोई रोग
नहीं प्रतीत होता था । हम दोनों भाइयों को देखकर उन्होंने कहा कि शीतला
ने वाग मोड़ दी है । अच्छा, अब ले जाओ ।'

शिक्षा इनकी वाल्यावस्था ही से आरम्भ हो गई थी और पं० ईश्वरी-
दत्त ही शुरू में इन्हे पढ़ाते थे । मौलवी ताजअली से कुछ उर्दू पढ़ा था और
अंग्रेजी की आरंभिक शिक्षा इन्हे पं० नंदकिशोर जी से मिली थी । कुछ दिन
इन्होंने ठठेरी बाजारवाले महाजनी स्कूल में तथा कुछ दिन राजा शिवप्रसाद
जी से शिक्षा प्राप्त की थी । इसी नाते यह उनको गुरुवर लिखते थे । पिता
की मृत्यु पर यह क्वीन्स कॉलेज में भर्ती किए गये और समय पर वहाँ जाने
भी लगे । इनकी प्रकृति स्वतंत्रता प्रिय थी । पिता की मृत्यु हो जाने से यह
और भी स्वच्छंद हो गये थे । माता थी ही नहीं, अब यह और किसका
सुनते ? विमाता तथा भृत्यों के कथन पर यह क्यों ध्यान देने लगे थे ? इस
कारण इनको शिक्षा अधूरी रह गई । पढ़ने में कभी मन नहीं लगाया पर
प्रतिभा विलक्षण थी इसलिये पाठ एक बार सुनकर ही याद कर लेते थे और
जिन परीक्षाओं में इन्होंने योग दिया उनमें उत्तीर्ण भी हो गये । इस प्रकार
दो तीन वर्ष अंग्रेजी तथा संस्कृत का शिक्षाक्रम चलकर रुक गया । कॉलेज में
पान खाना मना था, इसलिये तांबूलप्रेमी भारतेन्दु जी रामकटोरा के तात्लाव
में कुल्ला कर क्लास में जाते थे । उस छात्रावस्था में भी कविता का शौक था
और उस समय की रचनाएँ प्रायः सभी शृंगार रस की थीं । सं० १९२० के
अग्रहन महीने में भारतेन्दु जी का विवाह शिवाले के रईस लाला गुलावराय
की पुत्री श्रीमती मनोदेवी से बड़े समारोह के साथ हुआ था । यह भारत की

प्रायः बीस पच्चीस भाषा जानते थे और उनको इन्होंने किस प्रकार सीखा था इसका एक नमूना यह है कि 'ग्यारह वर्ष की अवस्था में हम जगन्नाथ जी गए थे। मार्ग में वर्द्धमान में विधवा विवाह नाटक बंग भाषा में सोल लिया, सो अटकल ही से उसको पढ़ लिया।' यह स्वाभाव ही से हठी, चंचल तथा क्रोधी थे। माता की मृत्यु पर इनके लालन पालन का भार इनकी एक दाई कालीकदमा और एक नौकर तिलकधारी पर था। मुड़ेरों, तथा वृत्तों, चलती गाड़ियों पर चढ़ने कूदने का ऐसा शौक था कि अपने प्राण की भी परवाह न करते। एक बार पंचक्रोशी करते हुए कँदवा से जो दौड़े तो दो तीन कोस पर भीमचडी पहुँचकर दम लिया। इन्हे बाल्यावस्था में दूध पीना बड़ा बुरा मालूम होता था और जब कालीकदमा इनसे दूध पीने को कहती तो आप उसे फुर्ती फुर्ती गाली देते थे कि आधी गाली पेट ही में रह जाती थी और आधी निकल पड़ती थी। ऐसा उनके उग्र क्रोध के कारण होता था पर वे इन दोनों का बराबर सम्मान करते थे। गालियों में फास्फोरस से ऐसे चित्र बना देते थे कि रात्रि को लोग देखकर डर जाते थे।

इनके शिक्षा क्रम का प्रधान बाधक इनकी जगदीश यात्रा हुई जो घर की स्त्रियों के विशेष आग्रह से करना आवश्यक हो गया था। सं० १९२२ वि० में ये सपरिवार जगन्नाथ जी गए। इस सवत् में कुछ शंका है क्योंकि इसमें भारतेन्दु जी का पन्द्रहवाँ वर्ष पूर्ण होता है। उस समय काशी से पुरी तक बराबर रेल नहीं गई थी और इसलिए इतनी लंबी यात्रा के पहिले सभी संबंधी इष्ट मित्र मिलने आया करते थे। जब इन लोगो का डेरा नगर के बाहर पड़ा तब सभी लोग मिलने आने लगे। उनमें एक महापुरुष भी आए थे जो बाल्यकाल लाँघ कर युवा होते हुए अमीरो के पितृहीन पुत्रो तथा बिगड़े हुए रईसो के परम हितैषी थे। इन्होंने बा० हरिश्चन्द्र जी को विदा होते समय दो अशर्फियाँ दी और इनके इस देने का अर्थ पूछने पर आपने यह फर्माया कि 'आप लड़के हैं' इन भेदो को नहीं जानते, मैं आपका पुश्तैनी नमकखवार हूँ, इसलिए इतना कहता हूँ। मेरा कहना मानिए और इसे पास रखिए। काम लगे तो खर्च कीजिएगा नहीं तो फेर दीजिएगा। मैं क्या आप से कुछ

माँगता हूँ । आप जानते ही हैं कि आपके यहाँ बहूजी का हुक्म चलता है । जो आपका जी किसी चीज को चाहा और उन्होंने न दिया तो उस समय क्या कौजिएगा ? होनहार प्रबल था, ये उसकी बातों में आ गए और गिन्नियाँ रख लीं । एक ब्राह्मण समवयस्क को इन्होंने अपना खजांची बना दिया । अस्तु, इस प्रकार मिलने-जुलने के बाद यात्रा आरंभ हुई ।

ऋण लेने की आदत, लोगों का कथन है, कि इनमे इसी समय से पैदा हुई पर भारतेन्दु जी ने स्वयं इस विषय पर एक याददाश्त में कुछ और ही लिखा है, जिसका सारांश यह है कि एक बार बुढ़वामंगल के अवसर पर एक आदमी लालचन्द्रजोति कलकत्ते से लाया था । यह भी घर की नाव पर मेला देखने गये थे । इन्होंने चार रुपये की बुकनी जला डाली । मुनीब ने उसके रुपये नहीं दिए और इनको विमाता जी ने भी यह वृत्तान्त सुनकर रुपये न देने की आज्ञा दे दी । इन्होंने एक दिन भोजन भी नहीं किया पर वहाँ किसे परवाह थी, माता-पिता चल ही दिये थे । अतः में इन्होंने लाचार होकर किसी से चार रुपये ऋण लेकर उसे चुकाया था ।

उस समय तक काशी से रानीगंज तक ही रेल गई थी, इसलिए उसके बाद बैलगाड़ियाँ तथा पालकियाँ ठीक कर ये लोग आगे बढ़े । वर्धमान पहुँचने पर ये किसी बात पर अपनी विमाता से रुष्ट हो गये और घर लौट जाने की धमकी दी । किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे लोग जानते थे कि इनके पास राह खर्च के लिये नगद है कहाँ ? कि वे घर लौटेंगे । इधर इन्होंने अपने खजांची को साथ लिया और अशर्फी भुनाकर स्टेशन जा पहुँचे । जब यह समाचार ज्ञात हुआ तब इनके छोटे भाई साहब इन्हें लौटा लाने को भेजे गये । छोटे भाई को देख कर ये फिर लौट आए पर यात्रा मे ये भुनी हुई अशर्फियाँ व्यय हो गईं और इन्हीं के सूद आदि मे हैंडनोट अदलवदल कराते उस पुराने हितैषी के हाथ में इनकी दसपन्द्रह हजार की एक हवेली चली गई ।

पूर्वाक्त दोनों घटनाओं से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इन पर इनकी

विमाता का विशेष प्रेम नहीं था। साधारण गृहस्थों के बालक भी किसी समय यदि रुपये दो रुपये की चीज़ लेकर तोड़फोड़ डालने हैं तो उनके माता-पिता उन्हें ताड़ना देते हुए भी उसका मूल्य अवश्य दे देते हैं और इन बालकों को ऋण लेने के लिये कभी बाध्य नहीं करते। उसी प्रकार दूसरी घटना में कोई माता-पिता अपनी संतान को, यह जानकार भी कि उसके पास धन नहीं है, काशी से इतनी दूर वर्धमान के डेरे से जरा भी दूर बाहर नहीं जाने देगा पर यहाँ जब वे रानीगंज स्टेशन पहुँच गए और उनके पास रुपये होने की खबर मिली तब भाई साहब मिलने के लिये आए। यह स्वभावतः देखा जाता है कि सभी माता-पिता का अपनी संतानों पर समान रूपेण स्नेह नहीं होता और माता का तो प्रायः छोटी संतान ही पर होता है तब किसी विमाता में अपने पति के बड़े पुत्र पर कम स्नेह होना कुछ अस्वाभाविक नहीं है।

जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए वहाँ सिंहासन पर भोग लगाने के समय भैरव मूर्ति का बैठाना देखकर भारतेन्दु जी ने इसको अप्रामाणिक सिद्ध किया और अंत में वहाँ से भैरव-मूर्ति हटवा ही कर छोड़ा। इसी पर किसी ने 'तहकीकात पुरी' लिखा, तब आपने उसके उत्तर में 'तहकीकात पुरी की तहकीकात, लिख डाला।

जगदीश-यात्रा से लौटने पर 'संवत् शुभ उनईस सत बहुरि तेइसा मान' में यह बुलंद शहर गए। इसके अनंतर यह फिर एक बार बुलंद शहर गए थे, क्योंकि वही से इनके भ्रातृपुत्र बा० कृष्णचन्द्र को लिखी गई इनकी एक चिट्ठी मिली है जो स्यात् भारतेन्दुजी की मृत्यु के कुछ ही पहले की है। बा० कृष्णचन्द्र जी, का जन्म सं० १९३६ के फाल्गुन में हुआ था और वे जब कुछ बातचीत करने योग्य हुए होंगे तभी उन्हें यह पत्र लिखा गया होगा। यह पत्र अविकल यहाँ उद्धृत किया जाता है—चिरंजीव, श्रीकृष्ण, प्यारेकृष्ण, राजाकृष्ण, बाबूकृष्ण, आँखों की पुतली। तुम्हारा जी कैसा है? सर्दी मत खाना, रसोई रोज खाते रहना। तुमको छोड़ कर हमारा अखितयार होता तो क्षण भर भी बाहर नहीं जाते! क्या करे, लाचारी से भख मारते हैं। कृष्ण!

तुम्हारा अभी कोमल स्वच्छ चित्त है। तुम हमारे चित्त को ध्यान से जान सकते किन्तु बुद्धि और बाणी अभी स्फुरित नहीं है। इससे तुम और किसी पर उसे प्रकट नहीं कर सकते हो। परमेश्वर के अनुग्रह से उसकी उस स्वाभाविक कृपा से जो आज तक इस वंश पर है, तुम चिरंजीव हो। तुम्हारे में उत्तम गुण हो। हम इस समय बुलंद शहर में हैं। आज कुचेसर जायेंगे। इसके एक एक अक्षर से सच्चा प्रेम टपकता है पर साथ ही कुछ और भी ध्वनित कर रहा है। संक्षेपतः वह यही है कि इनका चित्त घर के लोगों से बहुत दुखी था। सं० १९२८ वि० मे यह फिर यात्रा करने निकले और इस वार—

प्रथम गए चरणाद्रि कान्हपुर को पग धारे ।
 बहुरि लखनऊ होइ सहारनपुर सिधारे ॥
 तहँ मन्सूरी होइ जाइ हरिद्वार नहाए ।
 फेर गए लाहौर सुपुनि अम्बरसर आए ॥
 दिल्ली दे ब्रजवसि आगरा देखत पहुँचे आय घर ।
 तैतीस दिवस में यातरा यह कीन्ही हरिचन्द्र वर ॥

इसके छः वर्ष बाद सं० १९३४ मे यह पहिले पुष्कर यात्रा करने अजमेर गये और वहाँ से लौटने पर उसी वर्ष हिन्दीवर्द्धिनी सभा द्वारा निमंत्रित होकर प्रयाग गए। हिन्दी की उन्नति पर एक ही दिन में अट्टानवे दोहे का एक पद्य-चन्द्र व्याख्यान तैयार कर उक्त सभा के अधिवेशन मे पढ़ा था। इसमें ऐक्य, स्त्री-शिक्षा, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार आदि सभी पर कुछ न कुछ कहते हुए 'निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल' स्पष्ट किया गया है। यह लेखर आज भी प्रत्येक देश तथा मातृभाषा-प्रेमी के लिये पठनीय है। इसके अनंतर सन् १८७९ ई० के दिसंबर मास मे यह 'इन सब बातों की मानो कसौटी सरीखे' मान्य होने के कारण प्रयाग पुनः निमंत्रित होकर गए थे। वहाँ कि आर्य-नाट्य सभा ने लाला श्री निवासदास कृत 'रणधीर और प्रेम मोहिनी' की अभिनय ६ दिसंबर को सफलतापूर्वक किया था तथा नाटक-कार महोदय भी दिल्ली से पधारे थे।

सं० १९३६ में भारतेन्दु जी ने सरयूपार की यात्रा की। 'इतना ही धन्य माना कि श्री रामनवमी अयोध्या में कटी।' यहाँ से हरैया बाजार, बस्ती और मेहदावल होते हुए गोरखपुर गए तथा वहाँ से घर लौट आए। इस यात्रा का वर्णन हरिश्चन्द्र चन्द्रिका खंड ६ सं० ८ में प्रकाशित हुआ है, जिसके पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। कैसा सजीव विनोदपूर्ण विवरण है। इसी साल यह जनकपुर गए। रेलयात्रा के कष्ट तथा आराम का मनोहर वर्णन किया है। सीता वल्लभस्तोत्र तथा अन्य कुछ पद इसी अवसर पर बनाए थे। एक पद यो है—

जयति जयति जय जनक लली ।
 मिथिलापुर-मंडनि महरानी निमिकुल-कमल-कली ॥
 जगस्वामिनी अभिरामिनी भामिनि सब ही भाँति भली ।
 'हरीचंद्र' जा सुख-कमलन पर लोभ्यो राम श्रली ॥

दूसरे वर्ष सं० १९३७ में यह महाराज काशिराज के साथ वैद्यनाथ जी की यात्रा को गये। इस का बहुत ही सुंदर वर्णन हरिश्चन्द्र चन्द्रिका और मोहन-चन्द्रिका के खंड ७ में प्रकाशित हुआ है। वहाँ के मंदिर की प्रशस्तियों की प्रतिलिपि तथा मंदिर—विषयक दंत-कथा भी छपी है। इसका विवरण भी बड़ा ही रोचक है। पाठको के लिए कुछ अश उद्धृत किया जाता है—

“बादल के परदों को फाड़ फाड़ कर उषा देवी ने ताक भाँक आरम्भ कर दी। परलोक गत सज्जनों की कीर्ति की भाँति सूर्यनारायण का प्रकाश पिशुन मेघों के बागाडम्बर से घिरा हुआ दिखलाई पड़ने लगा। प्रकृति का नाम काली से सरस्वती हुआ। ठंडी ठंडी हवा मन की कली खिलती हुई बहने लगी। दूर से धानी और काही रंग के पर्वतों पर सुनहरापन आ चला। कहीं आधे पर्वत बादलों से घिरे हुये, कहीं एक साथ वाष्प निकलने से उनकी चोटियाँ छिपी हुई और कहीं चारों ओर से उन पर जलधारा पात से बुक्के की होली खेलते हुए बड़े ही सुहावने मालूम पड़ते थे। पास से देखने से भी पहाड़ बहुत ही भले दिखलाई पड़ते थे। काले पत्थरों पर हरी हरी घास और

जहाँ तहाँ छोटे-बड़े, पेड़, बीच बीच में मोटे पतले भरने, नदियों की लकीरें, कहीं चारों ओर से सघन हरियाली, कहीं चट्टानों पर ऊँचे नीचे अनगढ़ ढाँके और कहीं जलपूर्ण हरित तराई विचित्र शोभा देती थी। अच्छी तरह प्रकाश होते होते तो वैद्यनाथ के स्टेशन पर पहुँच गए।”

सं० १९३९ वि० में भारतेन्दुजी उदयपुर गए। पत्थर के रोड़े, पहाड़, चुङ्गी, चौकी तथा ठगी को उस समय के मेवाड़ का पंचरत्न बतलाया है। गणेश गाड़ीवान तथा बैलगाड़ी पर पद्यमय व्यंग्योक्ति की है—

नहिं विद्या नहिं बाहुबल नहिं खर्चन को दाम ।
श्री गणेश त्रिन शुंड के तिनको कोटि प्रनाम ॥
हिलत डुलत चलत गाड़ी आवे ।
झुलत सिर, डुटत रीढ़, कमर भोंका खावै ॥
दख दख दिख हचर मचर शिष खस धस चैं चूँ चूँ टन ।
दिन दिन हड़ड़ हड़ड़ धड़ धड़ घिड़ावै ॥

चल चल कहे गाड़ीवान चाबुक हते पोंछ पेंठ भारत सम बैल तनिक नहिं धावै ॥

“काशी वासी परम प्रसिद्ध बा० श्री हरिश्चन्द्र जी राजपुताने की यात्रा करते करते ता० १८ दिसंबर को आर्य लोगों की अक्षत राजधानी उदयपुर में पहुँचे और अपने परम प्रिय मित्र पं० मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के स्थान पर उतरे। उक्त बाबू साहब का उदयपुर में रहना एक सप्ताह के लगभग हुआ और वे कविराज श्री श्यामलदास जी के द्वारा श्रीमान् यावदार्य कुल दिवाकर के चरण-कमलों तक पहुँचे। एक दिन श्री अधीश ने उक्त बाबू साहब को जगन्निवास के महलो में याद किया था। वहीं काव्यशास्त्र संबन्धी प्रसंग आने पर दो समस्या तो कवि जयकरण जी ने और दो समस्या वारेट कृष्णसिंह जी ने और तीन समस्या श्रीमान् अधीश ने पूर्ति करने को दी कि उक्त बाबू ने वहाँ ही निम्नलिखित प्रत्येक समस्या के प्रत्येक छंद की चार चार मिनट के समय में पूर्ति की थी। श्रीमान् यावदार्य कुलदिवाकर ने विदा में बाबू साहब को ५०० का खिलत दिया। उक्त बाबूसाहब ता० २४ दिसम्बर को उदयपुर से चित्तौड़ को खाना हुये।” भारतेन्दु जी ने महाराणा साहब की

समस्याओं की दो दो और अन्य सज्जनों की एक एक पूर्तियाँ की थी। उनमें से कुछ यहाँ उद्धृत की जाती हैं।

समस्या

१ समस्या (आम्रान्योक्ति) कवि जयकरण जी की।

आसी ना तिहारे ये निवासी कल्पतरु के।

राधा श्याम सेवै सदा वृन्दावन वास करें, रहें निहर्चित पद आस गुस्वर थे।
चाहें धन धाम ना आराम सों है काम, 'हरिचन्द जू' भरोसे रहें नन्द राय घर के ॥
परे नीच धनी हमें तेज तू दिखावै कहा, गज परवाही नाहिं होहिं कब्रौं खर के।
होइ लै रसाल तू भलेई जग जीव काज, आसी ना तिहारे ये निवासी कल्पतरु के ॥

२—समस्या बारेट कृष्णसिंह जी की,

जैसी मधुराई भूप सज्जन की भाषा मे।

जो ही एक बार सुनै मोहै सो जन्म भरि, ऐसो ना असर देख्यो जादू के तमासा में।
अरिहु नवावै सीस छोटे बड़े रीझें सब, रहत मगन नित पूर होइ आशा में ॥
देखी ना कबहुँ मिसरी मैं मधुहू में ना, रसाल ईख दाख मैं न तनिक बतासा में।
अमृत मैं पाई ना अधर मैं सुरांगना के, जेती मधुराई भूप सज्जन की भाषा में ॥

३—समस्या श्री दरबार की

(चन्द्रमा के वर्णन मे) नवलवधू के मानों पायन परत सो।

वृन्दावन सोभा कछु बरनि न जाय मोपै, बीर जमुना को जहँ सोहै लहरत सो।
फूले फूल चारों ओर लपटै सुगन्ध तैसो, मन्द गंधवाह निज तापहि हरत सो ॥
चाँदनी मैं कमल कली के तरें बार बार, 'हरिचन्द' प्रतिबिम्ब नीर माहिं बगरत सो।
मान के मनाइवे को दौरि दौरि प्यारो आज, नवल वधू के मानो पायन परत सो ॥

४—असोक की छाँह सखी पिय पेख्यौ।

रैन में ज्योंही लगी रूपकी, त्रिजटे सपने सुभ कौतुक देख्यौ।

लै कपि भालु अनेकन साथ, मैं तोरि गढ़ै चहुँ ओर परेख्यौ ॥

रावन मारि बुलावन मो कहँ, सानुज में अब हीं अवरेख्यौ।

सोक नसावत आवत आजु, असोक की छाँह सखी पिय पेख्यौ ॥

इसी अवसर पर भारतेन्दु जी ने प्रातःस्मरणीय महाराणा साँगा तथा प्रतापसिंह के वंशधर इन सूर्यवंशावतंस श्री सज्जनसिंह जी की सूर्य भगवान से तुलना करते हुए तेरह दोहे लिखे थे । दो तीन यहाँ दिए जाते हैं—

यदपि दिवाकर वंस में प्रगटे परम प्रसंस ।
 तदपि गुनन में सुनन में बाहू के अवतंस ॥
 दिन प्रकास अवकास है रजनी निलय निवास ।
 सकल समय भय सों रहित नयसों सहित विलास ॥
 उत अँधेर चारों पहर इत चहुँ जाम प्रकास ।
 इहाँ एक रस रहत है महत मरीच सवास ॥

सं० १८४१ वि० में (नवम्बर सन् १८८४ ई०) यह व्याख्यान देने के लिये वलिया निमंत्रित होकर गए थे । व्याख्यान के विज्ञापन में यह 'शाअरे मारूफ बुलबुले हिन्दुस्तान' लिखे गए थे । वलिया इन्स्टीट्यूट में ५वीं नवम्बर को तत्कालीन वहाँ के कलेक्टर के सभापतित्व में यह व्याख्यान बड़े समारोह से हुआ था । इसी उपलक्ष में सत्य हरिश्चन्द्र तथा नीलदेवी के अभिनय भी हुए थे । भारतेन्दु जी उसमें स्वयं उपस्थित थे और सूत्रधार द्वारा इनका नामोल्लेख होने पर दर्शकगण आकाशभेदी करतल-ध्वनि करने लगे । इससे विदित होता है कि इस प्रांत में बाबू साहब कैसे सर्वजन प्रिय हैं और लोग इनका कितना सम्मान करते थे । इस व्याख्यान का शीर्षक था--भारतवर्ष का कैसे सुधार होगा । आरम्भ में देश की दुर्दशा वर्णन कर स्त्री-शिक्षा, देशी वस्तु तथा विधवा विवाह के प्रचार का और बाल-विवाह आदि रोकने का उपदेश दिया है । व्याख्यान का अंत यों किया है कि 'जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताव पढ़ो, जैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बात चीत करो, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रक्खो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो ।'

इन स्थानों के सिवा यह डुमराँव, पटना, कलकत्ता, प्रयाग, हरिहरक्षेत्र आदि स्थानों को भी प्रायः जाया करते थे ।

आकृति और स्वभाव

रचनाओं पर रचयिता के शारीरिक तथा मानसिक विकारादि की छाया पूर्ण रूपेण रहती है। एक ही दृश्य का स्वस्थ तथा अस्वस्थ पुरुष पर दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है। प्रकृत्या भी यही हाल है। कंजूस विचार का आदमी उदार पुरुष के समान अपव्यय को सुव्यय नहीं मान सकता। घीहरे की ओर मुख कर खाते हुए घी का स्वाद लेनेवाला उदार पुरुषों की तरह क्या किसी वस्तु का दान कर सकता है। वह तो दूसरों को दान करते देखकर छाती कूटता है। प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव की प्रतिकृति उसके दिन रात्रि के कृत्यों ही पर जब पड़ती रहती है तब उसकी साहित्यिक रचनाओं पर अवश्य ही पड़ेगी। यही कारण है कि मननशील पाठकगण लेखकों की शारीरिक बनावट तथा उनके स्वभाव आदि से परिचित होना आवश्यक समझते हैं क्योंकि उसी हालत में वे उसकी रचनाओं को पूरी तरह समझ सकते हैं।

भारतेन्दु जी कद के कुछ लम्बे थे और शरीर से एकहरे थे, न अत्यंत कृश और न मोटे ही। आँखें कुछ छोटी और धँसी हुई सी थी तथा नाक बहुत सुडौल थी। कान कुछ बड़े थे, जिनपर घुँघुराले बालों की लटें लटकती रहती थीं। ऊँचा ललाट इनके भाग्य का द्योतक था। इनका रंग साँवलापन लिए हुये था। शरीर की कुल बनावट सुडौल थी। इनके इस शारीरिक सौन्दर्यपूर्ण मूर्ति का इनसे मिलनेवालों के हृदय पर उतना ही असर होता था जितना इनके मानसिक सौंदर्य का। इनके समय के कई वृद्धजन कहते हैं कि उनको उस समय लोग 'कलियुग के कंधैया', कहा करते थे। पं० अंबिकादत्त व्यास 'विहारी विहार' में लिखते हैं कि 'दूर से लोग इनकी मधुर कविता सुन आकृष्ट होते थे और समीप आ मधुर श्यामसुन्दर घुँघुरारे बालवाली मधुर मूर्ति देखकर बलिहारी होते थे और वार्तालाप में इनके मधुर भाषण, नम्रता और शिष्ट व्यवहार से वशम्बद हो जाते थे।' भोजन में इनकी रुचि विशेषतः निमकीन वस्तु की ओर अधिक थी। मिष्ठान्न में भी सोंधी चीज़ ही इन्हे प्रिय थी। फल पर भी इनका विशेष प्रेम था, पान खाने का इन्हे व्यसन सा

था। एक बार जल्से की एक बैठक में आपने सात सौ चौहरा पान खाया था। इनके पान में गुलाब जल या केवड़ा जल अवश्य पड़ता था और हर समय यह पान खाया ही करते थे। इनके मित्रगण कहते थे कि जिस समय यह बात-चीत करते थे उस समय यह ज्ञात होता था कि गुलाब या केवड़े का भभका खुला हुआ है अर्थात् उनके मुख से बहुत ज्यादा सुगंध निकलता करती थी।

शील और दान

यह स्वभाव ही से अत्यंत कोमल हृदय थे। किसी के कष्ट की कथा सुन कर ही उस पर इनकी सहानुभूति हो जाती थी चाहे वह वस्तुतः भूठी मक्कारी ही क्यों न हो। यह दुख-सुख दोनों ही में प्रसन्न रहते थे और कभी क्रोध करते ही न थे। क्रोध आता भी था तो उसे शांति से दवा लेते चाहे फिर वह उस क्रोध के पात्र से भाषण भी न करे। यह स्वभावतः नम्र थे पर किसी के अभिमान दिखलाने पर वे उसे सहन नहीं कर सकते थे। वे स्वतः कभी किसी से अपनी अमीरी, दातव्यता, काव्य-शक्ति आदि गुणों का अभिमान नहीं दिखलाते थे और सभी छोटे-बड़े से समान रूप से मिलते थे। कोई इनका कितना भी नुकसान करे पर यह कुछ न कहते थे, घरन् अन्य लोगों के उसकी भत्सर्ना करने पर यह टोक देते थे। एक सज्जन, जो स्यात् अभी तक जीवित हैं प्रायः इनकी कुछ न कुछ वस्तु अवसर पाते ही लेकर चल देते थे। पकड़े जाने पर लोग उनकी दुर्गति करते थे और बाबू गोकुलचन्द्र उनकी ड्योढ़ी भी वंद कर देते थे पर वह महापुरुष जब भारतेन्दु जी बाहर से घर आने लगते तब वह साथ ही लगे हुए चले आते। ऐसा बीसों बार हुआ तब भारतेन्दु जी ने भाई साहब से कहा कि 'भैया, तुम इनकी ड्योढ़ी न वंद करो, यह शरुस कद्र करने योग्य हैं, इसकी बेहयाई है कि इसे कलकत्ता के अजायबखाने में रखना चाहिये।'

पर दुःख कातर सज्जन ही परोपकार में रत रह सकता है। सन् १८७२ ई० में वंवाई प्रांत के खानदेश के कई ग्रामों में इतनी वृष्टि हुई कि कई गाँव

वह गए तथा सैकड़ों मनुष्य मर गए और सहस्रों मनुष्य गृह तथा सामान रहित हो गए। भारतेन्दु जी ने यथाशक्ति स्वयं सहायता की तथा काशी में घूमकर सहायतार्थ धन एकत्र किया था। उसी वर्ष काशी में गंगाजी में ऐसी बाढ़ आई थी कि पक्के संगीत मकान घँसे जाते थे और नगर के कितने सड़कों तथा गलियों में जल भर गया था। बिना नाव के कहीं जाना आना और प्राण की रक्षा करना कठिन हो रहा था। इस कारण इन नावों का किराया बहुत बढ़ गया था और तिसपर भी कठिनता से नावें मिलती थीं। इन्होंने काशीराज से प्रार्थना कर गृह-विहीन लोगों को नँदेसर की कोठी में स्थान दिलाया और गंगाजी में विनयपत्र भी डलवाया था।

एक बार जाड़े की रात्रि में कहीं यह बाहर घूमने जा रहे थे कि मार्ग में इन्हें एक दरिद्र सोता हुआ मिला, जो जाड़े के कारण ठिठुरा जा रहा था। इन्होंने उसी समय अपना दुशाला उतार कर उसे ओढ़ा दिया और गृह लौट गए। एक बार एक फकीर जाड़े ही में ओढ़ना माँगता घूम रहा था। ये घर के दीवानखाने में बैठे सुन रहे थे। उस समय 'ये घर के शुभचिंतकों' के कारण अर्थ कष्ट में थे और उसके देने योग्य इनके पास कोई बख नहीं था। इन्होंने स्यात् उसे देने के लिये कुछ कहा भी हो पर ऐसे 'अपव्ययी' की बात कौन सुनता है। अतः मैं इन्होंने अपना दुशाला, जिसे वे ओढ़े हुए थे, उतार कर ऊपर ही से फेंक दिया। अब जिसने इनका यह कार्य देखा उसने तुरंत इनके भाई को खबर दे दी और इस कारण कि दुशाला कीमती था वे दौड़े आए तथा उस फकीर को कुछ रुपये देकर दुशाला लौटाने को आदमी भेजा, पर फकीर ने उसे नहीं लौटाया। ये भाई पर कुछ बक कर चले गए और लाचार होकर उनके लिए दूसरा दुशाला ओढ़ने के लिए भेजा। इसी प्रकार इनकी कन्या ने भी बाल्यावस्था में एक बार अपनी साड़ी ही उतार कर एक भिख-मंगिन को दीवानखाने से फेंक कर दे दिया था।

ठोकिया अल्ल के एक धनाढ्य महाराष्ट्र काशी में आ बसे थे। काशी-राज की नकल उतारने का इन्हें व्यसन सा था और कभी कभी उनसे भी अधिक ऐश्वर्य दिखलाते थे। दिन के समय भी इनकी सवारी के हाथियों के

सिर पर पंज शाखाएँ जलाई जाती थीं। बुढ़वा मंगल में इनकी मोरपंखी पर जलसा होता था। एक बार इनकी मोरपंखी महाराज के कच्छे से जा भिड़ी। काशीराज को प्रसन्न करने के लिये कच्छे पर के भाँड़ों ने एक नकल निकाला और अंत में एक भाँड़ दूसरे भाँड़ को पीटते हुए चिल्ला कर कहने लगा कि 'ठोंक ठोंक कर ठोंकिया बना देगे।' पर इस धनाढ्य महाराष्ट्र की लक्ष्मी शीघ्र ही समाप्त हो गई और यह दरिद्र हो गए। महाराज की ओर से इन्हें रामनगर में न आने की आज्ञा थी। भारतेन्दु जी से इन गरीब सज्जन का दुःख न देखा गया और वे इन्हे लिवा कर एक दिन रामनगर गये। महाराज से जाकर इन्होंने अपनी कृति कह दी और इन पर दया दिखलाने की प्रार्थना की। काशीराज ने ठोकिया को पच्चीस रुपये की मासिक वृत्ति दी पर अपने सामने आने की आज्ञा नहीं दी। ठोकिया को मार्ग में, जब महाराज की सवारी निकली, तब सलाम करने का अवसर दिया गया। महाराज ने इसके बाद भारतेन्दु जी से ठोकिया को रामनगर में फिर न लाने के लिये कह दिया था।

भारतेन्दु जी को गुप्त रूप से दान देना भी अधिक प्रिय था। लिफाफे में नोट रख कर या पुड़िए में रुपये बाँध कर दे; देना इनका साधारण कार्य था। एक अवसर पर घर आते हुए रास्ते में एक दरिद्र को देखकर इन्होंने गजरे को जो पहिरे हुए थे उतार लिया और उसमें पाँच रुपये लपेट कर उसी के पास रख दिया। साथ के एक नौकर को कुछ संदेह हुआ, इससे वह लौट कर जब वहाँ आया तब उसे उसी प्रकार वह गजरा पड़ा मिला। उस दरिद्र के भाग्य में वह नहीं लिखा था, इसलिए उसी नौकर को वे रुपये मिल गए। एक दिन एक पंडित जी इनके दरवार में आकर बैठे। वे कुछ कहने के लिये अवसर देख रहे थे पर लोगों के आने-जाने के कारण उन्हें मौका नहीं मिला। इसी बीच भारतेन्दु जी उठ कर स्नान करने चले गए। वे बेचारे चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर के अनंतर बाबू साहव एक छोटी सी पेटी लिए हुए आए और उन ब्राह्मण को बुलाकर उसे देते हुए प्रणाम कर बिदा किया। वह कुछ कहना चाहते थे पर उन्हें रोककर कहा कि इसे आप घर ले जाकर देख लीजिएगा

और तब यदि कुछ कहना तो आकर कहिएगा । ब्राह्मण देवता अपना पुत्री के विवाह के लिए सहायता माँगने आए थे और जब उन्होंने घर पहुँचकर पेटी खोला तब उसमें उन्हें कुछ साड़ियाँ और दो सौ रुपये मिले । इच्छा से अधिक मिल जाने से ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए ।

भारतेन्दु जी जिस प्रकार लोगों को उत्साहित करके साहित्य-सेवा में लगाते रहे उसी प्रकार लोगों को स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने के लिए व्यापारिक करने में उत्साहित करते थे । बा० गदाधरप्रसाद सिंह ने शिक्षा समाप्त करने पर मिलती हुई सरकारी नौकरी छोड़कर व्यापार करने की इच्छा से इनसे सहायता चाही । भारतेन्दु जी ने इस कार्य के लिए इन्हें एक सहस्र रुपया सहायता दी थी, जिससे इन्होंने एक प्रेस खोला था । इनके एक शरीक ने प्रेस का सामान हटाकर घर में आग लगा दी और प्रेस के जल जाने का शोर मचाया । भारतेन्दु जी ने कुछ न कहा और उक्त पुरुष उससे बहुत दिनों तक कमाते खाते रहे । फोटोग्राफी उसी समय आरंभ हुई थी । काशी में पहिले भरतपुर के राव कृष्णदेव शरणसिंह, भारतेन्दुजी तथा राय बलभद्रदास जी ने फोटोग्राफी सीखा था । यह एक नई चीज थी और इस कला की आय से उस समय के साधारण गृहस्थ अपनी जीविका मज्जे में चला सकते थे । भारतेन्दु जी ने कई मनुष्यों को फोटोग्राफी का सामान खरीद खरीद कर दे दिया था । जादू के खेल आदि के भी सामान इन्होंने कई सज्जनों को दिए, जिससे वे लोग बहुत दिनों तक अपना जीवन निर्वाह करते रहे ।

इस प्रकार परोपकार में रत रहना इनकी प्रकृति ही हो गई थी । इन्होंने निज स्वभाव, प्रेम, इच्छा आदि को एक कवित्त में इस प्रकार प्रकट किया है—

सेवक गुनी जन के, चाकर चतुर के हैं,
 कविन के मीत चित्त हित गुन गानी के ।
 सीधेन सों सीधे, महा बाँके हम बाँकेन सों,
 'हरीचंद, नगद दमाद अभिमानी के ॥

चाहिवे की चाह, काहू की नपरवाह, नेही,
 नेह के दिवाने सदा सूरत निवानी के।
 सरवस रसिक के, सुदास दास प्रेमिन के।

सरवा प्यारे कृष्ण के, गुलाम गधारानी के ॥

गुणियों तथा कलाविदों का इन्होंने अपनी शक्ति से कहाँ तक बढ़ कर सत्कार किया था, इसका आगे कुछ उल्लेख हुआ है पर यह अपने को उनका सेवक और चाकर लिख रहे हैं। इस पद की दूसरी पंक्ति इनका काशी वासी होना ध्वनित कर रहा है। 'कविमात्र सौंदर्योपासक होते हैं। सौंदर्योपासना ही भक्ति की प्रथम सीढ़ी है, इसे न करनेवाले जड़ हैं। इसका बढ़ना कभी भूषण से दूषण नहीं हो सकता। 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' दूषण हो ही नहीं सकता अंतिम चरण राधाकृष्ण के चरणों में इनकी अनन्य भक्ति प्रकट कर रहा है।

इनकी आँखों में शील भी बहुत था। भाई से अलग होने पर इनके हिस्से के महाराज बेतिया के यहाँ से आए हुए बत्तीस सहस्र रुपये को एक मुसाहिव के यहाँ इन्होंने थाती के रूप में रख दिया था। एक दिन वे रोते कलपते इनके यहाँ पहुँचे और कहा कि रात्रि में हमारे घर चोरी हो गई और आपके रुपये रखकर हम अपना भी सर्वस्व गँवा बैठे। यह कहकर वह पुक्का फाड़ कर रोने लगा। भारतेन्दु जी ने हँस कर कहा कि 'यही गनीमत समझो कि चोर तुम्हें न उठा ले गए। जाने दो गया सो गया।' लोगों ने तथा इनके भाई ने बहुत समझाया कि यह सब इसकी बदमाशी है आप इससे अपना रुपया वसूल कीजिए। पर इन्होंने अत में यही कहा कि 'बेचारा गरीब आदमी है, इसी से कमा खायेगा।' सुनते हैं कि यह हमारे ही बिरादरी के सज्जन हैं, जो अभी तक जीवित हैं और इसी रुपये के बदौलत लखपती बने हुए हैं। स्यात् यही देखा देखी एक सज्जन गोकुलचन्द्र जी से मोती की एक माला कुर्ग के राजा के पास बेचने के लिए ले गये थे। इन्होंने भी लौट कर उस माला के गुम होने की सदा लगाई पर जब फौजदारी सुपुर्द करने का प्रबंध किया गया तब तीन हजार रुपये का एक रजिस्टरीशुदः दस्तावेज लिखकर

रुपये भर दिए। उक्त सज्जन से भी रुपये वसूल हो जाते पर भारतेन्दु जी को तो 'लक्ष्मी को खाना ही था' इसलिए वे चुप बैठ रहे।

इन्होंने 'हरिश्चन्द्र एन्ड ब्रदर्स' के नाम से व्यापार भी चलाया था जिसका विज्ञापन चंद्रिका में बराबर निकलता था। इसमें यह कोठी महाजनी, जवाहिरात तथा फुटकर वस्तुओं के क्रय-विक्रय करने वाली लिखी है। 'सर्व रोग पर दिव्य औषधि, भी बिकती थी। विलायत से फोटोग्राफी का सामान, घड़ियाँ, चित्र आदि मँगाया जाता था। इस कोठी की एक यही विशिष्ट विचित्रता थी कि यहाँ जो माल खरीदने आते थे वे उसे उधार ही ले जाते थे और कोठी से बाहर निकलने पर उसे भेट में मिली हुई वस्तु समझते थे। अस्तु, इस शील संकोच में वह कोठी भी शीघ्र बंद हो गई। इसी शील संकोच में यह स्वतः भी अपनी वस्तु लोगों को भेट कर देते थे। एक दिन यह मोती की एक माला पहिरे हुए बंबई के गोस्वामी श्री जीवन जी महाराज के यहाँ दर्शन करने गए। महाराज गुरु जी ही तो थे, उन्होंने फर्माया कि 'बाबू, कंठा तो बहुत ही सुन्दर है।' यह सुनना था कि आप ने चट उसे उतार कर भेट कर दिया। इसी प्रकार एक दिन एक शाहजादे साहब इनसे मिलने आए। इनके चित्रों के एक एलबम का, जिसमें बादशाहो, विद्वानों आदि के चित्र संगृहीत थे, आपने देख देख कर प्रशंसा का पुल बाँध दिया। अन्त में भारतेन्दु जी ने घबड़ा कर कह दिया कि जो यह इतना पसन्द है तो आपके नज़र है। बस मियाँ शाहजादे ने फर्शी सलास बजाया और नौ दो ग्यारह हुए। यही एक वस्तु थी जिसको दे देने पर इन्हे पाश्चात्ताप हुआ था और वे पाँच सौ रुपये तक देकर उसे वापस लेना चाहते थे, पर वह नहीं मिला।

काशी के कपनी बाग में जन-साधारण को बैठने के लिये लोहे की बेचें रखवाई थीं। मणिकार्णिका कुड के चारों ओर लोहे का कठघरा अपने व्यय से इस कारण लगवाया था कि उसमें बहुधा यात्री गिर पड़ते थे। माधोराय के धरहरे के ऊपर गुमटी में छड़ नहीं लगे थे, जिससे कभी कभी ऊपर चढ़ने वाले गिर कर अपने प्राण खो देते थे। इन्होंने दोनो धरहरे पर


छड़ लगवा दिया था। इन कार्यों के लिये म्युनिस्पैलिटी ने इन्हें धन्यवाद दिए थे।

हिन्दी भाषा की जो आज दशा है वह शताधिक हिन्दी प्रेमियों के साठ सत्तर वर्ष के सतत प्रयत्न का फल है। भारतेन्दु जी के समय में जब कि उसका जीवन ही सशय में था तब पुस्तक तथा समाचार पत्रों के प्रकाशन से लाभ की क्या सम्भावना की जा सकती थी। हिन्दी भाषा के केवल उद्धार ही के लिए वे कटिवद्ध हुए थे। वे द्रव्य की हानि लाभ का विचार करते नहीं बैठे थे। हिन्दी भाषा में लोगों की रुचि पैदा करने के लिए वे पुस्तकों का मूल्य नाम मात्र को रखते थे और अधिकतर उन्हें बिना मूल्य ही लोगों में बाँटा करते थे। २०० रु० के मूल्य की पुस्तकें तो केवल वलिया इंस्टिट्यूट ही को एक साथ एक बार भेजी थीं।

भारतेन्दु जी पुरस्कार दे देकर लोगों को पुस्तकें निर्माण करने में उत्साहित करते थे। फ्रांस में जो युद्ध होता था उसका वर्णन नाटकाकार लिखे जाने के लिये ४००) रु० और सर विलियम म्योर की जीवनी लिखने के लिये २५०) रु० तथा संस्कृत भाषा के दो सौ कवियों की जीवनी लिखने के लिए प्रति कवि १० रुपए पुरस्कार देने का कवि-वचन-सुधा में विज्ञापन निकाला था। इसके सिवा जन-साधारण के हितार्थ तथा सरकारी कामों में भी सहस्रों रुपये चंदा देते थे। सन् १८७२ ई० में मेयो मेमोरियल सिरीज में १५००) रुपए दिए थे। होमियोपैथिक डिसपेसरी चलाने के लिए १८६८ ई० से १८७३ ई० तक १२०) रुपया प्रति वर्ष देते रहे। “सोलजर्स फंड” में १००), गुजरात जवनपुर रिलीफ फंड में ७०) रु० और “स्ट्रेंजर्स होम” में ५०) रु० दिया था। इसी प्रकार प्रिंस आफ वेल्स हॉस्पिटल, कारमाइकेल लाइब्रेरी, नेशनल फंड इत्यादि अनेक कार्यों में चंदा दिया करते थे।

‘पंजाब विश्वविद्यालय’ के संस्थापित होने के समय भारतेन्दु जी ने २५०) रुपये से उसकी सहायता की थी और सन् १८८२ ई० में जब उस विद्यालय को पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ तो उस समय भी रजिस्ट्रार साहिब ने

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र



भारतेन्दु जी



भारतेन्दु जी (श्रीदावस्था)

इनसे तथा अन्य महाशयों से विशेष द्रव्य सहायता के निमित्त प्रार्थना की थी। भारतवर्ष के सभी प्रांत के स्कूलों से जब वालिकाएँ परीक्षोत्तीर्ण होती थीं तो वे उन्हें बहुमूल्य साड़ी इत्यादि पारितोषिक दिया करते थे। इनके स्कूल के पढ़े हुए छात्र दामोदरदास जब बी० ए० परीक्षा की प्रथम श्रेणी में परीक्षोत्तीर्ण हुए थे तो उन्हें १००) की सोने की घड़ी तथा ३००) रु० की सोने की चेन इन्होंने पारितोषिक में दिया था। काशी की आचार्य्य परीक्षा में उत्तीर्ण बालकों को भी घड़ी दिया करते थे। हमारे पंडित अम्बिकादत्त व्यास को भी साहित्याचार्य की परीक्षा पास होने पर इन्होंने एक घड़ी दी थी।

सत्यप्रियता

भारतेन्दु जी सत्यप्रिय थे। वे स्वयं जानते थे कि 'सत्यधर्म पालन हँसी खेल नहीं है' और 'सत्य पथ पर चलने वाले कितना कष्ट उठाते हैं,' पर इन्होंने यथाशक्ति इस व्रत को आजन्म निबाहा। स्वरचित सत्यहरिचन्द्र में इस पर विशेष तर्क करते हुए लिखा है कि—

चंद टरै सूरज टरै, टरै जगत व्यौहार ।

पै दृढ़ श्री हरिचंद को, टरै न सत्य विचार ॥

भारतेन्दु जी ने एक महाजन से एक कटरनाव और कुछ नगद रुपये लेकर तीन सहस्र की हुंडी लिख दी थी। उसी का इन पर सब से पहिले दावा हुआ। यह मुक्तदमा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद साहब सदर आला की कचहरी में था। देश हितैपिता के स्वयं व्रती होने के कारण उन्होंने प्रसिद्ध देशहितैषी भारतेन्दु जी को इस कष्ट में देखकर इन्हे अपने पास बुलाकर बैठाया और पूछा कि 'आप ने असल में इनसे कितने रुपये पाए।' भारतेन्दुजी ने उत्तर दिया कि 'पूरे रुपये पाए।'... सैयद साहब ने पूछा कि 'जो कटर इन्होंने लगा दिया है वह कितने रुपये का है।' उत्तर दिया कि 'जितने का मैंने लेना स्वीकार किया था।' इस उत्तर पर सदर आला साहब ने टेबुल पर हाथ पटक कर कहा कि 'बाबू साहब आप

भूलते हैं, जरा बाहर घूम आइए और समझ वृक्षकर जवाब दीजिए ।' बाहर आने पर सभी लोगो ने समझाया और इन्होंने भी सब का उपदेश ध्यान-पूर्वक सुन लिया, पर कुछ उत्तर नहीं दिया । पुनः इजलास पर जाने पर तथा पूछने पर आपने पहिले ही सा उत्तर दिया और सैयद साहब के खेद प्रकाशित करने पर इन्होंने अपनी चित्तवृत्ति उनसे इस प्रकार प्रकट की कि 'मैं अपने धर्म और सत्य को साधारण धन के लिये नहीं बिगाड़ने का । मुझसे इस महाजन ने जबर्दस्ती हुंडी नहीं लिखवाई और न मैं बच्चा ही था कि समझता न था । जब मैंने अपनी गरज से समझ वृक्ष कर उसका मूल्य तथा नजराना आदि स्वीकार कर लिया तो क्या मैं अब देने के भय से उस सत्य को भंग कर दूँ ?'

ऐसे ही सत्यप्रतिज्ञ कवि की लेखनी से सत्यहरिश्चन्द्र सा नाटक लिखा जा सकता था ।

परिहास-प्रियता

यह स्वभावतः विनोदी थे । उर्दू शायरों की जिन्दादिला, (सजीवता) इनके नस नस में समाई थी । यह गम्भीर मुहर्रमी सूरत वाले नहीं थे और धन तथा घर के लोगों के कारण जो इन्हें कष्ट था वह उनके मुख पर नहीं झलकता था । वे सदा प्रसन्न चित्त और प्रेम में मग्न रहते थे । वाल्यकाल में दीवालों पर फौस्फोरस से डरावनी मूर्तियों के लिखने का उल्लेख हो चुका है । राय नृसिंहदास जी इनके फूफा थे इन लोगों की नाबालगी में कोठी के प्रबन्धक भी थे । एक दिन यह उनके पास बैठे हुए थे कि जनाने में से रायसाहब को भोजन करने के लिये मजदूरनी बुलाने आई । रायसाहब ने कह दिया कि 'मैं पाखाना फिर लूँगा तब मैं खाऊँगा ।' यह सुनकर भारतेन्दु जी मुख में रुमाल लगा कर भी हँसी न रोक सके थे । श्री जगन्नाथ जी की फूल टोपी इतनी बड़ी होती है कि एक आदमी उसमें छिप सकता है । इन्होंने एक दिन यह प्रबन्ध किया कि आप उसके भीतर छिप गए और इनके छोटे भाई ने इनके कथनानुसार लोगों से कहा कि श्री जगदीश का यह प्रत्यक्ष चमत्कार

देखो कि उनकी फूल टोपी आप से आप चलती है। टोपी भी चलने लगी और लोग आश्चर्य में डूब गए। अंत में अब आपने टोपी उलट दी तब कुल रहस्य सब पर प्रकट हो गया।

पहिली अप्रैल को अंग्रेजी में 'फूलसडे' (मूर्खों का दिन) कहते हैं। यह हम लोगों के होली के त्यौहार से कुछ मिलता जुलता है। इस दिन दूसरों को मूर्ख बनाने का प्रयत्न किया जाता है। भारतेन्दु जी ने ऐसा सफल प्रयत्न कई वर्षों तक किया था। एक बार आपने नोटिस दी कि विजयनगर की कोठी में एक युरोपीय विद्वान सूर्य और चन्द्र को पृथ्वी पर प्रत्यक्ष बुलाकर दिखलावेगे लोग इस धोखे में आगए और वहाँ पहुँच कर जब कुछ न देखा तब लज्जित होकर हँसते हुए अपने अपने गृह लौट गए। एक वर्ष हरिश्चन्द्र स्कूल में एक प्रसिद्ध गवैये का गाना होने की सूचना निकाली जब सहस्रों मनुष्य वहाँ एकत्र हुये तब पर्दा उठा और एक मसखरा मूर्खों की टोपी पहिरे उलटा तानपूरा लिये गाता हुआ नज़र आया। तीसरी बार आपने एक मित्र के नाम से सूचना निकाली कि एक मेम रामनगर के सामने खड़ाऊँ पर चढ़कर गंगा पार करेगी। अच्छा खासा मेला जम गया पर सन्ध्या होने पर सबको ज्ञात हुआ कि आज एप्रिल फूलसडे है।

भारतेन्दु जी का नानिहाल शिवाले में था। इनका जन्म भी वहीं हुआ था और यह वहाँ प्रायः जाया करते थे। बा० जगन्नाथ दास जी 'रत्नाकर, के पिता बा० पुरुषोत्तम दास, बा० केशोराम और गोस्वामी रामप्रसाद उदासी से इनकी घनिष्ठ मित्रता अंत तक रही। जब शिवाले जाते तब इन्हीं में से किसी के यहाँ जमघटा बैठता था। एक बार यह बहुत तड़के ही अपने ननिहाल से उठकर 'रत्नाकर जी' के गृह पर आए। द्वार उस समय बन्द था, इससे आप बाहर ही खड़े होकर 'हर गंगा भाई हरगंगा' का गाना कुछ बनाकर गाने लगे। बा० पुरुषोत्तम दास जी ने यह सुन कर तथा आवाज़ न पहिचान कर नौकर से सवेरे के याचक को एक पैसा देने को भेजा। उसने द्वार खोल कर जो इन्हे देखा तो उलटे पैर हँसता हुआ लौट आया और कहा कि बाबू साहेब है।

दक्षिण से एक सुप्रसिद्ध-वैयाकरणी आए हुए थे जो किसी भाषा के किसी शब्द का मिलता जुलता अर्थ व्याकरण के सूत्रों की मार से निकाल लिया करते थे। यह राजा शिवप्रसाद के यहाँ उतरे हुए थे और वेही उन्हें काशीराज के दरबार में लिवा गए थे। दूसरे दिन भारतेन्दु जी के वहाँ पहुँचने पर काशीराज ने उक्त विद्वान की प्रशंसा की तब इन्होंने कहा कि मैं भी कुछ परीक्षा कर लूँ तब इस विषय में विशेष कह सकता हूँ। महाराज ने सभा का निश्चय किया और उस दिन उक्त विद्वान राजा शिवप्रसाद जी के साथ आए। भारतेन्दु जी भी दरबार में उपस्थित थे और महाराज की आज्ञा मिलने पर काशी के गुंडों की बोली में एक गाली 'भांपोक' जोर से कह डाला। इस पर राजा साहब ने काशीराज से प्रार्थना की कि 'हुजूर देखिए यह ऐसे विद्वान को गाली दे रहे हैं।' इन्होंने तुरन्त कहा कि 'हुजूर देखें राजा साहब अर्थ बतला रहे हैं।' राजा साहब चुप हो गए और महाराज ने भी मुस्करा दिया। व्याकरण के अनेक सूत्र लगने पर भी वे उसका अर्थ न कह सके। इसी प्रकार के एक दूसरे शब्द का भी वे अर्थ न बतला सके।

रथयात्रा के अवसर पर यह बहुत से मनुष्यों के साथ दर्शन करने जाया करते थे। ऐसे अवसर पर प्रायः लंबा कुरता पहिरते और रंगीन गोंटा टँका हुआ दुपट्टा गर्दन से लंबे बल दोनों ओर लटका लेते थे। चौगोशिया टोपी तो यह सर्वदा ही पहिरते थे। एक बार दर्शन कर लौटते समय चौधराइन जी के बाग में, जहाँ लावनी हो रही थी, यह खड़े हो गये। इनके किसी साथ वाले ने कहा कि 'चलिए, यहाँ क्या है जो आप भीड़ में कष्ट उठा रहे हैं।' एक लावनीवाज बोल उठा कि 'जी हाँ, यहाँ क्या है? इस प्रकार कविता बनाते हुए कोई गावे तब जाने।' भारतेन्दु जी ने यह सुनकर टोपी उतार कर रखदी और लावनी बाजों के बीच जा बैठे और उन्हीं में से एक का डफ लेकर लावनी बनाते हुए गाने लगे। जब उन सभों को मालूम हुआ कि यह कौन है, तब सब ने क्षमा याचना की।

भारतेन्दु जी के श्वसुर गुलाब राय जी के दशाह के दिन इन्हें घाट पर पहुँचने में कुछ देर हो गई। जिस पर शाह माधो जी इनकी भत्सर्ना करने

लगे। यह चुपचाप लघुशंका निवारण करने के लिये पासही एक स्थान पर बैठ गये। माधो जी ने हँस कर कहा कि 'अपने श्वसुर का नाम लेते चलो।' यह उत्तर न देकर माधो जी के पूर्वजो का नाम लेकर 'तृप्यंताम्' कहने लगे। अंत में माधो जी खिसिया कर बोले कि 'तुम धूर्त हो तुम से कौन लगे।'।

होली का उत्सव भी यह खूब मानते थे। संध्या के समय बिरादरी के बहुत से सज्जन तथा मुसाहिबों के साथ रग लिये गाने बजाने के साथ चौसट्टी (चतुश्शष्टी) देवी के दर्शन को जाते थे। तात्पर्य इतना ही है कि वे सभी कार्य प्रसन्नचित्त होकर करते थे, केवल नेम ही नहीं निवाहते थे।

गुणियों का सत्कार

गुण ग्राहकता के भारतेन्दु जी स्वरूप ही थे। यह केवल कवि ही के आश्रयदाता या कविता ही के गुण ग्राहक नहीं थे प्रत्युत् प्रत्येक गुण या उत्तम वस्तु के ग्राहक थे। इनके पास कोई भी किसी प्रकार की उत्तम वस्तु लेकर आता तो वह विमुख होकर नहीं जाता था। हिन्दी मातृमंदिर के साधारण से साधारण पुजारी का भी यह सन्मान करते, किसी अन्य विद्या या कौशल के पंडित का पूरा सत्कार करते, यहाँ तक कि अपव्ययी या फिजूल खर्च कहला कर भी अच्छे वस्तु के विक्रेता को कोरा नहीं लौटाते थे। उदाहरण के लिये इत्र ही लीजिए। कई विद्वानों तथा खंडाचार्यों को भी दीपावली में इत्र के दिए बालने और शरीर में पोतने की बातें कहकर इनके अपव्यय या नाजुक मिजाजी की प्रशंसा करते सुना है। वास्तव में बात यह थी कि दिल्ली तथा लखनऊ की बादशाहत समाप्त हो गई थी और वहाँ के इस प्रकार की ऐशो आराम की चीजों के बेचनेवाले इधर उधर अन्य नगरों में सामान लेकर घूमने लगे थे। काशी में आने वाले ऐसे विक्रेता भारतेन्दु जी के पास अवश्य आते थे। ये सभी से कुछ न कुछ क्रय करते, इनमें इत्र भी होता था। ऐसे इत्रफरोश मेरे बाल्यकाल तक बराबर आते थे और उनकी बातें भी सुनने ही लायक होती थीं। इस प्रकार ग्वरीदने से व्यय होते हुए भी एकत्र हुआ इत्र

दीपावली में वालने ही के काम आता था। यही इस अपठ्यय का मर्म है। इसीलिए लोगों ने कहा है—

सब सज्जन के मान को कारन इक हरिचंद ।

पर यह स्वयं अपने को 'सेवक गुनी जन के चाकर चतुर के हैं, कविन के मीत चित हित गुन गानी के' कहते हैं। यह कोई ऐश्वर्य शाली राजा या महाराजा नहीं थे, तिस पर 'घर के शुभचिंतकों' द्वारा घर से निकाले हुए थे, इतने पर भी यथाशक्ति इन्होंने किसी को विमुख न फेरा। स्वयं देने के सिवा सभाएँ कर या काशिराज द्वारा ये गुणियों को विशेष रूप से पुरस्कृत भी कराते थे।

सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद पं० वापूदेव शास्त्री जी ने भारतेन्दु जी के आग्रह से सं० १९३४ वि० से नया पंचांग निकालना आरंभ किया था। इसके पहिले के जो पंचांग काशी में प्रकाशित होते थे वे ऐसे भ्रष्ट होते थे कि ग्रामीण पंडितगण भी उनकी निन्दा करते थे। इसी नवीन पंचांग के प्रकाशित होने से यह अभाव पूरा हो गया। भारतेन्दु जी ने इसके पुरस्कार में शास्त्री जी को एक बहुमूल्य दुशाला भेंट किया था। शास्त्री जी भारतेन्दु जी के यहाँ प्रायः आया करते थे पर एक दिन भारतेन्दु जी के एक मजाक पर कुछ क्रुद्ध होकर घर बैठ रहे।

पंडितप्रवर श्री सुधाकर जी द्विवेदी भी प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और यही पूर्वोक्त पंडितजी की मृत्यु पर संस्कृत कालेज में उनके स्थानापन्न नियुक्त हुए थे। यह एक वार भारतेन्दु जी के साथ राजघाट का पुल देखने के लिए गये थे, जो उस समय बन रहा था। वहाँ से लौटने पर पंडित जी ने इसी पुल दर्शन पर एक दोहा इस प्रकार वनाकर सुनाया कि—

राजघाट पर बँधत पुल जहँ कुलीन की ढेर ।

आज गए कल देखि के आजहि लौटे फेर ॥

इस दोहे के 'कल' शब्द पर प्रसन्न होकर भारतेन्दु जी ने इन्हें सौ रुपये पुरस्कार दिये थे। इन्हीं पंडित जी ने सायन तथा निरयण गणनानुसार

भारतेन्दु जी की जन्मपत्री बनाई थी। यह पुस्तकाकार प्रकाशित भी हुई है। भारतेन्दु जी ने इसके लिये उन्हें पाँच सौ रुपये देकर सन्मानित किया था।

विद्वद्वर भारतमार्तण्ड श्री गट्टलाल जी की विद्वत्ता, आशु कविता तथा शतावधान की शक्ति विख्यात थी। जिस समय यह काशी में पधारे थे उस समय भारतेन्दु जी ने इनके सन्मानार्थ एक बड़ी सभा की थी। इसमें काशी के सभी प्रसिद्ध देशीय और यूरोपीय विद्वान एकत्र हुए थे। श्री गट्टलाल जी दोनों आँखों के अंधे थे, पर उनकी ज्ञानदृष्टि अपूर्व थी। समस्यापूर्ति बात की बात में करते थे। अनेक भाषाओं में कई सज्जनों ने भिन्न भिन्न प्रश्न किए पर आपने प्रश्नों की समाप्ति पर सबके उत्तर ठीक क्रम से दिए थे।

एक दक्षिणात्य विद्वान नारायण मार्तण्ड भी उसी समय काशी में आए। थे जिनको गणित शक्ति विलक्षण थी। भारतेन्दु जी ने इनकी गणित तथा अष्टावधान-कौशल देखने के लिए अपने ही गृह पर सभा कराई थी। यह बड़े बड़े हिसाब, जिन्हे हल करने में कई दिन लग जाते, पाँच पाँच मिनट के भीतर कर डालते थे। ऐसे हिसाब करते समय वह बराबर किसी से ताश, किसी से शतरंज और किसी से चौसर खेलते रहते थे तथा अन्य सज्जन उनसे बकवाद करते रहते या प्रश्नों की झड़ी लगाए रहते थे। उस पर भी मन ही मन हिसाब कर अभ्रांत फल निकाल लेते थे। भारतेन्दु जी ने इन्हे स्वयं बहुत कुछ दिया और काशिराज से भी दिलवाया था। इन्हीं के कारण काशी के अन्य धनाढ्यों से भी इन्हे बहुत पुरस्कार मिला था।

इसी प्रकार दक्षिण ही के एक धनुर्धर बेकट सुप्यैयाचार्य काशी आए थे। भारतेन्दु जी ने इनका कौशल देखने के लिए रामकटोरा वाले अपने बाग में सभा की थी। इसमें कीन्स कालेज के प्रिंसिपल तथा वाल्मीकीय रामायण के अनुवादक मिस्टर ग्रिफिथ तथा अन्य यूरोपीय और देशीय विद्वान तथा सज्जनगण उपस्थित थे। इन धनुर्धर ने अपनी आँखों पर पट्टी बाँध कर एक दूसरे व्यक्ति की आँखों पर तिनका बाँध कर तथा उस पर मोम से चाँदी की दुअन्नी चिपकाकर केवल शब्द पर एक तीक्ष्ण तीर ऐसा मारा कि दुअन्नी

उड़ गई और तिनका ज्यों का त्यों रह गया। दूसरा कौशल यह था कि जिस प्रकार जयद्रथ कं शिर को अर्जुन ने तीरों ही के द्वारा उड़ा कर उसके पिता के गोद में गिरा दिया था, उसी प्रकार इन्होंने एक नारंगी को तीर ही मारकर चालीस पचास गज दूर खड़े एक मनुष्य के हाथ में गिरा दिया। तीसरा कौशल यह था कि कुएँ में गिरती हुई अँगूठी को बीच ही में से तीर मार कर बाहर निकाल लिया था। इस प्रकार के कई आश्चर्य-जनक दृश्य इन्होंने दिखलाए, जिन्हे देखकर यूरोपीय विद्वानों ने भी कहा कि इनके कृत्य महाभारत की कथित धनुर्विद्या के कौशलों का सत्य होना साबित कर रहे हैं।

बाबा तुलसीदास नामक एक पहलवान जब काशी में आए तब उनकी शक्ति के खेल दिखलाने को नार्मल स्कूल में सभा कराया था। हाथों बाँधने का सूत का मोटा रस्सा यह पैर के अँगूठे में बाँधकर तोड़ डालते थे। लोहे के मोटे से मोटे खम्भे को यह मोमबत्ती को तरह दोहरा देते थे। यह दो कुर्सियों पर सिर और पैर रख कर लेट जाते और अधर में स्थित छाती पर छ इंच मोटा पत्थर तुड़वा लेते थे। जटायुक नारियल सिर पर मार कर फोड़ डालते थे। तात्पर्य यह कि इस प्रकार के इन्होंने अमानुषिक शक्ति के कई अद्भुत दृश्य दिखलाए थे। यह जोधपुर के निवासी थे तथा कविता भी करते थे।

सुप्रसिद्ध विहारीलाल की सतसई हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि है। इस सतसई का चरखारी निवासी कवि परमानंद जी ने संस्कृत में छन्द बद्ध अनुवाद कर उसका 'शृंगारसप्तशतिका' नाम रखा था। कन्या-विवाह के कारण अथवा और किसी आवश्यकता पड़ने पर धन के लिये यह इस अनुवाद को लेकर पर्यटन को निकले और घूमते-फिरते काशी आए। ये बहुत जगह घूमे पर कहीं से इन्हे वांछित धन की प्राप्ति न हो सकी थी। भारतेन्दुजी ने यह सप्तशतिका देख कर बड़ी प्रसन्नता प्रगट की और एक सभा करके उक्त पंडितजी को स्वयं पाँच सौ रुपये, बनारसी दुपट्टा आदि वस्त्र देकर विदा दी थी। उसी सभा में उपस्थित अन्य सज्जनों ने मिलकर दो सौ रुपये और दिये, जिससे प्रति दोहे पीछे परमानंद जी को एक एक रुपये पड़ गये। यह पुरस्कार

कम न था । मूल के लिये जयपुराधीश महाराजाधिराज जयसिंह ने जब एक एक मुहर दी तब अनुवाद के लिये एक गृह-निर्वासित ऋण-ग्रस्त प्रजा के लिये एक एक रुपये देने बहुत थे । कोरा अपव्यय था । सुधाकर जी को एक दोहे पर सौ रुपये दे डालना तो बाप दादों के बनाए घर को जड़मूल सहित फूँक डालना ही कहा जायगा । ये रुपये भी किसी आवश्यक कार्य के लिए रखे हुए थे पर उसका ध्यान न कर एक साहित्य-सेवी का सन्मान करते हुए उन्होंने यह रकम उन्हें अर्पण कर दी ।

इस दान के विषय मे साहित्याचार्य पं० अम्बिकादत्त व्यास ने स्वरचित विहारी-विहार मे पंडित परमानंद जी को शृंगार सप्तशतिका का उल्लेख करते हुए इस प्रकार लिखा है—‘मुझे ठीक स्मरण है कि दशाश्वमेध की सगत मे महत बाबा सुमेरसिंह साहबजादा साहब के यहाँ पिता जी के साथ में बैठा था । साहित्य की कोई बात महंतजी ने पूछी थी, मेरे पिता जी कह रहे थे । इसी समय अकस्मात् बाबू हरिश्चन्द्र जी और उनके साथ पंडित परमानन्द आए । पंडित परमानन्द जी साँवले से थे । लगभग ३० वर्ष की वय थी, मैली सी धोती पहिने, मैली छींट की दोहरी मिरजई पहने, बनाती कन्टोप ओढ़े, एक सड़ी सी दोहर शरीर पर डाले थे । बाबू साहिब ने पिता जी से उनके गुण कहा । सुन के सब उनकी ओर देखने लगे । उन्होंने अपनी हाथ की लिखी हुई पोथी बगल से निकाली और थोड़ी बाँच कर अपनी दशा कह सुनाई कि ‘मुझे (कन्या विवाह अथवा और कोई कारण कहा ठीक स्मरण नहीं) इस समय कुछ द्रव्य की आवश्यकता है इसीलिये चिर परिश्रम मे यह ग्रंथ बनाया कि किसी से व्यर्थ भिन्ना न माँगनी पड़े । अब मैं इस ग्रंथ को लिए कितने ही राजा बाबुओं के यहाँ घूम चुका । कोई तो कविता के विषय मे महादेव के बाहन मिले, कहीं सभा-पंडित घुसने नहीं देते, कहीं संस्कृत के नाम से चिढ़, कोई रीझे तौ भी पचा गए, कोई कोई वाह वाह की भरती कर रह गए, और कोई, अतिप्रसन्नो दमड़ीं ददाति । अब बाबू साहिब का आश्रय लिया है ।’ थोड़े ही दिनों के अनन्तर बाबू साहिब ने ५००) मुद्रा और उनके मित्र रघुनाथ पंडित प्रभृति ने २००) यो दोहा पीछे १) इनकी विदाई की । जो अनेक चँवर ११

छत्रधारी राजा बाबू न कर सके, सो वैश्य बाबू हरिश्चन्द्र ने किया। हा ! अब यह आसरा भी कविजन का टूट गया ।'

सं० १९२८ में अप्ययाचार्य प्रतिवादी-भयंकर कवि-कुल-कंठीरव शतावधानी नामक एक बड़े सेवावी कवि काशी आए थे। काशिराज के दरबार के कुछ पंडितों की धूर्तता से इनका विशेष सन्मान नहीं हुआ। भारतेन्दु जी ने इनका अष्टावधान देखने के लिये अपने ही गृह के छत पर सभा कराई थी। इसी सभा में पं० अम्बिकादत्त जी व्यास को सुकवि की पदवी दी गई थी। इसमें इनका पूरा सन्मान किया गया था। इसका उल्लेख अन्यत्र हो चुका है।

सन् १८७५ ई० में जब महाराज काश्मीर काशी पधारे थे तब उन्होंने भारतेन्दु जी का बहुत सन्मान किया था और इनके निवेदन करने पर महाराज ने पाँच सौ विद्वानों की सभा भी की थी। इस सभा में प्रत्येक विद्वान को तीन तीन गिन्नियाँ प्रदान की गई थीं।

लखनऊ के खाले वाले वाजपेयी वैयाकरणी बौदल बाबा, जिनकी अवस्था उस समय अस्सी वर्ष की थी, अपने पौत्र के साथ अपने एक सम्बन्धी के यहाँ मिर्जापूर में टिके हुए थे। वहीं उनके रुपये का बटुआ और लड़के का आभूषण गंगा तट पर से चोरी चला गया और वे बड़े कष्ट से काशी आए। व्यास गणेशदत्त जी उन्हें भारतेन्दु जी के पास लिवा लाए। इन्होंने उन्हें एक मास तक अपने पास रखा और विदा करते समय उनको अच्छी सहायता भी दी।

जिस प्रकार यह दूसरों के दुःख देख कर दुःखी होते थे उसी प्रकार दूसरों के सुख में सुख मानते थे। सन् १८७४ ई० के मार्च महीने में जब राजा शिवप्रसाद को भारत सरकार ने राजा की पदवी दी थी तब इन्होंने बड़े धूम-धाम से उसका उत्सव मनाया था। नगर में रोशनी, गायन वादन, विश्वनाथ जी का शृंगार आदि उसके अंग थे। महाराज सर ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह बहादुर काशी-नरेश नेत्र रोग के कारण ज्योतिर्विहीन हो गए थे और अनेक उपचार होने पर अन्त में कलकत्ते के एक नामी डाक्टर द्वारा आँख बनवाई गई थी। उस साल के बुढ़वा मंगल में महाराज शरीक न हो सके, इस पर भारतेन्दु ने काशिराज का बड़ा चित्र अपने कच्छे पर लगा कर 'सब

काशीवासियों को दर्शन करा के नेत्र तृप्त करा दिया । नेत्रों के ठीक हो जाने पर सन् १८८४ ई० मे इन्होंने कारमाइकेल लाइब्रेरी मे बड़े समारोह से आनंदोत्सव मनाया था । कुछ कुचालियों के प्रयत्न करने पर भी यह कार्य सफलता पूर्वक सम्पन्न हो गया था ।

लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह जब राज्य से हटाए जाकर कलकत्ते भेजे गए थे, उस समय उनके साथ उर्दू के दस-बारह कवि भी गए थे । नवाब साहब मटियाबुर्ज में रहने लगे और उनकी छाया मे ये कवि गए भी कालयापन करते थे । इन्होंने कवियों मे से किसी मिर्जा आबिद ने बाईस शेर का एक कसीदा इनकी प्रशंसा में लिख कर भेजा और इनसे कुछ आर्थिक सहायता चाही थी । वह कसीदा नीचे उद्धृत कर दिया जाता है—

बाग़े आलम में मोतदिल^१ है हवा । नज़ले उम्मीद^२ है हरा सब का ॥
 कुछ ज़माने का रंग फिर बदला । फिर नया तौर कुछ नज़र आया ॥
 किसकी या रब नसीमे-फ़ैज^३ चली । खिल रहे हैं जो यह गुले राना^४ ॥
 था इसी फिक्र में कि आई निदा^५ । जानता तू , नहीं है उसको क्या ॥
 के हरिचंद नाम नामी है । मसकन उसका है खास काशी का ॥
 गौहरे-बहरे-फ़ैजो^६ अबदे-करम^७ । समरे- नज़ले- बाग़-जूदो- सज़ा^८ ॥
 जब निदा कान में यह आई मेरे । शुक्र खालिक^९ का मैं बजा लाया ॥
 किवरिया^{१०} खल्क़ा में भी ऐसा शख्स । तुमने अपने करम से खुल्क़ा^{११} किया ॥
 इल्मो हिल्मो^{१२} सुखतो इखलाक़^{१३} । तुम्हको खालिक ने सब किया है अता ॥
 वाक़ई जो सज़ी हैं आलम में । नेकनामी उसी का है हिस्सा ॥
 तेरा जारी रहे य बहरे करम । वहे जब तक जहान में गंगा ॥
 हर इल्मो फ़नून के माहिर^{१४} । कद्रदाँ अहलेक़ान के हौ वसुदा ॥

१—साधारण, न'अधिक गर्म न अधिक ठंडा । २—आशा का वृत्त । ३—दया की धीमी हवा । ४—रंग बिरंग के फूल । ५—शब्द, आवाज़ । ६—दया रूपी समुद्र का मोती । ७—कृपा का बादल । ८—दान तथा उदारता के बाग़ के वृत्त का फल । ९—स्रष्टा, संसार बनाने वाला । १०—ईश्वर । ११—रचना, बनाना । १२—शीब । १३—अदब, क्रायदा, सुव्यवहार । १४—ज्ञाता, जानने वाला ।

दे फलाँदू^१ को जो सबक वह अकूल है अरस्तू^२ भी तेरा ज़िल्ले रोबा^३ ॥
 इल्म अवदान^४ से भी हौ माहिर। इल्म अदिवान^५ सब है तुम प खुला ॥
 नाम हातिम^६ का खल्क भूल गई। सुनके शुहरत^७ तेरी सखावत का ॥
 हुआ कोई जो शाल का ख्वाहाँ। उसको कशमीरी आपने बख़शा ॥
 हो गया कशमकश^८ में था दिलेज़ार^९। आपका नाम सुनके कुछ समझला ॥
 कद्रदाँ आप हैं वगरनः भला। फिक्र से इतनी मुस्कको काम था क्या ॥
 आज की हाज़िरी लिखी सुन्शी। कल्ह सवेरे तो कूच है अपना ॥
 मुफ़लिसी जौ मकान को जाना। अर्ज़ को इसलिये है पेश किया ॥
 ज्ञात तेरी शरीफ़-परवर^{१०} है। मैं भी उम्मीद लुत्फ हूँ रखता ॥
 रोज़ अफ़जू^{११} हो तेरा जाहो-दशम^{१२}। है यह “आविद” की जान-दिल से हुआ ॥

रुचि-वैचिश्य

भारतेन्दु जी ने ‘प्रेमयोगिनी’ में एक पात्र से अपने लिये कहलाया है कि ‘फिर आप तो जो काम करेंगे एक तजवीज के साथ।’ इसी सजीवता या तबीयतदारी के कारण इन्होंने हिन्दी में कई चाल के पत्र आदि लिखने की प्रथा चलाई। छोटी छोटी नोट बुक छपवा कर उन्हें मित्रों में वितरित करते थे, जिनपर ‘हरिश्चन्द्र को न भूलिए’ आदि से प्रेमवाक्य छपे रहते थे। काशी के एक कमिश्नर मिस्टर कार्माइकेल ने ऐसे ही एक नोट बुक की प्रशंसा भी की थी।

“हमने अपने पत्रों को लिखने के हेतु सात वारों के भिन्न भिन्न रंग के कागज़ और उनके ऊपर के दोहे आदि बनाए थे। इनमें लाघव यह है कि बिना वार का नाम लिखे ही पढ़ने वाला जान जायगा कि अमुक वार को पत्र लिखा है। जैसा शनैश्चर के पत्र के ऊपर लिखा हुआ था ‘श्री श्यामा श्यामान्-भ्यां नमः।’ उसके नीचे यह दोहा लिखा था—

१—यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान। २—यह भी यूनान के विख्यात दार्शनिक और बादशाह सिकन्दर के मंत्री थे। ३—सायः ले जानेवाला, अनुयायी। ४—अवद का अर्थ धंदा है, खुदाके वंदोंका इतिहास। ५—दीन का बहुवचन, धर्म का ज्ञान। ६—प्रसिद्ध दानी हो गया है। ७—प्रसिद्धि। ८—बख़दाहट। ९—दुःखी। १०—भद्र लोगों का पालने वाला। ११—उन्नतिशील, बढ़नेवाला। १२—ऐश्वर्य, संपत्ति।

और काज सनि लिखनि में होइ न लेखनि मंद ।

मिलै पत्र उत्तर अवसि यह बिनवत हरिचन्द्र ॥

इसमें मंद और शनि का शब्द निकला । आदित्यवार से शनिवार तक काराजों के ऊपर के नाम और स्याही का यह क्रम समझना चाहिए । यथा आदित्यवार—‘भक्त कमल दिवाकरायनमः’ ‘सूर्य वंश विकाशाय । श्री । रामायनमः’, काराज का रंग गुलाबी । स्याही का रंग लाल ।

मित्र पत्र बिनु हिय लहत छिनहूँ नहिं विश्राम ।

प्रफुलित होत न कमल जिमि बिनु रबि उदय ललाम ॥

सोमवार, ‘श्री कृष्णचन्द्रायनमः’ ‘लक्ष्मी-मुख-चन्द्र-चकोरायनमः’ ‘श्री रामचन्द्रायनमः’ ‘चंद्रशेखरायनमः’ ‘चंद्रचूडायनमः’ । काराज का रंग सफेद, स्याही का रंग रूपहली ।

बंधुन के पत्रहि कहत, अर्ध मिलन सब कोय ।

आपहु उत्तर देहु तौ, पुरो मिलनो होय ॥

उदाहरणार्थ इनके रचित पत्र बोध से केवल इतना ही उद्धृत कर दिया गया है । इनका मुख्य सिद्धान्त वाक्य ‘यतो धर्मस्ततो कृष्णः यतो कृष्णस्ततो जयः’ था । इनके मोनोग्राम, या सिद्धान्त-चिन्ह के चित्र नीचे दिए जाते हैं ।



पहिले मे भारतेन्दु जी के नाम का पहिला अंग्रेजी अक्षर एच (H) है, जिस की दो पाई दो दो खंभों से बनाई गई है, जिससे इनका निवास स्थान चौखंभा भी अंकित हो जाता है । खंभों के ऊपर का त्रिशूल त्रिशूलस्थ काशी का द्योतन कर रहा है । एच के बीच की पाई द्वितीया के चन्द्र से बनी है जिसपर

इनके इष्ट देव का नाम 'श्री हरि' लिखा रहने से हिन्दी में इनका पूरा नाम श्री हरिश्चन्द्र बन जाता है। इस चंद्र के नीचे रोहिणी तारा का चिन्ह बिन्दु बना है जो फारसी लिपि की छोटी हे (४) का भी काम देता है। दूसरे में भारतेन्दु जी के इष्टदेव युगल मूर्ति चित्रित हैं। तीसरे में वेणु और चंद्रक श्री हरि का द्योतक है तथा चंद्र बना हुआ है, जिससे मिलकर पूरा नाम श्री हरिश्चन्द्र बन जाता है।

'उत्तर शीघ्र', 'जरूरी' आदि से शब्दों को बेफर भारतेन्दु जी ने छपवा रखे थे, जिन्हें उचित स्थानों पर चिपका देते थे।

लेखन तथा आशुकवित्त्व शक्ति

भारतेन्दु जी जिस प्रकार अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे उसी प्रकार कई लिपियों को बड़ी सुन्दरता के साथ लिख सकते थे। नागरी तथा अंग्रेजी के अक्षर बहुत ही सुंदर बनते थे और महाजनी, फारसी, गुजराती और बंगला भी अच्छी तरह लिखते थे। हिन्दी तो वह इतनी शीघ्रता से लिखते थे कि उर्दू तथा अंग्रेजी लिखने वालों को बाजी लगाकर जीता था। उस पर अक्षर सुडौल ही रहते थे। आश्चर्य यह भी था कि बात चीत करते जाते थे और लेखनी चलती जाती थी। इसी सब को देखकर डाक्टर राजा राजेन्द्र लाल मित्र ने इन्हे 'राइटिंग मशीन' की पदवी दी थी।

यों तो लिखने-पढ़ने का सामान सर्वदा इनके पास रहता था और जब यह घूमने फिरने जाते थे तब भी यह सामान इनके साथ रहता था। यहाँ तक कि थियेटर हॉल तथा मजलिसों में भी यह सामान मौजूद रहता था। यदि किसी कारण वश कलम दावात न मिल सकी तो कोयले या ठीकरे से दीवार ही पर लिख डालते थे। लेखनी न हुई तो तिनके ही से उसका काम लेते थे। इस वेसामानी के होने पर भी अक्षर विगड़ते नहीं थे।

इनकी लेखन शक्ति के समान ही इनकी आशुकवित्त्व शक्ति भी बड़ी विलक्षण थी। चार चार मिनट के भीतर समस्या पूर्ति कर डालते थे। महाराणा उदयपुर के राजदरवार में समस्यापूर्ति करने का उल्लेख हो चुका है

और उनमें भी एक पद में कितनी दबंगता तथा अपने इष्ट देव पर विश्वास भरा था। उसका अंतिम चरण यों है—

होइ लै रसाल तू भलेई जग जीव काज, आसी ना तिहारे ये निवासी कल्पतरु के।

काशिनरेश के दरबार में एक बार ऐसा हुआ कि किसी सज्जन ने एक समस्या दी थी जिसकी कोई पूर्ति नहीं कर सका था। उसी समय भारतेन्दु जी वहाँ आ गए तो महाराज ने इनसे कहा कि 'बाबू साहब, इस समस्या की पूर्ति आप कीजिए, किसी कवि से न हो सकी।' इन्होंने तुरन्त लिखकर इस प्रकार सुना दी कि मानो वह उन्हें पहिले ही से याद थी। दरबार के उपस्थित कवियों में से किसी ने ईर्ष्या से कह दिया कि 'पुराना कवित्त बाबू साहब को याद रहा होगा।' यह सुन कर भारतेन्दु जी को क्रोध हो आया और उन्होंने दस बारह कवित्त उसी समस्या पर बराबर बनाकर सुनाने और बार बार पूछने लगे कि 'क्यों कवि जी, यह भी पुराना है न?' अंत में महाराज के बहुत कहने से रुके। इन्हीं गुणों से महाराज इन पर अत्यधिक स्नेह रखते थे। महाराज को सोमवार घातवार था इसलिए उस दिन वे किसी से नहीं मिलते थे। एक बार दरबार में उपस्थित न होने का यही कारण भारतेन्दु जी ने भी लिख भेजा जिस पर काशिराज ने जो दोहा उत्तर में लिख भेजा था उसके प्रति अक्षर स्नेह स्निग्ध थे—

हरिश्चन्द्र को चद्र दिन तहाँ कहा अटकाव।

आवन को नहिं मन रख्यो इहै बहाना भाव ॥

पंडित अम्बिकादत्त व्यास लिखते हैं कि "इस समय एक दाक्षिणात्य काले से मोटे तैलंग अष्टावधान काशी में आए थे। उनका अष्टावधान-कौशल भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी की कोठी में हुआ था..... ग्रीष्मकाल था। बाबू साहब की कोठी पर चाँदनी में हम लोग बैठे थे। दोनों भाई बा० हरिश्चन्द्र और गोकुलचन्द्र थे। काशी के और भी कई पंडित थे। उन ब्राह्मण ने अति रमणीयता से अष्टावधान दिखलाया। समाप्त होने पर बा० हरिश्चन्द्र ने उन्हें साधुवाद दिया। एक कवि ने कहा कि 'चन्द्र-सूर्य साथ

ही उगे ।' इस तात्पर्य की पूर्ति अष्टावधान जी मन्दाक्रान्त में और बाबू साहब कवित्त मे साथ ही करें। बस दोनों काव्य वीरों की लेखनी दौड़ पड़ी और सद्यः साथ ही वह श्लोक और यह कवित्त सम्पन्न हुए। श्लोक का भावार्थ तो मैं भूल गया परन्तु बाबू साहब के कवित्त मे खण्डिता की उक्ति मे नायिका के मुख पर उत्प्रेक्षा थी—फिर बाबू हरिश्चन्द्र ने अपनी रचित हिन्दी में बहुत सी कविता पढ़ी और मुझसे मेरी पढ़वाई, तथा मुझे सुकविपद सहित प्रशंसा पत्र दिया ।”

भारतमार्तंड श्री गट्टलाल जी स्वयं विख्यात आशु कवि थे पर वे भी भारतेन्दु की समस्या पूर्ति तथा आशुकवित्त पर मुग्ध हो गए थे। श्रीकुन्दनलाल जी शाह अच्छे भक्त तथा सुकवि थे। इनके भाई श्री साह फुन्दनलाल जी भी वैसे ही भक्त तथा सुकवि थे। ये दोनों सज्जन कविता में अपना उपनाम क्रमशः ललित किशोरी और ललित माधुरी रखते थे। इनमें से प्रथम से भारतेन्दु जी की घनिष्ठता थी और प्रायः वे लोग एक दूसरे को समस्या दिया करते थे और पूर्तियाँ भी किया करते थे। हरिश्चन्द्र मेगजीन की सं० ७-८ में एक समस्या 'कान्ह कान्ह गोहरावति है' जिस पर भारतेन्दु जी की पन्द्रह तथा शाह जी की बारह सवैयाएँ पढ़ने योग्य हैं। काशीराज के पौत्र के यज्ञोपवीतोत्सव के समय 'यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं' पर कई श्लोक तत्काल ही बना कर पढ़े थे। उनमें से एक श्लोक यहाँ उद्धृत कर दिया जाता है—

यद्वत् वटोर्वांमनवेपविष्णोः रामस्य जातं यदुन्दनस्य ।

तद्वत् कृतं काशिनरेश्वरेण यज्ञोपवीतं परमं पवित्रम् ॥

सं० १९२४ पौष शुद्ध १५ (फि० १ वं० ५) के कविवचन सुधा में श्री ताराचरण तर्करत्न, कामाक्षा बनारस ने निम्नलिखित समस्यापूर्तियाँ छपवाई हैं, जब भारतेन्दु जी केवल अठारह वर्ष के थे।

“आज मैं बाबू हरिश्चन्द्र से मुलाकात करने गया था जहाँ बाबू साहब ने मुझे यह समस्या दिया (राधामयाराध्यते) उस पर मैंने यह श्लोक बनाया—

भ्रुत्वा वेशुरवन्निकुंजभवने जाता निशीथेऽबला ।

नो दृष्ट्वा प्रियकृष्णवक्त्रकमलं मुग्धा अमन्ती मुहुः ॥

परचाच्छन्नतमम्बिलोक्य दयितं शान्तास्ततस्संस्थिता ।

नाथेनस्मितचुम्बितास्मितमुखी राधा मयाराध्यते ॥

यद्यपि यह श्लोक मेरे चित्त का नहीं बना तथापि बाबू साहब बहुत प्रसन्न भये और कहा कि मुझे भी कोई समस्या दीजिए तब मैंने समस्या दिया । 'तू वृथा मन क्यों अभिलाषा करै' और 'जिन कामिनी के नहिं नैनन हारे ।' इस पर पूर्वस्तुत बाबू साहब ने ये कवित्त बनाए जो कविवचन-सुधा के रसिकों को आनंद देने के वास्ते लिखे जाते हैं ।

जब ते बिछुरे नंदनंदन जू तब तें हिय में बिरहागि जरै ।

दुख भारी बढ़यौ सो कहौं केहि सों 'हरिचंद' को आहूकै दुःख हरै ॥

वह द्वारिका जाइ कै राज करै हमैं पूछिहैं क्यों यह सोच परै ।

मिलिबो उनको कछु खेल नहीं तू वृथा मन क्यों अभिलाष करै ॥

वेई कहै अति सुन्दर पंकज, वेई कहै मृगनैन बढ़ा रे ।

वेई कहै अति चंचल खंजन, वेई कहै अति मीन सुधारे ॥

वेई कहै अति बान को तीछन, वेई कहै ठगिया बटवारे ।

वेई कहै धनु काम लिए जिन कामिनी के नहिं नैननि हारे ॥

अधेर नगरी, प्रहसन एक हो दिन में लिखी गई थी । 'विजयिनी विजय वैजयती' सभा होने वाले दिन ही को कुछ ही देर में लिख डाली गई थी । बलिया का लेक्चर तथा हिंदी का व्याख्यान (पद्यमय) एक एक दिन में लिखे गए थे । इस प्रकार देखा जाता है कि कविता करने तथा ग्रंथ रचना दोनों ही में इनकी गति अतिद्रुत थी ।

पाठकों के विनोदार्थ यहाँ इनकी आदि कविताएँ उद्धृत की जाती हैं । सबसे पहिला दोहा—'ले ब्योंडा ठाढ़े भए' इत्यादि है और जिसका उल्लेख हो चुका है । सबसे पहिली सवैया—

“यह सावन सोक नसावन है, मन भावन यामैं न लाजै भरो ।

जमुना पै चन्नौ सु सबै मिलि कै, अरु गाइ बजाइ के सोक हरो ॥

इमि भाषत हैं हरिचन्द पिया, अहो लाड़िनी देर न यामें करो ।

बलि शूलो कुजाओ कुको उरुको, एहि पाषैं पतिव्रत ताषैं धरो ॥

पहिला पद यों है—

“हम तो मोल लिए या घर के ।

दास दास श्री बल्लभ कुल के चाकर राधा वर के ॥

माता श्रीराधिका पिता हरि बन्धु दास गुनकर के ।

हरीचंद तुमरे ही कहावत, नहिं विधि के नहिं हर के ॥”

इनकी बनाई सबसे पहिली ठुमरी यह है—

“पछितात गुजरिया घर में खरी ॥

अब लग श्यामसुन्दर नहिं आए दुख दाइन भइ रात अँधरिया ।

बैठत उठत सेज पर भामिनि पिया बिना मोरी सूनी सेजरिया ॥

ऐसी कवित्व शक्ति होने ही के कारण वे अपनी रचना में दूसरों के भाव नहीं लेते थे । एक बार इन्होंने एक कवित्त बनाया जिसके भावों के विषय में उनका विचार यह था कि ये नए भाव हैं; परन्तु मैंने इन्हीं भावों का एक कवित्त (आपने पितृव्य वा० पुरुषोत्तमदास जी के) एक प्राचीन संग्रह में देखा था, उसे दिखाया; इन्होंने तुरंत उस अपने कवित्त को (यद्यपि उसमें प्राचीन कवित्त से कई भाव अधिक थे) फाड़ डाला और कहा ‘कभी कभी दो हृदय एक हो जाता है । मैंने इस कवित्त को कभी नहीं देखा था, परन्तु इस कवि के हृदय से इस समय मेरा हृदय मिल गया, अतः अब इस कवित्त के रहने की कोई आवश्यकता नहीं ।’ वह प्राचीन कवित्त यह था—

“जैसी तेरी कटि है तू तैसी मान करि प्यारी ,

जैसी गति तैसी मति हिय तें विसारिए ।

जैसी तेरी भौंह तैसे पन्य पै न दीजै पाँव ,

जैसे नैन तैसिए बढ़ाई उर धारिए ॥

जैसे तेरे अँठ तैसे नैन कीजिए-न जैसे ,

कुच तैसे वैन मुख तें न उचारिए ।

एरी पिक बैनी ! सुनु प्यारे मन मोहन सों ,

जैसी तेरी बेनी तैसी प्रीति विसतारिए ॥

समाज सुधार

भारतेन्दुजी हिन्दू समाज से अंतर्गत अग्रवाल वैश्य जाति के थे और इनका धर्म श्री बल्लभिय वैष्णव संप्रदाय था । पुराने विचारों की जड़ अंग्रेजी साम्राज्य के जम जाने यथा यूरोपीय सभ्यता के फैलने से वहाँ की विचार धारा के संवर्षण से हिल चली थी । पुराने तथा नवीन विचार वाले दोनों पक्ष अपने अपने हठपर अड़े थे । एक पक्ष दूसरे को नास्तिक, क्रिस्तान, भ्रष्ट, कह रहे थे । तो दूसरे उन्हें 'कूपमडूक अधविश्वासी, आदि की पदवी दे रहे थे । दोनों ही पक्षवाले इनसे अपने पक्षसमर्थन होने की आशा कर रहे थे पर वे सत्य के सच्चे भक्त थे और जो कुछ उन्होंने देश तथा समाज के लिये उचित समझा उसे निःसकोच होकर कह डाला । यह वर्णव्यवस्था मानते थे और वैष्णव धर्म के पक्के अनुगामी थे । साथ ही वे समाज के दोषों का निराकारण भी उचित समझते थे । वे कहते हैं कि 'सब उन्नतियों का मूल धर्म हैं.....ये सब तो समाज धर्म हैं जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं.....बहुत सी बातें जो समाज विरुद्धमानी हैं किन्तु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए, जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि । लड़कों को छोटेपन ही में व्याह कर उनका बल वीर्य आयुष्य सब मत घटाइए ।.....कुलीन प्रथा बहु विवाह आदि को दूर कीजिए । लड़कियों को भी पढ़ाइए ।.....सब लोग आपस में मिलिए ।' यह उनकी प्रौढ़ावस्था का उपदेश है ।

स्त्री शिक्षा के संबंध में यह उद्योग भी बराबर करते थे । मिस मेरी कारपेंटर के इस उद्योग में यह प्रधान सहायक थे । बगाल, बंबई तथा मंदराज विश्वविद्यालयों की परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थिनियों के लिये वनारसी साड़ियाँ आदि पुरस्कार भेजकर उन्हें उत्सहित करते थे । वे ईसाई चाल पर दी जाने वाली शिक्षा के विरोधी थे । उनका कथन था कि 'ऐसी चाल से उन्हें शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुलधर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें ।' इन्होंने स्वयं अपनी लड़की को अच्छी शिक्षा दी थी, जो बाल्यकाल में सदा अस्वस्थ रहती थी । यह श्रीमद्भागवत

आदि का पाठ सुगमतापूर्वक कर लेती थी और निज का अच्छा छोटा सा पुस्तकालय था। यह बंगला भी जानती थीं। बा० राधाकृष्ण दास जी ने स्वर्णलता का अनुवाद पूर्ण होने पर उसकी एक प्रति इन्हें भी उपहार में दी थी और इनकी सम्मति पूछी थी। दूसरे दिन इन्होंने जो सम्मति दी उसका मतलब यह था कि अनुवाद उत्तम हुआ है पर सुखांत कर देने से इसका प्रभाव कुछ कम हो गया है। सन् १८८० ई० के मई में इन्हीं के विवाह के अवसर पर भारतेन्दु जी ने स्त्रियों के अश्लील गाने को बंद कर दिया था। अग्रवाल विरादरी मे पत्तलें पहिले परस जाने के बाद भाइयों को भोजन के लिए बैठाने की प्रथा इन्हीं ने निकाली। गाली गाना बंद करने पर अनेक सज्जनों ने इन्हें धन्यवाद दिया था। रामलीला पुस्तक में ऐसे अवसर पर गाने योग दो एक पद इन्होंने दिए हैं। विलायत-यात्रा पर आप की सम्मति थी कि—

रोकि विलायत-गमन कूपमंडूक बनायो ।

औरन को संसर्ग छोड़ाइ प्रचार घटायो ॥

समय के प्रभाव से जिन लोगों का संसर्ग आवश्यक हो गया है उन लोगों के देश समाज आदि का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। ईश्वर की सृष्टि के एक से एक उन्नत देश तथा जाति से मिलकर उनके गुण आदि लेते हुए अपनी उन्नति न करना अपनी ही हानि है, इसीसे उन देशों के पर्यटन में धार्मिक या सामाजिक बंधन डालना भी हानिकारक है।

बहु देवी देवतान भूत प्रेतादि पुजाई ।

ईश्वर सों सब विमुख किए हिन्दुन घबराई ॥

न्यों न हो, हिन्दू-समाज तैंतीस करोड़ देवताओं से भी नहीं अघाया है, कबर, गाजीमिर्याँ, भूत-प्रेत आदि भी पूजता है।

खसम जो पूजै देहरा, भूत पूजनी जोय ।

एकै घर में दो मता, कुशल कहाँ ते होय ॥

हिंदुओं के आपस की फूट, द्वेष, आलस्य, अहम्मन्यता, मुकद्दमेबाजी आदि सब पर इन्होंने अपने लेखों में कुछ कुछ आक्षेप विनोद लिए हुए किया है।

देश सेवा

मातृभाषा भक्त भारतेन्दु जी के हृदय में देश सेवा करने का उत्साह कम नहीं था और उन्होंने प्रायः साथ ही दोनों कार्य में हाथ लगा दिया था। जगन्नाथपुरी से लौटने पर देशोपारक बाबू हरिश्चन्द्र ने पाश्चात्य शिक्षा का अभाव तथा उसकी आवश्यकता देखकर अपने गृह पर ही एक अँग्रेजी तथा हिन्दी की पाठशाला खोली। यद्यपि कुछ सरकारी तथा मिशन स्कूल खुल चुके थे पर उनमें जन-साधारण अपने अपने बालकों को अनेक विचारों से तथा फीस आदि देने में असमर्थ होने से नहीं भेज सकते थे। इस स्कूल में आरम्भ में केवल पाँच ही बालक थे। इन लोगों को ये स्वयं तथा बा० गोकुल-चन्द्रजी पढ़ाते थे पर जब क्रमशः विद्यार्थियों की संख्या तीस हो गई तब उन्होंने अध्यापन कार्य के लिये एक वैतनिक सज्जन को नियुक्त कर दिया। जब यह कुछ और बढ़े हुए और विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ी सन् १८६७ ई० में इन्होंने चौखंभा में वेणीप्रसाद के गृह में एक स्कूल स्थापित कर दिया और कई अध्यापक नियुक्त कर दिए। इसमें आधे से अधिक लड़के बिना फीस दिए पढ़ते थे और उन्हें पुस्तक, लेखनी आदि भी बिना मूल्य दी जाती थी। कुछ निराश्रय बालकों को वस्त्र भोजन भी मिलता था इस पाठशाला का पहिला नाम 'चौखंभा स्कूल था और इसका कुल व्यय भारतेन्दु जी स्वयं चलाते थे।

सन् १८७० ई० में इसके एक अध्यापक एक काश्मीरी ब्राह्मण विश्वेश्वरप्रसाद, भारतेन्दु जी की आज्ञा भंग करने के कारण निकाल दिए गये। उसने भारतेन्दु जी से वैमनस्य ठान लिया और जिसके घर में स्कूल था उसने भी उसी का साथ दिया, जिससे भारतेन्दु जी ने स्कूल पुनः अपने घर उठवा लिया। पंडित जी ने वेणीप्रसाद के पुत्र के सहयोग से ईर्ष्यावश अपना एक स्कूल खोला और चौखंभा स्कूल के सब लड़कों को धमका कर अपने यहाँ बुलाने लगे। यहाँ तक कि कुछ लोगो के साथ बाबू साहब के गृह के फाटक के सामने खड़े होकर भीतर किसी लड़के को न जाने देते थे। इस दंगा-फसाद से जब कुछ न हुआ और प्रायः डेढ़ सौ विद्यार्थी चौखंभा स्कूल में आने लगे

तब पंडित जी ने मेल भी करना चाहा था । दुष्टों को दुष्टता बड़ों के मार्ग के रोड़े मात्र हैं और उससे उनको कोई भी रुकावट नहीं पहुँच सकती । सन् १८८० ई० से सरकार बीस रुपये और उसके बाद पैंतालीस रुपये मासिक सहायता देने लगी । म्युनिस्पैलिटी भी दो सौ रुपये वार्षिक सहायता देने लगी । पहिले यह प्राइमरी स्कूल था फिर मिडिल स्कूल हुआ । कुछ दिन हाईस्कूल रहकर यह पुनः मिडिल स्कूल हो गया । सन् १८८५ ई० में भारतेन्दु जी की मृत्यु के अनंतर राजा शिवप्रसाद जी के प्रस्ताव तथा सभापति मि० एडम्स कलेक्टर साहब के अनुमोदन पर इसका नाम हरिश्चन्द्र स्कूल रखा गया । उसके अनंतर क्रमशः इसकी अवनति होती गई और यह बंद ही हो जाने को था कि सन् १९०७ ई० में काशी के कुछ सज्जनों ने जिनमें बा० गोविन्ददास जी आदि प्रमुख थे, तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर रेडिची साहब से प्रार्थना की और उन्होने इसका कार्यभार अपने ऊपर लिया । नगर के प्रसिद्ध पुरुषों की एक कमेटी बनाई गई । बड़े उत्साह के साथ चंदा उतारा गया, भारत-सरकार ने अच्छी सहायता दी और म्युनिस्पैलिटी ने कंपनी बाग के सामने की जगह दी, जिससे उस पर चालीस सहस्र रुपये लगाकर स्कूल की इमारत तैयार हुई । और जमीन खरीद कर उस पर विज्ञान आदि के लिए छोटी छोटी इमारतें बनवाई गईं । इस प्रकार कुछ ही वर्षों में स्कूल इतनी उन्नत अवस्था को पहुँच गया कि इंट्रेन्स क्लास तक की पढ़ाई होने लगी और छः सौ से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने लगे । अब यह हरिश्चन्द्र हाई स्कूल कहलाता है ।

‘निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल’ मंत्र को मानने वाले भारतेन्दु जी स्कूल खोलने के बाद ही से मातृभाषा की सेवा की ओर मुक पड़े । हिन्दी समाचार पत्रों की कमी देखकर कवि बचन सुधा, हरिश्चन्द्र मैगज़ीन तथा हरिश्चन्द्र चन्द्रिका, बाला-बोधिनी आदि पत्रिका पत्र स्वयं अपने व्यय से निकाला और दूसरो को सहायता देकर अनेक पत्र प्रकाशित कराए । इन पत्रों से इन्हे बराबर धन की हानि पहुँचती रही । हिन्दी में पुस्तकों का अभाव देखकर समयानुकूल पुस्तकों की रचना आरंभ की और हिन्दुओं

में हिंदी के प्रति प्रेम कम देखकर उन्हें स्वयं प्रकाशित कर बिना मूल्य वितरण करना आरंभ कर दिया। अन्य लोगों को हिंदी ग्रंथ रचना का उत्साह दिला कर बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित कराईं। अनेक प्राचीन काव्य ग्रन्थ भी छाप कर घाँटे गये। 'वास्तव में हरिश्चन्द्र सरीखा उदार हृदय, रुपये को मिट्टी समझने वाला गुण-ग्राही नायक हिन्दी की पतवार को उस समय न पकड़ता और सब प्रकार से स्वार्थ छोड़कर तन मन धन से इसकी उन्नति में न लग जाता तो आज दिन हिन्दी का इस अवस्था पर पहुँचना कठिन था। हरिश्चन्द्र ने हिन्दी तथा देश के लिए सारे ससार की दृष्टि में अपने को मिट्टी कर दिया।' जी नहीं जनाब, सिर्फ 'घर के शुभचिंतको, की दृष्टि में मिट्टी किया था। संसार तो जो उन्हें पहिले मानता था, वही या उससे अधिक अब भी मानता है।

सं० १९२७ में भारतेन्दु जी ने कविता-वर्द्धिनी-सभा स्थापित की जो इनके घर पर या रामकटोरा बाग में हुआ करती थी। सरदार, सेवक, दीन-दयाल गिरि, मन्नालाल 'द्विज' दुर्गादत्त गौड़ 'दत्त', नारायण, हनुमान आदि अनेक प्रतिष्ठित कवि गण उस सभा में आते थे। व्यास गणेशराम को इसी सभा ने प्रशंसा-पत्र दिया था। साहित्याचार्य्य प० अम्बिकादत्त व्यास को सुकवि की पदवी तथा प्रशंसा-पत्र इसी में दिया गया था। कवि समाज भी होता रहता था और मुशायरा भी। एक बार इन्होंने बड़े ही धूम-धाम से ऐसा कवि-समाज किया था, जैसा न हुआ था और न आशा है कि होगा। यह कविसमाज रामकटोरा के बाग में हुआ था और कई दिनों तक चलता रहा था। इन्होंने बाग के भीतर ही रसद तथा हलवाई की दूकान लगवा दी थी और कई पेशराज जल का प्रबंध करने के लिए नियत कर दिए थे। जितने कविगण आए थे सभी की कविताएँ ध्यान-पूर्वक सुनी जाती थीं, इसलिए समय अधिक लगता था और सबको ही कविता सुनाने का अवसर देने के निश्चय के अनुसार सूचना दी जा चुकी थी इसलिए एक दिन का जलसा समाप्त होने पर प्रायः सभी कवि तथा सहृदय श्रोतागण उसी वाग में रहते और दूसरे दिन पुनः समय पर जलसा आरंभ होता जिसे जो इच्छा होती थी वह सामान लेकर भोजन बनाता या भोजन कर लेता था कुछ लोग सामान

ले लेकर अपने घर जाते और दूसरे दिन समय पर आ जाते थे। इस प्रकार कई दिन के जलसे पर जब किसी कवि को कविता सुनाना बाकी न रहा तब यह कवि-समाज समाप्त हुआ था। इसी प्रकार का एक मुशायरा भी किया था जिसके प्रबंधकर्त्ता तेरात्रली थे। और बचा हुआ बहुत सा सामान वे अपने घर उठा ले गये थे।

सं० १९३० वि० में पेनीरीडिंग क्लब स्थापित हुआ, जिसमें अच्छे अच्छे लेखकों के लेख पढ़े जाते थे। मैगज़ीन में प्रकाशित प्रायः सभी लेख इसमें पढ़े गये थे। गायन वादन भी इसमें मनोरंजनार्थ रखा जाता था। भारतेन्दु जी एक बार श्रांत पथिक का स्वाँग बनाकर इसमें आए थे और गठरी पटक कर तथा पैर फैलाकर इस ढंग से बैठ गये थे कि दर्शक-गण उन्हें देख कर आनंद से लोट पोट हो गए थे। चूसा पैगम्बर का भी अच्छा स्वाँग बनाया था। नंगे शिर जरी की कफनी पहिने और आगे रंगविरंगे शर्वतों से बोतल सजाए हुए एक चौकी पर आ खड़े हुए थे। पं० चिन्ता-मणिराव धड़फल्ले तथा पं० माणिक्यलाल जोशी शिष्य बने हुए दोनों ओर चँवर झल रहे थे। लंबा कागज़ का पुलिंदा खोलते जाते और उपदेश पढ़ते जाते थे। इस समय के प्रोत्साहन से भी कई ग्रन्थ तैयार हुए थे।

तदीय समाज सं० १९३० वि० में स्थापित हुआ था, जिसका उद्देश्य ही धर्म तथा ईश्वर प्रेम था। गोबध रोकने के लिए इस समाज के उद्योग से साठ सहस्र हस्ताक्षर सहित एक प्रार्थना पत्र दिल्ली दरबार के समय भेजा गया था। गोमहिमा आदि लेख भी लिखकर यह बराबर आन्दोलन मचाते रहे। उसी समय से अनेक स्थानों में गो-रक्षिणी सभायें तथा गोशालाएँ खुलने लगीं। मदिरा-मांस सेवन रोकने के लिए भी इस समाज ने प्रयत्न किया और दो प्रकार की हज़ारों छोटी छोटी वही सी पुस्तकें छाप कर वितरित कीं। इनमें एक प्रकार की वहियो पर मदिरा न सेवन करने की आर दूसरे पर मांस न खाने की प्रतिज्ञाएँ साक्षियों के सामने लिखाई जाती थीं। इस समाज ने देशी वस्तुओं के व्यवहार करने की प्रतिज्ञाएँ भी लोगों से कराई थीं। इस समाज से एक मासिक पत्रिका 'भगवद्भक्ति-तोषिणी' नाम की निकली थी

जो कुछ ही दिन बाद बंद हो गई। इसके अधिवेशनों में, जो प्रति बुधवार को होता था, गीता तथा भागवत का पाठ होता था और संकीर्तन भी होता था। इसमें प्रसिद्ध विद्वान, धनाढ्य तथा भक्त लोग ही सभासद होते थे। इनके छोटे भाई बा० गोकुलचन्द्र जी भी इसके सभासद थे। इसके अधिवेशनों में बिना आज्ञा लिए कोई बाहरी सज्जन नहीं आ सकते थे। लोकनाथ चौबे “नाथ” कवि ने एक अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए टिकट मँगवाने के लिए २२ जनवरी सन् १८७४ ई० को निम्नलिखित दोहा लिखकर भेजा था।

श्री ब्रजराज समाज के, तुम सुंदर सिरताज।

दीजै टिकट निवाज करि, नाथ हाथ हित काज ॥

भारतेन्दु जी ने स्वयं ‘तदीय नामांकित अनन्य वीर वैष्णव, की पदवी लेते समय निम्नलिखित नियमों को आजन्म निबाहने की प्रतिज्ञा की थी।

हम हरिश्चन्द्र अग्रवाले श्रीगोपालचन्द्र के पुत्र काशी चौखम्भा महल्ले के निवासी तदीय समाज के सामने परम सत्य ईश्वर को मध्यस्थ मानकर तदीय निम्नांकित अनन्य वीर वैष्णव का पद स्वीकार करते हैं और नीचे लिखे हुए नियमों का आजन्म मानना स्वीकार करते हैं।

१—हम केवल परम प्रेममय भगवान श्रीराधिकारमण का ही भजन करेगे।

२—बड़ी से बड़ी आपत्ति में भी अन्याश्रय न करेंगे।

३—हम भगवान से किसी कामना के हेतु प्रार्थना न करेंगे और न किसी और देवता से कोई कामना चाहेंगे।

४—जुगल स्वरूप में हम भेद दृष्टि न देखेंगे।

५—वैष्णव में हम जाति बुद्धि न करेंगे।

६—वैष्णव के सब आचार्यों में से एक पर पूर्ण विश्वास रखेंगे परन्तु दूसरे आचार्यों के मत-विषय में कभी निन्दा वा खडन न करेंगे।

७—किसी प्रकार की हिंसा वा मांस भक्षण कभी न करेंगे।

८—किसी प्रकार की मादक वस्तु न खायेगे न पीयेगे।

९—श्रीमद् भगवद्गीता और श्रीभागवत को सत्यशास्त्र-मानकर नित्य मनन-शीलन करेंगे ।

१०—महाप्रसाद में अन्य बुद्धि न करेंगे ।

११—हम आमरणान्त अपने प्रभु और आचार्य पर दृढ़ विश्वास रख कर शुद्ध भक्ति के फैलाने का उपाय करेंगे ।

१२—वैष्णव मार्ग के अविरुद्ध सब कर्म करेंगे और इस मार्ग के विरुद्ध श्रौत स्मार्त वा लौकिक कोई कर्म न करेंगे ।

१३—यथा शक्ति सत्यशौचदयादिक का सर्वदा पालन करेंगे ।

१४—कभी कोई बात जिससे रहस्य उद्घाटन होता हो अनधिकारी के सामने न कहेंगे । और न कभी ऐसी बात अवलम्ब करेंगे जिससे आस्तिकता की हानि हो ।

१५—चिन्ह की भाँति तुलसी की माला और कोई पीत वस्त्र धारण करेंगे ।

१६—यदि ऊपर लिखे नियमों को हम भंग करेंगे तो जो अपराध बन पड़ेगा हम समाज के सामने कहेंगे और उसकी क्षमा चाहेगे और उसकी घृणा करेंगे ।

मिती भाद्रपद शुक्ल ११ संवत् १९३०

साक्षी

हरिश्चन्द्र

पं० वेचनराम तिवारी

हस्ताक्षर तदपि नामांकित अनन्य

पं० ब्रह्मदत्त

वीर वैष्णव

चिन्तामणि

यद्यपि मैंने लिख दिया है तथापि इसकी

दामोदर शर्मा

लाज तुम्हीं को है ।

शुकदेव

(निज कल्पित अक्षर में)

नारायण राव

माणिक्यलाल जोशी शर्मा

मुहर

तदीय

समाज

इन सभा समाज आदि के सिवा यह स० १९२४ वि० में यंगमैन्स एसोसिएशन और सं० १९२५ में डिबेटिंग क्लब स्थापित कर चुके थे। द्वितीय का मुख्य उद्देश्य भाषा तथा समाज का सुधार था। इसमें सामाजिक विवाद-ग्रस्त लेख आदि पढ़े जाते थे। कुछ दिन बा० गोकुलचन्द्र इसके मंत्री थे। 'यही पहिली अंग्रेजी सभा है, जिसका वार्षिक विवरण हिंदी में लिखा गया है।' काशी सार्वजनिक सभा, वैश्य हितैषिणी सभा आदि भी इन्होंने आरम्भ किए थे पर सभासदों के उत्साह की कमी से विशेष कार्य न कर वे बन्द हो गईं।

सन् १८६८ ई० में सरविलियम म्योर इस पश्चिमोत्तर प्रांत के छोटे लाट नियुक्त होकर आए। यह विद्याप्रेमी थे और इन्होंने मुसलमानों के इतिहास पर कई ग्रन्थ लिखे हैं। इनकी विद्या रसिकता इनके तीन प्रसिद्ध विश्व-विद्यालयों से तीन उच्चतम डिग्रियाँ प्राप्त करने ही से स्पष्ट है। भारतेन्दु जी ने हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए इनके समय में बहुत कुछ आंदोलन किया था पर वे असफल रहे। भारतेन्दु जी तथा राजा शिवप्रसाद में हिन्दी को लेकर मनोमालिन्य हो चुका था। राजा साहब ने हाकिमों के ही शरण में रहकर खिचड़ी हिन्दी का प्रचार करना उचित समझा, जिससे वे इनके इस आंदोलन के विपक्ष में रहे। ऐजुकेशन कमीशन के समय भी इन्होंने स्वयं बहुत उद्योग किया और प्रयाग हिन्दू समाज की भी बहुत सहायता की थी पर उस समय विशेष फल न हुआ।

काशिनरेश की धर्म सभा, बनारस इन्स्टीट्यूट तथा ब्रह्माभृतवर्षिणी सभा के यह प्रधान सहायक रहे। कवि बचन सुधा में इन सभाओं के विषय की सूचनाएँ, टिप्पणी आदि निकलती रहती थी। इस अंतिम सभा के एक अधिवेशन में कर्नल ऐलकौट तथा मिसेज वेसेंट उपस्थित थी और कर्नल साहब का एक घंटे तक अंग्रेजी में व्याख्यान हुआ था। व्याख्यान समाप्त होने पर कुछ लोग लोगों के अंग्रेजी न समझने पर और उनके कहने पर लोकनाथ चौबे ने उठकर प्रार्थना की कि यहाँ हम लोग बहुत से मनुष्य अंग्रेजी भाषा नहीं समझ सकते, इसलिए यदि कोई विद्वान उसे हिन्दी में

समझा दें तो अच्छा हो। इसके अनंतर वा० प्रमदादास मित्र, रामराव एम० ए०, बालकृष्णाचार्य एम० ए० आदि अंग्रेजी के विद्वानों के रहते हुए भी भारतेन्दु जी को चौबे जी ने लक्ष्य करके कहा कि 'बबुआ, तुम्ही समझाय दे तो अच्छा है।' ये चौबे जी भारतेन्दु जी से उस समय चिढ़े से थे, इसी से उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वे जानते थे कि भारतेन्दु जी ने अंग्रेजी भाषा की उच्च डिग्री नहीं प्राप्त की थी और साथ ही वे यह भी पहिले से नहीं जानते थे कि उन्हें इस व्याख्यान का हिन्दी अनुवाद वहीं सुनना पड़ेगा, जिससे वे विशेष मन देकर उसे सुनते रहते। पं० सुधाकर जी द्विवेदी के भी भारतेन्दु जी से कहने पर कि 'हाँ हाँ, आपही उठकर समझा दीजिए, इन्होंने कुल व्याख्यान का मतलब आध घंटे में कह डाला।

इसके अनन्तर पं० रामराव ने वक्तृता देते हुए भारतेन्दु जी का कर्नल साहब को परिचय दिया। और वे बाबू साहब के गृह पर उनसे मिलने आए थे और इनके संगृहीत चादशाही समय के पत्र आदि देखकर बहुत खुश हुए थे।

होमियोपैथिक चिकित्सा का आरंभ होने पर इन्होंने सं० १९२५ में पहिले पहिल एक दातव्य चिकित्सालय खोला जिसके व्यय के लिये यह दस रुपये मासिक बराबर सं० १९३० वि० तक देते रहे। सं० १९२८ के इंटरनेशनल एक्जेविशन में इन्होंने कुछ कार्य किया था, जिसके लिए युवराज सप्तम एडवर्ड का धन्यवाद पत्र आया था। काशी की कारमाइकेल लाइब्रेरी तथा बालसरस्वती भवन के स्थापन में सहस्रो पुस्तकें देकर इन्होंने सहायता की थी। वा० सुरेन्द्रनाथ वैदर्जी के नेशनलफंड में सहायता दी और उनके काशी आने पर उनका सत्कार भी किया था। सुप्रसिद्ध विद्वान पं० ईश्वरचंद्र विद्यासागर जब काशी पधारे थे तब वे इनसे मिलने आए थे और भारतेन्दु जी ने कुछ पुस्तकें देकर उनका आदर किया था। वे अपनी शकुन्तला की भूमिका में लिखते हैं कि 'हम को अभिज्ञानशाकुन्तला की आवश्यकता थी, यह बात जानते ही इस सौम्यमूर्ति, अमायिक, निरहंकार, विद्योत्साही देश-

हितैषी ने जिस स्नेह और उत्साह के साथ हमारे हाथ में पुस्तक अर्पण की थी, उसे क्या हम किसी काल में भूल सकते हैं ।'

भाई का इनसे अलग होना

‘एक ओर साहित्य सेवा में रुपये लग रहे हैं, और दूसरी ओर दीन दुखियों की सहायता में, तीसरे देशोपकारक कामों के चंदे में, चौथे प्राचीन रीति के धर्म कार्यों में, और पाँचवें यौवनावस्था के आनंद विहारों में ।’ प्रथम चार प्रकार का व्यय किसी हालत में पाप मूलक नहीं हो सकता, हाँ, कंजूसों के विचार से वह एक दम धन फूँकना या आवारगी तथा कुछ उदार पुरुषों की दृष्टि में अपव्यय तक तब कहा जायगा जब यह अपनी औकात से बहुत बढ़कर हो । पर सच्चे उदार दानी पुरुष के लिये वह किसी हालत में अपव्यय नहीं हो सकता प्रत्युत् पुण्यकार्य ही माना जायगा । पाँचवें प्रकार का व्यय परोपकारार्थ नहीं है, केवल स्वार्थ के लिए है । इसमें आवश्यक अर्थात् सार्थक और अनावश्यक अर्थात् व्यर्थ (फिजूल खर्ची) दोनों ही सम्मिलित थे । आवश्यक व्यय मनुष्य की स्थिति के अनुकूल समझना चाहिए । जो धन एक धनाढ्य पुरुष के लिये ऊपरी व्यय के लिये जरूरी है उसमें कोड़ियों साधारण पुरुषों का कालयापन सुखपूर्वक चलता रहता है । ‘शौक इन्हे संसार के सौंदर्य मात्र ही से था । गाने, बजाने, चित्रकारी, पुस्तक-संग्रह, अद्भुत पदार्थों का संग्रह, सुगंधि की वस्तुएँ, उत्तम कपड़े, उत्तम खिलौने, पुरातत्व की वस्तु, लैम्प, ऐलबम, फोटोग्राफ इत्यादि सभी प्रकार की वस्तुओं का ये आदर करते और उन्हें संगृहीत करते ।’ शौक की इन चीजों में सुगंधि द्रव्य तथा उत्तम कपड़े तो व्यय हो गये होंगे पर अन्य सभी वस्तु तो घर ही में रह गईं, चाहे वे बहुमूल्य रही हों या साधारण मूल्य की । अस्तु, ‘इन सबों से बढ़कर द्रव्य की ओर इनकी दृष्टि न रहने के कारण अप्रबंध तथा अर्थ-लोलुप विश्वासघातकों के चक्र ने इनके धन को नष्ट करना आरंभ कर दिया । यह अवस्था तकसीमनामा होने के पहिले की थी और जब कुल स्टेट एक था । उस समय भारतेन्दु जी की विमाता तथा बा० गोपालचन्द्र जी द्वारा

नियुक्त रायनृसिंहदास से उद्भूट प्रबन्धकर्ता विद्यमान थे। क्या ये लोग इस अतिम दोष कुप्रबन्ध के प्रधान दोषी नहीं हैं? 'उन्होंने वा० गोकुलचन्द्र की नावालग्नी तक कोठी को सँभाला था।' तकसीमनामे के समय वा० गोकुलचन्द्र अठारह वर्ष तीन महीने के थे अर्थात् केवल तीन महीने या उससे भी कम समय तक भारतेन्दु जी प्रतिद्वंद्व रहे थे। साथ ही जो वा० गोकुलचन्द्र भारतेन्दु जी से केवल पन्द्रह महीने छोटे थे और वालिग होते ही जिनसे अपना हिस्सा अलग कर लिया था, क्या वे इस कुप्रबन्ध में भारतेन्दु जी के सामीदार नहीं थे? पर सन् १८७० ई० तक के सारे कुप्रबन्ध के भारतेन्दु जी ही कारण माने गए। पूर्वाक्त उद्धरण में 'इनके' शब्द विशिष्ट अर्थ सूचक हैं। इसी शब्द के कारण भारतेन्दु जी को तकसीम के समय चल संपत्ति में स्यात् कुछ नहीं दिया गया था।

'घर के शुभचितको' ने इन्हें समझाया तथा काशिराज तक खबर पहुँचाई जिसपर उन्होंने इनसे कहा कि 'बबुआ' घर को देखकर काम करो। इन्होंने निर्भय चित्त से उत्तर दिया कि 'हुजूर इस धन ने मेरे पूर्वजों को खया है, अब मैं इसे खाऊँगा।' महाराज यह सुन कर चुप रह गये। उन्हीं 'शुभचितको' की कृपा से २१ मार्च सन् १८७० ई० को दोनों भाइयों में तकसीमनामा लिखा गया और दूसरे ही दिन रजिस्ट्री भी हो गई। इसके लिखने के समय भारतेन्दु जी उन्नीस वर्ष ६ महीने के तथा वा० गोकुलचन्द्र अठारह वर्ष तीन महीने के थे। तकसीमनामा लिखने के अवश्य कुछ पहिले ही सम्पत्ति का तकसीम हुआ होगा। भारतेन्दु जी ने अब प्रश्न उठता है कि कब पैतृक संपत्ति का प्रबन्ध हाथ में लिया था। वालिग होने अर्थात् अठारह वर्ष पूरा होने के पहिले या बाद। आश्चर्य है कि जिन विमाता तथा प्रबन्धक रायनृसिंहदास जी इनके पन्द्रह वर्ष के होजाने पर इनके आय-व्यय के लिये दो चार रुपये नहीं दे सकते थे उन लोगों ने इनको कुल स्टेट वालिग होने के पहिले कैसे दे दिया होगा। अस्तु, मतलब यही है कि वालिग होने के अनन्तर साल सवा साल कुल प्रबन्ध अकेले इनके हाथ में रहा होगा। पर नहीं, जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, कोठी का प्रबन्ध वा० गोकुलचन्द्र की नावालग्नी तक

दूसरों के हाथ में था, अर्थात् दो तीन महीने में इन्होंने इतना अपव्यय कर डाला कि बा० गोकुलचन्द्र बालिग होते ही एक दिन जब यह खजाना खोलने जा रहे थे तब उसके द्वार पर लगे हुये ताले पर जा बैठे और कहा कि 'आप ने अपने भाग का कुल धन खर्च कर डाला है तथा अब जो कुछ आप इसमें से लेंगे हमारे हिस्से का लेंगे।' भारतेन्दु जी यह सुनते ही वहाँ से हट गये और उसी समय से आपस के बटवारे का सूत्रपात हुआ।

भारतेन्दु जी पर अनुज द्वारा दिये गये इस रुकावट का ऐसा असर हुआ कि वे समग्र पैतृक संपत्ति के निज भाग की दस्तबन्दारी लिखने को तैयार होगए पर रायनृसिंहदास जी ने ऐसा करना अनुचित समझाकर बाजाबता तकसीमनामा कराना उचित समझा। संपत्ति दो प्रकार की होती है—चल और अचल। चल संपत्ति के विषय में तकसीमनामा कहता है 'अशियाए मनकूलः व नकदी बपास हर सेह हिस्सा तहरीर दादः अलैहदः के हम लोगों ने ब इत्तफाक यकदीगर बदस्तखत फरीकैन व वालदः साहबः के मुनकसिम कर लिया।' बस, इनके हिस्से में से इनका अपव्यय काट कर जो कुछ मिला होगा या इनसे उदार महापुरुष वे कहाँ तक अपने हिस्से के लिए छोटे भाई तथा विमाता से कहा सुनी की होगी, यह प्रत्येक पाठक समझ ले।

अब अचल संपत्ति का तीन भाग किया गया। 'अव्वल यह कि तकसीम तीन हिस्सा करके एक हिस्सा वास्ते अमूरात दीनी व पूजः व सेवा श्री ठाकुर जी की पूजः कदीमी हम लोगों का है और इस हिस्से ख्वाह इसके महासिल से पूजः व सेवा श्री ठाकुर जी व पिंडसराध बुजुगान व आदाए रस्म भौहिवः हरशख्स व रसूमात विरादरी का हमेशः मुतअल्लिक रहेगा। दूसरा हिस्सा हम बाबू हरीश्चंदर व तीसरा हिस्सा हम बाबू गोकुल चंदर का करार पाया।' तकसीमनामा देखने से यह ज्ञात होता कि दोनों भाइयों को स्थावर संपत्ति यथाशक्य सम करके दी गई है, आधे आधे इलाके या खेत पर हक दिया गया है पर तीसरे भाग में कुछ विशेषता है। इसमें इन लोगों के पूर्वजों की उत्तम से उत्तम संपत्ति चुनकर रखी गई है।

‘क्रिता मकान सकूनत में दीवान खाना व ठाकुर द्वारा व बाग जिसकी हदूद जैल मे मुंदर्ज है वा बाग रामकटोरा कि इसमे भी ठाकुर जी का मंदिल है और मौजा वरी व चैनपुर हवेली चुनार व अस्तवल बुलानालः तकसीम वा अलैहदगी जो अखितयार इंतकाल हम लोगों से मुस्तस्ना रखा गया और इहतमाम इसका हमेशः मुतअल्लिक मुन्सरिम हिस्सा अब्बल के सा अब्बल की अब्बल मुनसरिमः भारतेन्दु जी की विमाता थीं । इस प्रकार इनके पूर्वजों की सम्पत्ति का यह भाग तथा बचे हुए का भी आधा भाग इनके हाथ से निकल कर इनके भाई साहब के हाथ मे चला गया ।

भारतेन्दु जी के हिस्से मे एक मकान, एक दूकान, कोरौना मौजा का अर्द्धांश, परमिट वाली कोठी, नवाबगंज बाजार का आधा स्वत्व, एक मकान मौजा मदरासी व सहारनपुर और मौजा कोरा धरौरा व देवरा का आधार हिस्सा तथा कुछ फुटकर खेत और जमीन मिली थी । इसके साथ दो शर्तें भी थीं । पहिली यह कि यदि यह अपनी स्थावर संपत्ति बेचना चाहें तो पहले अपने भाई के हाथ ही वेंच सकते हैं और उनके अस्वीकार करने पर ही दूसरे के हाथ विक्रय करने का इन्हें अधिकार होगा । दूसरे यह कि उस समय तक के लिए गए अपने अपने ऋणों का भी प्रत्येक अलग अलग उत्तरदायी होगा । इसमे दूसरी शर्त अशर्फी तथा चार रुपये वाला ऋण भी शामिल ही रहा होगा ।

इस प्रकार घराऊ संपत्ति का भाग होजाने पर भारतेन्दु जी अपने ही घर मे निराश्रय से रह गये । इनके यहाँ आने वाले कवि गुणी आदि इन्हीं के आश्रित थे । व्यापार या धन प्रबन्ध कुशल ये थे ही नहीं । तकसीम के समय नगदी इन्हें विशेष मिला ही न था इसलिए ऋण लेकर काम चलने लगा और उसी से स्थावर संपत्ति का शीघ्र नाश होगया । घर के शुभचितको ने इन्हे ‘नालायक’ का खिताब दे दिया और इनकी मातामही के यहाँ से भी इन्हे जो कुछ मिलने वाला था उसकी भी रक्षा करने का वे उपाय करने लगे ।

जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, भारतेन्दु जी के मातामह प्रमातामह

आदि दिल्ली के राजवंश के दीवान रह चुके थे और उन्हीं लोगों के साथ वे उनकी गिरती अवस्था में काशी आ बसे थे । इन लोगों के पास चल संपत्ति ही अधिक थी और स्थावर बहुत कम । राय खिरोधर लाल को एक कन्या और एक पुत्र था । पर पुत्र पिता के सामने ही मर चुका था । इनकी स्त्री नन्ही बीबी ने पति, पुत्री तथा जामाता के क्रमशः मरने के अनंतर वैशाख सुदी ६ सं० १९१९ वि० को एक वसीयतनामा अपने दोनों दौहित्रों के नाम लिख दिया था । इसके तेरह वर्ष तथा तकसीमनामा के पाँच वर्ष बाद चैत्र सुदी ९ सं० १९३२ को इन्हीं मातामही ने दूसरा वसीयतनामा लिखा, जिसके 'इरकाम' करने का कारण यों दिया है कि 'बा० हरिश्चन्द्र बड़े नवासे ने अपने छोटे भाई बा० गोकुलचंद्र से जायदाद मौरूसी अपने मूरिसान की तकसीम व अलैहदः कराके कुल तलफ व बर्बाद करके दर्जा आखीर को पहुँचा दिया.....उम्मीद पाई नहीं जाती है कि बाद वफात मेरे नामोनिशान को कायम रखेगा ।' सत्य ही आज इनका नाम इनकी बर्बादी के कारण ही कुछ कुछ बना है । रजिष्ट्रार के 'रिमार्क' में लिखा है कि 'मुस्मात नन्ही बीबी के रहने के जनाने गृह पर बा० गोकुलचन्द्र से रजिष्ट्री के लिए सुबह ९ और १० बजे के बीच यह वसीयतनामा पेश किया गया ।' इस पर केवल बा० गोकुलचन्द्र जी का हस्ताक्षर है ।

इस दूसरे वसीयतनामे के लिखे जाने पर भी वकीलो से सम्मति ली जा रही थी और अंत में यही निश्चय हुआ कि भारतेन्दु जी की मातामही को एक दौहित्र का भाग दूसरे को दे देने का कोई स्वत्व या अधिकार नहीं है, इसलिए तीन वर्ष बाद कार्तिक सुदी ३ सं० १९३५ वि० को एक बख्शीशनामा लिखा गया । भारतेन्दु जी की स्वीकृति के विषय में लिखा है कि 'इस वास्ते कि मेरे बायस किसी की हकतलफी न होवे इस वसीकः की तहरीर में रज्जामंदी व इत्तफाक बा० हरिश्चन्द्र व बा० गोकुलचन्द्र दोनों का मैंने हासिल कर लिया है जिसकी सदाकत पर दोनों की दस्तखत इस वसीकः पर लिखी जाती है ।' इस 'वसीकः', पर बा० गोकुलचन्द्र का हस्ताक्षर है और इसे भी इन्हीं ने रजिष्ट्री के समय पेश किया था । बा० हरिश्चन्द्र का इस पर हस्ताक्षर नहीं है

और उन्हें इसके अनुसार केवल साढ़े चार हजार रुपये दिए गए थे। इसमें से ढाई हजार बा० गोकुलचन्द्र ने उस ऋण के हिसाब में ले लिये, जो उन्होंने अपने भाई साहब को दिये थे। दो सहस्र फुटकर ऋण तथा डिगरियों को चुकाने के लिये रखे गए। अस्तु, पैतृक संपत्ति के बाद मातामह का भाग भी भारतेन्दु जी ने इस प्रकार फूँक-ताप कर सफाचट कर दिया। चलिए, इस तरह यह अपने भाग की लक्ष्मी को तो अवश्य खा गये पर बेचारे उस समूची लक्ष्मी को न खा सके जिसने इनके पूर्वजों को खायी था। 'घर के शुभचिंतकों' ने इस प्रकार भारतेन्दु जी को बे-घर का करके शांति लाभ किया।

गवर्नमेन्ट की कृपा और कोप

जिस समय में घर के शुभ चिंतकों ने इन्हे कुछ भाग देकर अलग कर दिया था उसी वर्ष अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों का नियम बना था और काशी के दस सज्जन इस पद पर नियत हुए थे। उनमें सब से छोटी अवस्था वाले यही भारतेन्दु जी थे। कुछ दिन बाद यह म्यूनिसिपल कमिश्नर भी नियत हुए और राजकर्मचारियों में भी इनका मान होने लगा। इनकी प्रकाशित पत्रिकाओं तथा पुस्तकों की सौ सौ प्रतियाँ सरकार में बराबर ली जाने लगीं। पंजाब विश्वविद्यालय ने इन्हें एफ० ए० कथा के संस्कृत का परीक्षक बनाया। सहज ईष्यालु पुरुष गण इतने अल्पवयस्क पुरुष की यह बढ़ती न देख सके और हाकिमों से इनकी चुगली खाने लगे। यह स्वभावतः स्पष्टवादी थे और सत्य सदा कटु होता है, इससे इन लोगों को बराबर अवसर मिलते रहते थे। यह विनोद-प्रिय थे इसलिए इनके लेखों में मजाक भी अधिक रहता था।

कवि-वचन सुधा जिल्द २ नं० ५ में 'लेवी प्राण लेवी' नामक एक छोटा लेख निकला था। लॉर्डमेयो के काशी आगमन पर १ नवंबर सन् १८७० ई० का जो लेवी दरवार हुआ था, उसीका इसमें विनोदपूर्ण वर्णन है। इसका एक वाक्य यों है—सब के अंगों में पसीने की नदी बहती थी मानों श्रीयुत को सब लोग आदर से 'अर्घ्य पाद्य' देते थे। इस अर्घ्य पाद्य का अर्थ कुछ दुष्टों ने राजकर्मचारियों को पदाघात आदि समझा दिया था और उनके कान में भी

वही गूँजने लगा । 'अर्घ्य पाद्य' भारत की कितनी प्राचीन, आदर की वस्तु है यह प्रत्येक सज्जन समझता है । इसके अनंतर एक मर्सिया निकला, जिसको सर विलियम म्योर पर आक्षेप करके लिखा गया, बतलाया गया । राजा शिव-प्रसाद तथा छोटे लाट दोनों ही एक आँख का चश्मा (किर्जिंग ग्लास) लगाते थे । एक लेख 'भुतही इमलो का कन कौआ' राजा साहब पर लिखा गया, जिसे छोटे लाट पर लिखा गया बतलाया गया । बस, गवर्नमेन्ट की कुदृष्टि इन पर पूरे रूप से पड़ गई । स्व० बा० बालमुकुंद गुप्त लिखते हैं— 'यद्यपि हिंदी भाषा के प्रेमी उस समय बहुत कम थे तो भी हरिश्चन्द्र के ललित लेखों ने लोगों के जी में ऐसी जगह कर ली थी कि कवि-वचन-सुधा के हर नंबर के लिये लोगों को टकटकी लगाए रहना पड़ता था । जो लोग राजनैतिक दृष्टि से उसे अपने विरुद्ध समझते थे वह भी प्रशंसा करते थे । दुःख की बात है कि बहुत जल्द कुछ चुगुलखोर लोगों की दृष्टि उस पर पड़ी । उन्होंने कवि-वचन सुधा के कई लेखों को राजद्रोह-पूरित बताया, दिल्ली की बातों को भी वह निंदासूचक बताने लगे । मर्सिया नामक एक लेख रक्त पत्र में छपा था, यार लोगों ने छोटे लाट सरविलियम म्योर को समझाया कि यह आप ही की खबर ली गई है । सरकारी सहायता बंद हो गई । शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर कैंपसन साहब ने विगड़कर एक चिट्ठी लिखी 'हरिश्चन्द्र जी ने उत्तर देकर बहुत कुछ समझाया बुझाया । पर वहाँ यार लोगों ने जो रंग चढ़ा दिया था वह न उतरा । यहाँ तक कि बाबू हरिश्चन्द्र जी की चलाई "हरिश्चन्द्र चन्द्रिका" और "बाला बोधिनी" नामक दो मासिक पत्रिकाओं की सौ सौ कापियाँ प्रान्तीय गवर्नमेन्ट लेती थी वह भी बंद हो गई ।' इसके अनन्तर इन्होंने राजकर्मचारियों से बिलकुल संबंध त्याग दिया । आनरेरी मजिस्ट्रेसी आदि सब सरकारी कामों को इन्होंने छोड़ दिया और देश सेवा तथा हिन्दी की उन्नति में दत्तचित्त हो गये । इनकी रचनाओं के सच्चित्त परिचय में राजभक्ति-विषयक शीर्षक में दिखलाया गया है कि यह किस प्रकार अपने जीवन भर आरम्भ से अंत तक राजभक्त बन रहे ।

सनमान

भारतेन्दु जी पर भारत सरकार की कृपा तथा कोप का उल्लेख हो चुका है। जिस समय इन्होंने आनरेरी मजिस्ट्रेसी से इस्तीफा दिया था, उस समय काशी के एक अन्य रईस बा० ईश्वरीनारायण सिंह जी ने इनको लिखा था कि—“क्या यह सच है कि आपने इस्तीफा दे दिया ? यदि ऐसा है तो आपने अच्छा न किया। हाकिम लोग आपकी तजवीज को बहुत पसन्द करते हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई आपके विरुद्ध कुछ नहीं कहता। यदि सम्भव हो तो इस्तीफा उठा लीजिए और हम लोगों को आनरेरी मजिस्ट्रेट की कचहरी से अपने समान एक सुजन साथी को न खोने दीजिए।”

सन् १८७५ ई० के नवम्बर में काश्मीर नरेश महाराज रणवीरसिंह जी काशी पधारे थे और इनका बहुत सम्मान करते हुए इनपर विशेष स्नेह प्रगट किया था। उसी वर्ष के दिसम्बर मास में ग्वालियर के अधिपति महाराज जया जी राव सिंधिया तथा रीवाँ के अधीश्वर महाराज रघुराजसिंह जी का काशी में शुभागमन हुआ। उक्त दोनों श्रीमतों ने भारतेन्दु जी को बुलाकर इनसे आदर पूर्वक भेंट किया और इनका सत्कार किया था। इसी महीने में जोधपुर नरेश भी काशी आए थे और भारतेन्दु जी को स्टेशन ही पर बुलाकर इन्हे सन्मानित किया था।

सन् १८७७ ई० में श्रीमान् वाइसराय लार्ड लिटन काशी आए थे और उन्होंने भारतेन्दु जी को स्वयं बुलाकर इनसे बहुत देर तक बात चीत किया था। प्रिंसऑव्वेल्स (स्वर्गीय सम्राट एडवर्ड सप्तम) के भारत में आगमन के उपलक्ष में इन्हे भी एक मेडल मिला था। काशिराज ने विलायत में एक कुँआ खुदवाया था जिसके लिये उनके पास कई पदक आए थे। इनमें से उक्त श्रीमान् ने एक पदक भारतेन्दु जी को भी दिया था। सन् १८८२ ई० में जो शिक्षा कमीशन बैठा था उसके यह एक प्रधान साथी चुने गए थे पर ये बीमारी के कारण कमीशन के सामने उपस्थित होकर स्वयं अपना वक्तव्य न कह सके। पर इन्होंने अपनी लिखित साक्षी अवश्य भेजी थी। इसमें आगरा

कॉलेज के डाइटन साहब के विषय में, जो कमीशन के एक सभ्य थे, इन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी थीं, जिससे जे० ई० वॉडे साहब ने इन्हे लिखा कि 'आपकी साक्षी ऐसी उत्तम है कि मुझे खेद होगा यदि केवल इसी बात के कारण कमिश्नरों में अरुचि हो, इसलिए यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इस अंश को निकाल दूँ ।' इनके इस सप्रमाण लिखे गए अंश की सत्यता शीघ्र ही ज्ञात हो गई तब उक्त साहब ने पुनः इन्हे लिखा कि 'आगरा कॉलेज के बारे में जो बातें मुझे श्रवण ज्ञात हुई हैं यदि हम उन्हें पहिले जानते तो इस विषय में आपने जो अपनी साक्षी में लिखा था उसे निकाल देने का आग्रह न करते ।'

इस साक्षी के विषय में सुप्रसिद्ध अंग्रेजी पत्र 'रईस ऐंड-रअइत' (७ जुलाई सन् १८८३ ई०) के संपादक स्वर्गीय शम्भूचरण मुकजा लिखते हैं कि—यह रोचक बातों से भरी हुई है और इससे सिद्ध होता है कि जिन विषयों पर इन्होंने लिखा है उन्हें यह पूर्ण रूप से समझे हुए हैं । पश्चिमोत्तर देश में शिक्षा की उन्नति की चाल को यह अवश्य ही बड़ी सावधानता से देखते गए हैं और इस विषय में इनकी जो जानकारी देखी जाती है वह वर्षों के मनन, विचार, अनुसन्धान तथा निज अनुभव का परिणाम है । इन्होंने अपनी सम्मतियाँ बहुत स्पष्ट करके लिखी हैं और जो बातें साधारण प्रवादों के विरुद्ध हैं उनको यह प्रमाणों तथा तर्कों से पुष्ट करते गए हैं । जिस स्वतंत्रता से इन्होंने इस विषय का प्रतिपादन तथा समर्थन किया है वह इन्हीं के उपयुक्त है ।'

इनको शिक्षा-विषयक ज्ञान प्राप्त करने के अनेक साधन प्राप्त थे । ये स्वयं बहु भाषा विद्वान् थे, सुकवि तथा सुलेखक थे । इन्होंने कई पत्र स्वयं निकाले थे, जिससे यह पत्रकार कलाविद् भी थे । स्वदेश तथा स्वभाषा प्रेम की मूर्ति थे । इन्होंने स्वयं अपने अध्यवसाय से एक स्कूल खोल रखा था, शिक्षा कमीटी के सदस्य थे और विद्वानों से इनका बराबर समागम था । ऐसी अवस्था में इनका वक्तव्य क्यों न उत्तम होता ।

इसी साक्षी के ग्यारहवें प्रश्न का उत्तर देते हुए भारतेन्दुजी ने उर्दू का

एक शब्द (विदी आदि चिन्ह रहित) लिखकर उसे दो सहस्र प्रकार से पढ़े जाने का उल्लेख किया था। यह बहुत ठीक है। उदाहरण के लिये दो अक्षर का एक शब्द *س* ले लीजिए। इसे आप कई सौ प्रकार पढ़ सकते हैं। उर्दू में अ, ई, और उ सा उच्चारण करने के लिए तीन चिन्ह होते हैं, जवर, जेर और पेश। खड़ी लकीर के ऊपर या नीचे विदियाँ देकर ब, प, त, ट, स और न, छ अक्षर और बिना विदी दिए एक अक्षर ल पढ़ सकते हैं। एक 'मर्कज' अर्थात् टेढ़ी लकीर देकर क और दो देकर ग पढ़ सकते हैं। इस प्रकार नौ अक्षर हुए जिनमें प्रत्येक को तीन तीन चाल से पढ़ सकते हैं। जैसे बस, विस और वुस। अब सत्ताईस उच्चारण हुए स के भी इसी प्रकार तीन तीन उच्चारण होंगे जैसे बस, बसि, बसु। इनमें सत्ताइस उच्चारण एक से होंगे इसलिए कुल के चौअन उच्चारण हुए। अब स के चिन्ह पर तीन विदी देने से श होगा और कुल उच्चारण एक सौ आठ हो जायँगे। दो ही अक्षर मान कर इतने हुए हैं यदि गोलाकार चिन्ह को भी एक अक्षर लेकर चलिये तो और भी बहुत से शब्द बन जायँगे।

सन् १८८३ ई० में मॉरिशस के गवर्नर एस० पी० हेनेसी साहब ने एक पत्र में इन्हे लिखा था कि 'लार्ड रिपन की उन्नत नीति का आप अपनी लेखनी से समर्थन करने योग्य हैं।' लंडन के सेन्ट जेम्स हॉल में इलवर्ट विल पर एक सभा हुई थी जिसमें इतिहासवेत्ता कर्नल मैलेसन साहब ने व्याख्यान देते हुए कहा था कि 'सुख्यात इतिहासवेत्ता और कवि वा० हरिश्चन्द्र इसके पक्ष में नहीं हैं और उनके दो एक पत्र मेरे पास हैं।' तात्पर्य यह कि इनके प्रभाव को दो उच्च अंग्रेज अफसरों ने पूर्ण रूपेण माना है। भारतेन्दु जी ने मैलेसन साहब के उक्त कथन का खंडन निम्नलिखित शब्दों में किया है। 'हाल की एक सभा में कर्नल मैलेसन साहब ने मेरा नाम लिया है कि मैं "जुरिसडिक्शन-विल" का विरोधी हूँ। कर्नल साहब के ऐसा कहने से सम्भव है कि मेरे देशीय जन मेरे विषय में कुछ और ही अनुमान करें। यदि मैं कर्नल साहब की बातों का खण्डन न करूँ तो मैं देश का अशुभचिन्तक समझा जाऊँगा। यथार्थ बात यह है कि लंडन में मेरे एक मित्र फ्रेडरिक पिन्काट साहब हैं।

मैंने उनके पास दो तीन पत्र भेजा था, जिसमें इल्वर्टबिल के सम्बन्ध में भी कुछ लिखा था। मेरे लेखों का सारांश यह था कि “जुरिसडिक्शन बिल” के संबंध में हिन्दू और अँग्रेजों में बड़ा हलचल और झगड़ा उठ खड़ा हुआ है। यदि बिल पास हो तो हिन्दुओं को बहुत लाभ न होगा और जो न पास हो तो अँग्रेजों को भी बहुत लाभ न होगा। प्रत्येक अँग्रेज तथा हिन्दू को, जो देश की भलाई की मनोकामना रखते हैं, यही चेष्टा करनी उचित है कि यह विरोध और यह जातीय झगड़ा निवृत्त हो जाय। अवश्य मैंने अपने पत्र में बंगालियों का नाम नहीं लिया था। मेरे लेख का सारांश यही है और आप लोग समझ सकते हैं कि कर्नल साहिब को हमारा नाम लेना उचित था वा नहीं।’

हिन्दू पति महाराणा श्री सज्जन सिंह जी इन्हें बहुत मानते थे और इनका सदा सत्कार भी किया करते थे। एक बार तो उन्होंने लिखवा भेजा था कि ‘बाबू हरिश्चन्द्र जी इस राज्य को अपनी सीर समझें।’ श्रीमान् काशिराज का इन पर कितना अधिक स्नेह था इसका कई स्थानों पर उल्लेख हो चुका है। महाराज विजयनगरम् ने एक बार पाँच सहस्र मुद्रा भेंट देकर तथा इनके गृह पर जाकर इनका सन्मान किया था। महाराज डुमगाँव श्री राधिकारमण प्रसादसिंह प्रतिवर्ष इन्हें एक सहस्र रुपये देकर सन्मानित करते थे। राजा बेकट गिरि तथा राजा छत्रपुर इनके गृह पर जा जाकर इनसे मिला करते थे। भूपाल की नवाब शाहजहाँ बेगम भी इनसे पत्र व्यवहार रखती थी। उर्दू तथा फारसी में कविता करने के सिवा यह हिन्दी में भी कविता करती थीं, जिसमें अपना उपनाम ‘रूपरतन’ रखा था। सन् १८८२ ई० के जून में इन्होंने कुछ कविता भारतेन्दु जी के पास भेजी थी जिसे उन्होंने भारत मित्र में एक पत्र के साथ प्रकाशित करा दिया था। पत्र तथा दोनों पद नीचे दिए जाते हैं—

“प्रिय सम्पादक ! भूपाल की रईस और स्वामिनी वर्तमान श्रीमती-बेगम साहिबा उर्दू भाषा की बहुत अच्छी कवि हैं। इनकी गजल मैं “चम-निस्तानेपुर बहार” और “गुलजारेपुर बहार” इत्यादि में प्रकाशित कर


चुका हूँ । संप्रति उनके बनाए भाषा में कई एक भजन मेरे पास आए हैं । मैं उनमें से दो आप के पास प्रकाश करने को भेजता हूँ । इसको देख कर क्या साधारण आर्य धर्माभिमानो ललनागण लज्जित न होंगी कि एक मुसल्मान और अत्यंत राजभार व्यग्र स्त्री ने ऐसी सुन्दर कविता की है । क्या वह भी दिन देखने से आवेगा कि हमारी गृहलक्ष्मीगण भी कुछ बनावेगी ? इनका काव्य मे 'रूप रतन' नाम है । नाम भी बड़े ठाट बाट का रक्खा है ।"

मलार—कैसी बदरिया कारी छार्ई, पिय निन बरखा ऋतु आई । भींगुर मोर चिंवार पुकारे, कल न परे मोहि विरह के मारे, पापी पपीहा ने आन जगाई । हमरे पिया परदेस विलमि रहे, इत बदरा दिन रैन घुमरि रहे, ना लिखि पाती, ना खवरि पठाई । नित नित बरसे धुंध रे बदरवा, सूक्त नाही, अब मोहिं सगरवा, देत भकोर पवन पुरवाई ॥


होली—सजि आई है राजदुलारी राधाप्यारी, आज होरी खेले स्याम विहारी, घर घर से सब बनि बनि निकसी, पहिरि नवल तन सारी । केसर रंग संग लै गागरि, करन उनके पिचकारी ॥ जुरि जुरि आईं नन्द द्वार पर टेरत दै दै तारी । काल लाल कर गए अजगरी आज हमारी पारी ॥ फंद पढ़ोगे जब सखियन के बंसीधर बनवारी । भूलि जाओगे स्यामसुन्दर तव गौअन की रखवारी ॥ लैहैं चनक दै सुकुट लकुटिया पीत पढ़ौरि उतारी । मुरली छीन दैहैं दग अंजन तो हम गोप कुमारी ॥ 'रूपरतन' यों मान करत मिलि जोवन की मतवारी ! गलियन गलियन हूँदति ढोलें प्रान प्रिया गिरिधारी ॥

काशीस्थ डाक्टर पूर्णचंद्र वनर्जी के भाई सुप्रसिद्ध बंग कवि हेमचन्द्र वनर्जी इन्हे बहुत मानते थे और जब ये कलकत्ते जाते थे तब इन सज्जनो में खूब साहित्यादि की चर्चा होती थी । द्वारिकानाथ विद्याभूषण, वंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय, 'हिंदू पेट्रियट' के संपादक कृष्णदासपाल, पजाव यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार नवीनचन्द्र राय, शालिग्रामदास, अतर सिंह भदौड़िया, बाबा संतोष सिंह, पूना के गणेश वासुदेव जोशी, डाक्टर भाऊदा जी प्रभृति विद्वानों से इनाको घनि पृथी । तत्र मि ववल भारतीय विद्वत्समाज ही नही प्रत्युत

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र



भारतेन्दु जी



भारतेन्दु जी (मौलवी स्यादुल)

योरूपीय विद्या-प्रेमी गण भी इन्हे बड़ी आदर की दृष्टि से देखते थे। वे लोग इन्हें भारत का 'पोएट लॉरिएट' (राजकवि) कहते थे।

इनकी सर्वजन प्रियता तथा सबके आदर के पात्र होने का यही एक नमूना बहुत है कि पंडित रामशंकर जी व्यास के यह प्रस्ताव करते ही कि इन्हें 'भारतेन्दु' की पदवी सर्व साधारण की ओर से दी जाय, सभी हिन्दी प्रेमियों ने एक स्वर से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वह इनके नाम से भी अधिक प्रसिद्ध हो उठा।

'भारतेन्दु' की पदवी

पं० सुधाकर जी द्विवेदी अपनी राम कहानी की भूमिका में लिखते हैं कि "यह मेरे सामने की बात है कि लाहौर के जल्ला पंडित के वंश के पंडित रघुनाथ जंबू के महाराज श्री रणवीर सिंह की नाराज्गी से जंबू छोड़कर बनारस चले आए थे। उनसे और बाबू हरिश्चन्द्र जी से बहुत मेल था। बनारस के अति प्रसिद्ध विद्वान् पंडित बाल शास्त्री ने जब अपनी व्यवस्था से कायस्थों को क्षत्री बनाया, उस समय बाबू साहब ने अपनी मेगजीन में जाति गोपाल की; इस सिरनामे से काशी के पंडितों की बड़ी धूर उड़ई। इस पर पंडित रघुनाथ जी बहुत नाराज होकर, बाबू साहब से बोले कि "आपको कुछ ध्यान नहीं रहता कि कौन आदमी कैसा है, सभी का अपमान किया करते हो। जैसे आप अपने सुयश से जाहिर हो उसी तरह भोगविलास और बड़ों के सम्मान करने से आप कलंकी भी हो, इसलिये आज से मैं आप को भारतेन्दु नाम से पुकारा करूँगा।" उस समय मैं और भरतपुर के राव श्रीकृष्ण देवशरण सिंह मौजूद थे। हम लोग भी हँसी से कहने लगे कि वस बाबू साहब सचमुच भारतेन्दु हैं। बाबू साहब ने भी हँसकर कहा कि 'मैं नाराज नहीं हूँ आप लोग खुशी से मुझे भारतेन्दु कहिए।' मैंने कहा कि "पूरे चाँद में कलंक देख पड़ता है, आप दूइज के चाँद हैं जिसके दर्शन से लोग पुण्य समझते हैं।" यह मेरी बात सब के मन में खुशी के साथ समा गई।

धीरे धीरे इनकी पोथियों पर दृइज के चाँद की सूरत छपने लगी । इस तरह अब आज इज्जत के साथ वावू साहब भारतेन्दु कहे जाते हैं ।”

इसके पहिले राजा शिवप्रसाद को भारत सरकार की ओर से सी० आई० ई० (भारत नक्षत्र) की पदवी मिल चुकी थी और इसी वर्ष राजा साहब तथा इनमे मनोमालिन्य हो जाने के कारण यह भारत सरकार के कोप भाजन हो चले थे । ज्यो ज्यो सरकार का इन पर कोप बढ़ता जाता था त्यों त्यों यह अधिक लोकप्रिय होते जाते थे । इनके गुणों की कीर्ति फैलती जा रही थी । देशीय तथा विदेशीय विद्वन्मंडली में इनकी प्रतिभा तथा रचनाओं की ख्याति खूब फैल चुकी थी और वे लोग मुक्तकंठ से इनकी प्रशंसा करने लगे थे । ‘उत्तरीय भारत के कवि सम्राट्’ ‘एशिया का एक मात्र समालोचक’ आदि पदवियाँ वे दे रहे थे । लार्ड रिपन के समय सहस्रों हस्ताक्षर से भारत सरकार के पास एक मेमोरियल भेजा गया था कि इन्हे लेजिस्लेटिव काउन्सिल का मेम्बर चुनना चाहिए । अंततः इन्हे ‘भारत नक्षत्र’ से बढ़कर पदवी देने का विचार प्रजा पक्ष में पैदा हो चुका था, उसी समय सन् १८८० ई० में बा० हरिश्चन्द्र को चिढ़ाने की इसी पदवी ‘भारतेन्दु’ से इन्हे विभूषित करने के लिये पं० रामेश्वर दत्त व्यास ने २७ सितम्बर के ‘सारसुधानिधि’ पत्र में एक लेख में प्रस्ताव किया । सारे देश ने इसे स्वीकार कर लिया और तब से भारतेन्दु इनका दूसरा नाम सा हो गया । प्रजा, भारत सरकार तथा यूरोपीय विद्वान् सभी इन्हे भारतेन्दु लिखने लगे ।

चिन्ता रोग तथा स्वर्गवास

सं० १९२७ वि० में भारतेन्दु जी तथा इनके छोटे भाई में वैटवारा हो चुका था और वे अपने गृह के लोगों द्वारा ‘अपव्ययी’ समझ लिये गए थे । वे तक्रसीमनामे के अनुसार स्ववश के पुगाने घर में रह सकते थे और इसीलिये वे उसमें रहते थे पर अपने कुटुम्ब वालों से वे सदा जुब्ध रहे । भारतेन्दु जी सांसारिक भ्रमों से दूर होकर मातृभाषा-देशसेवा में निरत रहते थे और इनके भाई बड़ों का नाम निशान रखने के लिए अर्थ संचयन में रत थे । इस

कारण स्वभावतः सारा परिवार, संबंधी तथा घर के शुभचिंतक गण भारतेन्दु जी के विपत्ती थे। इससे इनका मन गृह पर कम लगने लगा। बँटवारे के बाद चार पाँच वर्ष में इनकी अस्थावर संपत्ति का बहुत सा अंश उड़ गया और भारतेन्दु जी को परोपकार दान पुण्य देश सेवादि कार्यों के लिए अर्थ-कष्ट होने लगा। ऐसे ही समय चापलूसों की कृपा से भारत-सर्कार ने भी ऐसे राजभक्त पर अपनी कोप-दृष्टि की और इनकी मातृभाषा की सेवा में बाधा पड़ने लगी। इन दोनों बातों का भारतेन्दु जी ने अपने दो नाटकों में अत्यन्त मृदु शब्दों में उल्लेख किया है और जो इनसे औदार्यपूर्ण हृदय के उपयुक्त ही हुआ है। प्रेमयोगिनी के पहिले अंक में मल्लजी के मुख से कहलाया है कि 'तिस्मे बड़े साहव तो ठीक ठीक, छोटे चित्त के बड़े खोटे हैं।' भारत दुर्दशा के पाँचवे अंक में 'डिसलायलटी' से कहलाया है कि 'हम क्या करें गवर्नमेट की पालिसी यही है।' कवि-बचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेट के विरुद्ध कौन बात थी? फिर क्यों हम उसके पकड़ने को भेजे गए? हम लाचार हैं।' इन्हीं सब कारणों से दुखी होकर कहते हैं कि 'क्या सज्जन लोग विद्यादि सुगुण से अलंकृत होकर भी उसकी इच्छा बिना ही दुःखी होते हैं और दुष्ट मूर्ख के अपमान सहते हैं। केवल प्राण मात्र त्याग नहीं करते पर उनकी सब गति हो जाती है।' प्रेम योगिनी की भूमिका का यह वाक्य उनके उस समय के आत्मक्षेत्र का सूचक है। घर के लोगों तथा भारत सरकार से वे तिरस्कृत हो चुके थे और जन साधारण भी उनके सुकार्यों में वांछनीय सहायता नहीं दे रहा था। 'इनका तो बाना ही था कि 'कितना भी दुःख हो उसे सुख ही मानना।' हिन्दी तथा देश के लिये तो इनका हृदय चिन्ता-दग्ध था ही, उस पर अपने ही लोगों की या जिनके लिये वे यह अपना तन-मन-धन अर्पण कर रहे थे उन सबकी उदासीनता इनका हृदय जर्जर कर रही थी। इसी आत्मक्षेत्र का स० १७३२ वि० में निर्मित सत्यहरिश्चन्द्र तथा प्रेमयोगिनो की भूमिका में अधिक उद्गार प्रकट हुआ है। पहिले में केवल इतना ही कहा है कि "हाँ प्यारे हरिश्चन्द्र का संसार ने कुछ भी गुण रूप न समझा। क्या हुआ 'कहेंगे सबै ही नैन नीर भरि भरि पीछे प्यारे हरिचंद की कहानी रहि जायगी।"

मृत्यु के बाद सभी की कहानी मात्र रह जाती है, पर कुछ ऐसी होती है कि जिसे बहुत दिनों बाद तक बहुत लोग कहते सुनते रहते हैं और कुछ दस पाँच दिन दस पाँच मनुष्य सुनकर भूल जाते हैं पर जब अपने जीवन काल ही में कोई समझ लेता है कि उसकी उसके जीते जी कहानी मात्र रह गई और उसकी किसी को आवश्यकता नहीं रह गई तब उसका आत्मक्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। कुछ ऐसे ही विचारों ने इनके द्वारा निम्नलिखित क्षोभ-सूचक वाक्य कहलाए हैं इनमे का 'लोकवहिष्कृत' शब्द ही उनके तत्कालीन विचारों की कुंजी है। 'क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लोगो का परमबंधु, पिता-मित्र-पुत्र सब भावनाओं से भावित, प्रेम की एक मात्र मूर्ति, सत्य का एक मात्र आश्रय, सौजन्य का एक मात्र पात्र, भारत का एक मात्र हित, हिन्दी का एक मात्र जनक, भाषा नाटको का एक मात्र जीवनदाता, हरिश्चन्द्र ही दुखी हो। (नेत्र में जल भर कर) हा—सज्जन शिरोमणो ! कुछ चिंता नहीं, तेरा तो चाना है कि 'कितना भी दुःख हो उसे सुख ही मानना।' लोभ के परित्याग के समय नाम और कीर्ति तक का परित्याग कर दिया है और जगत से विपरीत गति चल के तूने प्रेम की टकसाल खड़ी की है। क्या हुआ जो निर्दय ईश्वर तुम्हें प्रत्यक्ष आकर अपने अंक में रखकर आदर नहीं देता और खल लोग तेरी नित्य एक नई निंदा करते हैं और तू संसारी वैभव से सूचित नहीं है; तुम्हें इससे क्या, प्रेमी लोग जो तेरे और तू जिन्हे सबस है वे जब जहाँ उत्पन्न होंगे तेरे नाम को आदर से लेंगे और तेरी रहन-सहन को अपनी जीवन पद्धति समझेंगे। (नेत्रों से आँसू गिरते हैं) मित्र, तुम तो दूसरों का अपकार और अपना उपकार दोनों भूल जाते हो; तुम्हें इनकी निंदा से क्या ? इतना चित्त क्यों जुब्ध करते हो ? स्मरण रखो ये कौड़े ऐसे ही रहेंगे और तुम लोक-वहिष्कृत होकर भी इनके सिर पर पैर रख के विहार करोगे। क्या तुम अपना वह कवित्त भूल गए—'कहेंगे सबै ही नैन नीर भरि-भरि पाछे प्यारे हरिचंद की कहानी रहि जायगी।' मित्र मैं जानता हूँ कि तुम पर सब आरोप व्यर्थ हैं; हा ! बड़ा विपरीत समय है।"

ऐसे प्रसन्न चित्त विनोद-प्रिय कवि-हृदय मे यह आत्मक्षोभ अधिक

नहीं टिका। पर इसका असर उस पर अवश्य बना रहा। वे परमाशा रूपी ईश्वर-प्रेम की ओर झुक पड़े और दूसरे ही वर्ष लिखे गये चद्रावली नाटिका की भूमिका में इनका आत्माभिमान तथा इनकी कृष्ण-प्रति अनन्य भक्ति यों उमड़ पड़ी है।

परम प्रेमनिधि रसिक बर, अति उदार गुन खान।
जग-जन-रंजन आशु कवि, को। हरिचंद समान ॥
जिन गिरिधर दास कवि, रचे ग्रन्थ चालीस।
ता सुत श्री हरिचंद को, को न नवावै सीस ॥
जग जिन तृन-सम करि तज्यौ, अपने प्रेम प्रभाव।
करि गुलाब सों आचमन, लीजत वाको नाँव ॥
चन्द टरै सूरज टरै, टरै जगत का नेम।
यह इद श्री हरिचन्द को, टरै न अविचल प्रेम ॥

इसी में श्री शुकदेव जी के मुख से कहलाया है कि—‘अहा ! संसार के जीवों की कैसी विलक्षण रुचि है, कोई नेम धर्म में चूर है, कोई ज्ञान के ध्यान में मस्त, कोई मत मतांतर के झगड़े में मतवाला हो रहा है, एक दूसरे को दोष देता है; अपने को अच्छा समझता है, कोई संसार ही को सर्वस्व मान कर परमार्थ से चिढ़ता है, कोई परमार्थ ही को परम पुरुषार्थ मान कर घर बार तृण सा छोड़ देता है। अपने अपने रंग में सब रंगे हैं।’ जो कुछ हो ‘परोपकाराय सतां विभूतयः’ उक्ति रहेगी और ऐसे ही परोपकारी लोगों की कहानी पाठकों के हृदय पर स्थायी प्रभाव डाल सकेगी ॥

भारतेन्दु जी का अर्थ संकोच इतना बढ़ा कि जमा गायब हो गई और ऋण का बोझ ऊपर से पड़ गया। एक एक का'दो लिखवाने वालों ने जल्दी कर डिगरियाँ प्राप्त कर लीं और इनसे रुपये वसूल करने का उपाय करने लगे। इन्हें मेवाड़-नरेश, काशिराज आदि कई गुणग्राही नरेशों से सहायता मिलती थी पर वे सब ऊपर ही ऊपर परोपकार में व्यय हो जाती थीं। डिगरियाँ कैसे साफ होती। उदाहरण मात्र के लिये एक डिगरी का वृत्ति यहाँ दिया जाता है। काशी में श्रावण के प्रत्येक मंगल को दुर्गा जी का मेला होता

है, जिसमें यह प्रायः जाते थे। एक डिगरीदार ने ऐसे समय वारंट निकाला कि ठीक वह उसी मेले का दिन था। यह इससे व्यस्त हो काशिराज के यहाँ सवेरे ही रामनगर पहुँचे। महाराज ने इनका उदास मुख देखकर इनके ऐसे समय आने का कारण पूछा तब इन्होंने सब हाल कह दिया। महाराज ने तुरंत सात सौ रुपये कोष से मँगवा कर इन्हे दे दिए और यह लेकर वहाँ से दुर्गा जी का मेला देखने को शोराम के बाग में चले गए। जिस समय मेला खूब जमा हुआ था, उसी समय एक ब्राह्मण देवता वहाँ उस बाग में आए और सबसे कहने लगे कि 'मेरी एक कन्या विवाह के योग्य हो गई है और मैं धनाभाव से उसका विवाह कर नहीं सकता। यहाँ इतने अग्रवाल वैश्य महाजन एकत्र हैं। यदि सब लोग दो दो चार रुपये दे दें तो मेरा धर्म बच जायगा।' वह इसी प्रकार सबसे कहता रोता फिरता था। किसी को सहायता न करते और उसे अति व्यग्र होते देखकर अंत में भारतेन्दु जी अपने नौकर को उस ब्राह्मण को कुल रुपये दे देने की आज्ञा दे दी। वह उतना पाकर अतिप्रसन्न हो आशीर्वाद देता हुआ चला गया। इधर मेला देखकर जब यह बाग से नीचे उतरे तब उन्हें वारंट मिला। अंत में इनके मित्र बा० माधोदास जी ने उसी समय उस डिगरी के रुपये चुकाए, जिसे बाद को भारतेन्दु जी ने उन्हें लौटा दिया।

स० १९३६ वि० के ज्येष्ठ के 'सारसुधानिधि' भाग १ अंक १९ में पृष्ठ २२६-७ पर भारतेन्दु जी के इसी ऋण पर एक लेख उन्हीं के किसी मित्र द्वारा लिखा गया प्रकाशित हुआ है, जिसका अधिकांश यहाँ उद्धृत किया जाता है। इससे उनकी तत्कालीन परिस्थिति अच्छी प्रकार ज्ञात हो जाती है।

'यह तो उनके गुणों की कथा हो चुकी' अब अवगुणों को सुनिए। पहली अवस्था में इनमें एक उपेक्षा का दोष बड़ा भारी था। सब लौकिक वा द्रव्य सम्बन्धी कार्य मात्र में इतनी उपेक्षा इन्होंने की कि अब उसका विषम फल उपस्थित हुआ। यद्यपि बहुत से लोग इनका द्रव्य खा गए और यह नहीं कि इनको उसका ज्ञान न हो। तब भी इन्होंने उपेक्षा की और यद्यपि अनेक कार्यों में इन्होंने विशेष व्यय किया, परन्तु हम मुक्त कंठ से कहते हैं कि

इनका समधिक द्रव्य सज्जनों की उपस्थित चिन्ता के निवारणार्थ देश हितार्थ, धर्म और मातृभाषा की समुन्नति के अर्थ व्यय हुआ। यहाँ तक कि जब बहुत सा देना होगया तो प्रायः स्थावर और अस्थावर विषय सब देनदारों को बाँट दिया। ऐसे ही अनेक लक्ष रुपयों का देना तीन चार बार करके दिया गया। अंतिम समय में भी जब सब देना दिया गया तो कुछ लोगो ने जायदाद लेना स्वीकार नहीं किया और नालिश किया। इस समय में जो कुछ जिनके यहाँ बाकी था वह उनके नीचे दबा रह गया। भवतु, जिन लोगो ने नालिश की थी उनका भी दो तिहाई से ऊपर रुपया वसूल हो गया अर्थात् वास्तव में जो उनका रुपया था उससे कुछ विशेष ही वे लोग पा चुके थे। कारण यह कि एक एक देकर लोगों ने दो दो तीन लिखवाया था। जब नालिश हुई तब बनारस के सुयोग्य जज सैयद अहमद खाँ बहादुर सी० एस० आई० की आंतरिक इच्छा थी कि जिन लोगों ने व्यर्थ एक का दो किया है उन्हें उचित शासन मिले परन्तु इन्होंने स्पष्ट कहा कि चाहे एक का दो वा चार हो जो जिसको हमने देने को कहा है, वही देगे। इसी बात पर फिर और किसी बात की अदालत ने सात्ती नहीं ली और जितने द्रव्य के वास्ते इन्होंने स्वीकार नहीं किया वह अदालत ने नहीं दिलवाया। अदालत की तजवीज में लिखा है—

‘चूँकि बाबू हरिश्चन्द्र की सत्यता पर अदालत को पूर्ण विश्वास है, इससे उनके स्वीकार और अस्वीकार ही के अनुसार डिगरी दी जाती है और अन्य सात्ती की कोई अपेक्षा नहीं।’ ‘सोऽम्मत द्विधानां प्रणयैः कृषी कृतो न तेन, कश्चित् विभवैर्विमानितां। निदाघ कालेष्विवसोदको हृदो, तृष्णा स तृष्णा मयनीय शुष्कवान् ॥ आप यद्यपि धीर हैं; इनको कुछ भी मानसिक खेद नहीं परन्तु इनके इस दशा में पड़ने से और स्वस्थ चित्त न रहने से देश की बड़ी हानि हुई। वह सुमधुर शारदा की वीणा की कोमल झकार अब तादृश कर्ण गोचर नहीं होती और वह उत्तमोत्तम लेखक अब कवि बचन-सुधा को अपने सुधा-प्रवाह से नहीं प्लावित करते। कारण यह कि एक स्वभाव इनका हमने स्वयं अनुभव किया कि इनका बल हनुमान जी का बल

है, कोई उसका परिचालक हो तो चलता है। तो ये तो चिन्ताग्रस्त हुए अब वे बातें कहाँ ! अब इस अवस्था पर मेरी प्रार्थना और अभिलाषा है कि इनके योग्य अनुज तथा उस थोड़े से ऋण का जो शेष रहा है शोधन करने में असमर्थ हैं...क्या उनके कुटुम्ब-द्रव्य से उतना दे दिया जायगा तो वह कुछ न्यून होगा। क्योंकि 'विक्रीते करिणि किमंकुशे विवादः' जब कई लक्ष रुपया दे दिया गया तो इस थोड़े से के वास्ते ऐसे सहृदय और सज्जनता की मूर्ति को कष्ट क्यों हो। यों हमारे भारतवर्ष में विद्यानुरागी अनेक महाराजे हैं कोई उनको बुला ले और उनकी बुद्धि की सहायता से अपना लाभ उठाये। यही नहीं किन्तु देश का भी उपकार करे। हम नहीं जानते कि वे यह स्वीकार करेंगे कि नहीं। किन्तु यह हम कह सकते हैं कि यदि ऐसा योग हो तो हम लोग इनको उसके स्वीकार करने में बाधित करेंगे। तथा श्रीमान् महाराजा काशिनरेश अपने दरबार में ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं चाहते। आप ही के पत्र में उन्होंने प्रकाशित किया था कि श्रीमान् हिन्दूपति श्री महाराणा साहिब ने उनकी एक बार सहायता की थी तो क्यों नहीं एक बार पुनः उदयपुराधीश सहायता करके बखेड़ा दूर कर उनको अपने निकट बुला लेते। जहाँ तक हम जानते हैं आजकल वह अत्यंत असुविधा में हैं। इससे मेरी लोगों से यही प्रार्थना है कि इसके पूर्व में कि यह अमृतमय तरु कलियुग की प्रचंड दुःख वायु से कुम्हिला जाय, लोगों को इसका सम्हालना अत्यंत आवश्यक है और इस विषय में क्षणमात्र का अब विलम्ब न हो।

‘हरेरिच्छा वलीयसीनान्या कापि गरीयसी’—एक सुजनदुःख दुखी।

[सार सुधानिधि भा० १ अंक १६ सन् १८७६ (मिती ज्येष्ठ सं० १६३६)]

पूर्वोक्त उद्धरण से तीन सज्जनों से इनकी विशेषतः सहायता करने के लिए प्रार्थना की गई है। पहिले भारतेन्दु जी के भाई हैं; जिन्होंने इस प्रार्थना के पहिले तथा बाद दूसरा वसीयतनामा तथा वखिशानामा लिखवाया था। इनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। काशिराज वरावर इनकी सहायता करते थे और इनके गुणों पर रोम कर इन पर पुत्रवत् स्नेह रखते थे। पर ऐसे

स्वतंत्रता प्रिय तथा उदार पुरुष का कहीं रहना या नियमित प्राप्त धन से काम चलाना संभव नहीं था ।* कवि राजा श्यामलदान के लिखे सं० १९३४ ज्येष्ठ कृष्ण ३० रविवार के पत्र से ज्ञात होता है कि मेवाड़ नरेश भी इनकी बराबर सहायता करते थे पर इनके 'अपठ्यय' के आगे वह सब सहायता कम ही पड़ती थी ।

ऐसी ही दशा में सन् १८७८ ई० में वल्किशशनामा लिखा गया । जिससे ननिहाल से प्राप्त होने वाले धन की भी आशा निराशा में परिणत हो गई । सन् १८८० ई० में पुत्री के विवाह में भी इन्होंने बहुत कुछ खर्च किया था ।

भारतेन्दु जी इस प्रकार ऋण से दुखित थे और अपनी स्थावर संपत्ति बेचकर उसके परिशोध करते हुए भी अपने स्वाभाविक कार्यों में भी कमी नहीं कर रहे थे, इससे स्यात्—क्रुद्ध होकर इनके अनुज ने दूसरी बार फिर काशीराज से इनके कार्यों का कुछ उलाहना दिया जिस पर महाराज ने, जब यह रामनगर गये, तब इनसे कहा कि 'हरी, गोकुल यहाँ आए थे और तुम्हारे विषय में बहुत कुछ कह रहे थे । अब तो तुम अपनी पुत्री की शादी भी कर चुके हो, यहीं रहा करो । तुम हाथ खर्च के लिये बीस रुपये रोज ले लिया करो । वहाँ रहोगे तो तुम पर पैतृकसंपत्ति नाश करने का दोष लगता रहेगा ।' भारतेन्दु जी यह सब चुपचाप सुनते रहे और अंत में कहा कि 'आप की आज्ञा पर जो मुझे कथन है वह कल आपको ज्ञात होगा ।' यह कह कर वे घर पर लौट आए और अपने लिखने पढ़ने का सामान लेकर पहिले अपने एक महाराष्ट्र मित्र के घर दुर्गाघाट चले गए और वहीं कुछ दिन रहे । इस मित्र का नाम अल्ल कुर्दे कर था पर उसका पूरा नाम न ज्ञात हो सका । यहीं

* सन् १८७६ ई० के सितम्बर मास के 'हिन्दी प्रदीप' में एक नोट इस प्रकार है—'रत्न' समागच्छति कांचनेन । हिन्दी भाषा के एक मात्र आधार रसिक, शिरोमणि श्रीयुक्त बा० हरिश्चन्द्र को महाराज काशी नरेश ने अपने यहाँ के सरस्वती भंडार (Library) का अधिकारी नियत किया है । सच है रत्न काँचन ही के साथ मेल खाता है ।'

से इन्होंने दो पत्र लिखे—एक काशिराज को और दूसरा अपने छोटे भाई साहब को । उन पत्रों का सारांश यही था कि उन्होंने अब अपने पूर्वजों की सपत्ति खाना छोड़ दिया है । इसी काल में यह प्रायः एक पक्ष तक दुर्गाकुंड में केशोराम के बाग में भी रहे थे । इस प्रकार कुछ दिनों तक यह बाहर ही बाहर रहने के अनंतर पुनः अपने पूर्वजों के गृह पर आए थे ।

इस प्रकार देश, समाज, मातृभाषा आदि की उन्नति तथा अपनी कौटुम्बिक और ऋण आदि की चिंताओं से ग्रस्त होने के कारण इनका शरीर जर्जर हो रहा था । इसी समय मेवाड़ पति महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह तथा श्रीनाथ जी के दर्शन की लालसा से सन् १८८२ ई० में यह उदयपुर गए । इतनी लम्बी यात्रा के प्रयास को इनका जीर्ण शीर्ण शरीर नहीं सह सका । ये बीमार पड़ गए और श्वास, खाँसी तथा ज्वर तीनों प्रबल हो उठे । यो ही प्राणभय उपस्थित था । उस पर एकाएक एक दिन हैजा का इन पर कड़ा आक्रमण हुआ । यहाँ तक कि कुल शरीर ऐंठने लगा पर अभी आयुष्य थी, इससे ये बच गए । सं० १९४० चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को लिखे गए नाटक के समर्पण में लिखते हैं—‘नाथ ! आज एक सप्ताह होता है कि मेरे इस मनुष्य जीवन का अंतिम अंक हो चुकता, किन्तु न जाने क्या सोच कर और किस पर अनुग्रह करके उसकी आज्ञा नहीं हुई । नही तो यह ग्रंथ प्रकाश भी न होने पाता । यह भी आप ही का खेल है कि आज इसके प्रकाश का दिन आया ।’

अभी ये पूर्णतया स्वस्थ नहीं हुए थे कि शरीर की चिंता छोड़कर वे अपने लिखने-पढ़ने आदि कार्यों में लग गए । दवा भी कौन करता है, जब रोग प्रबल थे सभी को चिंता थी पर जब वे निर्बल हुए तब अन्य सांसारिक विचारादि प्रबल हो गए । अस्तु, रोग इस प्रकार दब गए थे, पर जड़ मूल के नष्ट नहीं हुए थे । रोग दिन दिन अधिक होता गया, महीनों में शरीर अच्छा हुआ । लोगों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया । यद्यपि देखने में कुछ रोज तक रोग मालूम न पड़ा पर भीतर रोग बना रहा और जड़ से नहीं गया बीच में दो एक बार उभड़ आया था पर शांत होगया था । इधर

दो महीने से फिर श्वास चलता था, कभी २ ज्वर का आवेश भी हो आता था औषधि होती रही, शरीर कृशित तो हो चला था पर ऐसा नहीं था कि जिस से किसी काम में हानि होती, श्वास अधिक हो चला । ज्यो के चिन्ह पैदा हुए । एकाएक दूसरी जनवरी से बीमारी बढ़ने लगी । दवा इलाज सब कुछ होता था पर रोग बढ़ता जाता था । ६ वीं तारीख को प्रातःकाल के समय जब ऊपर से हाल पूछने के समय मजदूरनी आई तो आप ने कहा कि जाकर कह दो कि हमारे जीवन के नाटक का प्रोग्राम नित्य नया नया छप रहा है पहिले दिन ज्वर की, दूसरे दिन दर्द की, तीसरे दिन खाँसी की सीन हो चुकी देखै लास्ट नाइट कब होती है, उसी दिन दोपहर से श्वास वेग से आने लगा कफ मे रुधिर आगया । डाक्टर वैद्य अनेक मौजूद थे और औषधि भी परामर्श के साथ करते थे, परन्तु 'मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की।' प्रतिक्षण मे बाबू साहब डाक्टर और वैद्यों से नींद आने और कफ के दूर होने की प्रार्थना करते थे, पर करें क्या काल दुष्ट तो सिर पर चढ़ा था, कोई जाने क्या । अन्ततोगत्वा बात करते ही करते पौने दस बजे रात को भयंकर दृश्य आ उपस्थित हुआ । अन्त तक श्रीकृष्ण का ध्यान बना रहा । देहावसान समय में 'श्रीकृष्ण ! श्रीराधाकृष्ण ! हेराम ! आते हैं मुख दिख-लाओ" कहा, और कोई दोहा पढ़ा जिस मे से 'श्रीकृष्ण.....सहित स्वामिनी, इतना धीरे स्वर से स्पष्ट सुनाई दिया । देखते ही देखते प्यारे हरिश्चन्द्रजी हम लोगों की आँखों मे दूर होगए । चन्द्रमुख कुम्हिला कर चारो ओर अन्धकार होगया । सारे घर मे मातम छा गया, गली गली में हाहा-कार मचा और सब काशीवासियों का कलेजा फटने लगा । लेखनी अब आगे नहीं बढ़ती । बाबू साहब चरणपादुका पर.....'

ऐसे लोकप्रिय देश हितैषी के लिये यथा योग्य शोक प्रकाश किया गया था । शोक प्रकाशक तारों और पत्रों के ढेर लग गये थे । कितनी कविताएँ, लेख तथा चरित्र छपे । एक संग्रह शोकावली के नाम से पीछे से प्रकाशित भी हुआ था । इनके स्मारक स्थापित करने की चर्चा बहुत उठी पर अब केवल 'कहेंगे सबै ही नैन नीर भरि भरि पाछे प्यारे हरिचन्द्र की कहानी रह

जाएगी ।' वस, भारत के देश से उस का कोई भी शुभचिंतक ऐसी कहानी से अधिक पुरस्कार मे या स्मृति मे क्या माँगने की आशा कर सकता है ?

भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र का देहावसान माघ कृ० ६ सं० १९४१ वि० (६ जनवरी सन् १८८५ ई०) को हुआ था । आप की अवस्था उस समय चौतीस वर्ष चार महीने की थी । यद्यपि भारतेन्दु को अस्त हुए पचास वर्ष होते आए पर आज भी उसकी ज्योत्स्ना मंद नहीं हुई है । स्वर्गीय प० श्रीधर पाठक ने ठीक ही कहा है कि—

जब लौं भारत भूमि मध्य आरजकुज बासा ।

जब लौ आरज धर्म माहिं आरज विश्वासा ॥

जब लौं गुन आगरी नागरी आरज बानी ।

जब लौं आरज बानी के आरज अभिमानी ॥

तब लौं यह तुम्हरो नाम थिर चिरजीवी रहिहै अटल ।

नित चंद सूर सम सुमिरिहैं हरिचंदहु सज्जन सकल ॥

संतति तथा स्त्री

भारतेन्दु जी को दो पुत्र और एक पुत्री हुई थी, पर प्रथम दोनों शैशवावस्था ही में जाते रहे । इनकी पुत्री भी अत्यंत निर्बल थी और शैशवकाल में सदा रुग्ण रहती थी, यहाँ तक कि इनका शिर एक ओर लटका सा रहता था । इन्हे भारतेन्दु जी की एक मात्र संतान कहलाने का सौभाग्य प्राप्त था, इससे यह सब रोगों से मुक्त हो गईं । इनकी शिक्षा का भी अच्छा प्रबन्ध हुआ था । यह हिन्दी तथा बंगला अच्छी तरह जानती थीं और संस्कृत का इतना ज्ञान था कि श्रीमद्भागवत आदि का परायण कर लेती थीं । इनका विवाह सं० १९३७ वि० के वैशाख मास (सन् १८८० की मई) में गोलोकवासी बा० बुलाकीदास जी सोनावाले के भाई बा० देवीप्रसाद जी के पुत्र स्वर्गीय बा० बलदेवदास जी से भारतेन्दु जी ने स्वयं किया था । इन्हीं के विवाह में गाली गाना बन्द किया गया था और पत्तले परोसकर तब जाति भाइयो को वैठाया गया था । उसके पहिले जाति भाइयो को वैठाकर तब

पत्तलें परसी जाती थीं, जिस कार्य मे प्रायः आध घंटे लग जाते थे । इनमें दो असुविधाएँ थीं । एक तो अच्छी अच्छी खाद्य वस्तु सामने रहते हुए भी लोग बैठे हुये केवल सुगंधित लिया करते थे और दूसरे उन्हें गाली सुनने का भी अधिक समय तक मजा मिला करता था । उसी समय से गालीगायन कम होता गया और अब प्रायः बंद सा हो गया है । यह विवाह बड़े धूम-धाम से हुआ था । इनका नाम श्रीमती विद्यावती था । इन्हे पाँच पुत्र तथा तीन पुत्रियाँ हुई थीं । एक पुत्री विवाह योग्य होकर तथा दो शैशवावस्था ही मे कालकवलित हो गईं । पुत्र पाँचों वर्तमान हैं । इनके नाम बयानुक्रम से बा० ब्रजरमणदास, ब्रजरत्नदास (ननिहाल का नाम रेवतीरमणदास), ब्रज-मोहनदास, ब्रजजीवनदास और ब्रजभूषणदास हैं । प्रथम हिन्दी तथा उर्दू का ज्ञान प्राप्त कर कोठो के काम मे लग गए और अन्य सभी ने अंग्रेजी की शिक्षा पायी । द्वितीय इस चरित्र का लेखक है । तृतीय तथा पंचम ने एंट्रेस पास कर आगे पढ़ना छोड़ दिया । इन्होंने गृह पर ही संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया है । इनमे अंतिम दो मातृ-भाषा की कुछ सेवा करते रहते हैं ।

सं० १९५७ वि० के अगहन कृष्ण २ को श्रीमती विद्यावती का और सं० १९८६ के चैत्र कृष्ण २ को पूज्यपाद बा० बलदेवदास जी का स्वर्गवास हो गया ।

भारतेन्दु जी के छोटे भाई बा० गोकुलचंद्र जी को दो पुत्र और दो पुत्री थीं । पुत्रो का नाम बा० कृष्णचन्द्र तथा ब्रजचन्द्र था । प्रथम के तीन तथा द्वितीय के दो पुत्र वर्तमान हैं । ये सभी अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । बा० कृष्णचंद्र के पुत्रो का नाम बा० मोतीचंद्र, बा० लक्ष्मीचंद्र तथा बा० नारायणचंद्र है और बा० ब्रजचंद्र के पुत्रों का नाम बा० कुमुदचंद्र और बा० मोहनचंद्र हैं ।

भारतेन्दुजी की धर्मपत्नी श्रीमती मन्नोदेवी का आषाढ़ कृष्ण ७ सं० १९८३ वि० (सन् १९२६ ई०) को, बयालीस वर्ष तक वैधव्य भोगकर गंगालाभ हुआ था । इनका अपने भ्रातृ-पुत्रों पर बहुत ही स्नेह था । स्वर्गीय बा०

कृष्णचन्द्र जी नित्य ही अर्द्धरात्रि के बाद एक दो बजे वाग़ से घर लौटते थे और यह बराबर उनके आसरे बैठी रहती थीं तथा उन्हें भोजन कराकर तब सोतीं थीं। वे दोनों भाई भी इन्हे बहुत मानते थे और उन लोगो ने अंत तक उसी प्रकार निवाहा भी था। इस लंबे वैधव्य के कारण इन्हें कष्ट भी बहुत उठाना पड़ा। कई वर्ष तक आँखों से न दिखलाई पड़ने के कारण तथा रोग जर्जरित होने से घरवालो को भी तकलीफ थी। कुछ लोगो के इस कथन पर कि 'अमुक तो अपना सर्वस्व फूँक कर चल दिए और इन्हें हम लोगो के जान का ग्राहक छोड़ गए' इन्हें मानसिक कष्ट विशेष हुआ था तथा इन्होंने एक बार कहा भी था कि 'अब हम अधिक न चलेगे, हमारी क्रिया के लिए विशेष समारोह की जरूरत नहीं है, हमारी उंगली के ये छल्ले हमे फूँकने के लिए बहुत होंगे।' समय तू जो न चाहे कर दिखलावे।

चन्द्र में कलंक

जीवनचरित्रो ही से मनुष्य का सबसे बढ़कर मनोरंजन होता है। उपन्यास, नाटक आदि भी कल्पित मनुष्यों की जीवनियाँ ही हैं। उत्तम जीवनी कभी भी समय के पीछे नहीं पड़ सकती। किसी महान् पुरुष की जीवनी से यही उपदेश प्रधानतः मिलता है कि मनुष्य क्या हो सकता है, कहाँ तक ऊँचे उठ सकता है और मानव समाज के लिये वह कहाँ तक हितकर हो सकता है। इनको पढ़ने से हमे उत्साह मिलता है, हमारा साहस बढ़ता है। महान् व्यक्तियो से, जो जव नहीं रह गए हैं या वर्तमान हैं, हम बराबर नहीं मिल सकते पर उनकी सच्ची जीवनी यदि हमारे पास है तो हम सर्वदा उनसे सत्संग रख सकते हैं। पर मनुष्य तभी मनुष्य रहेगा जब उसके दोष आदि भी प्रकट कर दिए जायँगे। मनुष्य देवता नहीं है, उसमे दोष रहेंगे, किसी मे एक है तो किसी मे कुछ और है। यदि एक महात्मा की जीवनी से हम दोषो को निकाल देते हैं तो हम ऐसा निर्दोष आदर्श उपस्थित कर देते हैं जिसको अनुगमन करने का लोग साहस छोड़ बैठेंगे। उसे मनुष्योपरि या दैवी समझेंगे, जिससे जीवनी लेखक का परिश्रम निष्फल सा हो जाता है। तात्पर्य इतना ही

है कि जीवनचरित्र में गुणों का विवेचन करते हुए दोषों का भी, यदि हों, तो विश्लेषण अवश्य कर देना चाहिए। सत्य कटु होता है और नीति भी कहती है कि 'सत्यं ब्रूयात् प्रिय ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्।' पर सच्चे दिल से मृत महात्माओं के विशिष्ट दोषों का उल्लेख अवश्य होना ही चाहिए।

साधारणतः कवि सौंदर्योपासक होता है। सौंदर्य से केवल स्त्री-सुलभ सौंदर्य ही से नहीं तात्पर्य है। गुलाब में सौंदर्य है तो उसकी नई डाल के नये निकले हुए प्याजी रंग के काँटों में भी कुछ न कुछ सौंदर्य रहता है। बड़ों के गुण तथा दोष दोनों ही में कुछ न कुछ सार होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी से भक्त श्रेष्ठ को भी इसी सौंदर्योपासना ही से भक्ति की दीक्षा मिली थी। भारतेन्दु जी की जीवनी देखने से यह ज्ञात होता है कि 'घर के शुभचिंतको' ने उन्हें जितना ही 'लायक' बनाने का प्रयत्न किया उतने ही वे मीराबाई के समान 'नालायक' होते गये और दोनों ही पक्ष अत तक अपने अपने प्रयास में डटे रहे। फलतः आरम्भ में यह परकीया नायिकाओं के फेर में कुछ दिन पड़ कर अपने चित्त को सान्त्वना देते रहे पर कुछ ही दिन बाद इन्होंने अपने को सँभाला और श्रीकृष्ण भगवान के रंग में ऐसे रग गए कि अंत समय तक 'श्रीकृष्ण सहित स्वामिनी' रहते रह गये। एक बात और पहिले ही कह देना चाहिए। इनकी प्रवृत्ति कुछ साधुओं की सी थी। धन के विषय में यह कथन बिल्कुल ही ठीक है। अभी दस बीस हजार आ गया तो दोनों हाथों से लुटाकर बाँट-बूँट सफाचट कर दिया। यह फिक्र नहीं रहती थी कि कल चिट्ठियों के लिये दो रुपये किसी से उधार लेने पड़ें। संचयन की बुद्धि इनमें बिल्कुल थी ही नहीं। शरीर पर के कपड़े तक दूसरों को देकर स्वयं ठंडे में बैठे रह जाना साधु ही का काम था। वेश्या का सहवास इनके लिये आवश्यक ही था। आज इस बहाने तो कल उस बहाने जलसे होते रहते थे गुणी गायिका अपना गुण अवश्य दिखाएंगी तथा गुण-ग्राही पुरुष उसकी प्रशंसा करेगा ही। इस प्रकार वार्तालाप होते हुए आपस में परिचय होना अनिवार्य था। अर्धर नगरी में उस समय की प्रसिद्ध गानेवाली कई वेश्याओं के नाम दिए गए हैं। ये सभी भारतेन्दु जी के दरबार में आती-जाती थी। इन्हीं

में से किसी के हाव-भाव पर भारतेन्दु जी की कोई नई उक्ति सूझी थी, जिस पर कविता बनाकर उपस्थित सज्जनों को सुनाते हुए उन्होंने कहा था कि 'हम इन सबों का सहवास विशेष कर इसीलिये करते हैं। कहिए ! यह सच्चा मज्जमून कैसे हो सकता था।' भाव उनका यही था कि वे उन सब में लिप्त नहीं थे।

एक बार संध्या के अनंतर रामकटोरे के बाग में भारतेन्दु जी बैठे हुए थे, उनके पास ही माधवी तथा एक और सज्जन बैठे थे। कुछ ही देर बातचीत करने के बाद भारतेन्दु जी उठ कर बाग में चले गए और देर तक न लौटे तब उक्त सज्जन माधवी के कहने पर उन्हें ढूँढ़ने गये। वह स्वयं कहते थे कि 'उन्होंने वा० हरिश्चन्द्र को बाग के एक कोने में एक वृक्ष की डाल पकड़े हुए चन्द्रमा की ओर देखते हुए देखा और यह भी देखा कि उनकी आँखों से अविरल आँसू टपक रहे हैं तथा वे कुछ मंद मंद अलाप रहे थे। कुछ देर के अनंतर वे स्वस्थ होकर पुनः अपने जगह पर आकर बैठ गये।

पं० ईश्वरचन्द्र चौधरी प्रसिद्ध होमियोपैथि डाक्टर हैं। इनकी अवस्था अब बहुत अधिक हो गई है और यह भारतेन्दु जी के समय उनके घर पर दवा करने के लिए बराबर जाते थे। भारतेन्दु जी इन्हे बहुत मानते थे और इन पर स्नेह रखते थे। यह दवा करने जनाने में भी जाते थे। एक बार भारतेन्दु जी की स्वर्गीय धर्मपत्नी की दवा हो रही थी। होमियोपैथि के अनुसार रोगी की चिंता आदि मानसिक विकारों से भी निदान किया जाता है इसलिए इन्होंने मेरी मातामही को चिंताग्रस्ता पाकर उसका कारण पूछा जिससे मालूम हुआ कि उनके प्रति पति की जो उदासीनता है उसी से वह चिंतित रहती हैं। चौधरी महाशय ने भारतेन्दु जी से सन्मुख बात करना उचित न समझ कर उन्हें इस विषय पर एक पत्र लिखा था जिसका लंबा उत्तर भारतेन्दु जी ने वगला भाषा में (पर हिन्दी लिपि में) लिखकर भेजा था। इस समय पत्र का आशय यही था कि वे अपनी स्त्री को किसी प्रकार का किंचित भी कष्ट नहीं देते और वह घर पर सब प्रकार से आराम से रहती हैं पर वे स्वयं अपने मन के अधिकारी नहीं हैं, उनका मन घर पर

नहीं लगता, इसलिए वह लाचार हैं। यह पत्र अभी तक कुछ दिन हुए उनके पास था और उन्होंने उसे अपने सुशिक्षित पुत्र को उसे सुरक्षित रखने को दे दिया था पर इन महाशय ने उसे तुच्छ समझ कर नष्ट हो जाने दिया। ऐसा समझने का कारण स्यात् यही था कि भारतेन्दु जी बंगाली नहीं थे। अस्तु, अब माधवी तथा मल्लिका का कुछ परिचय यहाँ दे दिया जाता है।

जगतगंज निवासी किशुनसिंह की लड़की का नाम माधवी था जिसका (उर्फ) दूसरा नाम अलीजान था। इसने अपना एक मकान, जो बाग सुन्दरदास नामक मुहल्ले में था, आषाढ़ सं० १९३६ (जून १८७९) में बेचा था। उस बैनामे में बेचने का कारण यह लिखा है कि 'यह मकान बा० गोकुलचन्द्र के यहाँ पाँच सौ रुपये पर रहन था और उसी ऋण को चुकाने के लिये इसे निकाल देना आवश्यक हुआ।' पूर्वोक्त बैनामे की इन बातों से यह स्पष्ट ज्ञात होजाता है कि माधवी हिन्दू थी पर मुसलमान हो गई थी। ऐसी ही अवस्था में वह ऋण लेने देने के लिये भारतेन्दु जी के गृह पर उनके भाई के पास आती जाती थी और इस प्रकार इनसे उसका परिचय होगया होगा। माधवी के हिन्दू से मुसलमानी हो जाने के कारण उसमें कुछ विशेषता आगई थी और अंत में भारतेन्दु जी ने उसकी शुद्धि करके उसे ग्रहण कर लिया होगा। जिस ऋण के लिये यह मकान सन् १८७९ में बिका था वह अवश्य पाँच सात वर्ष पहिले का अर्थात् सन् १८७२ ई० के लगभग का रहा होगा। उस समय भारतेन्दु जी की अवस्था तेईस चौबीस वर्ष की थी और वे 'घर के शुभचिंतकों' के कारण घर के लिये त्याज्य से हो रहे थे। ऐसी अवस्था तथा दशा में इस प्रकार के प्रणय हृदय की सांतवना के लिए अनायास हो जाते हैं। भारतेन्दु जी ने इसके लिये सुंडिया महल्ले में एक मकान क्रय कर दिया था और उसमें एक ठाकुर जी भी स्थापित किये गए थे तथा कुल उत्सव मनाये जाते थे। यहाँ वे प्रायः रात्री व्यतीत करते थे। चित्त विनोदार्थ क्रय की गई वस्तुओं का भी यहाँ अच्छा संग्रह होगया था, जिनमें हाथी दाँत पर बने हुए चित्रों का एक ऐलबम भी था। भारतेन्दु जी की मृत्यु पर यह सब सामान बा० गोकुलचंद्र जी घर लीवा लाए और माधवी के

व्यय के लिये दस रुपये मासिक नियत कर दिये थे । यह भी उनकी मृत्यु के बाद बंद होगया, जिससे वह मकान बेंचकर अन्यत्र चली गई ।

मल्लिका नाम की एक बंगदेशीया कुलीन विधवा स्त्री खदेरूमल की गली में आकर बस गई थी या किसी ने जान बूझ कर उसे वहीं लाकर बसाया था, इसका ठीक पता नहीं । आजकल यह गली टकसाली की गली भी कहलाती है । इस घराने के चौखंभा स्थित दीवानखाने वाले मकान के पास पश्चिम ओर सटा हुआ जो इसी वंश का दूसरा मकान है, उसके ठीक पीछे यह गली है । ये दोनों मकान ऊपर हर मंजिल में मिले हुए हैं, केवल सबके नीचे वाली मंजिल अलग है जिसमें से एक गली गई हुई है । खदेरूमल की गली इतनी सकरी है कि उसके दोनों ओर के मकान ऊपर से एक से मालूम होते हैं और लड़के तक एक पर से दूसरे पर सुगमता से जाते आते हैं । ऐसे स्थान में रहने के कारण भारतेन्दुजी की इसपर प्रायः नज़र पड़ती रहती थी और जो अपने घर के सभी प्राणियों से अलग सा था उसपर ऐसी एकाकिनी पड़ोसिन का प्रभाव बढ़ता गया । यह अपने ही घर में एक प्रकार धिराने से होकर रहते थे, इसलिये इनका मन घर पर नहीं लग रहा था । उनका वही हाल था जैसा किसी ने लिखा है कि 'मरों को सारी दुनिया रोवे हम जीतों को रो बैठे । मरे से मुर्दा होते हैं हम जिंदे मुर्दः हो बैठे ।' बड़े घरों के विगड़े दिल युवकों को ऐसे समय सहायता करने वाले बहुत होते हैं । इन्हें भी इनके घर पर आने जाने वाले एक ऐसे ही महात्मा मिले, जिन्होंने इनकी उस पड़ोसिन से जान पहिचान करा दी । वह इनकी आश्रिता होगई । यह अत्यंत नम्र, विनयशील तथा सुचरित्र थी पर भाग्य के दोष से वह उस अवस्था को पहुँच गई थी । यह शिक्षिता भी थी और भारतेन्दु जी के समागम से उसने हिन्दी भी अच्छी तरह सीख ली । बंगला में 'चन्द्रिका' उपनाम से उसने बहुत से पद बनाये हैं और हिन्दी में बंगला से तीन उपन्यासों का अनुवाद भी किया है । इनके नाम राधारानी, सौंदर्यमयी और चन्द्रप्रभा पूर्ण प्रकाश हैं । राधारानी का समर्पण यों लिखा है—

“हमारे आर्य सभ्य शिष्ट समाज की रीति अनुसार मेरे परिचय की

सर्व साधारण में योग्यता नहीं और न इस जुद्ध ग्रन्थ का अनुवाद कोई ऐसा स्तुत्य कृत्य है, जिसके धन्यवाद संचय करने को मुझे प्रकट होना आवश्यक है। केवल इतना ही कहना बहुत होगा, शुकांगना यत्र गिरो गिरंति अवेहितम्मंडनमिश्रगेहम् ।’ जिस पूज्य प्राणप्रिय देवतुल्य स्वामी की आज्ञा से इसका अनुवाद मैंने अपनी अबल भाषा में किया है उन्हीं के कोमल कर कमलों में यह समर्पित भी है और उन्हीं की प्रसन्नता मात्र इसका फल है ।”

प्रेम तरंग में इसके चालीस से अधिक पद संगृहीत हैं। इनमें से एक यहाँ दिया जाता है—

राखो हे प्रानेश ए प्रेम करिया जतन ।

तोमाय करेछि समर्थन ।

जत दिन रबे प्रान श्री चरने दिश्रो स्थान ।

हरिश्चन्द्र प्रान धन एही अकिंचन ।

‘चन्द्रिका’ हृदय-धन नाहिक तोमा बिहन ।

तब करे ते आपोन करेछि जीवन मन ॥

पूर्वोद्धृत उद्धरण तथा पद दोनों ही से ज्ञात होता है कि यह कितनी नम्रताशील थी और भारतेन्दु जी पर उसका कितना प्रेम बढ़ गया था इसी प्रकार भारतेन्दु जी का भी उसपर बहुत स्नेह था। उनका एक पत्र नीचे दिया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जायगा।

“विदेश से हम लौट कर न आवें तो इस बात का जो हम यहाँ लिखते हैं ध्यान रखना। ध्यान क्या अपने पर फर्ज समझना। किन्तु हम जल्दी जीते जागते फिरेंगे। कोई चिंता नहीं है! सिर्फ संयोग के वश होकर लिखा है। यदि ऐसा हो तो दो चार बातों का अवश्य ध्यान रखना। यह तुम जानते हो कि तुम्हारी भाभी की हमको कुछ चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऐसा देवर जिनका वर्तमान है उसको और क्या चाहिए। दो बात की हमको चिंता है। प्रथम कज्ज, दूसरी मल्लिका की रक्षा। थोड़ी सी डिगरी जो बच गई है, उसको चुका देना। और जीवन भर दीन हीन मल्लिका की जिसको

हमने धर्मपूर्वक अपनाया है रक्षा करनी। कृष्ण को ऊँची शिक्षा संस्कृत अंग्रेजी और बंगला की हो। जो ग्रंथ हमारे या बाबू जी के बे छपे रह जायँ वे छपै। इस पत्र को हमने कलेजा फाड़ फाड़ कर चार दिन में अर्थात् अछनेरा से शुरू करके भिलाड़े में खतम किया है। इसपर हँसना मत, दुखी होना, क्योंकि अभी तो अणुमात्र भी मरने की सम्भावना नहीं है। शारीरिक कुशल है तनिक भी चिंता न करना।”

भारतेन्दु जी को स्वयं अर्थ संकोच रहता था इसलिये इसके कालयापन के लिये इन्होंने अपनी प्रकाशित पुस्तकों का कुछ स्टॉक इसे दे दिया था, जिसकी विक्री से इसका काम चलता था। चौक की सिख संगत के सामने के एक मकान में इसका स्टॉक रहता था और इसका कार्यालय का नाम 'मल्लिका चन्द्र एंड कंपनी' रखा गया था। भारतेन्दु जी की मृत्यु के बहुत दिनों बाद तक यह कार्यालय रहा। बा० गोकुलचन्द्र जी भी अपने जीवन भर इसकी सहायता करते रहे।

मित्रगण

किसी असाधारण पुरुष की जीवनी में उसके मित्रों का भी परिचय देना आवश्यक होता है, पर इससे यह तात्पर्य नहीं कि उसकी प्रकृति उन मित्रों के कारण परिवर्तित हुई होगी प्रत्युत् इसके विपरीत यही ज्ञात होगा कि जो कोई उसका साथ करता था वह भी उसी के रंग में रँग जाता था। यही बात भारतेन्दु मंडल पर भी घटित होती है, जैसे प्रेमधन जी आदि की जीवनी से ज्ञात होगा। चन्द्र की ज्योत्स्ना में नक्षत्रगण का प्रकाश आप ही और भी लिख उठता है। भारतेन्दु जी के मित्रों की संख्या भी बहुत थी, कारण कि जो लोग इन्हे हानि पहुँचाते थे या इनसे द्वेष रखते थे, उन्हें भी वे अपना मित्र ही समझते थे। इसीसे इनके मित्रगण ने इन्हे 'अजातशत्रु' तक कहा है।

भरतपुर-नरेश वल्देवसिंह की मृत्यु पर उनके अल्पवयस्क पुत्र बलवंत सिंह को गद्दी से हटाकर उनके भ्रातृ-पुत्र दुर्जनसाल ने उस पर अधिकार कर

लिया। भारत-सर्कार ने सेना भेज कर बलवंतसिंह को गद्दी दिला दी और दुर्जनसाल अपने दो पुत्रों के साथ प्रयाग में रहने के लिये भेज दिए गये। इन्हीं में एक राव कृष्णदेव शरणसिंह भी थे, जो 'गोप' उपनाम से कविता करते थे। काशी ही में उस समय बॉर्ड्स स्कूल था, जिसमें धनाढ्यो तथा राजाओं के पुत्रगण शिक्षा पाते थे। यहीं इन दोनों मित्रों का समागम हुआ और यह गाढ़ी मित्रता अत तक एक रस रही। यह मित्रता ऐसी थी कि एक रचना 'माधुरी, रूपक को लेकर यह भ्रम लोक में फैल गया था कि यह इन दोनों मित्रों में से वास्तविक रचयिता की न होकर दूसरे अर्थात् भारतेन्दु जी की प्रणीत है। यह राव साहब ही की रचना है, यह जब निश्चित हो गया है, क्योंकि इसके एक मात्र पद में इनका उपनाम 'गोप' आया है। इस छोटे से रूपक में ब्रजभाषा का भी पुट विशेष है। इन्होंने चन्द्रावली नाटिका का ब्रजभाषा में रूपांतर किया था। हरिश्चन्द्र मैगजीन के तीसरे अंक में इनका 'प्रेम सदेशा, छपा है, जिसमें सोलह पद आसावरी और सोलह पद सारंग-राग के हैं। चौथी संख्या में 'मानचरित्र' प्रकाशित हुआ है, जो रूपक के समान आलापादि युक्त छोटी सी रचना है। इसमें पद्य ही अधिक हैं। इसमें भारतेन्दु जी का भी एक पद इन्होंने रखा है। चन्द्रिका में एक दोहावली भी प्रकाशित हुई है, जिसमें पैंतीस दोहे हैं। यह भी अपने मित्र ही के समान अनन्य कृष्णभक्त थे और तदीय समाज के सभ्य भी थे। यह ऐसे नम्र तथा शीलवान थे कि एक बार यह उसके किसी अधिवेशन में नहीं आ सके तो उसके लिये विशेष रूप से लिखकर जमा प्रार्थना की थी। इन्हे वाग तथा गायन वादन का बहुत शौक था और उसमें कुशल भी थे। यह हाथ के अच्छे कारीगर थे। इनके हाथ का बनाया एक फौवारा दस सहस्र को बिका था। यह भी अपने मित्र के समान उदार थे और इसलिए ऋणग्रस्त भी थे।

बॉर्ड्स स्कूल के इनके दो एक मित्रों का यहाँ उल्लेख कर दिया जाता है। बस्ती के राजा महेश्वर सिंह भी इनके मित्र थे और वे भी कुछ कविता विशेषतः ठुमरियाँ बना लिया करते थे। सरयूपार की यात्रा के विवरण में भारतेन्दु जी ने इनके स्थान का भी उल्लेख किया है। जब इनकी अवस्था

अधिक हो गई थी, उस समय धोखे से एक खून कर डालने के कारण इन्हें एक घटे की सजा मिली थी और उतने समय के लिये इन्हें जेलखाने की हवा खिलाई गई थी। यह इस दुःख से दुःखित हुए थे और यह पद जोड़ा था—

हे राम राजा रजाय भई तुम्हरी ।

रजाय भई तुम्हरी सजाय भई हमरी ॥

कहत, महेस, वस्ती के राजा बूढ़ी उमरि में सजाय भई हमरी ॥

जबलपुर जिलांतर्गत गढ़ा परगने के ताल्लुक़ेदार राजा अमानसिंह गोटिया भी कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स की ओर से काशी ही में पढ़ने आये थे और यहीं छः वर्ष तक विद्याध्ययन कर सन् १८८० ई० में अपने राज्य को लौट गये थे। अपनी एक रचना 'मदन मंजरी नाटक' की भूमिका में वह लिखते हैं कि "श्रीयुत बा० हरिश्चन्द्र भारतेन्दु की बनाई हुई बहुत सी पुस्तकें देखीं तो मन से उत्पन्न हुआ कि मैं भी बाबू साहब की सहायता से इस पुस्तक को प्रचलित करूँ। इस नाटक के बनाने में हमारे बा० हरिश्चन्द्र ने बड़ा ही श्रम किया कि इसको शुद्ध करके प्रचलित करा दिया, उनको नमस्कार है।" तात्पर्य यह है कि अपने मित्र भारतेन्दु जी की नाटक रचनाओं को देखकर इन्होंने भी इस नाटक का निर्माण किया था। यह तथा राजकुमार जगमोहन सिंह दोनों ही नाटक खेलने में भारतेन्दु जी के साथ पार्ट भी लेते थे।

विजयराघव गढ़ के राजकुमार ठा० जगमोहन सिंह कन्नवाहे क्षत्रिय थे। यह सन् १८६६ ई० में विद्याध्ययन के लिये काशी आए और यह भी सन् १८८० ई० तक यहीं रहे। इन्होंने अंग्रेज़ी, संस्कृत, हिन्दी आदि कई भाषायें सीखीं। भारतेन्दु जी से इनसे बहुत स्नेह हो गया और यह उनके सत्संग से मातृभाषा की सेवा में दत्त-चित्त हो गए। इनकी प्रकृति भारतेन्दु जी से बहुत कुछ मिलती-जुलती सी थी। दोनों मित्रों में परस्पर बहुत स्नेह हो गया था और वे बराबर मिलते रहते थे। मेघदूत की प्रस्तावना में यह लिखते हैं कि 'मैंने अपने श्री बा० हरिश्चन्द्र जी की भी सहायता इसमें कहीं कहीं ली है। हरिश्चन्द्र जी विख्यात भाषा के कवि और नाटक के कर्ता हैं।

उनका हृदय भावुक है और सरस कविता बड़ी अनूप होती है। और मैं समझता हूँ कि पश्चिमोत्तर देश क्या भारतवर्षीय कवि मुकुट के अलंकार हैं। कालिदास के छोटे छोटे काव्यों का इन्होंने भी अनुवाद किया है। इन्होंने गद्य पद्य दोनों ही लिखे हैं। एक प्रेम रस में और दूसरा माधुर्य में डूबा हुआ है। विन्ध्याचल के पार्वत्य प्रांत में निवास करने के कारण इनकी प्रकृति पर विशेष प्रेम था और इस कारण इनके गद्य काव्य में प्राकृतिक शोभा का वर्णन बहुत अच्छा हुआ है। प्रेम-मार्ग के यह सच्चे पथिक थे। इनका श्यामास्वप्न प्रसिद्ध है। अन्य कई पुस्तकें भी लिखी हैं। इन लोगों के सिवा सूर्यपुराधीश राजराजेश्वर सिंह, बड़हर के राजा केशवशरण सिंह साह, छपरा के बा० देवीप्रसाद 'मसरक' आदि भी भारतेन्दु जी के सहपाठी थे।

मिर्जापुर-निवासी पं० बद्रीनारायण उपाध्याय चौधरी (प्रेमघन) जी भी भारतेन्दु जी के अंतरंग मित्रों में से थे। इस मित्रता का आरम्भ सं० १९२९ वि० में हुआ था और इसका अंत तक पूरा निर्वाह भी हुआ। यह पहिले उर्दू के प्रेमी तथा लेखक थे पर भारतेन्दु जी से परिचय होने पर यह भी मातृभाषा के अनन्य उपासक हो उठे। इनके लेख कविवचन-सुधा में छपने लगे। इन्होंने स्वयं आगे चलकर आनंद कादंबिनी मासिक पत्र तथा नागरी नीरद नामक (साप्ताहिक) प्रकाशित करने लगे। प्रथम में यह प्रायः अपने ही सब लेख दिया करते थे, जिस पर एक बार भारतेन्दु जी ने इनसे कहा भी था कि 'जनाब, यह किताब नहीं है कि जो आप अकेले ही इरकाम फर्माया करते हैं बल्कि अखबार है कि जिसमें अनेक जन लिखित लेख होना आवश्यक है और यह भी जरूरत नहीं है कि सब एक तरह के लिक्खाड़ हों।' प्रेमघन जी अपने लेखों में लंबे लंबे वाक्यों में पेचीले मजमून बाँधते थे, जिससे उन्हें अपने लेखों को कई बार दुहराना पड़ता था। भारतेन्दु जी स्वभावतः अपने लेख कभी दुहराते नहीं थे, जिससे प्रेमघन जी उनके इस 'उतावलेपन' पर बहुधा कहा करते थे कि 'बाबू हरिश्चन्द्र अपनी उमग में जो कुछ लिख जाते थे, उसे यदि एक बार और देखकर परिमार्जित कर लिया करते तो वह और भी सुडौल तथा सुन्दर हो जाता।' इन्होंने भारत सौभाग्य

नाटक, हार्दिक हर्षादर्श आदि कई पुस्तकें लिखीं। समालोचना का इन्होंने एक प्रकार हिन्दी में आरम्भ कर बा० गदाधरसिंह की वंगविजेता तथा लाला श्री निवासदास के संयोगता स्वयंवर नाटक की कठिन अलोचनाएँ लिखी थीं। यह भी अभिनय करने में भारतेन्दु जी का साथ देते थे।

पं० बालकृष्ण भट्ट जब कलकत्ते से लौट आए तब भारतेन्दु जी की पुस्तकें तथा कविवचन-सुधा पढ़ने से इनमें हिन्दी साहित्य सेवा की लगन उत्पन्न हो गई। इन्होंने कविवचन-सुधा, काशी पत्रिका और विहारबंधु में लेख देना आरम्भ किया। प्रयाग के कुछ विद्यार्थियों ने हिन्दी-वर्द्धिनी सभा स्थापित की। भारतेन्दु जी ने इसके मेंबरों के आग्रह से वहाँ जाकर एक व्याख्यान दिया और स्वयं उसके सभ्य हो गये। इसी सभा द्वारा निकाले गए एक प्रसिद्ध पत्र का आप ही ने 'हिन्दी प्रदीप' नामकरण किया और उसका शीर्ष पद (सौटो) भी स्वयं बना दिया था। उसके सहायतार्थ कविवचन-सुधा के ग्राहकों की नामावली भी भेज दी थी। भट्ट जी उस पत्र के संपादक थे और अपने को बा० हरिश्चन्द्र जी का अनुयायी कहते थे तथा उन्हीं की सी शुद्ध हिन्दी लिखने के प्रेमी थे। भारतेन्दु जी को भट्ट जी बहुत सन्मान की दृष्टि से देखते थे और वे भी कहा करते थे कि हमारे बाद दूसरा नंबर भट्ट जी का है। भट्ट जी प्रायः चालीस वर्ष तक हिन्दी की सेवा कर परमधाम को सिधारे थे।

पं० प्रतापनारायण मिश्र कानपुर निवासी थे और इनमें हिन्दी प्रेमी भारतेन्दु जी की कविवचन-सुधा के लेखों के पढ़ने से अंकुरित हुआ था। यह लेखन कला में भारतेन्दु जी को अपना आदर्श मानते थे और उन पर इनकी अपूर्व भक्ति थी। जबसे बाबू साहब ने इनकी प्रेम पुष्पावली की प्रशंसा कर इनका उत्साह वर्द्धन किया तबसे यह उन्हें बहुत मानने लगे। उस समय की यह इनकी प्रशंसा मिश्र जी के लिये सुकवि और सुलेखक होने की उच्चतम सर्टिफिकेट हो गई थी। यह भारतेन्दु जी का बहुत कुछ कीर्तन करते तथा उन्हें आराध्यदेव मानने और पूज्यपाद तक लिखते थे। उनकी मृत्यु पर 'शोकाश्रु' नामक कविता लिखी थी। भारतेन्दु जी को महात्माओं के बराबर

विशेषण देने से इनसे कुछ लोग आज तक रंज मानते हैं। ब्राह्मणों को सरस्वती क्षेत्र में इतर वर्णों का बढ़ना कभी सह्य नहीं है, यह परंपरा से चली आती है। विश्वामित्र सहज ही मे ब्राह्मण नहीं हुए थे। स्यात् सन् १८८३ ई० की बीमारी से भारतेन्दु जी के अच्छे होने पर इन्होंने तीस शैरों का एक कसीदा कह डाला है, जिसमें से दो-चार शैर यहाँ उद्धृत किए जाते हैं—

बनारस की ज़मीं नाज़ाँ^१ है जिसकी पाय बोसी^२ पर।
 षदब से जिसके आगे चर्च^३ ने गर्दन मुकाई है ॥
 वही महतावे^४ हिन्दुस्ताँ वही गौरतदिहे^५ नैयर^६।
 कि जिसमें दिल से हर हिन्दू के तारीकी^७ मिटाई है ॥
 बहुत से लोगों का दावा है वतन की खैरखाही का।
 कोई पूछै तो इनसे चाल यह किसकी उदाई है ॥
 उसे क्या कोई दिखलाएगा अपने खामः^८ का जौहर^९।
 रसा^{१०} है वो खुद उसके ज़ेहन^{११} की वाँ तक रसाई है ॥

लाला श्रीनिवासदास मथुरा के रहने वाले थे पर दिल्ली में सेठ लक्ष्मीचंद की कोठी के मुनीम होकर वहीं रहते थे। इन्होंने हिन्दी, उर्दू, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी। यह बड़े व्यवहार कुशल भी थे। यह भी छोटी ही अवस्था में मरे पर इसी बीच इन्होंने तप्तासंवरण, संयोगता स्वयंवर तथा रणधीर-प्रेम-मोहिनी नामक तीन नाटक और परीक्षा गुरु उपन्यास लिखा है। यह मुहाविरेदार बोलचाल की भाषा लिखते थे। तप्तासंवरण सन् १८७३ ई० में हरिश्चन्द्र मैगजीन में पहिली बार छपा था पर उसको भारतेन्दुजी ने पसन्द नहीं किया, तब उसी सतीत्व-महात्म्य पर सती प्रताप, नाटक लिखने लगे थे। इनकी प्रथम रचना एक और थी, जो प्रह्लाद महानाटक नाम से बेकटेश्वर प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ था।

१—आनंदित। २—पैर चूमना,। ३—आकाश। ४—चन्द्रमा। ५—लज्जाकारक। ६—सितारा। ७—अंधकार। ८—लेखनी, कलम। ९—गुण्य, हुनर। १०—पहुँचा हुआ सिद्ध। ११—बुद्धि।

यह नाटक ऐसा बना था कि वे स्वयं उसे अपनी रचना कहने में संकोच करते थे। यह भारतेन्दु जी ही के समान शीलवान थे पर व्यवहार दक्ष होने से इनकी रचनाओं में भी उसकी पूरी छाप है। भाषा बहुत संयत और बोल-चाल की है।

हिन्दी-हित साधन में अलीगढ़ निवासी बा० तोताराम ने भी भारतेन्दु जी का साथ दिया था। ये कायस्थ थे और इन्होंने बी० ए० तक पढ़कर कॉलेज छोड़ दिया था। पहिले यह फतहगढ़ स्कूल के हेडमास्टर हुए और फिर काशी चले आए। यहाँ भारतेन्दु जी के सत्संग के कारण इनका हिन्दी प्रेम बहुत बढ़ा। सन् १७७४ ई० में इनका पहिला नाटक 'कीर्ति केतु' हरिश्चन्द्र मैगजीन में क्रमशः प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त केटो वृत्तांत, स्त्री सुवांधिनी, ब्रजयात्रा आदि पुस्तके लिखीं। अलीगढ़ में एक भाषा संवर्द्धिनी सभा तथा लायल लाइब्रेरी स्थापित करने में यह प्रधान रहे। 'भारतबंधु' नामक एक साप्ताहिक पत्र भी यह निकालते थे।

माधव संप्रदाय के गोस्वामी प० राधाचरण जी में हरिश्चन्द्र चन्द्रिका के लेख पढ़ कर मातृभाषा तथा देश के प्रति अनुराग और समाज सुधार का भाव पैदा हुआ था। यह पहिली बार जब अपने पिता के साथ काशी आए थे, जो पुराने विचारों के अनुगामी थे, उस समय इनका समाज सुधार की ओर विशेष झुकाव हो रहा था और भारतेन्दु जी भी उस समय तक अंध विश्वासियों द्वारा नास्तिक कहे जाने लगे थे। गोस्वामी जी की भारतेन्दु जी से मिलने की अदमनीय आकांक्षा के मार्ग में उनके पिता विघ्न रूप हो रहे थे। वे यहाँ तक पुरानी रूढ़ि के महापुरुष थे कि यावनी भाषा के शब्द तक मुख से नहीं निकालते थे। आपने कहीं छूटती बदूक का दृश्य देख लिया था, जिसका वर्णन कैसी अनूठी भाषा में आप करते हैं कि 'काहू नै लौह नलिका में श्याम चूर्ण भरिकै अग्नि संस्कार कर द्यौ तौ भड़ाम सो शब्द भयौ।' भला वे कैसे भारतेन्दु से प्रसिद्ध 'नास्तिक' से अपने पुत्र को मिलने देते। अंत में गोस्वामी राधाचरण जी ने पिता के शयन करने पर भारतेन्दु जी से मिलने का निश्चय कर उनसे यह सदेशा कहलाया कि 'कृपया हमारे आने के पहिले

ही आप सोने न चले जाइएगा।' भारतेन्दुजी ने उत्तर भेजा कि 'आप के पिता जब चाहे शयन करे, पर मैं बिना आप से मिले सो ही नहीं सकता।' ❀

❀ विशाल भारत के श्रीविद्योगी हरि जी ने गोस्वामी राधाचरण जी के कुछ संस्मरण प्रकाशित किए हैं जिसमें से कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है।

“पिता जी के सो जाने पर रात को एक बजे एक दरवान को घूस देकर मिला लिया और एक जासूस के रूप में, खिड़की के राह घर से निकल भागा। उधर सहृदय हरिश्चन्द्र जी प्रतीक्षा कर रहे थे। हम दोनों बड़े प्रेम से मिले और लगभग डेढ़ घंटे तक साहित्य और समाज पर जी खोलकर बातें करते रहे।”

“उस रात की दो-एक बात तो याद होंगी ही?” मैंने बीच में टोक कर पूछा।

“हाँ, सुनो, एक बात याद है। बाबू साहब ने कहा कि ब्राह्मण-समाज ने आर्य-संस्कृति पर आक्रमण अवश्य किया है, पर हमारे लु सप्राय प्राचीन साहित्य का प्रकाश भी उसने हमें दिया है। उसके प्रवर्तक राजा राममोहन राय निस्सन्देह एक असाधारण पुरुष थे। हमें ब्राह्मण-समाज से घृणा न करनी चाहिए। इसी प्रकार आर्य समाज के द्वारा भी बहुत कुछ सामाजिक सुधार होने की हमें आशा है। आर्य ही समाज अप्रत्यक्ष-रीति से सनातन-धर्म की रक्षा करेगा।”

“तब तो भारतेन्दु जी के बड़े उदार विचार थे।”

“फिर भी वे एक अनन्य वैष्णव थे। बड़े ऊँचे भावुक और कृष्ण-भक्त थे।” यह कहते हुए गोस्वामीजी की आँखें डबडबा आईं।

“हरी जी, यह तो आप ने सुना ही होगा कि एक समय मैं पूरे तौर से ब्राह्मण-समाज की ओर झुक गया था, भारतेन्दु जी ने ही मद्-विषयक व्यंग्य-पूर्ण पत्र छपा-छपाकर मेरे ब्राह्मण-समाज सम्बन्धी अन्ध विश्वासों में परिवर्तन कराया था। हरिश्चन्द्र हरिश्चन्द्र थे। उनके स्थान की पूर्ति करने वाला मुझे तो अब तक कोई दिखाई नहीं दिया।”

वहाँ से लौट कर वे ज्यों ही कपड़े उतार कर सोने को उद्यत हुए कि इनके पिता ने जगकर और इन्हे पलंग पर न देख कर पूछा कि 'तल्ला कितै गयो।' यह तुरंत बोल उठे कि 'हम यहाँ बैठे हैं'। इस अभिसार की कथा स्वयं गोस्वामी जी कहते थे। सं० १९३२ वि० मे इन्होंने कवि-कुल-कौमुदी नामक एक सभा स्थापित की थी। इनमें ब्राह्म-धर्म की ओर रुचि हो चली थी और वे उस धर्म के पक्ष में लेख भी लिखने लगे थे। परन्तु भारतेन्दु जी के पत्र द्वारा इस विषय पर कटाक्ष करने में यह उस धर्म की ओर से विमुख हो गए। यह भारतेन्दु जी को 'दिव्य भगवत्त्वभूति' मानते थे और साहित्य क्षेत्र में इन्हें अपना गुरु स्वीकार किया है। भारतेन्दु जी भी अपने पत्रों में इन्हें बड़े आदर से साष्टांग दंडवत प्रणाम आदि लिखते थे। एक पत्र का चित्र दिया भी गया है। लाहौर से गोस्वामी श्री ज्वालादत्त प्रसाद ने बा० हरिश्चन्द्र के उपनाम पर एक पत्र 'भारतेन्दु' सं० १९३८ वि० में निकाला था पर वह शीघ्र ही बन्द हो गया था। उसी पत्र को गोस्वामी श्री राधाचरण जी ने बाद को वृन्दावन से प्रकाशित करना आरम्भ किया था। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें और लेख लिखे हैं।

पं० मोहनलाल विष्णुलाल पट्ट्या शिक्षा पाने के लिए काशी आए थे। इनके पिता भारतेन्दु जी की कोठी में आया जाया करते थे और उनके साथ यह भी कभी कभी आते थे। समयस्क होने से कुछ ही दिनों में आपस में मित्रता हो गई और यह बराबर उनके यहाँ रहने लगे। पट्ट्या जी कहते थे कि हिन्दी भाषा के विद्वान तथा रामायणी पं० बेचनराम जी प्रायः भारतेन्दु जी के यहाँ आते थे और हम लोगों को हिन्दी भाषा के तत्व बतलाते थे। अपने पिता की मृत्यु पर ये काशी छोड़ कर पहिले बड़ौदा कमीशन में क्लर्क होकर गए और फिर उदयपुर में नौकर हुए। इसके अनंतर कृष्णागढ़ में दीवान भी हुए थे। इन्होंने अपने नाम पर 'मोहन चन्द्रिका' नामक पत्र निकालना चाहा और इसके विषय में भारतेन्दु जी को लिखा। भारतेन्दु जी ने अपनी पत्रिका उन्हें सौंप दी जिससे 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' पीछे से कुछ दिनों तक मोहन चन्द्रिका में सम्मिलित होकर निकलती थी। इन्होंने पृथ्वी-

राजरासो के दो समय का संपादन किया था तथा उसको असल सिद्ध करने के लिये 'रासो संरक्षा' हिन्दी और अंग्रेजी में लिखा था। यह हिन्दी तथा उर्दू दोनों ही में कुछ कविता भी करते थे।

पं० दामोदर शास्त्री पूना से काशी आए और यहीं इनके पिता, माता, स्त्री तथा पुत्र सभी का कैलाशवास हो गया। यह जीविका रहित हो रहे थे कि "उसी समय श्री हरिदया से एक दिन पं० ढुँढिराज शास्त्री धर्माधिकारी मेरे मित्र ने मुझे एक नौकरी का हाल कहा और दूसरे दिन काशी-रत्न हिन्दी के एक मात्र आश्रम भारतभूषण भारतेन्दु श्रीयुत बा० हरिश्चन्द्र के यहाँ मुझे ले गए और उनसे कहा...। ढुँढिराज शास्त्री का यह वाक्य सुन प्रथम ही बाबू साहब ने मुझे कहा 'क्यों जी, हम जिधर भ्रम मारते जायँगे उधर सदा आपको भी हमारे साथ रहना पड़ेगा।' इस प्रकार यह डेढ़ वर्ष तक इनके यहाँ नौकर रहे, इसी बीच इन्होंने दूसरा विवाह किया। विवाह होने से व्यय बढ़ा, जिससे यह चिन्ता में रहते। 'बाबू साहब भी ऐसी ही चिन्ता में रहने लगे।' अततः बिहार के एक स्कूल में पंडित होकर सन् १८७४ ई० में वहाँ गए। इसके अनंतर बिहारबंधु के संपादक हुए पर वहाँ जब नहीं पटी तब पुनः भारतेन्दु जी के यहाँ लौट आए। यहाँ से पुष्कर होते श्रीनाथ जी गए और कई वर्ष वहीं सुखपूर्वक व्यतीत किया। इन्होंने यात्रा खूब की थी और उस विषय की कई पुस्तकें भी लिखी। विद्यार्थी पत्र भी संस्कृत में निकाला था जो बाद को मोहन चन्द्रिका में मिला लिया गया था। 'मैं वही हूँ' नामक चौंसठ पृष्ठ की पुस्तक में इन्होंने अपना वृत्तांत लिखा है, जिसका एक उद्धरण ऊपर दिया गया है। इन्होंने मराठी तथा हिन्दी में भी कुछ पद लिखे हैं। इन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत सा सांसारिक ज्ञान तथा अनुभव बाबू साहब के सत्संग ही से प्राप्त हुआ था। भारतेन्दु जी की सम्मति से इन्होंने काशी में एक नाटक मंडली खोली और कई नाटक तैयार किए थे। हरिश्चन्द्र मैगज़ीन में एक नोट इन्होंने लिखा है कि 'एक दिन पंजाब यूनिवर्सिटी के अध्यापक श्री पं० गुरुप्रसाद जी पं० शिवकुमार जी को लेकर आए और बड़ी प्रशंसा की कि यह काव्य बहुत शीघ्र करते हैं, यह सुनकर 'चंद्रावली

चुम्बति' यह समस्या बाबू सहाब ने दिया 'और पं० शिवकुमार जी ने नीचे लिखे श्लोक बनाए—

चूतं वामलता निशा च शशिनं सिन्ध्वीश्वरं सिन्धुगाः ।
 स्वर्णाद्रिं वसुधा गिरीश मधुना योगा हिताप्यम्बिका ॥
 आश्लिष्टेति विचिन्त्य पूर्वं निखिलं सन्त्यज्य कान्तान्तरं ।
 प्रोन्मज्जन्मदनात्मिहस्ति वहनी चन्द्रावली चुम्बति ॥
 भालोक्याद्य गृहे विभूषणचयैः सम्भूषिताङ्गीमिमां ।
 कन्यां दिव्यविभूतिगर्भं दमिनीं धातुः कृतेः ख्यायिनीम् ॥
 प्रेम्णया स्वाङ्गातां विधाय नितरां तृप्तिं नयान्तीचिरात् ।
 कामप्राप्यमिषेण हीनपतिका चन्द्रावली चुम्बति ॥

और श्री बाबू हरिश्चन्द्र ने भी झटपट उसी समय एक श्लोक बनाया, वह भी पाठकों के आनन्दार्थ नीचे लिखते हैं ।

चंद्रालोकमये चतुष्पथचये गन्धावहे मारुते ।
 चंचच्चालितचंचरीकनिचये चारु प्रमोदोदये ॥
 कूजत्कोकिल काकली कलकले कालिन्दिकाकूलके ।
 कुंजे केलि कलाङ्कुळं प्रियतमं चन्द्रावली चुम्बति ॥'

डाक्टर राजा राजेन्द्रलाल मित्र प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे । यह पहिले बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के सहायक कार्याध्यक्ष तथा पुस्तकाध्यक्ष नियत हुए और वहीं से इनमे पुरातत्वानुसंधान अंकुरित होकर पूर्ण विकास को पहुँचा । यह सन् १८५८ ई० में बॉर्डस् इंस्टीट्यूट के डाइरेक्टर नियत हुए और उसके टूटने पर सन् १८८० ई० में इन्हे पेशन मिली । इन्हे डी० एल०, सी० आर्डे० ई० तथा राजा की पदवियाँ मिलीं । यह जब काशी आते थे तब वरावर भारतेन्दु जी से मिलते रहते थे । पहिली बार जब यह इनके यहाँ आए तब इन्होंने भारतेन्दु जी को दो तीन बार उठकर भीतर जाते और कपड़े बदल बदल कर आते देखा तो इनकी उनपर कुछ अश्रद्धा हो गई थी पर जब पुरातत्व पर बातचीत होने लगी और प्राचीन ग्रन्थों के इनके संग्रह को देखा

तब वे इनके परम मित्र हो गए। पंड्या जी को उसी समय इन्होंने पुरावृत्त-शिक्षा दी थी। श्रीमद्भागवत की प्राचीन हस्तलिखित प्रति को एशियाटिक सोसाइटी में ले जाकर भागवत के रचनाकाल की प्राचीनता इन्हीं ने सिद्ध की थी। एक सौ अट्टाइस जिल्दों में संगृहीत इनके लेखों ही से इनकी विद्वत्ता, परिश्रम तथा मननशीलता जानी जा सकती है। इन्हीं के द्वारा भारतेन्दु जी को उनके पुस्तकालय का एक लक्ष मूल्य भारत सरकार से मिल रहा था, पर जिसे उन्होंने नहीं दिया।

पं० रामशंकर व्यास इनके अंतरंग मित्रों में से थे। यह एक योग्य विद्वान तथा कार्यदक्ष पुरुष थे। यह हिन्दी के अच्छे लेखक थे तथा संस्कृत, फारसी, बंगला और गुजराती के अच्छे ज्ञाता थे। यह कुछ दिन कविवचन-सुधा के संपादक भी रहे और कई पत्रों में लेख दिया करते थे। यह स्वभाव ही से बड़े हास्य प्रिय थे। भारतेन्दु जी के यहाँ इनका बराबर आना जाना था और उनके स्थापित सभी सभाओं के यह सभासद रहे। इन्होंने 'सारसुधानिधि' में बा० हरिश्चन्द्र जी को भारतेन्दु की पदवी प्रदान करने का प्रस्ताव किया था, जिसका हिन्दी जगत् में बड़े आदर से समर्थन किया था। भारतेन्दु जी की मृत्यु पर इन्होंने 'चंद्रास्त, लिखा था, जिससे ज्ञात होता है कि उन्होंने अंत तक मित्रता निबाही थी।

पं० रामेश्वरदत्त सरयूपारीण ब्राह्मण थे। यह क्वीन्स कालेज में अध्यापक थे। यह भारतेन्दु जी के यहाँ बराबर आते जाते थे और उनके परम मित्र थे। उनके साथ यह यात्रादि में भी जाते थे। एक बार जब भारतेन्दु जी कलकत्ते जा रहे थे, तब वह इन्हे क्वीन्स कॉलेज के प्रधानाध्यापक श्रीयुक्त प्रमदादास मित्र से कहकर स्टेशन तक साथ चलने के लिए वहाँ से लिवा गए। वहाँ पहुँचने पर उन्हें भी कलकत्ते साथ चलने को बाध्य किया। वहाँ इन दोनों सज्जनों के पास जो कुछ नगद था वह व्यय हो गया। दत्त जी के कलकत्ते में बहुतरे शिष्य थे और उन लोगों से जो कुछ उन्हें प्राप्त हुआ था वह भी भारतेन्दु जी ने लेकर व्यय कर डाला। पंडित जी कलकत्ते ही में भारतेन्दु जी के लिए जौहरी के यहाँ ठहर गए और जो कुछ वस्त्रादि उन्हें दान

में मिले थे, उसे उन्होंने भारतेन्दु जी को अपने घर पर भेजवा देने के लिये दे दिया था पर यह सब भी मार्ग ही में वितरित हो गया। जब पं० रामेश्वर दत्त जी कलकत्ते से लौटे तब बाबू साहब उनको लेने के लिए स्टेशन गए और उन्हें अपने यहाँ लिवा लाए। वे जो कुछ और वहाँ से लाए थे, वह भी यहाँ बँट गया और इस प्रकार इनके ढाई तीन सौ रुपये के सामान इन्होंने व्यय कर डाले। प्रायः एक वर्ष बाद इन पंडित जी के सामने ही कहीं से कई सहस्र रुपये आए थे, जिसमें से दो सहस्र के नोट बाबू साहिब ने चुपके से इनके खलीते में रख दिये। जब इन्होंने घर पर जाकर उन्हें देखा तब बाबू साहिब के पास आकर उन नोटों के विषय में पूछने लगे। भारतेन्दु जी ने उत्तर दिया कि कलकत्ते की यात्रा का जो कुछ बाकी था, वही यह है।

भारतेन्दु जी के पिता के सभासद तथा भारतेन्दु जी के शिक्षक पं० ईश्वरीप्रसाद जी तिवाड़ी के पुत्र पं० शीतलाप्रसाद जी त्रिपाठी प्रसिद्ध पंडित तथा संस्कृत कालेज में साहित्य के प्रधान अध्यापक थे। इन्होंने जानकी-संगल नाटक बनाया था। सावित्री चरित्र नामक एक पुस्तक भी गद्य-पद्यमय लिखा है। हिन्दी व्याकरण के यह अच्छे ज्ञाता थे। प्राचीन लिपियाँ पढ़ने में भी यह अधिक कुशल थे। भारतेन्दु जी ने यह विद्या इन्हीं के सत्संग से सीखी थी और इन्हें साथ लेकर पाँच-छः मास में काशी के मंदिरों, घाटों आदि के लेख पढ़े और सग्रह किये थे।

मिस्टर फ्रेडरिक पिन्कॉट का जन्म सन् १८३६ ई० में हुआ था। इन्होंने भारतीय भाषाओं में सबसे पहिले संस्कृत बाद में उर्दू, गुजराती, बँगला, तामिल, तैलगी, मलायलम और कनाडी भाषाओं के सीखने पर हिन्दी का अध्ययन किया था पर इसकी ओर इनका ऐसा अनुराग बढ़ा कि वे इस भाषा के पाठक, लेखक तथा कवि तक हो गए। इनकी मृत्यु, फरवरी सन् १८९८ ई० में हुई। यह उत्तम हिन्दी पुस्तकों की समालोचना अँग्रेजी पत्रों में देते थे। भारत के यह बड़े शुभचिंतक थे और अनेक भारतीय विद्वानों से इनकी मित्रता थी। भारतेन्दु जी से इनका बहुत स्नेह था और उनसे बराबर पत्र व्यवहार रहा करता था। भारतेन्दु जी के स्वर्गवास होने पर

यह भारतवर्ष में आए थे और यहीं लखनऊ में इनका देहांत हुआ था । इन्होंने भारतेन्दु जी की प्रशंसा में जो एक छंद बनाकर उनके पास भेजा था वह यहाँ पर प्रकाशित कर दिया जाता है “जिससे हमारे देशीय लोग देखकर लज्जा करे कि अंग्रेज होकर लोग हिन्दी भाषा में इतना अनुराग रखते और इस देश के लोग प्रायः इस भाषा से विरक्त रहते हैं ।

वैस वंस अवतंस, श्री बाबू हरिचन्द जू ।

छीर नीर कबहंस, टुक उत्तर लिख देव मोहि ॥

पर उपकार में उदार अरुनी में एक भाषत अनेक यह राजा हरिचन्द है । विभव बढाई बपु बसन बिलास लिखि, कहत यहाँ के लोग बाबू हरिचन्द है ॥ चन्द वैसो अमित अनन्द कर भारत को, कहत कविन्द यह भारत को चन्द है । कैसे अब देखें को बतावै, कहाँ पावैं, हाय कैसे वहाँ आवे हम कोई मतिमंद है ॥

श्रीयुत सकल कविंद कुल, सुत बाबू हरिचन्द ।

भारत हृदय सतार नभ, उदय रहो जनु चंद ॥

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का जन्म सन् १८२० ई० में हुआ था । सन् १८४० ई० में कई परीक्षाएँ पासकर यह विद्यासागर उपाधि से विभूषित हुए । अध्ययन कार्य में उन्नति करते हुए यह पाँच सौ मासिक वेतन पाने लगे थे, पर सन् १८५७ ई० में डाइरेक्टर से मनमुटाव होने के कारण इन्होंने वह कार्य त्याग दिया और स्वभाषा तथा विद्या-प्रचार में दत्तचित्त हो गए । भाषा के लिये इन्होंने इतना कार्य किया था, कि वे बंगला साहित्य तथा साधु भाषा के गुरु कहलाए । २९ जुलाई सन् १८९१ ई० में इनकी मृत्यु हुई और इनके स्मारक में मेट्रोपॉलिटन कालेज बनवाया गया था । इनके तथा भारतेन्दु जी के बीच अधिक स्नेह था और दोनों ही एक पथ के पथिक थे । एक दूसरे की विलक्षण प्रतिभा, मान, भाषा-भक्ति तथा देश-हित-कार्य को अच्छी प्रकार जानते थे । दोनों ही सज्जन अपनी अपनी आधुनिक भाषाओं के जन्मदाता थे । विद्यासागर के काशी आने और भारतेन्दु जी से भेट करने का उल्लेख हो चुका है । इनकी माता भी काशीवास करने के लिये साथ आई थीं और

विद्यासागर जी उन्हें भारतेन्दु जी ही की संरक्षा में यहाँ छोड़ गए थे। एक वार जब विद्यासागर एक मंदिर में दर्शन करने गए और वहाँ के पंडे इनसे प्राप्त धन से संतुष्ट न होकर इन्हें कोसने लगे कि 'तुमने हमारी सेवा नहीं की इससे तुम्हारी यात्रा सुफल न होगी और देवता तुम से असंतुष्ट रहेंगे, तब विद्यासागर जी ने शांति से उन्हें उत्तर दिया था कि 'भाई, तुम्हारी सेवा से माता-पिता की सेवा बढ़कर है और यदि देवादिदेव इनकी सेवा से प्रसन्न न होंगे, तो तुम्हारी सेवा से नहीं हो सकते।' विद्यासागर के कलकत्ते जाने के बाद एक दिन भारतेन्दु जी उनकी माता को देखने गए और उनके हाथ में चाँदी की चूड़ी देख कर उनसे कहा कि 'माता, विद्यासागर से दानवीर महान् आत्मा की माता के हाथ में सोने की जगह ये चाँदी की चूड़ियाँ नहीं शोभा पाती।' माता ने यही उत्तर दिया कि 'पुत्र, हाथों की शोभा सोने की चूड़ियों से नहीं है, दीन दरिद्रों को भोजन बनाकर खिलाने से है।' विद्यासागर के दौहित्र तथा 'साहित्य' के सम्पादक स्वर्गीय पं० सुरेशचन्द्र समाजपति स्वभाषा के प्रसिद्ध समालोचक और साहित्यमर्मज्ञ थे। वे कहते थे कि उनके माता-मह अपनी रचित 'शकुंतला' को भारतेन्दु जी को समर्पित करने ही के लिए काशी गए थे। विद्यासागर जी भी 'शकुंतला' की भूमिका में भारतेन्दु जी के विषय में उतना लिखकर नहीं रह गए प्रत्युत् उस ग्रन्थ को उन्होंने भारतेन्दु जी को समर्पित भी किया था। यह समर्पण उसके प्रथम संस्करण में मौजूद है। बाद के संस्करणों में प्रांतीयता की वृत्ति के कारण प्रकाशकों ने उसे नहीं रहने दिया।

निजामाबाद (आजमगढ़) निवासी तथा सिक्ख सम्प्रदाय के तीसरे गुरु के वंशज बाबा सुमेरसिंह साहिबजादे काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे और धर्म के तत्वों के भी अच्छे ज्ञाता थे। सन् १८८५ ई० में यह पटना के हरि-मंदिर के महन्त बनाए गए, जिसका इन्होंने बहुत कुछ जीर्णोद्धार कराया था। यह सन् १९०३ ई० में स्वर्गवासी हुए। भारतेन्दु जी से इनसे घनी मित्रता थी। मिलने पर इन दोनों सज्जनों में धर्म तथा काव्य पर ही विशेष वार्तालाप होता था। भारतेन्दु जी स्वभावानुसार अपनी प्रायः सभी रचनाएँ

इनके पास भेजते थे और उन्हें पढ़कर उधरवाले कितने सज्जन हिन्दी-प्रेमी हो गए ।

मुंशी ज्वालाप्रसाद वकील भी इनके घनिष्ठ मित्रों में से थे । इनके पितामह कुंजबिहारी लाल आरे से काशी आकर बस गए । इनके पुत्र लाला मानराय थे । इन्होंने अपने परिश्रम से कुछ पढ़कर फौजदारी में मुख्तारी करना शुरू किया और बा० हर्षचन्द के यहाँ नौकरी भी कर ली । बाद को इन्होंने वकालत पास किया और मुन्सिफ होगए । सन् १८५३ ई० में सदर गए । थोड़े दिन बाद सरकारी वकील हो कर यहाँ लौटे और बहुत धन उपार्जन कर मकान तथा गाँव खरीदा । यह बड़े उदार थे । सन् १८७१ ई० में इनकी मृत्यु हुई । इन के पुत्र लाला ज्वालाप्रसाद भी प्रसिद्ध वकील थे । भारतेन्दु जी कभी कभी इनके यहाँ सुबह जाया करते थे और प्रायः दिन भर व्यतीत कर शाम को घर लौटते थे । लाला साहब यद्यपि नामी वकील थे और मुवक्किल उन्हें घेरे रहते थे पर इनके पहुँचने पर वे सब काम छोड़कर इन्हीं से बातचीत करने में लग जाते थे । यहाँ तक कि वे कचहरी भी न जाते थे । इन्हीं मुंशी जी ने स्यात् 'कलिराज की सभा' लिखी थी ।

इनके अग्रवाल मित्रों में बा० बालेश्वर प्रसाद बी० ए०, बा० जगन्नाथ दास जी 'रत्नाकर' बी० ए० के पिता बा० पुरुषोत्तमदास, बा० केशोराम, बा० माधोदास जी आदि प्रधान थे । इन मित्रों की गोष्ठी प्रायः बा० बालेश्वर प्रसाद के निवास-स्थान नार्मल स्कूल में या बा० केशोराम के दुर्गाकुड-स्थित बाग में हुआ करती थी । ये लोग प्रायः समवयस्क थे और इस प्रकार की बैठकों में इन लोगों में आपस में खूब हँसी-मजाक होता था ।

बा० बालेश्वर प्रसाद पहिले नार्मल स्कूल के हेडमास्टर थे । बाद को डिप्टी कलक्टर और फिर काशीनरेश के दीवान नियुक्त हुए । यहाँ से प्रयाग के बोर्ड ऑव रेवेन्यु के सिक्रेटरी नियुक्त हुए, जो पद उस समय तक अग्रेजों ही के लिये नियत था । इन्होंने 'काशीपत्रिका' नामक समाचार पत्र भी निकाला था, जो शिक्षा-विभाग द्वारा स्वीकृत हुआ था । इन्होंने 'वेनिस का सौदागर' नाम से शेक्सपियर के 'मर्चेन्ट ऑव वेनिस' का अनुवाद कर

अपनी पत्रिका में छपा था। इन्हीं के कहने पर भारतेन्दु जी ने 'सत्यहरिश्चन्द्र' नाटक की रचना की थी। बा० पुरुषोत्तमदास जी के विषय में उनके पुत्र 'रत्नाकर' जी का उल्लेख कर देना ही जिस प्रकार अलं है उसी प्रकार बा० साधोदास जी के संबंध में इतना ही लिख देना बहुत है कि उन्हीं के सुपुत्र-गण बा० गोविंददास जी, डा० भगवानदास जी एम० ए०, डी लिट., बा० राधेचरण जी और बा० सीताराम जी हैं। बा० केशोराम जी शिवाले महल्ला के रईस थे और भारतेन्दु जी से इनकी कितनी घनिष्ठ मित्रता थी, इसके उदाहरण-स्वरूप इनके पास एक एलबम है जिसमें भारतेन्दु जी की विभिन्न अवस्थाओं तथा अनेक प्रकार के वस्त्र आदि से विभूषित प्रायः पैंतीस फोटोग्राफ हैं। इनके चित्रों का ऐसा सुन्दर संग्रह और कहीं नहीं है। बा० केशोराम के पौत्र बा० राधाकृष्णदास जी वी० ए० की कृपा ही से वे चित्र आज पाठकों को देखने के लिये मिले हैं।

सब के अंत में बा० राधाकृष्ण दास जी का परिचय दिया जाता है, जो भारतेन्दु जी के फुफेरे भाई और सदा साथ रहनेवालों में से थे। एक बार भारतेन्दु जी के पिता बा० गोपालचन्द्र जी को इनके पिता बा० कल्याण दास ने गंगा जी में एकाएक डूबने से बचाया था, जिससे दोनों में गहरी मित्रता होगई थी। इसी स्नेह के कारण इनके साथ उक्त बा० साहब ने अपनी बहिन की शादी कर दी थी। सन् १८६५ ई० में बा० राधाकृष्ण दास जी का जन्म हुआ। दूसरे ही वर्ष इनके पिता की मृत्यु होगई और यह अपनी माता के साथ भारतेन्दु जी के गृह ही में रहने लगे। भारतेन्दु जी का इनपर वात्सल्य स्नेह था और वह इन्हे बच्चा कह कर पुकारते थे, जिससे इनका दूसरा नाम ही 'बच्चा बाबू' होगया था। इन्हें शिक्षा देने का भारतेन्दु जी स्वयं ध्यान रखते थे। भारतेन्दु जी की कन्या श्रीमती विद्यावती, जो इस जीवनी-लेखक की माता थीं, इनसे बहुत हिली-मिली थीं। ये लोग एक दूसरे को कभी-कभी चिढ़ाया भी करते थे। इस कार्य के भी भारतेन्दु जी ही उत्तेजक थे। उन्होंने इन लोगो को परस्पर चिढ़ाने के लिये दोहे बना दिये थे। बा० राधाकृष्ण दास स्वर्गीया विद्यावती देवी को यह कह कर चिढ़ाते थे—

विद्या तुम्हारे नाम पै, मूरखता की खानि ।

पढ़त लिखत कछु नाहिं तुम, निज सरूप पहिचानि ॥

विद्या विद्या नहिं पढ़ै, तो झूठो है नाम ।

तासों तोहि पढ़नो उचित, छोड़ि और सब काम ॥

सरस्वती की हूँ बहिन, विद्या नाम कहाइ ।

पढ़ति नहीं खेलत फिरत, नीचे ऊपर धाइ ॥

विद्या तुम धूमिन भई, खात बहुत हो पान ।

जात नहीं स्कूल को, बात लेति नहिं मानि ॥

उत्तर में वे भी इन्हे यह कहकर चिढ़ातीं—

कक्का तुम इतने बड़े, ढोढक भये सयान ।

पै कुछ भी अक्किल तुम्हें, आई नहीं सुजान ॥

हिन्दी की चिन्दी करी, अँग्रेज़ी की धूर ।

जगो पढ़न अब फ़ारसी, आयो कछु न सहूर ॥

भारतेन्दु जी के सत्संग से इनमें हिन्दी-प्रेम जागृत हुआ और उनकी रुचि के अनुकूल ही इनमें भी इतिहास, नाटक, साहित्य आदि के प्रति विशेष प्रेम होगया । 'बा० हरिश्चन्द्र के सुयश-सौरभ के प्रसार का इनको बड़ा ध्यान रहता था । वास्तव में यदि ये उद्य काल ही से वायु के समान चंचल होकर समय-समय पर अमरूपी मेघों को न छांटते रहते तो भारतेन्दु की शीतल किरनें बहुतेरे अंधकारमग्न हृदयों में न पहुँचती ।' वही दशा अब आज कल कुछ-कुछ हो रही है । कुछ सज्जन स्वयं 'भारतेन्दु' बनने की इच्छा से अपने तिमिराच्छादित हृदय की कालिमा लगाकर इन्हे सकलंक करना चाहते हैं और कुछ अपनी कविता ही की प्रशंसा करने में इतने मग्न रहते हैं कि दूसरों के गुणों को स्वीकार करना दूर, उनपर आक्षेप करना ही उनका धर्म हो गया है । जो कुछ हो, भारतेन्दु जी की मृत्यु को पचास वर्ष होते आए पर अभी तक हिन्दी साहित्य का दसवाँ रत्न नहीं उत्पन्न हुआ है ।

दान की स्फुट वार्ता

भारतेन्दु जी की बहिन श्रीमती मुकुन्दी बीबी अपने पति की मृत्यु पर उस वंश में किसी के न रहने के कारण अपने पितृ-गृह में चली आई थीं। इसके कुछ दिन अनन्तर इनकी एक भारी जायदाद ठठेरी बाज़ार का ठाकुरद्वारा श्री माधो जी के वंश वालों ने क्रय किया था। इस क्रय-विक्रय के मध्यस्थ भारतेन्दु जी ही थे और जब इसका कमीशन, जो सात सहस्र के लगभग था, मिला तो उसे उन्होंने अपने एक जाति-भाई बा० भबू लाल को दे डाला, जो उस समय कुछ अर्थ-कष्ट में थे और जिन पर भारतेन्दु जी की कृपा रहती थी।

नन्दकिशोर लाल रोड़ा नामक एक युवक सज्जन ने जब भारतेन्दु जी के यहाँ पहिले-पहिल आना शुरू किया तब एक दिन इन्होंने उनसे कहा कि यदि तुम हमारे यहाँ आना-जाना बनाए रखना चाहते हो, तो कविता किया करो। दूसरे दिन इन्होंने प्रयत्न करके एक दोहा-सा तैयार किया और ले जाकर इन्हें सुनाया। उनका उत्साह बढ़ाने के लिए भारतेन्दु जी ने उन्हें कुछ रुपये पुरस्कार दिये तथा प्रशंसा कर इसी प्रकार प्रयास करते रहने के लिये उत्साहित किया।

मैनपुरी-निवासी पं० काशीनाथ चतुर्वेदी नामक एक सज्जन, जिन्हें सहस्रों कवित्त कंठाग्र थे, कुछ दिन काशीवास करने के लिये यहाँ आए थे। यह भारतेन्दु जी के यहाँ, जब तक काशी में रहे, आश्रित होकर रहे थे। साधारण कविता भी करते थे पर इनकी विशेषता यही थी कि अच्छे-अच्छे सुकवियों की चुनी हुई कविताएँ पढ़ कर श्रोताओं का मनोरंजन करते थे। जब तक यह इनके यहाँ रहे, इनका कुल व्यय भारतेन्दु जी अपने पास ही से देते रहे।

एक दिन भारतेन्दु जी के यहाँ कवि-सभा लगी हुई थी। किसी ने समस्या रूप में एक मिसरा पढ़ कर उसकी पूर्ति चाही। मिसरा यों है :—

कपड़ा जला के अपना जगा आग तापने।

भारतेन्दु जी ने उपस्थित सज्जनों की ओर देखा। उनमें एक अल्पवयस्क

विद्यार्थी भी था, जिसने उसे पूरा करने की आज्ञा माँगी। आज्ञा मिलने पर उसने कहा कि :—

ऐसा भी चूतिया कहीं देखा है आपने। कपड़ा जला के अपना लगे आग तापने ॥

भारतेन्दु जी उस बालक पर अति प्रसन्न हुए और उसे दस रुपये पुरस्कार देकर कहा कि 'तुम में कवित्व शक्ति का बीज है, धीरे धीरे अभ्यास करते रहो, कभी सुकवि हो जाओगे।'

एक वृद्ध सज्जन, जो भारतेन्दु जी के यहाँ बहुत आते-जाते थे, कह रहे थे कि एक बार उनके एक नौकर ने भाजी लाने के लिये हमसे चार आने पैसे माँगे। इसका कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि बाबू साहब के पास इस समय पैसे नहीं हैं। उक्त सज्जन को न मालूम क्या सूझी कि यह भारतेन्दु जी के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि इस प्रकार की बातों से हुजूर की बड़ी बदनामी होती है। यदि हुकुम हो तो हम रोज़ पूरा सामान हुजूर की खिदमत में भेज दिया करें, जिसमें किसी को कुछ मालूम न हो।' भारतेन्दु जी इन पर यह सुनते ही बहुत बिगड़े और जो न कहने को था वह भी कह डाला। यह बेचारे खैरखवाही दिखलाने गए थे, अपना-सा मुँह लेकर लौट आए। दो दिन बाद भारतेन्दु जी ने इनको पत्र लिख कर बुलवाया और उन्हें दस सहस्र का नोट दिखला कर कहा कि 'तुम बड़े लालची आदमी हो, इससे हम इसे तुम्हें दे रहे हैं, आज ही अभी यह आया है, तुम भटपट इसे ले जाओ, नहीं तो बचेगा नहीं।' उक्त सज्जन ने शर्मा कर उसे ले जाने से इन्कार कर दिया, तब उन्होंने कहा कि 'अच्छा जाओ भैया से कह दो कि कुछ रुपया आया है, लेना हो तो ले जायँ, उन्हें भी रुपये की बहुत जरूरत रहती है।' उक्त सज्जन बाबू गोकुलचन्द्र जी के पास खबर देने गए, जो स्नानादि से निपट कर पूजा ध्यान कर रहे थे। यह सुन कर तथा सभ्या पूजा निपटा कर बा० गोकुलचन्द्र जी जब बड़े भाई के पास पहुँचे, तो उस समय तक साढ़े छः सहस्र के नोट बचे थे जिसे वे ले आए। उतने ही बीच में साढ़े तीन सहस्र स्वाहा हो चुका था।

'बा० हरिश्चन्द्र के प्रयत्न से फ्रांस की दुखियाओं के हेतु एक चन्द्रा

हुआ है, निश्चय है कि हमारे ग्राहक लोग भी यथाशक्ति इच्छानुसार इस चन्दे में सहायता करेंगे। यह चन्द्रा प्रोफेसर गारसाँ दतासी द्वारा फ्रांस भेजा जायगा। यह सूचना तत्कालीन एक पत्रिका से यहाँ उद्धृत की गई है जिससे यह ज्ञात होता है कि भारतेन्दु जी अन्य देश के निवासियों के कष्ट-निवारण का भी प्रयत्न करते रहते थे।

बा० रामकृष्ण वर्मा कहा करते थे कि एक बार एक सज्जन भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी के यहाँ आए और अपने को कवि बतलाते हुए उनसे कुछ आर्थिक सहायता चाही। यह कहने पर कि अपनी कुछ कविता सुनाइए, आप ने निम्नलिखित तीन पंक्तियाँ कह डालीं:—

१ —दोऊ एक पापी हर नाम न जापी , सो मगगह में मर गयो ।

२ —गंगा जी की बालू बरवस ले उड़ी बयार ताके कोटानि काट पाप तरि गयो ।

३—मुख सुन्दरी खिलावे पान गुण के निधान सो विमान चले जाते हैं ।

भारतेन्दु जी यह सुन कर बड़े प्रसन्न हुए और उस अर्थी को सौ रूपए पुरस्कार देकर विदा किया।


एक बार कहीं मजलिस में भारतेन्दु जी बैठे हुए थे और शीतला के दागों से युक्त कोई वेश्या गान कर रही थी। किसी उपस्थित सज्जन ने भारतेन्दु जी से वेश्या को लक्ष्य करके कहा कि 'हुजूर इस चेचक-रू पर कुछ कविता बनाएँ तो अत्युत्तम हो। भारतेन्दु जी ने कहा कि 'भाई, अभी तो एक शैर बन गया है, उसे सुन लो, कवित्त सबैया फिर बनेगी।' यह कह कर निम्नलिखित शैर पढ़ा :—

रुखे आईना बश पर दिल वो जा-जा कर फिसलता है ।


खुदाई दाग चेचक से ज़रा ठहराव मिलता है ॥

एक सज्जन अपने पिता के पुराने ख्यालात के कारण अंग्रेजी न पढ़ कर फारसी ही का अभ्यास किया करते थे। एक दिन भारतेन्दु जी के सामने किसी अन्य सज्जन ने उनसे कहा कि तुम अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते, फारसी पढ़ कर क्या करोगे ? भारतेन्दु जी ने उत्तर दिया कि 'इनके उम्र वाले पुरुष

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र



वाद्य-यंत्रों के साथ भारतेन्दु जी



भारतेन्दु जी (रामकटोरा बाग में)

के लिये अब एक ही विषय में योग्यता प्राप्त कर लेना उचित है, कई विषयों का अपूर्ण ज्ञान रखना अच्छा नहीं।' यह कह कर उन्होंने फ़ारसी का एक शैर पढ़ा :—

कसबे कमाल कुन कि अजीज़े जहाँ शवी ।

कसबे कमाल हेच न अज़ाद अज़ीज़ मन ॥

(अर्थ—किसी हुनर को पूर्ण रूप से प्राप्त करो जिससे लोक प्रिय हो । ऐ मेरे प्रिय ! अपूर्ण विद्यावाला कुछ भी नहीं कमा सकता ।)

एक दिन भारतेन्दु जी के छोटे भाई गोकुलचन्द जी ने इनसे कहा कि दीवानखाने का बड़ा शीशा, जो कॉरनिस पर रक्खा हुआ है, उसके नीचे का अंश कुछ दूर तक न मालूम कैसे चटक गया है । भारतेन्दु जी ने उत्तर दिया कि कॉरनिस पर किसी नौकर ने जलती बत्ती रख दी होगी, जिसकी गर्मी पाकर शीशा चटक गया होगा । यह सुन कर बा० गोकुलचन्द जी ने कहा कि नौकरों पर अवश्य जुर्माना करूँगा, ये सब इसी तरह चीजों चौपट कर देते हैं । भारतेन्दु जी ने कहा कि भाई इससे क्या फ़ायदा होगा । हर एक वस्तु का नाश अवश्यंभावी है, इसमें किसी का दोष क्या ? इसके अनन्तर उन्होंने वाल्मीकीय रामायण का एक श्लोक पढ़ा था, जिसका आशय यह है कि जो वर्तमान है उसका अवश्य नाश होगा ।

एक बार भारतेन्दु जी ने दो मनुष्यों की उदारता तथा उच्चाशयता का वर्णन किया था, जिसमें एक तो मुसलमान कवि ख्वाजा वज़ीर थे और दूसरे पटना के कोई कमिश्नर साहब थे । वे कहते थे कि जब ख्वाजा वज़ीर अपना दीवान अपने उस्ताद 'नासिख' को दिखलाने के लिये ले गए, तब उसे देखने के अनन्तर उनके मुख से अनायास ही एक आह निकल गई, जिससे ख्वाजा साहब ठक से हो गए । उन्होंने उस्ताद से इस ठंडी साँस लेने का कारण पूछा, जिस पर उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारा दीवान इतना उत्तम बना है कि शायद ही अब कोई मेरे दीवान को देखेगा । ख्वाजा ने उस दीवान को अपने उस्ताद के हाथ से लेकर यह कहते हुए फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाला कि जिस चीज़ से उस्ताद को रंज पहुँचे उसे मैं नहीं रख

सकता । ख्वाजा की मृत्यु पर उनके मित्रों तथा शिष्यों ने उनके गज़लों का संग्रह कर उसे 'दफतरे—फसाहत' के नाम से प्रकाशित किया था । दूसरे सज्जन पटना के कमिश्नर थे, जिनके एक मित्र और कृपापात्र उसी जिले के एक बड़े रईस थे । एक दिन वह कमिश्नर साहब से मिलने आए । यह बैठे ही हुए थे कि कुछ देर के बाद कमिश्नर यह कह कर दूसरे कमरे में चले गए कि मैं अभी आता हूँ । वहीं टेबुल पर एक बहुत कीमती जेबी घड़ी रखी हुई थी, जो समय पर अलार्म भी देती थी । होनहार वश बाबू साहब ने वह घड़ी चुपके से उठा कर अपने जेब में रख ली और साहब से बिदा होकर बाहर निकले । जब वे ड्योढ़ी पर पहुँचे तब दैवात् एकाएक उस घड़ी का अलार्म बजने लगा । इससे पहरेवालों को शक हुआ और उन लोगों ने जब इनकी तलाशी ली तब यह घड़ी निकल आई । इधर यह शोर गुल सुन कर साहब बाहर निकल आए और कुल वृत्तांत सुन कर नौकरों पर बेतरह विगड़े कि 'इस प्रकार सज्जनों के साथ दुर्व्यवहार करना होता है, यह घड़ी तो मैंने खुद बाबू साहब को भेंट दी थी; उसे भट इन्हे लौटा दो ।' उन सबों को इस प्रकार डाँट कर बाबू साहब से कहने लगे कि 'आप ने पहिले ही इन सब उजड़ों से क्या नहीं कह दिया कि मुझे यह घड़ी भेंट में मिली है ।'

भारतेन्दु जी जब कलकत्ते जाते थे तब वे प्रायः एक जौहरी के यहाँ ठहरते थे जिनका नाम स्यात् छन्नू जी था । एक बार उन्हीं जौहरी के एक वंगाली मित्र कलकत्ते से कहीं बाहर जा रहे थे । उन्हें स्टेशन तक पहुँचाने के लिए वह जौहरी महाशय, भारतेन्दु जी, गाय लल्लन जी आदि भी साथ आए थे । जब ट्रेन चलने को हुई तब उक्त वंगाली महाशय की एक रक्षिता, जो उन्हें पहुँचाने ही के लिए साथ आई थी, उनके गले में हाथ डाल कर बिदा होने लगी; पर वह इस प्रकार इतने देर तक बिदा होती रही कि रेलगाड़ी स्टेशन के बाहर निकल गई और उक्त महाशय को लौट आना पड़ा । इस पर भारतेन्दु जी ने एक सचैया पढ़ा था, जो इस प्रकार है :—

बाल सों लाल धिदेस के हेत हरे हँसि कै बतिया कछु कीनी ।

सो सुनि बाल गिरी मुरमाय धरी हरि धाय गरे गहि कीनी ॥

मोहन प्रेम-पयोधि भयो जुरि दीठि दुहूँ कि गई रस भीनी ।

माँगै बिदा औ बिदा को करै मिलि दोऊ बिदा को बिदा करि दीनी ॥

एक बार भारतेन्दु जी पटने गए और जब वे बा० रामदीन सिंह के गृह पर पहुँचे उस समय कुछ रात्रि बाकी थी। नौकर ने फाटक खुलवाने के लिए बहुत आवाज़ दी पर पहरे के सिपाही ने नहीं खोला। इस पर भारतेन्दु जी ने फाटक के बाहर के कोने में, उस स्थान पर जहाँ दो एक सिपाहियों के बैठने उठने की जगह बनी हुई थी, बिछौना बिछवा कर सो रहे। सुबह होने पर जब बा० रामदीन सिंह को खबर मिली तब वे दौड़े हुए आए और नौकरों पर बिगड़ने लगे। भारतेन्दु जी ने उनसे कहा कि इन नौकरों ने हमें न पहिचानने के कारण फाटक न खोल कर अपना धर्म ही निबाहा है, इसलिए इन पर खफ़ा होना उचित नहीं है और हमें भी शरीर को आराम देना था इस लिए यहीं सो रहे।

बा० राधाकृष्ण दास जी के विवाहोपलक्ष में तिलक की महफिल जमी हुई थी और महन्त वाली जानकी की लड़की मलका वज़ीर की एक गज़ल गा रही थी, जिसका पहिला मिसरा था 'वस्तु मे रफ़ारे माशूकाना दिखलाती है नींद'। बा० पुरुषोत्तम दास जी भारतेन्दु जी के पास ही बैठे हुए थे, और गाने तथा गज़ल दोनों की खूब प्रशंसा कर रहे थे। भारतेन्दु जी ने गज़ल समाप्त होने पर इनसे घूमकर पूछा कि आप अर्थ भी अच्छी तरह समझते हैं या योंही वाह वाह करते हैं। इसके अनंतर उन्होंने 'गालिब' का एक शेर पढ़ कर उसका आशय पूछा। शेर यो है :—

मिलना तुम्हारा गर नहीं आसाँ तो सह है ।

दुश्वार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं ॥

इस पर जब उक्त सज्जन ने रुहा कि शायद इसका भाव यह है कि नामुमकिन है, तब वह इन पर बहुत प्रसन्न हुए।

एक बार किसी सज्जन ने यह प्रश्न उठाया कि नीबू के रस की खटास का असर हड्डी पर नहीं होता पर न मालूम क्यों उससे दाँत, जो हड्डी ही हैं, कटकटा जाते हैं। अन्य उपस्थित लोगों के इस प्रश्न के न हल कर सकने

पर भारतेन्दु जी ने उसका इस प्रकार समाधान किया कि दाँत जन्म के अनंतर दूध पीते पीते निकलते हैं अर्थात् वे दूध के बने हैं और इस कारण कि नीबू का रस दूध का शत्रु है, इसके लगने से दाँत भी खट्टे हो जाते हैं।

वन्दन पाठक प्रसिद्ध रामायणी हो गए हैं। एक बार रामायण का अर्थ करते समय इन्होंने कहा कि गोस्वामी जी यह अच्छी तरह से जानते थे कि हमारे बाद रामायण का ठीक ठीक अर्थ करने वाला केवल एक वन्दन पाठक ही होगा और ऐसा उन्होंने बालकाण्ड में गुप्त रूप से लिखा है। भारतेन्दु जी भी वहाँ उपस्थित थे और पाठक जी की यह गर्वोक्ति सुन रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने पाठक जी से अपनी तीन शकाओं का समाधान चाहा। वे तीन शंकाएँ इस प्रकार हैं :—

१—सरोवर के सोपान बराबर होते हैं, पर रामचरित मानस के कुछ सोपान बहुत बड़े और कुछ बहुत छोटे हैं।

२—मानस भर में श्री शत्रुघ्न जी के मुख से एक भी उक्ति क्यों नहीं कहलाई गई ?

३—जिस समय श्री रामचन्द्र जी सीताहरण हो जाने पर बन में विलाप कर रहे थे, उसी समय सती जी ने सीता रूप धारण कर उनकी परीक्षा ली थी। इस पर महादेवजी कैलाश लौट आए और 'जागि समाधि अपारा। बीते संवत सहस सतासी। तजी समाधि शंभु अविनाशी ॥' इसी बीच कुछ महीने बाद रावण के मर जाने पर लंका में 'पुलकित तन गदगद गिरा विनय करत त्रिपुरारि ॥' कैसे कहा गया है ?

पाठक जी इन तीनों शंकाओं का कुछ भी समाधान नहीं कर सके तब अंत में भारतेन्दु जी ने इन सबका समाधान किया। पर जिन सज्जनों ने यह घांटा मुझे बतलाई उनमें से कोई भी इन समाधानों को न जानता था जिससे वे यहाँ नहीं लिखे जा सके।

पं० प्रयागदत्त जी भारतेन्दु जी के मुख्य दरवारियों में से थे। इनकी दो शादियाँ हो चुकी थीं और अवस्था भी अधिक थी पर एक भी सन्तान नहीं हुई थी। इससे वे बड़े दुखी रहते थे। एक दिन भारतेन्दु जी ने

इनसे कहा कि मेरी अन्तरात्मा कहती है कि यदि आप तीसरा विवाह करें तो अवश्य आप को पुत्र होंगे। इसके अनन्तर उन्हें दो सौ रुपये विवाह करने के लिये दिए। अंत में किसी प्रकार उनका विवाह हो गया और सन् १९२८ में इन्हे एक पुत्र हुआ। इस पर भारतेन्दु जी ने बड़ी प्रसन्नता मनाई और लोगों के पूछने पर कहा कि 'ब्राह्मण का आशीर्वाद हम को फलना चाहिए, सो न होकर हमारा आशीर्वाद एक ब्राह्मण को फला, इससे बढ़ कर खुशी का दिन और कौन होगा ? इसके बाद इन पंडित जी को एक पुत्र और हुआ। ये दोनों ही पुत्र उसी कोठी के बहुत दिनों तक आश्रित रहे। बड़े पुत्र का नाम गणेश-दत्त था और यह लड़कपन में बंदन पाठक जी की रामायण की कथा को नकल उतारते थे। एक बार यह भारतेन्दु जी के सामने रामायण गा रहे थे कि वह सोने का पान का खाली डिब्बा हाथ में उठा कर भाँभ की तरह बजाने लगे। लड़के ने वह भाँभ बजाने को माँगा और पिता के मना करने पर भी हठ करने लगा तब भारतेन्दु जी ने उसे वह दे दिया। यह इधर भाँभ बजा रहा था कि वे भोजन करने उठकर ऊपर चले गए। लड़के के पिता जी ने वह डिब्बा पहरेदार के पास जमा कर दिया और घर चले गए। कई दिनों के अनन्तर एक दिन भारतेन्दु जी ने लड़के से पूछा कि क्यों जी घर पर भाँभ बजा कर खुब आनन्द से रामायण गाते हौ न ? लड़के ने कहा कि बाबू साहब वह भाँभ तो पिता जी ने पहरेदार को सौंप दिया। मेरे पास कहाँ है कि गाऊँ बजाऊँ। अंत में भारतेन्दु जी ने वह डिब्बा जो दस तोले का था, उस लड़के को दिलवा दिया। पंडित जी ने घर पहुँच कर ब्राह्मणी के लिये उसके गहने बनवा दिए और लड़के को एक जोड़ भाँभ खरीद दिया।

एक दक्षिणी ब्राह्मण इनके दरबार में नित्य आने लगे। वे किसी से कुछ कहते न सुनते और दो तीन घंटे बैठ कर अपने घर चले जाते। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर एक दिन भारतेन्दु जी ने उनसे पूछा कि "महाराज आप हमारे यहाँ नित्य आते हैं पर अपना अभिप्राय कुछ भी नहीं बतलाते, इसका क्या कारण है ? आप के इस संकोच से मुझे बहुत कष्ट होता है। यथाशक्ति आपकी इच्छा पूरी की जायगी, आप कहिए अवश्य।" ब्राह्मण

ने बड़ी नम्रता तथा लज्जा से कहना शुरू किया कि “बाबू साहब, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और हमें दो कन्याओं की शादी करनी है। एक कन्या मेरी है और एक मेरे बड़े भाई की है। दो वर्ष हुए कि भाई गत हो गए अब दोनों हमारे ही माथे की बोझ हैं। इसी दुःख में काशी आया और दाता की खोज में था कि एक ब्राह्मण से यह पता पाकर कि राजा हरिश्चन्द्र, बलि, कर्ण के समान महादानी एक अग्रवाल-कुल-भूषण बाबू हरिश्चन्द्र हैं, जिनके यहाँ से अभी तक कोई विमुख नहीं फिरा है, मैं आप के दरबार में आने लगा। आप की भव्य मूर्ति, प्रसन्न मुख, स्नेह, विद्वत्ता तथा विद्वानों और कवियों का जमघट देख कर मुझे विक्रम और भोज याद आते। घर से मैं आप से अपनी इच्छा निवेदन करने ही आता हूँ पर आप के सौम्य सद्य हृदय को अपना कष्ट कह कर कैसे दुखी करूँ यही विचार कर रह जाता हूँ। यदि आज आप न पूछते तो रोज़ की तरह आज भी मैं चला जाता।’ इतना कहते कहते वह ब्राह्मण रोने लगा। भारतेन्दु जी ने दयार्द्र होकर अपनी उँगली से एक हीरे की अँगूठी उतारकर उसे देते हुए कहा कि महाराज, मैं दौलत फूँकने वाला और फकीर हूँ। मेरे यहाँ आप ही धन का अभाव है। यह अँगूठी आप ही के भाग्य से बच रही थी, इसे लीजिए। यह एक सहस्र से कम में न जायगी। इतने में आप का काम भी चल जायगा। इसका आप पर कुछ एहसान नहीं।

वा० शिवनन्दन सहाय जी (भारतेन्दु जीवनी पृष्ठ ३२०) लिखते हैं कि ‘इनके द्रव्याभाव, दातव्य तथा ऋण का हाल जान कर और यह देख कर कि इनके स्वर्गगमन के समय किसी की एक फूटी चित्ती भी इनके जिम्मे नहीं निकली, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उस आनन्द में श्रीमान काशी-नरेश ने यह दोहा कहा था—

यद्यपि आप दरिद्र सम, जान परत त्रिपुरारि ।

दीन दुखी के हेतु सोई, दानी परम उदार ॥

पर मेरे पास एक कागज है जिस पर दो दोहे इस प्रकार लिखे हैं—

पद्यपि आप दरिद्र सम, जान परत त्रिपुरारि ।
दीन दुखी के हेतु सोइ, दानी परम उदार ॥
काल्हि जो माँगे आपुने, आज जात हैं तीस ।
सात दिना में सत मिलै, सत्य करहि जगदीस ॥

इस कागज के पीछे उर्दू में लिखा है कि 'भारत माधो सिंह हरकारा सरकार मुबलिग पचीस रुपया पहुँचा ६ सितंबर सन् १८८० ई०।' हो सकता है कि भारतेन्दु जी ने किसी को सहायतार्थ ये रुपये महाराज काशिराज को लिख कर दिलवाए हो और उसमें अपने द्रव्याभाव का उल्लेख किया हो, जिस पर महाराज ने ये दोहे लिखवा कर रुपयो के साथ भेजे हों।

रचनाएँ

नाटक

हिन्दी-नाट्य साहित्य का एक प्रकार अभाव देखकर ही भारतेन्दु जी ने इस ओर विशेष ध्यान दिया था और प्रायः इनकी सर्वोत्कृष्ट रचनाएँ इनके नाटक ही हैं। हिन्दी में इनके समय तक देवकृत देवमाया प्रपंच, नेवाज का शकुंतला-नाटक, हृदयराम का हनुमन्नाटक, ब्रजबासी दास कृत प्रबोध चन्द्रोदय नाटक आदि लिखे जा चुके थे पर उनका नाम मात्र ही नाटक था और वे नाटक की कोटि में नहीं परिगणित हो सकते थे। प्रभावती, प्रद्युम्न-विजय और आनन्दरघुनन्दन किसी प्रकार नाटक कहे भी जा सकते हैं। भारतेन्दु जी के पिता का नहुष नाटक नाट्य शास्त्रानुकूल होते हुए भी बिलकुल अधूरा प्राप्त है और ब्रजभाषा मिश्रित है। राजा लक्ष्मणसिंह कृत शकुंतला नाटक का अनुवाद बहुत ही सुंदर हुआ है, पर वह अनुवाद है। इस प्रकार भारतेन्दु जी की मौलिक तथा अनुवादित रचनाओं ही से हिन्दी नाट्य-साहित्य का वास्तविक आरंभ कहा जा सकता है। इन्होंने लगभग डेढ़ दर्जन के मौलिक और अनुवादित नाटक लिखे, जिनमें कई खेले भी जा चुके हैं।

सं० १९२५ वि० के आरम्भ में भारतेन्दु जी ने नाटक लिखने में हाथ

लगाया और पहिले पहल एक मौलिक ग्रंथ 'प्रवास नाटक' लिखना शुरू किया। वह कुछ ही लिखा जाकर रह गया। इसका केवल एक पृष्ठ एक सज्जन को देखने मात्र को मिल गया था पर वह भी अब नहीं मिलता। इसके अनंतर 'शकुंतला के सिवाय और सब नाटकों में रत्नावली नाटिका बहुत अच्छी और पढ़ने वालों को आनन्द देने वाली है, इस हेतु से मैंने पहिले इसी नाटिका का तर्जुमा किया है। यह नाटिका सुप्रसिद्ध कवि श्री हर्षकृत है।' इस नाटिका की प्रस्तावना तथा विष्कंभक ही का केवल अनुवाद मात्र मिलता है और इसके बाद का कुछ भी अंश प्राप्त नहीं है। स्यात् अनुवाद ही अधूरा रहा हो पर भूमिका के शब्दों से तो यही ज्ञात होता है कि अनुवाद पूरा हो गया था। जो कुछ हो, अब वह अनुवाद नहीं मिलता। इन्हीं के समय पं० देवदत्त ने, जो बरेली में संस्कृत के प्रोफेसर थे, इस नाटिका का अनुवाद किया था। इस अनुवाद की भारतेन्दु जी ने "नाटक" में कठोर आलोचना भी की है, जो वास्तव में बहुत ही भ्रष्ट हुआ था।

इसी वर्ष भारतेन्दु जी ने विद्यासुंदर नाटक की रचना की। इसका मूल संस्कृत का विद्यासुंदर तथा चौरपंचाशिका है, जिसका रचेता स्यात् यही सुंदर है। इस काव्य की राजकुमारी का नाम भी विद्या ही है। इसी के आधार पर बंगला भाषा में रामप्रसाद सेन तथा भारत चन्द्रराय गुणाकर ने दो काव्य तथा महाराज जोगेन्द्रनाथ ठाकुर ने एक नाटक निर्मित किया था। गुणाकरके काव्य के आधार पर हिन्दी में भारतेन्दु जी ने इस नाटक को लिखा था। बंगला नाटक के आधार पर मिर्जापुर प्रवासी जोगेन्द्रनाथ बसु ने उर्दू में भी एक नाटक लिखा है। भारतेन्दु जी कृत 'विद्या सुंदर' तीन अंक में विभाजित एक छोटा सा नाटक है, जो रचेता के अठारहवें वर्ष की रचना है। यह कृति साधारणतः अच्छी है। पद्य दस ही बारह दिए गए हैं पर अच्छे हैं। भाषा अति सरल है। इसकी पहिली आवृत्ति, शीघ्र ही निकल गई। दूसरी संशोधित आवृत्ति के प्रकाशन की सूचना सं० १९३३ वि० ही में 'श्रीहरिश्चन्द्र अभिनव किरणावली' में निकल गई थी पर वह सं० १९३९ वि० में प्रकाशित हुई। इसकी एक सवैया यहाँ

उद्धृत की जाती है, जिसकी सरल भाषा में कही गई सरल बातें हृदय पर कैसा असर डालती हैं।

धिक है यह देह औ गेह सखी जेहि के बस नेह को दूटनो है।

उन प्रान पियारे बिना यह जीवहि राखि कहा सुख लूटनो है ॥

‘हरिचंद जू’ बात ठनी सो ठनी नित की कलकानि ते छूटनो है।

तजि और उपाय अनेक सखी अब तो हम को विष घूटनो है ॥

सं० १२२९ वि० मे कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध-चन्द्रोदय नाटक के तीसरे अंक का ‘पाखंड-विडम्बन’ के नाम से अनुवाद हुआ। यह छोटी सी गद्य-पद्यमय रचना है। इसमे इन्द्रिय-जनित सुख के लोभ से किस प्रकार लोग सात्त्विक श्रद्धा से विमुख हो जाते हैं, यही दिखलाया गया है। इस नाटक में बौद्ध, जैन तथा कापालिक का वर्णन है, पर यह किसी धार्मिक विद्वेष से नहीं अनूदित हुआ है। इसका उल्लेख कवि ने समर्पण मे कर दिया है, जो उसी वर्ष के फाल्गुन शुक्ल १४ को लिखा था। इसकी भाषा विद्यासुंदर से अधिक प्रौढ़ है और कविता भी अच्छी है। नाटक के अंत मे दिखलाया गया है कि सात्त्विक श्रद्धा—

नहिं जल थल पाताल में गिरिवरहू में नाहिं।

कृष्ण-भक्ति के संग वह बसत साधु-चित्त माहिं ॥

सं० १९३० वि० मे ‘वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति’ नामक प्रहसन रचा गया। इसमे चार अंक हैं और शुद्ध कवि-कल्पना-प्रसूत है। पहिले अंक में मांस-भक्षण तथा विधवा-विवाह का समर्थन कराया गया है। दूसरे अंक मे वेदांती, शैव और वैष्णव आते हैं और पाखंडियों के तर्क से उकता कर चले जाते हैं। तीसरे मे मांस-भक्षण और मदिरा पायियों द्वारा पुनः वैदिकी हिंसा का धर्मानुमोदित होना पुष्ट कराया गया है। इसके लिए शास्त्रों के बहुत से उद्धरण भी दिए गए हैं। चौथे अंक मे यमराज द्वारा इन हिंसकों को दंड दिलाया गया है। इस प्रहसन में भारतेन्दु जी ने मतमतांतर होने के कारण तत्कालीन अनेक विद्वानो और प्रसिद्ध पुरुषो पर आक्षेप करते हुए

उनको इस नए हास्य पूर्ण चाल से समालोचना की है। एक सज्जन 'जिनके घर में मुसलमानी स्त्री है उनकी तो कुछ बात ही नहीं, आजाद हैं' का उल्लेख कर लिखते हैं 'नहीं कह सकते कि भारतेन्दु जी का यह कटाक्ष स्वयं अपने ऊपर है या किसी दूसरे पर—'। सत्य ही आप ने इतना लिखकर अपने से अधिक अनजानों के हृदय में यह शंका उत्पन्न कर दी कि भारतेन्दु जी स्यात मांस मदिरा के भक्त थे। एक हिन्दू केवल मुसलमानी रखने से मांस-मदिरा का भक्त हो ही जायगा, यह अनिश्चित है और शब्दावली भी स्पष्ट है कि मुसलमानी रखनेवाला मांस मदिरा सेवन करने के लिये स्वतंत्र है, वह सेवन करे या न करे, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। अस्तु, यह आक्षेप भारतेन्दु जी ने किसी ऐसे सज्जन पर किया होगा जो मुसलमानी रखने तथा मांस मदिरादि सेवन के साथ साथ बाद को मुसलमान हो गए होंगे। भारतेन्दु जी ने जिस मुसलमानी को रखा था, वह हिन्दू थी और मुसलमान हो गई थी। इसका उल्लेख अलग हो चुका है।

यह प्रहसन जिस उद्देश्य से लिखा गया है, उसे वह पूर्ण रूप से चरितार्थ कर रहा है। प्रत्येक पात्र का उपयुक्त चित्रण भी हुआ है और भाषा सरल तथा बोलचाल की रखी गई है।

इसी वर्ष के अंत में कवि कांचन कृत 'धनंजय-विजय' व्यायोग का अनुवाद पूरा हुआ। इस व्यायोग का एक अनुवाद इसी समय काश्मीर-नरेश महाराज रणधीरसिंह की आज्ञा से पं० छन्नूलाल द्वारा किया गया था। यह सं० १९३२ में काश्मीर में मूल, पद्यानुवाद तथा शेखर कृत वार्तिक सहित तीथो में प्रकाशित हुआ था और प्रायः प्रति पृष्ठ में एक एक साधारण चित्र भी तीथो ही में दिए गए हैं। इसकी भाषा अति भ्रष्ट तथा पद्य शिथिल हैं और स्यात मूल की इस दुर्दशा को देखकर ही भारतेन्दु जी ने यह अनुवाद किया होगा। इस व्यायोग में पद्य भाग अधिक है। इसकी कथा इतनी ही है कि पांडवों के राजा विराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कौरवों ने उक्त राजा का गोधनहरण कर लिया और अकेले अर्जुन उन सब को परास्त कर गायों को लौटा लाए। अनुवाद बहुत अच्छा हुआ है। पद्य

में दोहे अधिक हैं। सन १८७३ ई० में यह पहिले पहिल हरिश्चन्द्र मैगजीन में छपा था।

सं० १९३२ वि० में भारतेन्दु जी ने 'प्रेम योगिनी' नामक नाटिका लिखना आरंभ किया था पर इसके केवल चार गर्भक ही लिखे गए और यह ग्रंथ अपूर्ण रह गया। इन चार दृश्यों में काशी की वास्तविक दशा ही का वर्णन किया गया है और आज भी कुछ कमी-बेशी के साथ ठीक वही दशा दिखला रही है। इस प्रकार के अनेकों दृश्य दिखलाए जाने योग्य बच गए थे पर स्यात् स्वतः या किसी के दबाव में पड़कर वे चित्रित नहीं किए गए। भारतेन्दु जी ने कुछ "आप बीती" का भी इसमें वर्णन किया है और यदि यह ग्रंथ पूर्ण हो जाता तो कवि के मानसिक कष्ट तथा सुख पर विशेष प्रकाश पड़ता। यह चार अंक ही इनकी निरोक्षण तथा व्यक्तीकरण शक्ति का उत्कृष्ट नमूना है। इसके प्रथम दो गर्भक 'काशी के छाया-चित्र या दो भले-बुरे फोटोग्राफ' के नाम से एक बार प्रकाशित हुए थे।

सत्यहरिश्चन्द्र भारतेन्दु जी की सर्वात्कृष्ट मौलिक रचना कही जाती है। क्षेमीश्वर का चंडकौशिक तथा रामचन्द्र का सत्यहरिश्चन्द्रम् और इस सत्यहरिश्चन्द्र तीनों ही का मूल आधार एक ही पौराणिक कथा है पर सभी रचनाएँ एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। चंडकौशिक से अवश्य कुछ श्लोक इसमें उद्धृत हैं पर और सब कुछ भारतेन्दुजी की निज की कल्पना है। स्वप्न में दान की हुई वस्तु को जागृत होने पर सत्य मान कर दे देना अयोध्या-नरेश क्षत्रिय वीर महाराजा हरिश्चन्द्र के सत्यप्रतिज्ञ होने के पराकाष्ठा है तथा सत्य-प्रतिज्ञ कवि के योग्य है। साधारण पुरुष के ध्यान में यह बात नहीं आ सकती और वे इसे केवल राजा हरिश्चन्द्र के मस्तिष्क का विकार मात्र समझेंगे, पर है यह आदर्श बहुत ऊँचा। विश्वामित्र के आने पर समग्र पृथ्वी उन्हें सौंपना तथा दक्षिणा के लिए पुत्र-कलत्र के साथ काशी में बिकने जाना उनके सत्य विचारों का ध्रुव सत्य होना दिखलाता है। काशी तथा गंगा का वर्णन करते हुए वहीं स्त्री-पुरुष का बिककर दक्षिणा चुकाना और अपने कामों को, जो उनके योग्य कभी भी न थे, सत्यप्रतिज्ञ होने ही के कारण निवाहना उनके

चरित्र तथा आत्मबल को उज्ज्वलतर करता है। ऐसे कष्टमय समय में पुत्र की सर्पदंशन से मृत्यु का होना, शव को लेकर रानी शैव्या का स्मशान पहुँचना और राजा हरिश्चन्द्र के अपना धर्म समझकर पुत्र के अधखुले शव के आधे कफन के माँगने पर उसे देने को उद्यत होना इन पति-पत्नी के सत्यविचार का कठोरतम देवोपम परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। यह आख्यानक ही करुणरस का स्रोत है और उस पर कुशल कवि के हाथ में पड़ने पर यह इस रस का अभूतपूर्व आदर्श हो गया है। मेरे विचार से संस्कृत के भी दोनों नाटक इसके पीछे पड़ गए हैं।

इस नाटक में 'वैर अकारण सब काहू से' और "देखि न सकहिं पराइ विभूती" के अच्छे जीते-जागते चित्र तैयार किए गए हैं। शैव्या का विलाप, कुछ लोगों की राय में, आवश्यकता से अधिक है पर यदि वे ही पुत्र-शोकग्रस्ता किसी स्त्री के विलाप को देखें तो यह स्यात् कम ही ज्ञात होगा। साथ ही शैव्या को रोते रोते इतनी बातें भी तो अनजान में कह डालनी थी जिसमें राजा हरिश्चन्द्र अपनी स्त्री को न पहिचानते हुए उसे सुनकर ही सब वृत्त जान जाँय। जो कुछ हो यह विलाप अस्वाभाविक कभी नहीं होने पाया है। एक सज्जन ने इस नाटक को "नाट्यशास्त्र" के किसी मापक यंत्र से नाप जोखकर दिखलाया है कि यह नाट्यकला की दृष्टि से सदोष है, पर यहाँ इतना ही कहना अलम् है कि आपने यह सब व्यर्थ ही का प्रयास किया है। इसकी विशद विवेचना स्वसंपादित सत्यहरिश्चन्द्र में कर दी है।

इस नाटक में करुणा तथा वीर रस का सम्मिश्रण है। राजा हरिश्चन्द्र सत्यवीर हैं और आरम्भ से अंत तक हर प्रकार के प्रलोभनों को दूर करते हुए अपने सत्य पथ पर बराबर अग्रसर होते रहे हैं। इतने पर भी इन्हें 'अकर्मण्य' कहनेवालों को इस प्रकार के पौराणिक नाटको की समालोचना में स्वयं अकर्मण्य रहना चाहिए। रानी शैव्या में कवि ने पत्नी का उत्तम आदर्श स्थापित किया है। अपने हृदय की बात कहते हुए भी पति की आज्ञा को शिरोधार्य करते रहना, कष्ट सहिष्णु होना आदि हिंदू ललनाओं के लिये अनुकरणीय गुण हैं। इस नाटक की भाषा संस्कृत मिश्रित होते हुए भी

सरल है, इसके पद्य भी उत्तम बने हैं और शृंगारिक वर्णनों के न होने से यह नाटक अतीव बालकोपयोगी ही नहीं स्त्रियों के लिए भी पठनीय हो गया है। यह नाटक सन् १८७५ ई० के अंत में निर्मित होकर उसके दूसरे वर्ष क्रमशः काशी पत्रिका में छपता रहा था।

सन् १८७६ ई० में कवि राजशेखर कृत कर्पूरमंजरी सटक का अनुवाद हुआ। यह शुद्ध प्राकृत में निर्मित हुआ था और रूपक के सटक भेद का यही एक उदाहरण प्राप्त है। इसकी कथा बस केवल इतनी ही है कि एक राजा के यहाँ एक योगी जी जाते हैं और अपना चमत्कार दिखलाने को तैयार होते हैं। लपट राजा एक सुंदरी स्त्री को उनके मंत्र द्वारा बुलवाता है, जो उसके रानी की मौसेरी बहिन निकलती है। राजा इससे प्रेम करते हैं और अंत में दोनों का विवाह होता है। सटक शृङ्गार रस से परिपूर्ण है तथा विदूषक और विचक्षण के विनोदपूर्ण बातों से उसमें हास्य का भी पुट मिला हुआ है। अनुवाद बहुत ही अच्छा हुआ है और भाषा बहुत सुगम रखी गई है। अनुवाद को पढ़ने से मूल का आनंद आता है और यह स्वतः एक मौलिक ग्रंथ सा ज्ञात होता है। मूल ग्रन्थ से इसमें पद्यों का आधिक्य है और बहुतेरे स्वतंत्र हैं। पद्माकर आदि के भी कुछ पद इसमें उद्धृत किए गए हैं।

बड़ौदा-नरेश मल्हारराव सन् १८७० ई० में गद्दी पर बैठे और तीन ही वर्ष में राज्य में इनके कुप्रबन्ध से ऐसी अशांति मची कि भारत सरकार ने एक कमीशन उसकी रिपोर्ट करने के लिए भेजा और गायकवाड़ को प्रबंध ठीक करने के लिये एक वर्ष का समय दिया। इस बीच बड़ौदा के रेजिडेंट कर्नल रौबर्ट फेयर को, जिन्होंने उस कुप्रबन्ध की गवर्नमेंट को सूचना दी थी, विष देने का प्रयत्न किया गया। सन् १८७५ ई० में गायकवाड़ कुप्रबन्ध के कारण गद्दी से उतारे गए और उनके स्थान पर सयाजीराव गद्दी पर बिठाए गए। इसी घटना पर उसी वर्ष 'विषस्य विषमौषधम्' नामक भाण लिखा गया। इसमें भंडाचार्य जी का व्याख्यान है, जो पठनीय है। स्वदेशी राज्यों के कर्णधार ही जब कभी प्रजा के साथ कुत्सित व्यवहार कर बैठते हैं और उनकी उस दुष्टता तथा नीचता का जब विदेशीय सरकार द्वारा उन्हें दंड

मिलता है तब हृदय से सच्चे स्वदेशभक्त के जो उद्गार होंगे उसी का इसमें कुछ दिग्दर्शन हो जाता है। 'अंगरेजन को राज ईस इत चिर करि थापै' उस देशप्रेमी का रुदन है, बधावे बजवाना नहीं है। वह कह रहा है कि जब हमारे छोटे छोटे देशीय राजे इस शक्तिशाली साम्राज्य के निरीक्षण में ऐसा अत्याचार करते हैं, तो इस शक्ति के हट जाने पर वे क्या न कर डालेंगे। समग्र भारत की प्रजा को अंध देश-भक्ति का ढोंग रचकर इस गायकवाड़ ऐसे उद्धृष्ट अत्याचारियों के हाथ में दे देने के विचार को भी सच्चा देश-भक्त हृदय में न लावेगा, ढोंगियों की तो निराली ही कथा है।

उक्त समालोचक को इसके दो-एक छन्द में अश्लीलता, वह भी निन्दनीय अश्लीलता, दिखलाई पड़ी है और इसीसे आपने भारतेन्दु जी पर व्यक्तिगत आक्षेप किया है कि, फिर जिसका चरित्र स्वयं आदर्श रूप न हो वह दूसरे की चरित्रहीनता पर बधावे बजवावे—यह यदि विचित्र बात नहीं तो आश्चर्य-जनक अवश्य है। यह कथन सत्य ही विचित्र न होते भी आश्चर्य उत्पन्न अवश्य कर रहा है। इस वाक्य के लेखक ही नाटकों के समालोचक हो सकते हैं। सहृदय पुरुषों का यह साधारण नियम है कि वे मृत पुरुषों के चरित्र पर कटाक्ष करना सज्जनोचित नहीं समझते। भारतेन्दु जी ने मल्हारराव के जीवितास्था में उनके अत्याचार तथा उनकी दुर्दशा को आदर्श बनाकर उपदेश दिया है कि ऐसे स्वदेशी राजों से ईश्वर उनके देशवासियों की रक्षा करे और अन्य राजे उससे शिक्षा ग्रहण करे, पर बाहरी कालोचना, तू जो न चाहे अर्थ लगा ले। इस रचना से भारतेन्दु जी रत्ती भर भी नीचे नहीं खिसके पर उन पर धूल फेंकने वाले के प्रयास का फल अवश्य जैसा होना चाहिए था वैसा ही हुआ।

सं० १९३३ वि० में श्री चन्द्रावली नाटिका की रचना हुई। यह नाटिका अनन्य प्रेम रस से लावित है और भारतेन्दु जी की उत्कृष्ट रचनाओं में से है। एक शुद्ध विष्कम्भक देकर श्री शुकदव जी तथा नारद जी से परम भक्तों के वार्तालाप द्वारा ब्रजभूमि के अनन्य प्रेम की सूचना दिलाकर यह नाटिका आरम्भ को गई है। ये दोनों पात्र केवल 'कथांशानां निदर्शकः संक्षेपार्थः' लाए

गए हैं और इनसे नाटिका के मुख्य कथा-वस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसीसे कवि ने इन दोनों के आने-जाने, होने का कुछ पता नहीं दिया है। इसमें वीणा पर उत्प्रेक्षाओं की एक माला ही पिरो डाली गई है। पहिले अंक में चंद्रावली जी तथा सखी के कथोपकथन से उसका श्री कृष्ण पर प्रेम प्रकट होता है। दूसरे अंक में श्रीचंद्रावली जी अपना विरह वर्णन कर रहा हैं और उपवन में कई सखियों से वार्तालाप भी होता है। विरहोन्माद में प्रिय के अन्वेषणार्थ जो प्रलाप कराया गया है, वह यदि अभिनय की दृष्टि से कुछ अधिक लंबा कहा जाय तो कह सकते हैं, पर अस्वाभाविक रत्ती भर भी नहीं होने पाया है। कोई भी सहृदय उसे पढ़कर उकता नहीं सकता। तीसरे अंक का अंकावतार गुप्त पत्र भेजने का रहस्य बतलाता है। उसके अनंतर कई सखियों के साथ चंद्रावली जी आती हैं और वार्तालाप करते हुए कार्य साधन का उपाय निश्चत होता है। इसमें भी विरह-कातरा रमणी का कथन नीरसों के लिए आवश्यकता से अधिक हो गया है पर विरहिणी को आवश्यक अनावश्यक समझने की बुद्धि नहीं रह जाती। महाकवि कालिदास ने भी लिखा है कि 'कामार्ता हि प्रकृति कृपणाश्चेतनाचेतनेषु।'

इन अंकों में वर्षा वर्णन आया है और उसका विरहिणी के हृदय पर जो असर पड़ेगा वह पूर्ण रूप से दिखलाया गया है। वहाँ इन प्राकृतिक दृश्यों को चंद्रावली के मानवी जीवन का अंग बनाकर दिखलाना मूर्खता मात्र होता। चौथे अंक में पहिले श्रीकृष्ण जी योगिन बनकर आते हैं और फिर ललिता तथा चन्द्रावली जी आती हैं। अंत में युगल प्रेमियों का मिलन होता है। इसमें यमुना जी की शोभा का नौ छप्पयों में उसी प्रकार अच्छा वर्णन हुआ है जिस प्रकार सत्यहरिश्चन्द्र में गंगा का। इसकी एक बात पर उक्त समालोचक लिखते हैं कि "एक विचित्र आदर्श भी उपस्थित कर दिया गया है। कहाँ तो चन्द्रावली की माता उसका बाहर आना जाना बंद कर देती है और कहाँ योगिनी का वेष धारण किए हुए श्रीकृष्णचन्द्र के आने तथा अपना वास्तविक रूप प्रकट करने पर ठीक उसी समय माता का यह मदेशा भी आ जाता है कि 'स्वामिनी ने आज्ञा दर्ई है के प्यारे सों कही दै चद्रावली

की कुंज में सुखेन पधारौ ।' न जाने किस आदर्श को सामने रखकर इस नाटिका के पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया है ।" धन्य है, बलिहारी है, इस समझ की । सत्य ही जो अधिकारी नहीं हैं उनके समझ ही में न आवेगा । हिन्दी साहित्य की ब्रजभाषा की कविता का साधारण ज्ञाता भी यह जानता होगा कि ब्रजलीला की स्वामिनी श्री राधिका जी हैं । वहाँ किसी की माता, दादी या रानी स्वामिनी नहीं कहलाती थीं । ब्रज की गोपियों के लिए श्रीकृष्ण स्वामी तथा श्री राधा ही स्वामिनी थीं । चंद्रावली जी की माता अवश्य वृद्धा रही होंगी और उनका श्रीकृष्ण जी को 'प्यारे सों' शब्दों में संबोधित करना, जिसे वे स्यात् अपना दासाद बना रही थीं, कहीं अधिक विचित्र बतलाया जा सकता था पर समालोचक सहोदय की दृष्टि उधर नहीं पड़ी नहीं तो इसे भी वे अवश्य लिखते । जिसने यह संदेश कहा था उसी की बात कुछ ही पंक्ति बाद आप पढ़ लेते तो इस शब्द से किससे प्रयोजन है यह स्पष्ट हो जाता । वह कहती है 'तो मैं और स्वामिनी में कछू भेद नहीं है ताहू मे तू रस की पोषक ठैरी ।' और तीसरे अंक में दोनों के मिलाने का जो उपाय निर्धारित हुआ था उसमें प्रिया जी अर्थात् श्री राधिका जी से आज्ञा प्राप्त करने की और "याके घरकेन सों याकी सफाई करावै" की दो बातें तै हुई थीं । वही आज्ञा समय पर मिली, क्योंकि यदि यह आज्ञा पहिले ही मिली होती तो श्रीकृष्ण जी के गुप्त रूप से आने की आवश्यकता न रह जाती ।

इस नाटिका की कविताएँ विशेष रूप से हृदयग्राहिणी हैं । मार्मिक वाते ऐसी सरलता-पूर्वक कह दी गई हैं कि हृदय पर चोट करती हैं । भाषा अत्यंत मधुर और प्रौढ़ है । निस्पृह दैवी प्रेम का मनोमुग्धकारी उज्ज्वलतम सुन्दर जीता-जागता चित्र खड़ा कर दिया गया है । क्यों न हो, यह सच्चे प्रेमी भक्त के निज हृदय का प्रतिबिम्ब है । इस नाटिका का संस्कृत अनुवाद सं० १९३३ की हरिश्चन्द्रचन्द्रिका तथा मोहनचन्द्रिका में क्रमशः छपा है । यह अनुवाद पं० गोपाल शास्त्री ने किया था जो बहुत अच्छा हुआ है । भरतपुर के राज्यच्युत महाराज के राजकुमार राव कृष्णदेव शरण सिंह ने

इसका ब्रजभाषा में रूपान्तर किया है। भारतेन्दु जी इसका अभिनय कराया चाहते थे पर उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी।

‘भारत-दुर्दशा’ भारतेन्दु जी की निज कल्पना से सं० १९३३ वि० में प्रादुर्भूत हुआ था। यह छोटा-सा रूपक छः अंकों में विभक्त है। इसमें नाटककार ने भारत के प्राचीन गौरव का ओजस्विनी भाषा में वर्णन कर वर्तमान समय की दुरवस्था पर आँसू बहाए हैं। इसके पाठकों तथा दर्शकों पर इस दुःखांत रूपक का स्थायी प्रभाव पड़ता है और केवल-करुणरस में निमग्न होकर ही वे नहीं रह सकते। इसी नैराश्य में भारत की अवनति के मूल कारणों के उच्छेदन करने की ईप्सा उनमें जागृत हो जाती है। इसके कुछ पदों में देश की दुरवस्था पर जो कुछ कहा गया है वह ऐसा करुण है कि उन्हें पढ़कर स्वदेश प्रेमियों के मन उद्वेलित हो जाते हैं। क्यों न हो वे एक सच्चे देशभक्त के हृदय के रक्त से सिंचित हैं। आज पूरे पचास वर्ष बाद भी प्रायः वही अवस्था है। आज भी देश शिक्षा में और देशों से पिछड़ा ही है, आलस्य, दारिद्र्य, मदिरासक्ति आदि उसी प्रकार की है। आज भी स्वदेशी कपड़े की पुकार जोरों से हो रही है, जिसे उसी समय इस रूपक के पाँचवें अंक में महाराष्ट्र पात्र के द्वारा इस प्रकार कहलाया गया है ‘कपड़ा बीनने की कल मँगानी, हिन्दुस्तानी कपड़ा पहिनना।’ तात्पर्य यह कि भारतेन्दु जी ने इस रूपक में देश की दशा दिखलाने में पूर्ण सफलता पाई है और यह नाटक सभी देश-प्रेमियों के लिये पठनीय है।

नीलदेवी सन् १८८१ ई० के अंत में लिखी गई है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें एक क्षत्रिय राजा को सन्मुख युद्ध में परास्त न कर सकने पर मुसल्मान सेनापति ने रात्रि-आक्रमण कर उसे कैद कर लिया था। मुसल्मान होना अस्वीकार करने पर वह मार डाला गया। रानी नील देवी पति का बदला लेने को, शत्रु को प्रबल समझकर, षड्यंत्र रचती है और गणिका का छद्मवेश धारण कर, अक्सर पाकर नहीं, प्रत्युत् अक्सर बनाकर उस मुसल्मान सेनापति को मार डालती है और पति के शव के साथ सती हो जाती है। इस नाटक में वीर तथा करुण-रस के साथ हास्य-रस का भी

अच्छा समावेश हुआ है। कादरों की डींगें तथा पागल को बड़बड़ाहट पढ़कर हँसी बरबस आती हैं। वीरों की बातचीत सुनकर जिस प्रकार चित्त उत्तेजित होता है, उसी प्रकार देवता का गाना सुनकर रुलाई आने लगती है। भाषा-पात्रों के अनुकूल ही सर्वत्र रखी गई है। यह नाटक रंगमंच पर भी सफलता पूर्वक खेला जा चुका है और पठनीय है। इसमें देशहितैषिता का भाव भरा हुआ है और जिस आदर्श को लेकर इसकी रचना हुई उसको इससे पूर्ण रूपेण सिद्धि होती है। जिस समय नीलदेवी का पहिली बार अभिनय हुआ था, उस समय जब और कोई पागल का पार्ट लेने को तैयार नहीं हुआ तब भारतेन्दु जी ने स्वयं बड़ी सफलता से उसका पार्ट किया था।

‘अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा’ प्रहसन की सं० १९३८ में रचना हुई। कहा जाता है कि विहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा किसी स्थानिक ‘नेशनल थिएटर’ में अभिनीत किए जाने के लिए इसकी एक ही दिन में रचना हुई थी। इस कहानी को लेकर पहिले भी खेल होते थे पर वे इतने सुव्यवस्थित नहीं थे। इस प्रहसन की भाषा तथा पद्य साधारण हैं पर अनेक प्रकार के लोगों पर हँसी हँसी में आक्षेप किया गया है। इस नाटक का उक्त सज्जन पर अच्छा प्रभाव पड़ा था और बाद को उन्होंने हिन्दी-प्रचारार्थ भारतेन्दु जी की सहायता ग्रथ छपवाने में भी की थी।

संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाखदत्त कृत मुद्राराक्षस का अनुवाद क्रमशः सं० १९३१ के फाल्गुन मास की बालाबोधिनी की संख्या से छपना आरम्भ हुआ और प्रायः तीन वर्ष तक निकलता रहा। बाद को यह पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। यह नाटक राजनैतिक षड्यंत्रों से पूर्ण है। इसका प्रधान रस वीर है और कर्मवीरत्व के उपदेश से परिपूर्ण है। इस नाटक की कथा-वस्तु का आधार मौर्य साम्राज्य के संस्थापन के इतिहास से लिया गया है। इस नाटक का अनुवाद बहुत ही अच्छा हुआ है। भाषा प्रौढ़ तथा प्रांजल है। अनुवादक ने इस पर विशेष समय तथा मन लगाया था और यह उनकी नाट्य-रचनाओं में सबसे बड़ी भी है। इसकी भूमिका लिखने में भी अनु-

वादक महोदय ने बहुत कुछ अनुसंधान किया है तथा देशीय और यूरोपीय भाषाओं के ग्रन्थों से सहायता ली है। तात्पर्य यह कि यह अनुवाद करके भारतेन्दु जी ने इस ग्रंथ की प्रसिद्धि द्विगुणित से भी अधिक कर दी है और यह चिरस्थायी ग्रंथ अब अमर हो गया है। इसका एक अनुवाद भारतेन्दु जी के समय ही में श्रद्धेय पं० मदनमोहन मालवीय के पितृव्य पं० गदाधर मालवीय ने भी किया था पर इस अनुवाद को देखकर उन्होंने अपना अनुवाद नहीं प्रकाशित किया।

अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर के सुखान्त नाटक मर्चेट ऑव वेनिस का भारतेन्दु जी ने “दुर्लभ बंधु” (अर्थात् वंशपुर का महाजन) के नाम से अनुवाद किया था। सं० १८३७ वि० ज्येष्ठ शुक्ल की हरिश्चन्द्र चान्द्रिका और मोहन चन्द्रिका में इसका प्रथम दृश्य छपा है, जिसमें केवल इतना लिखा है कि “निजबंधु बा० बालेश्वरप्रसाद बी० ए० की सहायता से और बँगला पुस्तक सुरलता की छाया से हरिश्चन्द्र ने लिखा।” इस पत्रिका के संपादक भारतेन्दु जी के घनिष्ठ मित्र पं० विष्णुलाल मोहनलाल पंड्या थे। यह अनुवाद अपूर्ण था, जिसे पंडित रामशंकर व्यास तथा बाबू राधाकृष्ण दास जी ने पूरा किया था। कुछ लोगों का कथन है कि यह अनुवाद भारतेन्दु जी का नहीं है प्रत्युत् बा० बालेश्वर प्रसाद बी० ए० कृत है, पर वे भूलते हैं। उक्त सज्जन का अनुवाद काशी पत्रिका खंड १ में “वेनिस का सौदागर” के नाम से प्रकाशित हुआ था। भारतेन्दु जी ने ‘नाटक’ में इसका उल्लेख किया है। वह स्यात् उर्दू भाषा मिश्रित था। भारतेन्दु जी के अनुवाद में यूरोपीय नामों को भी सुन्दर हिंदी रूप दिया गया है, जैसे ऐन्टानियो का अनंत, पोरशिया का पुरश्री आदि। इस अनुवाद में उक्त दोनों सज्जनों से भारतेन्दु जी ने सहायता अवश्य ली थी तथा बँगल के सुरलता से भी कुछ मदद लिया था, जिसे अनुवादक महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है।

सती-प्रताप गीतिरूपक सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान को लेकर लिखा गया है। यह भी अपूर्ण रह गया था जिसे स्व० बा० राधाकृष्ण दास जी ने बाद को पूरा किया था। इसमें सात दृश्य हैं जिनमें चार भारतेन्दु

जी के लिखे हैं और अंतिम तीन बा० राधाकृष्ण दास जी के । यह उपाख्यान स्त्रियोपयोगी है और इसमें उन्हीं सावित्री का चरित्र-चित्रण हुआ है, जिनका वे प्रतिवर्ष वट-सावित्री के दिन पूजन करती हैं । पहिले दृश्य में अप्सराएँ पातिव्रत्य की प्रशंसा करती हैं, दूसरे में सावित्री-सत्यवान का प्रथम मिलन होता है, तीसरे में सावित्री का प्रेम दिखलाया जाता है और चौथे में नारद जी के समझाने से सत्यवान के पिता द्युमत्सेन अपने पुत्र का सावित्री से विवाह करना स्वीकार करते हैं । इसमें मनसा पतिवरण कर लेने पर दूसरे से न विवाह करने का प्रण करके भी माता पिता की आज्ञा पर ही इच्छा पूर्ति को छोड़ देने ही ने सावित्री शब्द को सती का पर्यायवाची आज तक बना रखा है । कहा जाता है कि लाला श्री निवासदास के तप्तसंवरण के प्रकाशित होने पर उसे पसंद न करके भारतेन्दु जी ने इसे लिखना आरम्भ किया था ।

भारतजननी वँगला के भारतमाता के आधार पर लिखी गई है । यह पहिले-पहल सन् १८७७ ई० के हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका में प्रकाशित हुई थी । सन् १८७८ ई० के कवि-वचन-सुधा में एक विज्ञापन भारतेन्दु जी ने निकाला था, जिससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इसके अनुवादक उनके कोई मित्र थे और इसे उन्होंने शोधकर प्रकाशित किया है । इसमें 'भारत मे मची है होरी' पद जून सन् १८८० ई० के प्रकाशित "मधुमुकुल" में छपा है जिसमें उनके पिता की तथा उनकी ही रचनाएँ संकलित हैं । 'नाटक' में भी भारतेन्दु जी ने इसे स्वरचित लिखा है । सन् १८८१ ई० के १० अक्टूबर के कवि-वचन-सुधा में संपादकीय टिप्पणी इसी नाटक पर यों है कि 'इस आशय की प्रशंसा करने में कुछ ईश्वरांश हुए बिना किस की सामर्थ्य है कि वह हिंदी भाषा के परमाचार्य कविवर श्री बा० हरिश्चन्द्र की प्रशंसा करे' । ३१ दि० सन् १८८१ ई० के उचित वक्ता में बा० राधाकृष्ण दास ने विज्ञापन देते हुए इसे भारतेन्दु रचित लिखा है । हरिश्चन्द्रचंद्रिका तथा मोहनचंद्रिका (कला ६ किरण ८, सं० १९३८ भाद्रपद) में भी यह भारतेन्दु रचित लिखा गया है । अस्तु, संशोधन कार्य से भारतेन्दु जी ने इस रूपक को बहुत कुछ अपना कर लिया है और मूल तीसरे ही का है । इसलिए उक्त अनुवादक का नाम न

ज्ञात होना ही समीचीन है। यह भारतेन्दु जी के सामने ही कई बार खेला जा चुका था और डुमराँव के दीवान राय जयप्रकाश लाल ने इन्हें लिखा था कि आपका नाटक “भारत जननी” यहाँ खेला गया था।

माधुरी रूपक राव कृष्णदेवशरण सिंह की कृति है, जो भरतपुर-नरेश राजा दुर्जन साल के पुत्र तथा भारतेन्दु जी के अंतरंग मित्र थे। यह कविता में अपना “गोप” उपनाम रखते थे। इस रूपक के एक पद का ‘गोपराज’ शब्द उन्हीं का द्योतक है। इनके सिवा वा० राधाकृष्ण दास जी ने नवमल्लिका तथा मृच्छकटिक दो नाटकों का भी नाम लिखा है पर वे अप्राप्य तथा अपूर्ण हैं। इस प्रकार लगभग डेढ़ दर्जन के छोटे बड़े नाटक लिखकर भारतेन्दु जी ने हिन्दी साहित्य के इस अंग के अभाव की कुछ पूर्ति कर जो नाट्य-परंपरा चलाई थी वह उनके बाद संद पड़ गई थी। पर इधर कई सज्जनों ने वर्तमान रंगमंच के अनुकूल नाटक लिखना आरंभ कर उस परंपरा को विशेष गति से चला दिया है। भारतेन्दु जी ने नाटकों के इतिहास तथा नाटक रचना पर भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम उन्होंने ‘नाटक’ ही रखा है। मुद्राराक्षस की भूमिका में लिखते हैं कि ‘नाटकों के वर्णन का विषय भी इसके साथ दिया जाय किन्तु मित्रों के अनुरोध से यह विषय स्वतंत्र पुस्तकाकार मुद्रित हुआ। इस पुस्तक की रचना से संस्कृत के नाट्य-शास्त्र, दशरूपक आदि तथा अंग्रेजी की हिन्दू थिएटर्स आदि पुस्तकों से सहायता ली गई थी। इस में नाटक के भेद तथा उसके अंग प्रत्यंग का वर्णन दिया गया है। साथ ही संस्कृत तथा हिन्दी नाट्यकला का इतिहास संक्षेप में दे दिया गया है। यह पुस्तक भी परिश्रम के साथ लिखी गई है। इनके समय तक प्राप्त संस्कृत तथा हिन्दी नाटकों की तालिका भी इसमें दे दी गई है, जिससे इस ग्रंथ का महत्त्व बढ़ गया है। भारतेन्दु जी की इन रचनाओं की भूमिकाओं, समर्पणों तथा प्रस्तावनाओं से समय समय पर उनकी मानसिक अवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है, जिनका उपयोग कवि की जीवनी में किया गया है।

राजभक्ति-विषयक

भारतेन्दु जी ने स्वयं राजभक्ति पूर्ण अनेक रचनाएँ की हैं तथा अन्य लोगों से भी पुरस्कारादि देकर लिखाकर संकलित किया है। इन कृतियों के रहते हुए भी जिन लोगों ने उनपर राजद्रोही होने का दोष लगाया था और जिन लोगों ने उस कथन पर विश्वास किया था उन सभी के हृदय की आँखें पक्षपात के कारण फूटी हुई थीं। भारतेन्दु जी का रचनाकाल सं० १९२४ से सं० १९४१ तक था और यह वह समय था जब भारतवर्ष में पूर्ण शांति नहीं स्थापित हो चुकी थी। उनके जन्मस्थान काशी ही में उन्हीं के समय संध्या के बाद किसी अमीर आदमी का आगे पीछे दस पाँच सिपाही साथ लिए बिना निकलना कठिन था। ऐसे समय शांति-स्थापक अंग्रेजी राज्य को 'ईस इत थिर करि थापै' कहना ही देश प्रेम था। साथ ही अंग्रेजी राज्य के दोषों का कथन, उसके निवारणार्थ प्रार्थना करना आदि 'राजद्रोह' नहीं कहा जा सकता था। वे अंग्रेजी राज्य को उसके दूषणों से रहित देखना ही देश प्रेम समझते थे और वही उस समय के लिए उचित भी था। भारत से उस समय अंग्रेजी राज्य के निर्वासन का कथन कोरा देशद्रोह होता। कुछ लोगों ने इनकी निर्भीक स्पष्टवादिता को राजद्रोह बताकर द्वेष के वशीभूत हो सरकारी कर्मचारियों में उन्हें 'राजद्रोही' घोषित कर दिया था और इनमें भारतेन्दु जी के गुरु स्वर्गीय राजा शिवप्रसाद सरीखे महापुरुष भी सम्मिलित थे। इन गुरु-शिष्य से हिन्दी के भाषा-भेद ही को लेकर मनोमालिन्य पैदा हुआ था। भारतेन्दु जी को शुद्ध हिन्दी तथा राजा शिवप्रसाद को खिचड़ी हिन्दी पसंद थी। शिष्य की शैली सब को पसंद आई और वही हिन्दी साहित्य की प्रधान भाषा बन गई। अन्त को गुरु जी गुड़ ही रह गए। इस मनोमालिन्य के कारण राजा साहव ने कवि-वचन सुधा के "लेवी प्राण लेवी" तथा 'मर्सिया' नामक दो लेखों का सरकारी कर्मचारियों को ऐसा उल्टा अर्थ सुझाया कि वे उनके फेर में आगए और भारतेन्दु जी पर कुपित हो गए। इनकी जो पत्रिकाएँ ली जाती थीं वे किसी वहाने बंद कर दी गईं। पर इन्होंने इसका कुछ विचार न किया और अपने व्रत से न डिगे। देश-प्रेम के

कारण ही यह भारत सरकार के पूर्ण शुभचिन्तक थे और इसलिए वे वैसे ही अत तक बने रहे ।

सन् १८६९ ई० मे सम्राज्ञी विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र ड्यूक ऑव एडिम्बरा भारत आए थे तब उस समय उनके काशी पधारने पर इन्होंने अपने घर पर भारी उत्सव मनाया था । काशी मे उनका जो कुछ स्वागत हुआ था उस सब मे इन्हीं की सहायता प्रधान थी । यह बराबर ड्यूक के साथ रहते थे और इन्हीं को उन्हे काशी दिखलाने का भार सौंपा गया था । इनकी तथा इनके गृह के सजावट की स्वयं ड्यूक ने प्रशंसा की थी । भारतेन्दु जी ने काशी के पंडितों की २० जनवरी सन् १८७० ई० को सभा की थी, जिसमें ड्यूक की प्रशंसात्मक रचनाएँ पढ़ी गई थीं । ये ही सुमनोऽञ्जलि पुस्तक मे संगृहीत की जाकर ड्यूक को बाद को समर्पित की गई थीं । इसमें संस्कृत का अश ही अधिक है, हिन्दी के केवल सात ही पद हैं । ड्यूक महोदय स० १९२६ की कार्तिक पूर्णिमा को काशी आए थे, जिस दिन चन्द्रग्रहण था । भारतेन्दु जी ने इसी को लेकर निम्नलिखित कवित्त बनाया था—

वाको जन्म जल याको रानी कोख सागर तें,
 वह सकलकी यामें छौंटेहू न आई है ।
 वह नित घटे यह बाढ़ै दिन दिन वह
 विरही दुखद यह जन सुखदाई है ॥
 जानि अधिकाई सब भाँति राजपुत्र ही की,
 गहन के मिस यह मति उपजाई है ।
 देखि भाल उदित प्रकाशमान भूमि चंद,
 नभ ससि जाज मुख काबिमा जगाई है ॥

इस संग्रह तथा इनकी राजभक्ति से प्रसन्न होकर रीवानरेश ने दो सहस्र तथा विजयनगर की राजकुमारी ने ढाई सौ रुपये पारितोषिक भेजे थे—जिसे भारतेन्दु जी ने कविता-रचेता पंडितो मे वितरण कर दिया था । इन विद्वानों ने अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिये भारतेन्दु जी को संस्कृत

मे एक मानपत्र दिया था जिसके एक श्लोक का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार हुआ है—

सब सज्जन के मान को कारन इक हरिचन्द ।

जिसि स्वभाव दिन रैन को कारन इक हरिचन्द ॥

सन् १८७१ ई० मे प्रिंस आव वेल्स के अस्वस्थ होने पर उनकी आरोग्य-कामना के लिए भारतेन्दु जी ने नौ दोहों मे ईश्वर से प्रार्थना किया था, जिसका अंतिम दोहा इस प्रकार है—

वेग सुनै हम कान सों प्रिंस भए सानंद ।

परम दीन ह्वै जोरि कर यह विनवत हरिचंद ॥

युवराज के स्वास्थ्य प्राप्ति पर आनन्दोत्सव भी मनाया था । वही युवराज सन् १८७५ ई० के नवम्बर महीने मे भारत मे पधारे थे । भारतेन्दु जी ने विज्ञापन देकर संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, फारसी, बगला, गुजराती, तामिल, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं की कविताएँ आमंत्रित की और उनसे मानसोपायन नामक संग्रह तैयार किया था । यह संग्रह सन् १८७७ ई० के आरम्भ मे प्रकाशित होकर इंगलैण्डेश्वरी के भारत सम्राज्ञी की पदवी ग्रहण करने के समय युवराज को भेंट की गई थी । श्री राजकुमार शुभागमन अवसर पर जो स्वागत पत्र लिखा था उसका आरंभ यों है—

स्वागत स्वागत धन्य तुम भावी राजधिरान ।

भई सनाया भूमि यह परसि चरन तुव आज ॥

अंत मे आशीर्वादात्मक ग्यारह दोहे दिए हैं, जिसका आखिरी दोहा यों है—

आत मात सह सुवन युत प्रिया सहित युवराज ।

जियो जियो जुग जुग जियो भोगो सब सुख साज ॥

युवराज के काशी आने पर उस अवसर के लिए इन्होंने अपने सभी स्थानों को सजवाया था परन्तु रामकटोरा वाले वाग का वह भाग जो छावनी से शहर जानेवाले मार्ग पर है वड़े व्यय से खूब सजाया गया था । ताश आदि

कीमती कपड़ों के झुंडे तथा झंडियाँ पहना रही थीं। 'भावी भूप चिरंजीव' आदि सी वाक्यावली जगह जगह पर जड़ाव का काम कर रही थी। गुलाब की पत्तियाँ, बादले तथा कागज की चिट्टें, जिन पर स्वागत, वेलकम आदि शब्द लिखे थे, उड़ाई गई थीं। इसी अवसर पर इन्होंने 'भारतभिन्ना' लिखकर युवराज से देश की माँग कही थी, जो दो तीन पंक्तियों में समाप्त हुआ था।

सन् १८७६ ई० में लार्ड बेकन्सफील्ड के आग्रह से 'इम्पीरियल टाइटिल्स एक्ट' पास हुआ, जिससे क्वीन विक्टोरिया ने भारत सम्राज्ञी की पदवी धारण की और १ जनवरी सन् १८७७ ई० को दिल्ली दरबार में इसकी बड़े समारोह से घोषणा की गई थी। काशी में भी उस दिन परेड पर इस घोषणा-पत्र को सुनाने के लिये दरबार हुआ था, उस समय इनकी ओर से भी तैयारी हुई थी। इनका बनाया तारीखी गजल भी गाया गया था, जिसका फ्रेच भाषा तक में अनुवाद हुआ था। मनोमुकुलमाला भी इसी अवसर पर रचकर भारतेश्वरी को अर्पित हुई थी। इसकी एक कविता अँगरेजी तथा फारसी अक्षरों से और एक कविता अको से चित्रित है। इसी दिल्ली दरबार का वर्णन 'दिल्ली-दरबार दर्पण' में हुआ है।

२१ नवम्बर सन् १८७६ ई० को द्वितीय अफगान युद्ध आरम्भ हुआ और २६ मई सन् १८७९ ई० को गंदमक की संधि हुई पर तीन महीने बाद ही ब्रिटिश एलची के मारे जाने पर पुनः युद्ध आरम्भ हुआ और इसका सन् १८८१ ई० में अब्दुर्रहमान के अमीर होने पर अंत हुआ। संधि के बाद का युद्ध तृतीय अफगान युद्ध के नाम से भी इतिहासों में पाया जाता है। इस युद्ध के आरम्भ होने का समाचार पाते ही भारतेन्दु जी ने 'भारतवीरत्व' नामक छोटा सा काव्य लिखकर हिन्दुस्तानी नरेशों से ब्रिटिश सेना को सहायता देने के लिये प्रार्थना की थी। लिखा था कि—

जिन जवनन तुम धरम नारि धन तीनिहूँ लीने ।

तिनहूँ के हित आरज गन निज असु तजि दीने ॥

तौ इनके हित क्यों न उठहु सब वीर बहादुर ।

पकरि पकरि तरवार करहु वनि युद्ध बक्रधुर ॥

इसके अनन्तर इसी अफगान युद्ध में विजय प्राप्त होने पर 'विजय वल्लरी' बनी। इन दोनों में ब्रिटिश राज्य के सुख की मुसलमानी राज्य काल से तुलना की गई है।

सन् १८८० ई० में मारक्विस ऑव रिपन भारत के बड़े लाट नियत हुए और इस पद पर सन् १८८४ ई० के अंत तक रहे। भारतवासियों में इन बड़े लाट के प्रति अन्यंत श्रद्धा थी और यह बड़े प्रजाप्रिय हो गए थे। इनके किसी पूर्वाधिकारी के भाग्य में ऐसी प्रसिद्धि नहीं लिखी थी। भारतेन्दु जी ने एक अष्टक इनके नाम पर लिखा था जिसका एक छप्पय यों है—

जदपि बाहु बल झाइव जीव्यो सगरो भारत ।
जदपि और लाटनहू को जन नाम उचारत ॥
जदपि हेस्टिंग आदि साथ धन लैगे भारी ।
जदपि लिटन दरबार कियो सजि बड़ी तयारी ॥
पै हम हिंदुन के हीय की भक्ति न काहू सँग गई ।
सो केवल तुमरे सँग रिपन छाया सी साथिन भई ॥

सन् १८८२ ई० में भारतेश्वरी क्वीन विक्टोरिया के एक घातक की गीली से बच जाने पर भारतेन्दु जी ने चौकाघाट पर स्थित अपने बाल्यकाल के हितैषी मित्र बा० गोकुलचन्द खत्री के बारा में उत्सव मनाया था। अपने स्कूल के बालकों द्वारा संगल गान कराया तथा उसके बाद कविताएँ पढ़ी गईं। एक प्रहसन का अभिनय तथा गान हुआ था। इसकी सूचना पर क्वीन तथा बड़े लाट ने प्रसन्नता प्रकट की थी। एक समाचारपत्र ने लिखा था कि 'बनारस में श्रीमान् भैया बाबू सभी लायल सब्जेक्ट हैं पर ऐसे अवसरों में जैसा कुछ बाबू साहिब से बनता है दूसरे को नहीं सूझता।'

मिश्र देश में विदेशी सत्ता का विरोध करने के लिये अरबीपाशा ने मंत्रिमंडल में अपना एक स्वतंत्र देशभक्त दल बना लिया था, जिसने बाद को सभी यूरोपीय कृति के विरुद्ध घृणा का रूप धारण कर लिया। जून सन् १८८२ ई० में यह विरोध विद्रोह में परिणत हो गया और विद्रोहियों ने अल-कजैडिया के कुल इसाइयों को निकाल बाहर किया। इंग्लैंड ने सभी यूरोपीय

शक्तियों तथा तुर्की के सुलतान को उसे दमन करने में सहयोगी बनने के लिये लिखा पर किसी के स्वीकार न करने पर उसने अकेले युद्ध आरम्भ कर दिया। भारतीय सेना भी युद्ध के लिये भेजी गई थी। तेलेल् कबीर युद्ध में भारतीय सेना बाईं ओर से जेनरल मैकफरसन के अधीन लड़ी थी। भारतीय सेना ने शत्रु का पीछा कर उसी दिन दोपहर को जिगर्जिंग ले लिया और उसके अनंतर संध्या को बेलवैस पहुँच गई। चौबीस घंटे बाद कैरो लेने में भी इस सेना ने योग दिया जहाँ अरबी पाशा के ससैन्य शस्त्र रख देने से यह युद्ध समाप्त हो गया। इसी युद्ध की विजय वार्ता पर 'विजयनी विजय वैजयंती' बनी। २२ सितम्बर सन् १८८२ ई० को संध्या समय टाउन हाल में उत्सव मनाने के लिए सभा हुई। राजा शिवप्रसाद सभापति बनाए गए थे। इसी अवसर पर यह कविता पढ़ी गई थी। पहिले ग्यारह दोहों में प्रश्न हैं कि क्यों यहाँ चारों ओर प्रसन्नता छाई है तब उसके बाद सात रोला में उसके उत्तर में मिश्र विजय का समाचार है। इसके अनंतर कवि भारत के प्राचीन गौरव का उल्लेख कर उसकी अर्वाचीन परतंत्रावस्था पर रोता है और तब भारतीय सेना के मिश्र जाकर विजय प्राप्त करने का वर्णन करता है। प्रायः दो सौ पंक्ति का यह छोटा सा काव्य प्रत्येक देशप्रेमी के लिये नित्य पठनीय है।

सन् १८८३ ई० में इंग्लैंड में एक जातीय संगीत सभा (National Anthem Society) स्थापित हुई, जिसका उद्देश्य प्रायः सभी प्रचलित हिन्दुस्तानी भाषाओं में नैशनल ऐन्थेम का अनुवाद कर वहाँ की सभाओं में गाने योग्य बनाने का था। भारतेन्दु जी ने इसके लिये काशी में विद्वानों की एक सभा कर उसकी ओर से आशीर्वाद तथा हिन्दी अनुवाद भेजवाया था। इन्होंने इसके पहिले भी एक अनुवाद विलायत भेजा था। इस विषय में इनसे कई बार पत्रोत्तर भी हुए थे। उस ऐन्थेम के प्रथम पद का अनुवाद इस प्रकार हुआ है।

प्रभु रञ्छहु दयाल महरानी ।

बहु दिन निण प्रजा सुखदानी ।

हे प्रभु रञ्छहु श्री महरानी ।

सब दिस में तिनकी जय होइ ।

रहे प्रसन्न सकल भय खोइ ।

राज करें बहु दिन लों सोइ ।

हे प्रभु रच्छहु श्री महरानी ॥

सन् १८८४ ई० के अप्रैल में क्वीन विक्टोरिया के चतुर्थ पुत्र ड्यूक ऑव ऐलबनी की मृत्यु होने पर भारतेन्दु जी ने शोक प्रकट करने के लिये १२ अप्रैल शनिवार को सायंकाल के समय ५ बजे सभा निमंत्रित की थी । सभा के अधिवेशन के लिए काशी के मैजिस्ट्रेट से टाउनहाल पहिले ही माँगा गया था और उन्होंने सहर्ष उसे देना स्वीकार भी कर लिया था । पर ठीक सभा के दिन उन्होंने हॉल नहीं दिया, जिससे अनेक संभ्रान्त लोग आ आकर लौट गये । अतः दूसरे दिन कालेज में कुछ सज्जनों ने मीटिंग कर वही शोक सभा करना निश्चित किया । मैजिस्ट्रेट ने यह सुनकर अपनी भूल स्वीकार की और आग्रह कर १५ अप्रैल को टाउनहाल ही में सभा कराई । वा० प्रमदादास मित्र सभापति बनाए गए । भारतेन्दु जी ने सम्राज्ञी विक्टोरिया के दया आदि गुण का वर्णन कर यह भी प्रस्ताव किया था कि शोक प्रकाशक प्रस्ताव ड्यूक ऑव केनॉट के पास भी भेजा जाय । दोनों ही तार के लिए सभा के सभापति के नाम धन्यवाद आया था । भारतेश्वरी की आज्ञा से वाइसराय की ओर से उन्हीं मैजिस्ट्रेट द्वारा यह धन्यवाद आया था पर व्यर्थ ही उन्होंने किसी के वहकाने से ऐसे कार्य में बाधा डाली थी ।

कहा जाता है कि राजा शिवप्रसाद सी० एस० आई ने ही इस सभा को राजद्रोह-भूलक बतलाकर रोकना चाहा था । यह स्वयं सभा में पधारे थे और कुछ कहना भी चाहते थे पर उपस्थित सज्जनों ने इन्हे बोलने की आज्ञा नहीं दी । इस पर यह भारतेन्दु जी ही पर विशेष कुड़े और काशिराज के यहाँ जाकर इन्हे ही अपने अपमान का कारण बतलाया । महाराज ने भारतेन्दु जी को पत्र लिखा कि 'राजा साहब का क्यों अपमान किया गया ? उनका अपमान करना मानो दरवार का अपमान करना है।' इस पत्र को देखकर भारतेन्दु जी ने पत्रोत्तर न देकर केवल मौखिक स'देशा कहला भेजा

कि काशिराज के लिये हम दोनों समान हैं। पर महाराज ने हमारे अपमान का कुछ न ध्यान कर राजा साहिव के अपमान से अपना अपमान समझा तो अब हम भी महाराज के दरबार में न आएँगे।

पूर्वोक्त बातों के सिवा साधारणतः वे सम्राज्ञी के प्रति वर्षगांठ पर अपने स्कूल में उत्सव मनाया करते थे। ड्यूक ऑव एडिम्बरा की नव वधू के लिए २० दोहों में 'मुँह दिखावनी' लिखी थी। इस प्रकार देखा जाता है कि वे भारत सरकार की कृपा तथा कोप दोनों ही की परवाह न कर अथ से अत तक महारानी के सुख में सुख तथा दुख में दुख मनाते रहे। ऐसा करते हुए भी यदि कुछ लोग उन्हें राजद्रोही समझते रहे हो तो उसकी वे सर्वदा उपेक्षा करते थे। वे हृदय से पूर्ण राजभक्त थे, हाँ राजकर्मचारी-भक्त या चापलूस न थे। वे स्पष्टवादी थे। गुणानुकीर्तन करते हुए वे दोष भी कहते थे। जिन्हे—

अंगरेज राज सुख साज सजे सब भारी ।

पै धन विदेश चलि जात यहै अति ख्वारी ॥

में राजद्रोह दिखलाई पड़े, वे ही सच्चे राजद्रोही हैं। सच्चे राजभक्तों की कमी तथा खुशामदियों के आधिक्य ही से कितने मुसलमानी राज्य गारत हो गए। भारतेन्दु जी ने स्वयं मानसोपायन के समर्पण में लिखा है कि “हम सब स्वभाव-सिद्ध राजभक्त हैं। विचारे छोटे पद के अंग्रेजों को हमारे चित्त की क्या खबर है, ये अपनी ही तीन छटांक पकाने जानते हैं।” इनमें राज-भक्ति तथा देश प्रेम दोनों पूर्ण रूप से वर्तमान था और दोनों ही के लिये इनका हार्दिक उद्गार गद्य पद्य के रूप में समय समय पर निकला करता था। ऐसी अवस्था में भारतेन्दु जी के प्रति साधारण पुरुष गण कभी एक को कभी दूसरे को लेकर अपने द्वेषपूर्ण कुवृत्तियों को चरितार्थ कर सकते हैं। उन्हें देशद्रोही तथा राजद्रोही उन्हीं की रचनाओं से साबित कर देना सहज हो गया है। पर ऐसा करना मनुष्यत्व से परे है। ये भारतीय दुर्गुणों को दिखलाकर उनको दूर करने, उसकी अवनति तथा दुर्दशा पर रुदन करने तथा उन्नति मार्ग दिखलाने को जिस प्रकार देश प्रेम समझते थे उसी प्रकार राजा या उसके कर्मचारियों द्वारा जान या अनजान में प्रजा को जिस कार्य से

कष्ट पहुँचा हो उसको राजा के कर्णगोचर करना राजभक्ति समझते थे। वे एक साँस में दोनों को यों कह डालते थे—

स्वागत स्वागत धन्य प्रभु, श्री सर विलियम म्योर।

टिक्स छुड़ावहु सवन को विनय करत कर जोर॥

देखिए इसमें देशद्रोह तथा राजद्रोह दोनों का कैसा अनूठा जोड़ है पर है यह सच्चे निर्भीक हृदय का गंभीर कथन। आज बहुत पढ़े लिखे समग्र भारत के गण्यमान्य लोग भी ऐसा कहने में हिचकते हैं। वे दो में से एक बनते हैं। या वे अपने को पक्का देश भक्त दिखलाने के लिए अंग्रेजों के गुणों को भी दोष रूप में दिखलावेंगे या पूरे अंग्रेज भक्त बनकर उनके दुर्गुण भी छिपावेंगे।

पूर्वोक्त दोहा उस अवसर पर बना था जब पश्चिमोत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्योर काशी आए थे और उनके स्वागत में गंगातट पर खूब रोशनी हुई थी। उसी उत्सव में एक नाव पर 'ओह टैक्स' और दूसरी पर यह दोहा लिखवाकर इस प्रकार उन्हें रखवाया था कि लाट साहब की उनपर अवश्य दृष्टि पड़े। लॉर्ड नार्थब्रुक के समय इनकम टैक्स छुड़ाने की गप्प उड़ी थी और उसके लिए भारतेन्दु जी ने उत्सव मनाने के लिए सभा की थी तथा बड़े लाट के पास धन्यवाद पत्र भी मोती टँके हुए खरीते में भेजा था पर यह अपव्यय मात्र था, क्योंकि वह तुरी बला आज भी कमासुतों के, निठल्लुओं के नहीं, पीछे पड़ी हुई है।

धर्म ग्रंथ

सांसारिक सुखों में लिप्त ज्ञात होते हुए भी भारतेन्दु जी ने स्वधर्म विषयक जितना ज्ञानोपार्जन किया था और जितनी उनकी धर्म सम्बन्धी रचनाएँ प्राप्त हैं उनसे यह स्पष्टतः मालूम हो जाता है कि वे कितने धर्मभीरु तथा सच्चे कृष्णभक्त थे। इनकी अनन्य भक्ति तथा प्रेम का दिग्दर्शन इन्हीं की रचनाओं द्वारा आगे कराया जायगा। इनकी इन रचनाओं को पढ़ कर इनकी दृढ़भक्ति तथा परम वैष्णवता में किसी को भी शंका नहीं रह सकती।

बाल्यावस्था ही से इनमें धर्म-तत्व विषयक शंकाएँ उठा कर उन्हें समझने का शौक था और 'जल में छाया' न्यायेन विषय भोग में लिप्त ज्ञात होते हुए भी यह उनसे परे रहे। इन्होंने लगभग तीस पुस्तिकाएँ इस विषय पर लिखी हैं।

'भक्त सर्वस्व' में लगभग चार सौ दोहे हैं। इनमें श्री कृष्ण जी, श्री स्वामिनी राधिका जी, श्री रामचन्द्र जी तथा महाप्रभु आचार्य जी के चरण चिह्नों पर कवि ने अनेक प्रकार से उक्तियाँ कही हैं। प्रथम दो पर ही विशेष है। एक एक चिह्न पर आठ आठ दस दस भाव तक कहे गए हैं, जिनसे भक्ति रस उमड़ा पड़ता है। इसका प्रथम संस्करण सन् १८७० ई० में प्रकाशित हुआ था। इसका एक संस्करण गुजराती लिपि में भी सन् १८७३ ई० में छपा था। 'वैष्णव-सर्वस्व' में वैष्णव मत के चारों संप्रदायों—विष्णु स्वामी, रामानुज, माधवाचार्य तथा निम्बादित्य की परंपरा—तथा आचार्यों के सक्षिप्त परिचय दिए गए हैं। चारों उप संप्रदायों—श्री चैतन्य महाप्रभु, नंद, प्रकाश तथा स्वरूप—का भी उल्लेख किया गया है। 'वल्लभीय सर्वस्व' छोटा सा ग्रन्थ है, जिसमें केवल श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के विषय में कुछ विस्तार से लिखा गया है। इसमें उनकी जीवनी तथा उनके स्वमत प्रचार का वृत्तांत दोनों दिया गया है।

'तदीय सर्वस्व' श्री नारदीय भक्ति सूत्र का व्याख्या युक्त अनुवाद है। पहिले यह 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' की पाँचवीं संख्या में सन् १८७४ ई० के फरवरी में मूल तथा अर्थ सहित प्रकाशित हुआ था। उसके अनंतर प्रत्येक सूत्र की विस्तृत व्याख्या लिख कर यह ग्रंथ प्रस्तुत किया गया। ग्रंथकार ने परमेश्वर-प्राप्ति के परम साधन प्रेममार्ग दिखलाने के लिए ही यह ग्रन्थ लिखा है। 'सारी सृष्टि के एक स्रष्टा का भिन्न भिन्न नाम रख कर जो मत मतान्तर तथा विद्वेष फैला हुआ है उसी विषमता को दूर करने को इस ग्रन्थ का आविर्भाव है।'

'भक्ति सूत्र वैजयंती' पहिले हरिश्चन्द्र मैगजीन के अक्टूबर, नवम्बर तथा जनवरी की संख्याओं में प्रकाशित हुई थी। श्रुतियों के बाद मूल सूत्रों का बहुत आदर है। भक्ति शास्त्र पर श्री नारद तथा शांडिल्य ऋषि के सूत्र

सर्वसाम्य हैं। इन्हीं में दूसरे का व्याख्या युक्त अनुवाद ही यह ग्रन्थ है। इसमें सौ सूत्र हैं और भक्ति की महत्ता दिखलाई गई है। ग्रन्थ के अंत में दैन्य प्रलाप नाम से आठ पद भी इसमें दिए गए हैं।

‘सर्वोत्तम स्तोत्र भाषा’ में श्री बल्लभाचार्य महाप्रभु के एक सौ आठ नाम दिए गए हैं। यह गोस्वामी श्री विठ्ठलनाथ जी रचित स्तोत्र का अनुवाद है। ‘उत्तरार्द्ध भक्तमाल’ में एक सौ एकतालीस छप्पय तथा सत्तर दोहे हैं। अतः में एक श्लोक भी दिया है। प्रियादास तथा नाभादास जी के भक्तमाल की रचना के बाद के हुए भक्तों तथा पहिले समय के भी छुटे हुए भक्तों का वृत्तांत इसमें भारतेन्दु जी ने संगृहीत किया है। इसकी रचना—

उनइस सै तैंतीस वर, संवत् भादो मास ।

पूनों शुभ ससि दिन कियो, भक्त चरित्र प्रकास ॥

इस ग्रन्थ को इन्होंने पहिले चन्द्रिका में प्रकाशित किया था। कवि ने पहिले आचार्य परम्परा की वन्दना की है और तब ग्रन्थ-रचना का उद्देश्य बतलाते हुए स्ववंश वर्णन दिया है। मूल ग्रन्थ के अन्त में विनम्र निवेदन करते हुए अपने को लिखा है :—

जगत जाल में नित वैध्यो, परयो नारि के फंद ।

मिथ्या अभिमानी पतित, कृगो कवि हरिचंद ॥

वर्ष भर के उत्सवों तथा संक्षेप सेवा शृंगारादि वर्णन में एक छोटी सी पुस्तिका ‘उत्सवावली’ बनाया था। इसमें एकादशी व्रत दान आदि का भी वर्णन दिया है। ‘वैष्णवता और भारतवर्ष’ में यह समर्थन विशेष रूप से किया गया है कि भारत में वैष्णव मत बहुत प्राचीन है और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण तथा श्री राम की भक्ति तथा उपासना यहाँ बहुत दिनों से करते हैं पर तथा दृढ़ता से प्रचलित है। हिन्दू मात्र किसी न किसी रूप में इन्हीं की पूजा आपस के मतमतांतर के कारण भगड़ते रहते हैं। अंत में लेखक ने देश में फैली हुई आपस की फूट को दूर कर ‘सब आर्यमात्र एक रहो’ यही उपदेश दिया है, जो आज भी वाञ्छनीय है।

‘अष्टादश पुराणोपक्रमणिका’ में व्यासकृत अठारह पुराणों की श्लोक-संख्याओं तथा उनके प्रत्येक के स्कंध आदि विभागों के कथानकों का अलग अलग उल्लेख किया गया है। ‘इससे पाठकों को यह लाभ है कि वे किस पुराण में अथवा उसके किस अंश में क्या कथा भाग है, इसे भट जान सकेंगे।’ ‘सहज में लोग जान जायँगे कि चार लाख श्लोक समूह के अठारह टुकड़ों में क्या क्या विषय सन्निवेशित है।’ यह पहिले पहिले सन् १८७५ ई० की हरिश्चन्द्र चन्द्रिका में प्रकाशित हुआ था।

तिरान्त्रे दोहों में ‘वैशाख माहात्म्य’ दिखलाया गया है। इस मास में श्रद्धालुओं को क्या करना चाहिए, यह बतलाया गया है। कार्तिक कर्म विधि में इस महीने की पुराणानुमोदित नित्य क्रियाएँ वर्णित हुई हैं। खान, पान, दान, स्नान आदि सभी का शास्त्र के वचनों सहित विवरण दिया गया है। ‘कार्तिक नैमित्तिक कृत्य’ में महीने के तीसों दिन का अलग अलग कृत्य बतलाया गया है। ‘कार्तिक स्नान’ में बीस दोहे और पचीस पद हैं। इसमें श्रीकृष्ण के अनन्य प्रेम तथा दीपदान-लीला का वर्णन है। कहा जाता है कि किसी वर्ष बीमारी के कारण यह गंगा स्नान को न जा सके थे, इस लिये ये पद बनाए थे। ‘मासानाम्मार्गशीर्षोहम्’ से पवित्र महीने की महिमा वर्णन में ‘मार्गशीर्ष महिमा’ लिखी गई। इसमें भी महीने भर के नित्य-कर्म की विधि दी है। अंत में माघ-स्नान-विधि भी संक्षेप में दे दी गई है। बृहन्नारदीय पुराण से संकलित कर ‘पुरुषोत्तम मास विधान’ लिखा गया। इसमें स्नान-दान की विधि लिखी है। अंत में पाँच पद ‘पुरुषोत्तम पंचक’ नाम से दिए गए हैं।

काव्य

राजभक्ति पूर्ण तथा धर्म सम्बन्धी पद्य रचनाओं का अलग उल्लेख हो चुका है। इसमें भारतेन्दु जी की अन्य पद्य रचनाओं का वर्णन दिया जायगा। इन्होंने प्रबन्ध काव्य लिखने का प्रयास ही नहीं किया है और स्व-रचित मुक्तक छन्दों के ही संग्रह अनेक नामों से संकलित किए हैं। गाने योग्य पदों की संख्या अधिक है, और छन्दों में सवैया, कवित्त, दोहे आदि ही इन्हे विशेष प्रिय थे, इससे इनकी रचना में उन्हीं का आधिक्य है। इनकी

कविता में रसों में शृंगार तथा भक्ति ही प्रधान है और शृंगार रस भी प्रेम-मयी लोलासम्बन्धिनी ही विशेष कर होने से पाठकों के हृदय में किसी प्रकार से कुरुचि-उत्पादक नहीं है। हरिश्चंद्रकला के काव्य खंड में अट्ठाइस पुस्तकें संगृहीत की गई हैं, जिन में से कई एक पृष्ठ तक की हैं। सात काव्य-संग्रह शुद्ध प्रेम पर बने हैं, जिनके नाम प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग और प्रेम सरोवर हैं। नवोदिता चंद्रिका में एक अन्य प्रेम प्रलाप क २४ पृष्ठ छपे हैं, जिनमें एक्यावन पद हैं। इनमें कवित्त, सवैये तथा गाने योग्य पद हैं। प्रेम फुलवारी में 'जगत पावन करन' प्रेम का वर्णन है। इस ग्रंथ को कवि ने भूमि, वृक्ष, मूल तथा फल चार भाग में बाँटा है। प्रथम में तेरह, दूसरे में छियालिस, तीसरे में आठ और चौथे में तेरह पद हैं। अंत में तेरह पद श्री स्वामिनी जी की स्तुति में हैं। इसके सभी पद सुन्दर हैं और इस प्रेम के फल स्वरूप भक्त के हृदय में कैसा युगल ध्यान प्रस्फुटित होता है, उसे कवि यों कहता है :—

मन करु नित नित यह ध्यान ।

सुन्दर रूप गौर श्यामल छवि जो नहि होत बखान ॥

सुकुट सीस चन्द्रिका बनी कनफूल सुकुण्डल कान ।

कटि काछिनि सारी पग नृपुर विछिया अनवट पान ॥

कर कंकन चूरी दोड भुज पै बाजू सोभा देत ।

केसर खौर विंदु सेंधुर को देखत मन हरि लेत ॥

मुख पै अलक पीठ पै बेनी नागिनि सी लहराति ।

चटकीली पट निपट मनोहर नील पीत फहराति ॥

मधुर मधुर वंसी अघरन धुनि तैसी ही मुसुकानि ।

दोड नैननि रस भीनी चित्तवनि परम दया की खानि ॥

ऐसो अद्भुत भेष विलोकत चकित होत सब आय ।

'हरीचंद' बिन जुगल कृपा यह लख्यौ कौन पै जाय ॥

प्रेम प्रलाप में सत्तर पद संगृहीत हैं जिनमें संस्कृत की एक अप्रपदो है और दो पद गुजराती भाषा के हैं। इसके अधिकांश पद में प्रेम जनित

उन्माद के भाव भरे हुए हैं। “खुटाई पोरहि पोर भरी” “अनीतैं कहौ कहाँ लौ सहिए” “जनन सों कबहूँ नाहिं चली” आदि पद भक्तो के प्रलाप ही हैं। प्रेमाश्रुवर्षण मे छिआलिस पद हैं और सभी वर्षा ऋतु की क्रीड़ा के हैं। वर्षा हो रही है और उसी मे हिडोले पर झूलने, भींजते हुए कुंजों मे छिपने, वर्षा के अनन्तर भ्रमण करते हुए दृश्यावली को देखते हुए आपस के कथोपकथन आदि का वर्णन है। एक पद मे प्रेमाश्रुवर्षण से नदी ही बहा कर स्वयं डूबती हुई की रक्षा करने की महाबाहु से प्रार्थना की गई है, देखिए—

हमारे नैन बही नदियाँ ।

बीती जानि औधि सब पिय की जे हम सों बदियाँ ॥
 श्रवगाह्यौ इन सकल अंग व्रज अंजन को धोयो ।
 लोक-वेद-कुल-कानि बहायो सुख न रह्यो खोयो ॥
 डूबत हौं अकुलाह अथाहन यहै रीति कैसी ।
 ‘हरीचंद’ पिय महाबाहु तुम आछत गति ऐसी ॥

भारतेन्दु जी ने प्रेम की सारी माधुरी प्रेम माधुरी के दो दोहों तथा एक सौ बाईस सवैयो मे भर दी है। वाग्जाल तथा अलंकार आदि से लदी फदी कविता के अन्वेषकों को इनमे उनके मनोनीत आस्वादन चाहे न मिले पर स्वच्छ स्वाभाविक निर्मल वाग्धारा के प्रेमियो को इनमें वह स्वाद तथा मधुरिमा मिलेगी जो सर्वदा उनके जिह्वाग्र पर रहा करेगी। भारतेन्दु जी को अपनी काव्य रचनाओं में यह सब से अधिक प्रिय थी और यह इस योग्य है। जैसी स्वच्छ भाषा है, वैसे ही उमड़ते हुए भाव भी व्यक्त किए गए ह, जिन्हे समझने मे टीका कोप आदि किसी की सहायता वाँछनाय नहा है। सभी सवैये एक से एक बढ़ कर है। पहिली ही सवैया लीजए—

राखत नैनन में हिय मैं भरि दूर भएँ छिन होत अचेत है ।
 सौतिन की कहै कौन कथा तसवीर हू सों सतराति सहेत है ॥
 लाग भरी अनुराग भरी ‘हरिचंद’ सबै रस आपुहि लेत है ।
 रूप-सुधा इकली ही पियै पिय हू को न आरसी देखन देत है ॥

प्रीतम कठिन प्रेम के पाले पड़ गया है। प्रेमिका के अनन्य प्रेम का बहुत ही अच्छा वर्णन है। क्षण मात्र के वियोग की असह्यता भी दिखला दी गई है। पति पर ऐसा प्रेम है कि उसे आँखों तथा हृदय में रख छोड़ा है और केवल अकेले रूप-सुधा बैठ कर पीते हुए भी नहीं अघाती। प्रेमावेश के कारण वह अपनी चीज़ किसी को देखने नहीं देती, दूसरे की कौन कहे पति राम आप भी अपना मुख नहीं देख सकते। क्यों, कहीं अपने ही ऊपर न रीझ जायँ। सारा रूप रस अपने ही चखना चाहती है। दूसरी वहाँ कब फटक सकती थी जब अन्य रमणी के चित्र को वहाँ देख कर वह कुपित होती थी। सत्य ही प्रेम अधा है वह अपनी स्वार्थान्धता के आगे दूसरे का कुछ भी विचार नहीं रखता।

प्रेम मालिका में निन्यान्नवे पद संगृहीत हुए हैं। इसमें एक तो लीला सम्बन्धी, दूसरे दैन्य भाव के और तीसरे परम प्रेममय पवित्र अनुभव के हैं। ये सभी पद अत्यंत सरल भाषा में हैं और प्रेम से परिप्लुत हैं। उपालंभ, कटूकित, विनय सभी अनूठे हैं। प्रेमतरंग बड़ा संग्रह है। इसमें एक सौ अड़तालिस पद हैं। इसके प्रायः सभी पद साधारण सांसारिक प्रेम के हैं, कुछ कृष्णलीला सम्बन्धी भी हैं। इनमें दो एक पंजाबी भाषा के भी पद हैं। एक वारहमासा तथा कई लावनियाँ और गजल भी संगृहीत हैं। छियालिस वगाली पद हैं, जिनमें 'चन्द्रिका' उपनाम दिया हुआ है। एकतालिस दोहों का 'प्रेम सरोवर' अनूठा पर छोटा संग्रह है। इसकी भूमिका जो सं० १९३० की अक्षय तृतीया को लिखी गई थी प्रेम रस से लबालब भरी है। इसकी रचना 'प्राननाथ के न्दान हित' हुई है, इसलिए वहाँ तक पहुँचने के प्रेम मार्ग की दुरूहता चौदह दोहों में बतलाई गई है। इसके अनंतर जलाशय की शोभा-वर्णन सात दोहों में हुई है। सात दोहों में प्रेम का महत्त्व बतलाया गया है और सात ही दोहों में प्रेम का किन में अभाव होता है यह बतला कर अन्तिम चार दोहों में सच्चे प्रेम की परिभाषा की गई है।

'होली' संग्रह में उन्यासी पद हैं, जो होलिकोत्सव के अवसर पर गाने योग्य हैं। दूसरा संग्रह 'मधु मुकुल' अर्थात् होली के पदों का संग्रह सं०

१९३७ के फाल्गुन में तैयार हुआ था। इसका उसी वर्ष जो संस्करण हुआ था, उसमें ग्यारह पद भारतेन्दु जी के पिता के तथा संस्कृत का एक पद गोपाल शास्त्री का संगृहीत था। इनके सिवा एक सौ बाईस पद भारतेन्दु जी के हैं, जिनमें एक संस्कृत का और चार पाँच पंजाबी के हैं। दो चार गजल आदि भी स्वरचित बदर सभा से भी इस संग्रह में सकलित कर लिए हैं। इसमें सभी पद होली ही के हैं। खड्ग विलास प्रेस की हरिश्चंद्र कला के 'मधु मुकुल' में केवल बयासी पद हैं। ज्ञात नहीं कि यह संग्रह किस प्रकार किया गया है। इस संग्रह के मुख पृष्ठ पर नीचे लिखे दो दोहे दिए गए हैं, जिनमें इस संग्रह के नामकरण का उद्देश्य दिया हुआ है।

मधु रिपु मधुर चरित्र मधु पुरित मृदु सुद रास ।
हरिजन मधुकर सुखद यह नव मधु मुकुल प्रकास ॥
हृदय बगीचा अश्रु जल बन माली सुख वास ।
प्रेम लता में यह भयो नव मधु मुकुल विकास ॥

सं० १९३९ में एक दर्जन लावनियों का संग्रह 'फूलों का गुच्छा' नाम से प्रकाशित हुआ। इसके सिवा प्रेम तरंग में भी कुछ लावनी संगृहीत होने का उल्लेख हो चुका है। विनय प्रेम पच्चासा में यथा नाम विनय के पचास पद संगृहीत हैं। छः दोहे, दो कवित्त तथा दो सवैये भी इसमें हैं। इसके तीसरे पद में कवि ने अपने ईश्वर का इस प्रकार आह्वान किया है—

नैनन में निवसो पुतरी है हिय में बसो है प्रान ।
अंग अंग सचरहु सुक्ति है एहो भीत सुजान ॥
नभ है परौ मम आँगन में पवन होइ तन लागौ ।
है सुगध मो घरहि बसावहु रस है के मन पागौ ॥
श्रवनन पूरौ होइ मधुर सुर अंजन है दोउ नैन ।
होइ कामना जागहु हिय में करहु नींद बनि सैन ॥
रहौ ज्ञान में तुम ही प्यारे तुम मय तन्मय होय ।
'हरीचंद' यह भाव रहै नहिं प्यारे इम तुम दोय ॥

अट्टारह पद से 'देवी छद्म लीला' समाप्त हो गई है। श्री राधिका जी का मान कर देवी का रूप बनाना तथा सखियों का सिद्धक साधक बन कर कृष्ण जी से उनकी पूजा कराना और अन्त में मिलन दिखलाया गया है। छद्मवीस पद में प्रातः स्मरण मंगल पाठ है जिनमें प्रत्येक पद का मंगल शब्द से आरंभ हुआ है। दस पद में भीष्म स्तवराज बना है। श्रीनाथ स्तुति में ६ छप्पय और अपवर्ग पचक से पाँच छप्पय है। प्रथम में श्री कृष्ण जी की और दूसरे में श्री कृष्ण जी, श्री राधिका जी तथा श्री बल्लभाचार्य जी की वदना है। श्री सीता बल्लभ स्तोत्र सस्कृत में है और इसमें तीस श्लोक हैं।

'वर्षा विनोद' बड़ा संग्रह है, जिसमें एक सौ चौतीस पद हैं। आरंभ के कुछ पद वर्षा में गाने योग्य हैं और बाद के अन्य पद लीला सम्बन्धी हैं। इनमें कजली, मलार, खेमटा, गजल, हिडोला आदि हैं। सस्कृत को भी दो कजली है। इनमें 'काहे तू चौका लगाये जयचँदवा' 'दूटै सोमनाथ को मंदिर केहू लागै न गोहार' 'देखो भारत ऊपर कैसी छाई कजरी' आदि भारत की राज-नैतिक तथा जातीय दुर्दशा और 'धन धन भारत के सब छत्री जिनकी सुजस धुजा फहराय' आदि पूर्व गौरव बतला रहे हैं। श्री कृष्ण, राधा जी तथा चंद्रावली जी के जन्मोत्सव के पद भी हैं। अन्तिम के लिये लिखा है कि 'प्रगटी सखी स्वामिनी की ब्रज सब मिलि नाचत गाई।' यहाँ भी स्वामिनी श्री राधिका जी हैं। एक पद इसका यहाँ दिया जाता है—

हमारी श्री राधा महरानी ।

तीन लोक को ठाकुर जो है ताहू की ठकुरानी ॥

सब ब्रज की सिरताज लाडिली सखियन की सुखदानी ।

'हरीचंद्र' स्वामिनि पिय कामिनि परम कृपा की खानी ॥

विहारी की सतसई के परिचय के लिये उसका नाम मात्र ही पर्याप्त है। इसके बहुत से दोहों पर पठान की बनाई कुंडलिया प्रसिद्ध है। भारतेन्दु जी ने उसी को देख कर इस सतसई के पचासी दोहों पर कुंडलिया बनाई, जो 'सतसई सिंगार' नाम से प्रकाशित हुई। किसी किसी दोहे पर चार पाँच कुण्डलिया तक बनी हैं, जिसमें इनमें कुल एक सौ उन्नीस कुंडलिया संगृहीत

हैं। इससे अधिक दोहों पर कुंडलिया बनाने का अवकाश ही उन्हें न मिल सका। यह सन् १८७५ ई० की मई से सितम्बर महीने तक की पाँच महीनों की एक साथ निकलनेवाली हरिश्चंद्र चंद्रिका की संख्या से छपने लगा था। बिहारी बिहार के कर्ता लिखते हैं कि 'कई वर्ष के श्रम मे केवल कई सौ दोहों पर इन ने कुंडलिया बनाई परन्तु ग्रन्थ पूरा न हुआ।' आत्माभिमानी विद्वद्वर व्यास जी ने अहंता के कारण पूर्वोक्त वाक्य बिना समझे लिख सारा है क्योंकि पूरे सौ दोहों पर भी कुंडलिया नहीं बनी हैं। 'आरंभशूर' भारतेन्दु जी के स्यात् दो चार दिन के श्रम का फल प्राप्त सतसई सिंगार है।

किसी जैन मंदिर मे जाने के कारण निंदा होने पर भारतेन्दु जी ने छत्तीस पद रचे थे, जिसका संग्रह जैन कुतूहल ग्रन्थ है। इन्होंने दिखलाया है कि हमारे ही ईश्वर जैनों के भी स्रष्टा है और दूसरा कोई ईश्वर आया ही कहाँ से—

पियारे दूजे को अरहंत ।

पूजा जोग मानि कै जग में जाके पूजै संत ।

अपनी अपनी रुचि सब गावत पावत कोउ नहिं अंत ।

'हरीचंद' परिनाम तुही है तासों नाम अरंत ॥

वशी की मधुर ध्वनि के वर्णन मे तेरह पदों का एक छोटा संग्रह बेणु-गीति के नाम से ग्रथित किया गया है, जिसके आरंभ मे आठ और अंत मे तीन दोहे हैं। गाने योग्य पदों का एक बड़ा संग्रह 'राग संग्रह' के नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसमे एक सौ इक्कावन भजन है। इसमे अनेक राग-रागिनी के पद हैं, जो विशेषतः ग्रीष्म ऋतु के समय के हैं। जयंतिओं, जन्म तथा बाललीला वर्णन के और दैन्य सम्बन्धी पद भी संगृहीत है। श्री वल्लभाचार्य, श्री गिरिधर जी आदि के सुयश कीर्तन के पद भी दिए गए हैं। यह संग्रह सन् १८८४ ई० के लगभग पहिली बार प्रकाशित हुआ था। प्रातः स्मरण स्तोत्र मे बारह पद है। इसके पाठ का फल कवि ने यों बतलाया है—

द्वादश द्वादश अर्द्ध पद प्रात पढ़े जो कोय ।

हरि पद बल 'हरिचंद' नित मंगल ताकों होय ॥

स्वरूप चिंतन में तेरह छप्पयों में श्री कृष्ण जी के प्रधान प्रधान मंदिरों की मूर्तियों के नामकीर्तन किए गए हैं। इनमें सभी में बाल स्वरूप ही का वर्णन है। प्रबोधिनी में पच्चीस छप्पय हैं। यह कार्तिक शुक्ल एकादशी के, जो देवोत्थान या प्रबोधिनी कही जाती है, उत्सव पर रचे गए हैं। उस दिन चातुर्मास के अनंतर विष्णु भगवान की निद्रा खुलती है। उस अवसर पर भगवान को जगाने के लिये मंगलवादन, पार्षद भक्तादि की उपस्थिति, सखी गोपी आदि का व्रज में गायन वादन, बालको का सवेरे का शृंगार इत्यादि वर्णित हैं। देश प्रेम के कारण भारत के प्राचीन विख्यात राजाओं के न रहने पर तथा मुसलमानों द्वारा देश की दुर्दशा पर रुदन करते हुये परमेश्वर से जागने के लिये इस प्रकार प्रार्थना की गई है—

दूवत भारत नाथ बेगि जागो अब जागो ।
 आलस-दव एहि दहन हेतु चहुँ दिशि सो लागो ॥
 महामूढता वायु बढ़ावत तेहि अनुरागो ।
 कृपा दृष्टि की वृष्टि बुझावहु आलस त्यागो ॥
 अपुनो अपुनायो जानि कै करहु कृपा गिरिवर धरन ।
 जागो बलि वेगहि नाथ अब देहु दीन हिंदुन शरन ॥

इक्कीस पयार छंद में 'प्रातसमीरन' का अच्छा वर्णन सृष्टु शब्दावली में किया गया है। प्रातःकालीन वायु लगने से ससार के सजीव हो जाने का स्निग्ध वर्णन इस वगला छंद में दिया गया है। 'कृष्ण चरित्र' में छिआलिस पद तीन कवित्त और दो सवैया हैं। गंगा जी की महिमा के आठ दस पदों को छोड़ कर बाकी सब कृष्ण जी के चरित्रा-वर्णन में हैं।


स्फुट ग्रन्थ तथा लेख

परिहास-प्रिय भारतेन्दु जी को विनोदपूर्ण रचनाओं में व्यंग्य मिश्रित आक्षेप तथा उपदेश दोनों ही रहता था। 'परिहास पंचक' में जाति विवेकिनी सभा, स्वर्ग में विचार सभा, सवै जाति गोपाल की, वसंत पूजा और खंड भंड संवाद पाँच लेख हैं। पहिले में एक गड़ेरिये को क्षत्रिय होने की व्य-

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र



उद्यान में भारतेन्दु जी



भारतेन्दु जी का दायँ हाथ

वस्था मिली है, जिस पर प्रसन्न हो दक्षिणा देकर वह सपत्नीक गाता है—

आव मेरी जानी सकल रस खानी ।
 धरि कँध बहियाँ नाचु मन मानो ॥
 मैं भैलों छतरी तू धन छतरानी ।
 अब सब छुटगै रे कुल केर कानी ॥
 धन धन बम्हना लै पोथिया पुरानी ।
 जिन दियो छतरी बनाय जग जानी ॥

दूसरा लेख स्वामी दयानन्द तथा केशवचन्द्र सेन की मृत्यु पर लिखा गया था जिसका अंग्रेजी अनुवाद 'क्रान्तिकल पत्र' में छपा था। उस विचार सभा में यह प्रश्न उठाया गया था कि उक्त दोनों सज्जनों को स्वर्ग में स्थान मिलेगा या नहीं। इस पर सेलेक्ट कमीटी द्वारा रिपोर्ट ईश्वर के पास भेजवाई गई है, पर उस पर क्या आज्ञा हुई इस विषय पर लिखा है कि 'जब हम भी वहाँ जायँगे और फिर लौटकर आ सकेंगे तो पाठक लोगों को बतलावेंगे या आप लोग कुछ दिन पीछे आप ही जानेंगे।' तीसरे लेख में नीच जाति के उच्च तथा उच्च के नीच होने की व्यवस्था दिलाते हुए दिखलाया गया है कि सबै जाति गोपाल की है।

परिहासिनी में भी इसी प्रकार के लेख सगृहीत हैं, जिनमें एक पाँचवाँ पैगम्बर भी है। वेश्या स्तोत्र, अंग्रेज स्तोत्र, कंकड़ स्तोत्र आदि इसी प्रकार के अनेक छोटे छोटे गद्य पद्यमय लेख लिखे हैं। अधेर नगरी, नीलदेवी आदि नाटकों में भी अवसर पाते ही व्यंग्य तथा परिहास की छटा दिखलाते रहे हैं। 'अमानत' के 'इन्दर सभा' के वजन पर 'खियानत' नाम से एक 'बन्दर सभा' भी लिखा है। यह अप्राप्त है पर इसमें के कुछ गाने मधुमुकुल आदि सग्रहों में मिलते हैं।

उपन्यास और आख्यायिका की ओर इनकी दृष्टि बहुत बाद फिरी और अवस्था कम प्राप्त होने से यह इस ओर विशेष कुछ न कर सके। गद्य-पद्यमय 'रामलीला' लिखी है जिसमें अयोध्याकांड तक की लीला सन्निवेशित

है। हम्मीरहठ का एक परिच्छेद लिखा था पर उसे वे पूर्ण न कर सके। वंकिम चंद चैटर्जी के 'राजसिंह' का अनुवाद अधूरा होकर रह गया। इसे बाद को वा० राधा कृष्ण दास जी ने पूरा किया था। 'एक कहानी कुछ आप वीती कुछ जग वीती' में अपना कटु अनुभव लिख रहे थे पर यह भी अपूर्ण रह गई। 'मदालसोपाख्यान' पूरा छप गया है। यद्यपि भारतेन्दु जी ने एक भी पूरा उपन्यास नहीं लिखा है पर एक पत्र से ज्ञात होता है कि इन्हीं के उत्साह दिलाने से उस समय स्वर्गीय श्री गोस्वामी राधाचरण जी ने दीप-निर्वाण तथा सरोजिनी का उत्था किया और वा० गदाधर सिंह ने कादंबरी का संचित तथा दुर्गेशनन्दिनी का पूरा अनुवाद किया था। प० रामशंकर व्यास द्वारा मधुमती और वा० राधाकृष्ण दास द्वारा स्वर्णलता अनुवादित हुई थी। चन्द्रप्रभा पूर्णप्रकाश, राधारानी, सौन्दर्यमयी आदि भी इसी प्रकार अनुवादित हुए थे।

भारतेन्दु जी ने 'कुरान शरीफ' के कुछ अंश का भी हिंदी में अनुवाद किया था। उर्दू में स्वयं 'रसा' उपनाम से कविता करते थे और अन्य कवियों के अच्छे-अच्छे गज़लों का एक संग्रह 'गुलज़ारे पुर बहार' के नाम से प्रकाशित भी किया था। सन् १८८३ ई० में 'कानून ताजीरात शौहर' अदालती उर्दू में लिखा था, जिसका तारीखी क़िता फारसी में लिखा है। इसे उन्होंने एक दिन रात के समय दो तीन घण्टे में लिखवा दिया था। खुशी पर पन्द्रह पृष्ठ का एक बड़ा लेख लिख डाला है, जो बोल चाल की उर्दू में है।

'हिंदी भाषा में प्राचीन तथा वर्तमान भाषाओं के नमूने संगृहीत किए हैं। पञ्जाबी, वैसवाड़ी, बङ्गला आदि की कविताओं के उदाहरण तथा अनेक स्थानों की बोली के नमूने गद्य में दिए हैं। जी० एफ० निकौल तथा फ्रेडरिक पिनकॉट नामक अंग्रेजों के हिंदी भाषा के पत्र भी उद्धृत कर अंग्रेजी-हिंदी का नमूना दिखलाया है। इसके अनंतर बिहारी भाषा के गद्य तथा पद्य का नमूना भी मनोरंजक है। अन्त में हिन्दी की उन्नति पर अपना लेखर तथा कविताष्टक देकर पुस्तक समाप्त किया है। 'सङ्गीतसार' में गान विद्या का इतिहास तथा उसके भेदोपभेद का संचित विवरण दिया गया है।

नवोदिता चंद्रिका में 'कृष्ण भोग' छपा है, जिसमें अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाने का वर्णन है। इन सब के सिवा छोटे छोटे बहुत से लेख लिखे हैं, जिनका अब तक कोई संग्रह नहीं हुआ है। ये इनके प्रकाशित पत्रों की पुरानी फाइलों में बंद पड़े हुए हैं।

इसके अतिरिक्त भारतेन्दु जी ने अन्य लोगों के कितने ग्रंथ भी सम्पादित करके प्रकाशित किए थे, जिनमें 'हठी' कवि कृत 'श्रीराधा सुधा शतक' घनानन्द कृत सुजान शतक, रत्नहरिदास कृत 'कौशलेस कवितावली', संतोष सिंह कृत 'कवि-हृदय-सुधाकर आदि मुख्य है। अपने पिता बा० गोपाल चन्द्र जी की कई रचनाएँ भी इन्होंने संपादित कर छपवाई थीं। सुन्दरी-तिलक सवैयों का एक अनूठा संग्रह इन्होंने संकलित किया था। इसे कुछ लोगों ने उसी समय इनका बिना नाम दिए ही प्रकाशित कर लिया था। इस संग्रह का आधुनिक संस्करण बहुत बड़ा हो गया है। श्री काशिराज के आज्ञानुसार काष्ठ जिह्वा स्वामी के पदों के कजली मलार-संग्रह तथा चैती घांटो संग्रह छापे थे। पावस कविता संग्रह में उसी ऋतु की कविता संगृहीत हुई है।

इतिहास

भारतवर्ष सदा से इस लोक के परे परलोक की ओर ही विशेष दृष्टि रखता था और यही कारण है कि उसके प्राचीन साहित्य में धार्मिक ग्रंथों का जितना आधिक्य है उतना अन्य विषयों के ग्रंथों का नहीं है। इसी निवृत्ति मार्ग के ग्रहण करने के कारण पुराणों ने, जो वास्तव में इतिहास ग्रंथ हैं, धार्मिक रूप धारण कर लिया है और इनके पढ़ने का फल भूतकाल के इतिहास का ज्ञान न रह कर मोक्षप्राप्ति का साधन समझ लिया गया है। संस्कृत साहित्य के इतिहास में विक्रम शाका के चलने के बहुत दिनों बाद के लिखे गए कुछ काव्य अवश्य मिलते हैं जिनमें ऐतिहासिक वृत्तों का समावेश हुआ है। शृंगलावद्ध इतिहास का अन्वेषण निरर्थक है, केवल राजतरंगिणी ही एक ऐसा ग्रंथ उपलब्ध है, जिसमें काश्मीर का क्रमबद्ध इतिहास दिया गया

है। हो सकता है कि इस प्रकार के कुछ और ग्रंथ भी पहिले रहे हों पर समय, धार्मिक दृष्टि तथा राज्यों के उलट फेर में वे नष्ट हो गए हों। हिन्दी साहित्य में भी आज से पचास साठ वर्ष पहिले के निर्मित कितने इतिहास ग्रंथ हैं, जो वास्तव में इतिहास कहे जा सकते हैं। हिन्दी के आरम्भ के वीर गाथा काल में अवश्य कुछ रासो लिखे गए हैं, जिनमें किसी किसी वीर राजा की चढ़ाइयों, युद्धों आदि का उत्तम वर्णन है। वे कविताबद्ध जीवनियाँ कही जा सकती हैं। किसी किसी के आरम्भ में वंशावली भी दी गई है। मराठा उत्थान काल में भी कई काव्य ऐसे बने हैं जिनमें शिवाजी, छत्रसाल, राजसिंह आदि से वीरों का वर्णन है। राजस्थान की ओर ख्यातों के लिखने की प्रथा पुरानी है और उनमें उस प्रांत के इतिहास की सामग्री भी बहुत है पर वे एक एक राजवंश का वर्णन करती हैं और समग्र भारत क्या पूरे प्रांत तक के इतिहास से संबंध नहीं रखतीं। ये राजस्थानी भाषाओं में हैं। हिन्दी गद्य साहित्य का आरम्भ भी उन्नीसवीं ईसवी शताब्दि के साथ साथ होता है और उस काल में भी कुछ पाठ्य-ग्रंथों के बनने के सिवा विशेष कुछ न हुआ। प्रायः उसके साठ वर्ष बाद भारतेन्दु जी ने जब हिन्दी साहित्य के सभी अंगों की पुष्टि की और अपनी लेखनी चलाई और मातृ-भाषा-प्रेम का अविरल स्रोत बहाया तभी से हिन्दी की उत्तरोत्तर श्री वृद्धि होती चली जा रही है। उनके समय तक केवल इतिहास की दो चार छोटी मोटी पुस्तकें लिखी गई थीं, जो अंग्रेजी की अनुवाद मात्र थीं। भारतेन्दुजी ने इस अंग की कमी की ओर दृष्टि फेरी और कई पुस्तकें लिख डालीं।

प्राचीन समय के ऐतिहासिक अन्वेषण का भी हिन्दी साहित्य में भारतेन्दु जी ही ने आरम्भ किया है और पुरावृत्त संग्रह, रामायण का समय आदि कई पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने स्वयं अन्वेषक (ऐटिक्वेरियन) शब्द की परिभाषा यों की है कि 'जो मूर्तियाँ मिलें वह जैनों की हैं, हिन्दू लोग तातार से वा और कही पश्चिम से आए होंगे, आगे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती थी इत्यादि कई बातें बहुत मामूली हैं, जिनके कहने ही से आदमी ऐटिक्वेरियन हो सकता है।' इस प्रकार के अन्वेषकों से भारतीय प्राचीन

इतिहास का उद्धार होना असंगत ही था। हिन्दी में उस समय तक इस विषय पर कुछ लिखा ही नहीं गया था इसीलिए आपने इस ओर पहिले पहिले दृष्टि देकर कुछ लिखना आरम्भ कर दिया। पुरातन वृत्त के अनुसंधान में इन्होंने बहुत कुछ व्यय कर प्राचीन प्रशस्तियों, लेखों आदि की प्रतिलिपियाँ एकत्र की थीं और बहुत से पुराने समय के सिक्के भी संग्रह किए थे। इनके ग्रंथों के अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि इन्हे इतिहास से बहुत प्रेम था और उस विषय का इनका ज्ञान भी बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ था। हरिश्चन्द्र कला के द्वितीय खंड इतिहास समुच्चय में तेरह पुस्तके संगृहीत हैं। इन सब से भी पुरावृत्त की ओर ही इनकी रुचि विशेष रूप से पाई जाती है।

पहला ग्रंथ काश्मीर कुसुम है। इसकी भूमिका में भारतेन्दु जी लिखते हैं कि 'काश्मीर के इतिहास में कल्हण कवि की राजतरंगिणी मुख्य है।कल्हण ने जयसिंह के काल में सन् ११४८ ई० में राजतरंगिणी बनाई। यह काश्मीर के अमात्य चंपक का पुत्र था.....इसके पीछे जोनराज ने सन् १४१२ ई० में राजावली बनाकर कल्हण से लेकर अपने काल तक के राजाओं का उसमें वर्णन किया। फिर उसके शिष्य श्रीवरराज ने १४७७ ई० में एक ग्रंथ और बनाया। अकबर के समय प्राज्यभट्ट ने इस इतिहास का चतुर्थ खंड लिखा।' यद्यपि यह समस्त ग्रंथ उस समय प्राप्त हो गया था, पर उसके केवल छ सर्ग ही का अनुवाद उस समय तक प्रकाशित हुआ था। इस तथा अन्य कई फारसी और अंग्रेजी के ग्रंथों के आधार पर भारतेन्दु जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भूमिका के अनंतर वर्तमान राजवंश का संक्षिप्त परिचय देकर राजतरंगिणी की समालोचना की गई है। इसके बाद श्री हर्ष देव के विषय में कुछ लिखकर एक लंबी तालिका दी है जिसमें द्वापर काल के आदि-गोानर्द राजा से अपने समय के महाराज रणधीर सिंह तक के २१३ नरेशों का वर्णन दिया है। इसमें पुरातत्वज्ञ ट्रायर, कनिंगहम और विलसन के मतों के अनुसार अलग २ समय भी प्रायः बहुत से राजाओं के दिए गए हैं। इस ग्रंथ के लिखने में भारतेन्दु जी ने बहुत मनन तथा परिश्रम किया था और इसी से यह ग्रंथ उन्हें विशेष प्रिय था।

महाराष्ट्र देश का इतिहास छोटी सी दश पृष्ठों की एक पुस्तिका मात्र है। इसका भी दो भाग है, प्रथम में शिवाजी और दूसरे में पेशवाओं का वृत्तान्त है। यह सक्षिप्त इतिहास भी अशुद्धियों से रहित नहीं है पर उस समय के लिये वही बहुत था। आज ग्रांटडफ के 'मराठों के इतिहास' का महत्व केवल उसकी प्राचीनता मात्र ही में रह गया है।

तीसरी रचना 'वूँदी का राजवंश' है। यह भी छोटी सी पुस्तिका है और इसमें वूँदी की हाड़ा राजवंशावली दी गई है। अंत में कोटा की शाखा की नामावली भी दे दी गई है। चौथी पुस्तक 'रामायण का समय' में 'वे ही बातें दिखाई जाती हैं जो वास्तव में पुरानी हैं पर अब तक नई मानी जाती हैं और विदेशी लोग जिनको अपनी कहकर अभिमान करते हैं।' वाल्मीकीय रामायण के प्रत्येक कांड से कुछ कुछ बातें, जैसे शतपत्नी, श्री कृष्ण पूजा की प्राचीनता आदि चुनकर दिखलाया है कि ये सब उक्त रामायण की रचना के समय में वर्तमान थीं। इस ग्रन्थ का महत्व पुरावृत्त सम्बन्धी है।

इसके अनंतर सं० १९२८ में 'अग्रवालों की उत्पत्ति' तथा सन् १९३० में 'खत्रियों की उत्पत्ति' लिखी गई। इन दोनों में अपनी जानकारी के सिवा अन्य मित्रों की सम्मतियाँ भी संगृहीत कर दी गई हैं। ये दोनों पुस्तकें पहिले छोटे साइज में मेडिकलहाल से प्रकाशित हुई थीं। पहिली का बाद को परिवर्धित होने पर कई संस्करण निकला। दूसरी का वा० रामकृष्ण वर्मा ने प्रतिवाद किया था जिसका भी 'खत्रियों की उत्पत्ति' ही नाम है। इसके अनंतर भारतेन्दु जी ने अन्य कई सज्जनों की सम्मतियाँ भी अपनी रचना में सम्मिलित कर तथा 'हरिश्चन्द्र मैगजीन, से उद्धृत कर, जिसमें यह पहिली बार लेखरूप में प्रकाशित हुआ था' पुस्तकाकार छपवाया था।

बादशाह दर्पण में मुहम्मद के जन्म से भारत में मुसलमानी राज्य के अस्तकाल तक का इतिहास संक्षेप में लिखा गया है। इसमें एक बड़ी तालिका दी गई है जिसमें सुल्तानों तथा बादशाहों के पिता माता का नाम, जन्मवर्ष, राजगद्दी तथा मृत्यु की 'अवजद' के अनुसार फारसी तारीख निकालने के शैल आदि प्रायः सभी ज्ञातव्य बातें दी गई हैं, जिनसे इतिहास-प्रेमियों का

बहुत कुछ कुतूहल शांत होता है। दास, खिलजी, तुगलक, सैयद, तथा लोदी वंश वर्णन की तालिका बहुत संक्षिप्त है पर तैमूरिया वंश की, जो सैयद अहमद के बनाए चक्र के आधार पर है, विशेष विस्तृत है। उस चक्र में तैमूर से शाह आलम तक का पूरा विवरण दिया गया है और बाद का बहादुरशाह तृतीय तक का वृत्तांत भारतेन्दु जी के मातामह राय खिरोधर लाल ने संगृहीत किया था। इस ग्रन्थ की भूमिका में भारतेन्दु जी लिखते हैं कि “आशा है कि कोई माई का लाल ऐसा भी होगा जो बहुत सा परिश्रम स्वीकार करके एक बार अपने बाप-दादो का पूरा इतिहास लिखकर उनकी कीर्ति चिरस्थायी करेगा।” पर यह आशा आज भी उसी प्रकार की आशा मात्र बनी हुई है। ग्रन्थ के अंत में एक उपष्टम्भक है, जिसमें काश्मीर के एक मंदिर पर सम्राट अकबर की खुदाई हुई आज्ञा की तथा काशी में औरङ्गजेब द्वारा मंदिर न तोड़ने के आज्ञापत्र की प्रतिलिपियाँ दी गई हैं। औरङ्गजेब के इस थोथे आज्ञापत्र के बाद ही उसी के आज्ञानुसार कृतवास का मंदिर तोड़कर उस पर ‘खुदा का घर’ बनवाया गया था। इस पर के लेख की भी नकल दी गई है। यह पुस्तक पहिली बार सन् १८८४ ई० में बड़े साइज डेमी चौपेजी में मेडिकल हाल प्रेस में छपा था।

‘उदयपुरोदय’ मेवाड़ के प्राचीन काल का इतिहास है। यह डॉड कृत राजस्थान, फिरिस्ता आदि कई ग्रन्थों के आधार पर लिखा गया है। इसकी टिप्पणी आदि से भारतेन्दु जी का पुरावृत्तानुसंधान-प्रेम तथा मननशीलता प्रगट होती है।

‘पुरावृत्त संग्रह’ में प्राचीन प्रशस्तियाँ, दानपत्र, शिलालेख आदि मूल और अनुवाद सहित संगृहीत हैं। आरम्भ में अकबर की प्रशंसा में कछवाहा रामसिंह रचित कुछ श्लोक एक प्राचीन प्रति से उद्धृत किए गए हैं। वह पत्र, जो औरङ्गजेब को जज़िया कर लगाने पर लिखा गया था, पूरा प्रकाशित किया गया है। काशी के अनेक मंदिरों तथा मस्जिदों पर के लेखों का भी इसमें संग्रह किया गया है।

‘चरितावली’ इनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक रचना है। इसमें विक्रम,

कालिदास, रामानुज, शंकराचार्य, जयदेव, पुष्पदेवाचार्य, वल्लभाचार्य, सूरदास, सुकरात, नेपोलियन, जंगवहादुर, द्वारिकानाथ जज, राजाराम शास्त्री, लार्ड मेयो, लार्ड लारेंस और चार अलेकजैडर द्वितीय की जीवनियाँ हैं। अंत में फ्रांस के फ्रांसिस प्रथम तथा नेपोलियन तृतीय, जर्मनी के चार्ल्स पंचम तथा फ्रेडरिक विलियम, मल्हारराव, टीपू-सुलतान, सिकंदर और रावण की आठ कुंडलियाँ भी दी गई हैं। ये सब जीवनचरित्र बड़ी खोज और छानबीन से लिखी गई हैं।

‘पंचपवित्रात्मा’ में मुसलमान धर्म के प्रवर्तक मुहम्मद, अली, बीबी फातमा, इमामहसान और इमामहुसेन की जीवनियाँ दी गई हैं। अंत में एक तालिका देकर मुहम्मद से गौस आजम तक इक्कीस इमामों का सक्षिप्त परिचय दिया गया है।

‘दिल्ली दरबार-दर्पण’ में सन् १८७७ ई० के दरबार का विशद वर्णन है जो क्वीन विक्टोरिया के भारत-साम्राज्ञी पदवी धारण करने के पल्लव में लार्ड लिटन के नेतृत्व में हुआ था। समय के साथ इसका महत्त्व बढ़ता जायगा। ‘कालचक्र’ में सृष्टि के आरम्भ से सन् १८८४ ई० तक की संसार-प्रसिद्ध घटनाओं का समय दिया गया है। अंत में जयपुर तथा भरतपुर के राजाओं का नाम उनके राज्यकाल के साथ दिया गया है।

इन रचनाओं के देखने से यह अवश्य कहा जा सकता है कि भारतेन्दु जी इतिहासज्ञ तथा पुरातत्व-वेत्ता थे। इस कार्य में वे परिश्रम भी अधिक करते थे। इनके लेख भी एशाटिक सोसाइटी के जर्नल में छपते थे। काशी का एक विशद इतिहास लिखने की इनकी बहुत इच्छा थी और इसी के लिए पं० शीतलप्रसाद जी को साथ लेकर इन्होंने काशी के अनेक मंदिरों, घाटों आदि की प्रशस्तियों को पढ़कर उनकी प्रतिलिपियाँ तथा फोटो लिए थे पर स्वयं उनके अल्पकाल ही में स्वर्गवासी हो जाने के कारण यह कार्य न हो सका।

समाचार पत्र

हिन्दी में सबसे पहिले राजा शिवप्रसाद की सहायता से सन् १८४५

ई० में 'बनारस अखबार' निकला। यह रही से कागज़ पर पं० गोविन्द रघुनाथ थत्ते के संपादकत्व में पहिले प्रकाशित होता था। इसकी भाषा उर्दू-मिश्रित थी और उसकी लेखन-शैली में भी उर्दूपन अधिक था। सन् १८५० ई० में तारामोहन मित्र ने 'सुधाकर' पत्र निकाला, जो कुछ दिन चलकर बंद हो गया। प्रत्येक संख्या के पहिले पृष्ठ पर पत्र के नाम के नीचे तीथो ही में काशी के दृश्यो के चित्र रहते थे, जैसे पंचगंगा घाट, क्वीन्स कालेज आदि। तीथो में और भी चित्र कभी कभी छपते थे। इसी पत्र के नाम पर सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद पं० सुधाकर जी के पिता ने इनका नामकरण किया था। इस पत्र की हिन्दी बनारस अखबार से विशेष सुधरी हुई थी।* बा० बालमुकुन्द गुप्त लिखते हैं कि 'श्री लल्लूलाल जी के प्रेमसागर की भाषा उनके लिये

ॐ पाठकों के मनोरंजनार्थ इन दोनों पत्रों से कुछ उदाहरण दे दिए जाते हैं, जिनसे वे स्वयं दोनों की भाषाओं का मिलान कर सकें। बनारस अखबार (१ जनवरी सन् १८५२ ई० की संख्या) से उद्धृत—अस्सी संगम पर याने गंगाजी के पच्छिम तरफ थोड़े ही दूर पर राजा रत्नाराम साहेब ने अपने काशी बास करने के लिए एक बरहदरी संगीनी और केतने मकान असतबल खाना बगैरह बनवाया है और अब बाग बन्ने की छरदीवारी पक्की तैयार हो रही है और दर्वाज़ा उसका पच्छिम तरफ सड़क में बड़ा ऊँचा बना है बँगला तो देखकर लोग बहुत तारीफ करते हैं यज़ीन है कि बाग तैयार हो जाने पर बहुत अच्छा कैफ़ियत का मकान नज़र आवेगा और सारे मकानों का सिरताज बन जावेगा। सुधाकर (कार्तिक कृ० २ सं० १९०४ की संख्या) से उद्धृत—हमको तो मत के छेड़-छाड़ से कुछ प्रयोजन नहीं क्योंकि वर्तमान समय में सूक्ष्म-दर्शी कम दिखलाई पडते हैं और जो हैं भी सो इस प्रकार की अनुचित चर्चा में हाथ नहीं डालते किस वास्ते कि मतामत का विवाद केवल अज्ञानता मात्र है परंतु उत्तम पुरुष जो होते हैं सो अनुचित विषय अपने साम्हने देख कर चुप नहीं रह सकते इसलिये एक महात्मा ने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि डाक्टर बाल्टाइन ने दर्शन-शास्त्र पर जहाँ जहाँ कुतर्क किया है उन सबों का खंडन कर संस्कृत अथवा भाषा में एक पुस्तक छपवावें।

आदर्श हो सकती थी ।.....पर लल्लूलाल जी के बाद कोई साठ साल तक किसी ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया । अंत को स्वर्गीय बा० हरिश्चन्द्र जी ने मरी हुई हिन्दी को फिर से जिलाया । अंततः सं० १९२४ वि० के भाद्रपद में भारतेन्दु जी ने “कविवचन सुधा” नामक पहिला मासिक पत्र निकाला । पहिली जिल्द की पाँचवी संख्या मेरे सामने है, उस पर सं० १९२४ वि० पौष शुद्ध १५ छपा है और शीर्ष-दोहा नहीं है । इसमें उक्ति युक्ति रस कौमुदी और चंद्र रासो का दिल्ली वर्णन तथा कुछ स्फुट सवैये छपे हैं । दूसरी जिल्द भाद्रपद शुद्ध १५ सं० १९२७ को आरम्भ होती है, जिसका शीर्ष दोहा इस प्रकार है—

नित नित नव यह कविवचन-सुधा सकल रस खानि ।
 पीवहु रसिक आनंद भरि परम लाभ जिय जानि ॥
 सुधा सदा सुरपुर वसै, सो नहि तुम्हरे जोग ।
 तासों आदर देहु अरु पीवहु एहि बुध लोग ॥

उस वर्ष की संख्याओं में देवकृत अष्टयाम, दीनदयाल गिरि अनुराग वाग, जायसो का पद्मावत, विहारी के दोहे आदि प्रकाशित हुए थे । इसमें गुलिरतां का अनुवाद भी सपादक कृत छपा था, जो अपूर्ण रह गया । यह पाक्षिक था और इस वर्ष की चौबीस संख्याएँ प्रकाशित हुई थीं । इन सब में पद्य का एक प्रकार अभाव है और कुल लेख गद्य के हैं । केवल कभी कभी समस्याएँ तथा भारतेन्दु जी की कविता छपती थी । इनमें राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा साधारण मनोरजन के लेख हैं । इनमें समाचार भी सकलित किए जाते थे । इसके अनंतर यह पत्र बड़े आकार में साप्ताहिक कर दिया गया और इस पर निम्न लिखित सिद्धान्त वाक्य छपने लगा ।

सज्ज जनन सों सज्जन दुखी मति होहि हरिपद मति रहै ।
 उपधर्म छूटै स्वत्व निज भारत लहै कर दुख वहै ॥
 बुध वज्रहि मत्सर नारि नर सम होहि जग आनंद वहै ।
 तजि ग्राम कविता सुफवि नम की अमृत वानी सब कहै ॥

इससे धर्म, समाज तथा राजनीति सभी में इनका उस समय क्या मत था, यह स्पष्ट झलकता है। 'उपधर्म छूटै' कहना पुराने अंध विश्वासियों को, 'हरि पद मति रहै' अश्रद्धालुओं को तथा 'नारि-नर सम होंह' समाज की पुरानी लकीर के फकीरो को जितना कर्ण कटु था उतना ही 'सत्व निज भारत गहै कर दुख बहै' सरकारी अफसरो के लिये कटु था। इसी सिद्धान्त के अनुसार इसके लेख भी रखते थे। समाचारावली में अनेक पत्रों से समाचार भी संकलित होते थे।

उस समय इस पत्र का प्रजा राजा दोनो ही ने बड़ा आदर किया। सरकार ने इसकी सौ प्रतियाँ खरीदी और हिन्दी भाषा प्रेमी, जिनकी संख्या अल्प थी, इसके हर संख्या के लिये टकटकी लगाए रहते थे। भारतेन्दु जी के सभी मित्र गण इसमें लेख देते थे, जिनमें स्वर्गीय गोस्वामी श्री राधाचरण जी, बाबू गदाधर सिंह, लाला श्री निवास दास, बा० ऐश्वर्य नारायण सिंह, बा० सुमेर सिंह साहिबजादे, बा० नवीनचन्द्र राय, पं० दामोदर शास्त्री, पं० बिहारीलाल चौबे, पं० बिहारीलाल जानी इत्यादि प्रसिद्ध लेखक थे। समय पर पत्र न निकाल सकने तथा पं० चिंतामणि धड़फल्ले के आग्रह से बा० हरिश्चन्द्र ने इस पत्र को उक्त पंडित जी को प्रकाशित करने के लिये दे दिया। पत्र समय पर प्रकाशित होने लगा पर कुछ दिन बाद भारतेन्दु जी ने इसमें लेख देना छोड़ दिया, जिससे यह सत्ताहीन सा हो गया। इलवर्ट बिल का विरोध करने के कारण यह सबकी आँखों से गिर गया। सन् १८८५ ई० में इसने अपने जन्मदाता के देहान्त पर एक कालम भी काला नहीं किया, जिससे उसी वर्ष इसका मुँह सदा के लिए काला हो गया।

लाला श्री निवासदास जी ने सन् १८७४ ई० में दिल्ली से सदान्दर्श नामक एक पत्र निकाला, जो साप्ताहिक था। यह दो वर्ष चलकर सन् १८७६ ई० में कवि वचन-सुधा में मिल गया। इसी वर्ष भारतेन्दु जी के उद्योग से बा० बालेश्वर प्रसाद वी० ए० ने काशी से काशी पत्रिका निकालना आरम्भ किया, जो मेडिकल हॉल से पुस्तकाकार छपता था। यह भी साप्ताहिक था और इसकी शैली भी वही 'हरिश्चन्द्री' थी। इसमें भारतेन्दु जी की सत्य

हरिश्चन्द्र, कर्पूमंजरी आदि कई रचनाएँ प्रकाशित हुईं। यह पत्रिका आगे चलकर विलकुल स्कूली हो गई। इनके सिवा भारतेन्दु जी ने आर्यमित्र, हिन्दीप्रदीप, भारतमित्र, मित्रविलास आदि कई पत्रों को प्रोत्साहन देकर प्रकाशित कराया था और इनमें कभी कभी लेख भी देते थे।

हरिश्चन्द्र मैगजीन तथा चन्द्रिका

कवि वचन सुधा के साम्राहिक हो जाने पर उसी से संतुष्ट न रहकर सन् १८७३ ई० के अक्टूबर महीने से भारतेन्दु जी ने उस समय के लिए एक अत्युत्तम मासिक पत्र 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' नाम से प्रकाशित करना आरम्भ किया। यह डिमाई चौ-पेजी के २४ पृष्ठ में निकलता था। मैटर दो कालमें दिया जाता था। इस मैगजीन की केवल आठ संख्याएँ ही निकलीं और बाद को यही हरिश्चन्द्र चन्द्रिका के नाम से प्रकाशित होने लगी। इस मैगजीन में कई छोटे छोटे ग्रन्थ प्रकाशित हुए, जैसे हठी कृत राधा सुधा शतक, भारतेन्दु जी का धनंजय विजय व्यायोग, बा० गदाधर सिंह की कादम्बरी, लाला श्री निवासदासकृत तप्तसंवर नाटक आदि। पुरातत्व विषयक टिप्पणियाँ भी दी जाती थीं। भारतेन्दु जी का पाँचवाँ पैगम्बर, मुं० ज्वाला प्रसाद का कलिराज की सभा, मुं० कमलासहाय का रेल का विकट खेल आदि लेख आज भी चाब से पढ़े जाते हैं। इसके कुछ पृष्ठों में अंग्रेजी भाषा के लेख भी प्रकाशित होते थे, जिनमें कई अच्छे हैं। शतरंज की चालें भी प्रकाशित हुआ करती थीं।

मैगजीन की समाप्ति पर सन् १८७४ ई० के जून से चन्द्रिका प्रकाशित होने लगी, जिसके शीर्ष पर नीचे लिखा श्लोक और छन्द छपता था—

विद्वत्कुलामलस्वांत कुमुदामोडदायिका ।

आर्यज्ञान-तलोहंत्री श्रीहरिश्चन्द्रचन्द्रिका ॥

कविजन-कुमुद-गन हिय विकासि चकोर-रसिकन सुख भरै ।

प्रेमिन सुधा सों सौंधि भारत भूमि आलस तम हरै ॥

उद्यम सुधौपधि पोखि विगहिन तापि खल चोरन दरे ।

हरिचंद्र की यह चन्द्रिका परकासि जग मंगल करै ॥

ये दोनों पत्रिका एक ही हैं, केवल पहिले नाम का अँगरेजीपन दूर कर उसे हिन्दी रूप दिया गया है। चन्द्रिका के खंड तथा संख्याओं का आरम्भ मैगज़ीन के आरम्भ से ही किया गया है। उसका दूसरा खंड अक्टूबर सन् १८७४ ई० से आरम्भ होता है और पहिले खंड में आठ संख्या मैगज़ीन और चार चन्द्रिका की हैं। चार-छ आरम्भिक संख्याओं के मुख पृष्ठ के मार्जिन पर अँगरेजी में हरिश्चन्द्र मैगज़ीन छपा भी रहता था तथा इनमें अँगरेजी लेख भी छपते थे, जो बाद को बंद हो गए। चौथे खंड की भी संख्याओं के कवर के चौथे पृष्ठ पर अँगरेजी में चन्द्रिका के मुख पृष्ठ का पूरा अँगरेजी रूपान्तर दिया जाता था और वहाँ पत्रिका का नाम हरिश्चन्द्र मैगज़ीन ही रहता था।

इस पत्रिका में गद्य-पद्य मय काव्य, पुरावृत्त, नाटक, कला, इतिहास परिहास, समालोचना आदि विषय पर बराबर लेख निकलते थे। इनके लिये भारतेन्दु जी को कई सुलेखक तथा सुकवि मिल गए थे पर यदि संपूर्ण फाइल कोई देखे तो उसे उनमें इन्हीं की कृतियाँ तथा लेख विशेषतः मिलेंगे। इस पत्रिका के सन् १८७४ ई० की नवंबर की संख्या के अंत में इकतीस सहायक सम्पादकों के नाम दिए गए हैं, पर यह सहायक सम्पादक शब्द उस समय लेख देने वालों के लिये ही प्रयुक्त हुआ था। इनमें ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, दयानंद, शेरिंग आदि नाम ऐसे हैं जिन्होंने स्यात् कभी एकाध टिप्पणी लिख दी होगी।

यह चन्द्रिका इस प्रकार आठ वर्ष तक हिन्दी प्रेमियों का मनोरंजन करती रही पर सन् १८८० ई० में प० मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के विशेष आग्रह करने पर भारतेन्दु जी ने इसे उन्हे सौंप दिया, जिसके अनंतर वह 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका और मोहन चन्द्रिका' के नाम से चैत्र शु० १ सं० १९३७ से काशी ही में प्रकाशित होती रही। इसके मुखपृष्ठ पर भी वही शीर्षक श्लोक और छंद छपता रहा। दूसरे ही वर्ष वह मेवाड़ श्रीनाथ द्वारे चली गई जहाँ की मरुभूमि में वह सदा के लिये लुप्त हो गई। सन् १८८४ ई० में भारतेन्दु जी ने इसे 'नवेदिता हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' के नाम से

पुनः प्रकाशित करना आरम्भ किया, पर दो अंक निकालने के बाद वे स्वयं ही संसार से उठ गए। इस पर भी चन्द्रिका का वही पुराना शीर्ष का श्लोक तथा पद्य छपता था। उनके छोटे भाई केवल एक ही अंक बाद को प्रकाशित कर सके। यह नवोदिता छोटे साइज में निकली और प्रत्येक संख्या में बावन बावन पृष्ठ थे। इनमें पुरावृत्त संग्रह, स्वर्णलता उपन्यास तथा सती-प्रताप नाटक और कृष्ण भोग क्रमशः निकलते रहे। प्रेम प्रलाप भी चौबीस पृष्ठ छपकर रह गया; जिसके कई पद बहुत ही अच्छे हैं। बलिया का व्याख्यान भी तीसरी संख्या में पूरा छपा है। समय के अनुकूल कुछ मुकरियाँ भी इसमें प्रकाशित की गई हैं। ❀

वाला बोधिनी

सन् १८७४ ई० के जनवरी महीने से भारतेन्दु जी ने स्त्री-शिक्षोपयोगी 'वाला-बोधिनी' नामक एक मासिक-पत्रिका निकलना आरम्भ किया। यह डिमाई अठपेजी का एक फार्म प्रतिमास निकलता था। भारतसरकार ने इसकी सौ प्रतियाँ खरीदकर इस पत्र की उपादेयता स्वीकार की थी। इस पत्र के मुख पृष्ठ पर निम्न-लिखित दोहे छपते थे।

* भारतेन्दु जी ने इसी मैगजीन के जन्म के साथ साथ हिंदी का सन् १८७३ ई० में नए चाल में ढलना स्वयं स्वीकार किया है। यहाँ कविवचन सुधा तथा मैगजीन दोनों ही से कुछ अंश पाठकों के विनोदार्थ उद्धृत कर दिए जाते हैं। कविवचन सुधा (जि० २२०२)—'२१वीं सितम्बर सन् १८७० बुधवार को पण्डित विश्वेश्वर प्रसाद काश्मीरी जो कि श्री युत वा० हरिश्चन्द्र की पाठशाला के मैनेजर अर्थात् कार्याध्यक्ष थे वे उस स्कूल से उक्त वावू साहिब की आज्ञा भंग करने के निमित्त निकाल दिए गए। उस दिन उन्होंने सम्पूर्ण लड़कों के गृह पर जा २ करके कहा कि वावू हरिश्चन्द्र का नाम पाठशाले से उल्लेख कर दिया गया और तुम लोग अब उनके पाठशाले में जो उन्होंने अपनी वाग में किया है (क्योंकि वा० वेणीप्रसाद भी जिनके गृह में पाठशाला थी उन्हीं से मिल गए हैं और स्कूल को अपने घर से उठवा दिया) न जाओ।' हरिश्चन्द्र मैगजीन पृ० १८५ से उद्धृत हे भाइयो तुम्हारे मन में जो अनेक कल्पना

जो हरि सोई राधिका जो शिव सोई शक्ति ।
 जो नारी सोई पुरुष यामें कछु न विभक्ति ॥
 सीता अनुसूया सती अरुन्धती अनुहारि ।
 शील लाल विद्यादि गुण लहौ सकल जग नारि ॥
 पितु पति सुत करतल कमल लालित ललना लोग ।
 पढ़ै गुनै सीखै सुनै नासै सब जग सोग ॥
 वीर प्रसविनी बुध बधू होइ हीनता खोय ।
 नारी नर अरधंग की साँचेहि स्वामिनि होय ॥

इसमें स्त्रियोपयोगी लेख ही अधिक छपते थे पर मुद्राराक्षस नाटक, नीतिविषयक इतिहास आदि भी क्रमशः प्रकाशित होते रहते थे । यह पत्रिका चार वर्ष तक प्रकाशित होकर बंद हो गई । गवर्नमेट ने इसकी प्रतियाँ लेना बंद कर दिया था और यही इस पत्रिका के भी बंद होने का मुख्य कारण है, जैसा कि भारतेन्दु जी के एक पत्र से ज्ञात होता है ।

धीरे धीरे उठा करती हैं उनपर सहज ही में विश्वास कर लेते हो और जो अनेक झूठे मूठे मनोरथ हृदय में उत्पन्न होते हैं बड़ी अभिलाषा से उनका पीछा करते हो और इस बात की आशा रखते हो कि अल्पावस्था में जो बात नहीं प्राप्त हुई वह अधिक अवस्था में हो जायगी और आज के दिवस पर्यंत जो कुछ न्यूनता रह गई है वह कल पूरी हो जायगी तो तुमको चाहिये कि मकरंद देश के राजकुमार धैर्यसिंधु के इतिहास को ध्यान देकर सुनो ।'

जुलाई सन् १८७५ (जि० २ सं०७) की बाला बोधनी से कुछ अंश उद्धृत किया जाता है—'हे सुमति, जब बालक तुम्हारा भली प्रकार बातचीत करने लगा तो उसको वर्णमाला याद कराती रहो फिर उन्हीं को पढ़ी पै लिखके अभ्यास कराओ और रातों को गिनती और सुन्दर सुन्दर श्लोक वा छोटे स्तोत्र याद कराओ । इस ब्योहार में कई एक बातें सुन्दर प्राप्त होंगी । प्रथम तो बालक को खेल ही खेल में अच्छर ज्ञान हो जावेगा दूसरे उसका काल भी व्यर्थ नहीं जाने का । फिर इस अवसर का पढ़ा लिखा विशेष कर के बाद रहता है ।'

आलोचना

मानव सृष्टिष्क का उपज ही साहित्य है जो संसार की भाषाओं में लेखबद्ध होकर संचित होता रहता है और उन भाषाओं का साहित्य कहलाता है। जीवित भाषाओं के साहित्य सर्वदा उन्नति मार्ग पर अग्रसर रहते हैं और उनके साहित्य भांडारों में निरंतर नए नए रत्न संगृहीत होते रहते हैं। मृत भाषाओं के भांडार क्रमशः कम ही होते जाते हैं, बढ़ते नहीं। जिस प्रकार मानव प्रकृति पर देश काल आदि का प्रभाव पड़ता रहता है, उसी प्रकार मानव-समाज के सामूहिक विचार धारा से उस समाज के प्रत्येक मनुष्य की चिन्त-वृत्ति में राजनैतिक, धार्मिक, सांप्रदायिक आदि परिवर्तन होते रहते हैं। मानव जाति का यही क्रमिक विकास उसकी सभी कृतियों में लक्षित होता है और यही कारण है कि उन सब पर यदि सूक्ष्मता से मनन किया जाय तो अपने अपने समय की एक सी छाप दिखलाई पड़ती है। स्थापत्यकला, चित्रकला आदि के लिये यह समान रूप से सत्य है पर साहित्य में तो एक एक अक्षर इस सत्यता के अक्षरशः द्योतक हैं। साहित्य का विकास तथा उसकी प्रगति उस साहित्य के भाषा-भाषी जाति के विकास तथा प्रगति का प्रतिचिह्न मात्र है और इस सम्बन्ध को बनाए रखना ही साहित्य को सजीव रखना है।

विक्रमीय अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दि का भारतीय इतिहास अत्यंत अशांतिमय रहा है और औरंगजेब की मृत्यु के अनंतर निरंतर अवनत होते हुए मुगल साम्राज्य के ध्वसावशेष पर अनेक छोटे छोटे राज्य उदय और अस्त होने रहे थे। यह अशांति बीसवीं शताब्दि के आरम्भ तक पूर्ण रूप से थी। इस अशांतिमय काल में स्वदेशियों की आपस की युद्ध-व्यवस्था में युरोपीय जातियाँ भी सम्मिलित हो रही थीं, जिनमें अततः सभी को दबाती हुई अँगरेज जाति प्रचल होती चली गई। सं० १८१४ वि० के लासी युद्ध में विजय तथा आठ वर्ष बाद बँगाल को दीवानी प्राप्त होने पर अँगरेजों का प्रभुत्व उस प्रांत में जम गया और क्रमशः पूरे एक शताब्दि में इस जाति

ने समग्र भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया । इस प्रकार भारतीय विचार-धारा में युरोपीय विचार-धारा का संमिश्रण उन्नीसवीं शताब्दि ही से अनिवार्य रूप से होने लगा था और जिस प्रकार उस समय तक भारतीय सभ्यता में पारसीय सभ्यता का पूर्णतः सम्मिश्रण हो चुका था उसी प्रकार आज यह कहा जा सकता है कि यूरोपीय सभ्यता भी उसमें पूर्ण रूपेण व्याप्त हो चुकी है । सतोष इतना ही है कि सबको अपनाती हुई भी भारतीय सभ्यता आज भी अपनी विशेषता नहीं खो बैठी है ।

अँगरेजी प्रभुत्व के जन्म जाने पर सन् १८३४ ई० में प्राप्त हुए इडिया बिल में पहिले पहिल मि० चार्ल्स ग्रांट (बाद के लॉर्ड ग्लेनेल्ग) ने अँगरेजी भाषा के माध्यम द्वारा भारतवासियों को शिक्षित बनाकर ऊँची सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव किया था । लॉर्ड मेकॉले ने उसी समय इस प्रस्ताव का समर्थन किया था और उन्होंने बड़े लॉट की काउंसिल के प्रथम लॉ मेबर होने पर इस पर विशेष जोर भी दिया था । इनका मत था कि 'देशियों को अँगरेजी का अच्छा विद्वान बनाना सम्भव है और इसलिए हम लोगों का यही प्रयत्न होना चाहिए ।' लार्ड डलहाउजी के समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर चार्ल्स वुड (बाद के लॉर्ड हैलिफैक्स) ने समग्र भारत की शिक्षा के लिए एक बृहत् स्कीम बनाकर भेजा था जिसमें विश्वविद्यालय, विद्यालय, सहायता प्राप्त स्कूल तथा वर्नाक्यूलर पाठशालाएँ स्थापित करने का पूरा आयोजन था । लॉर्ड डलहाउजी ने अविलंब ही इस कार्य में हाथ लगाया और पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट खोल दिया ।

अँगरेजी माध्यम द्वारा हिन्दुस्तानियों को सुशिक्षित करने के पहिले भी कई गवर्नर देशीय भाषाओं की उन्नति के लिए प्रयत्न कर चुके थे । वारेन हेस्टिंग्स के समय में बंगाल एशाटिक सोसाइटी सर् विलियम जोन्स के सभापतित्व में स्थापित हुई, जिसने संस्कृत तथा फारसी ग्रन्थों को विशेषरूप से प्रकाशित किया । मारक्विस् वेल्लेजली के समय फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित हुआ, जिसके प्रथम प्रिंसिपल डा० गिलक्राइस्ट थे । इनके तथा इनके स्थानापन्न सज्जनों के निरीक्षण में लल्लूलाल जी आदि ने हिन्दी तथा

उर्दू के कई गद्य ग्रन्थ तैयार किए थे। लॉर्ड मिटो ने इस कॉलेज की इमारत बनवाई तथा नदिया और तिरहुत में संस्कृत पाठशालाएँ स्थापित करने का आयोजन किया। मारक्विस ऑव हेस्टिंग्स के समय में पुराना चार्टर सन् १८१३ ई० में बदला गया था और उसमें केवल एक लाख रुपया वार्षिक 'साहित्य की उन्नति तथा देशीय विद्वानों के उत्साह-वर्धन और भारत के ब्रिटिश राज्य के निवासियों में विज्ञान का ज्ञान प्रस्फुटित करने के लिये' स्वीकार किया गया था। यह स्वीकृति भी उस समय बड़े तर्क-वितर्क पर मिली थी। इसी प्रकार ईस्ट-इंडिया कंपनी की ओर से कलकत्ते में हिन्दी तथा उर्दू के गद्य ग्रन्थों की रचना का जो प्रबन्ध हुआ था, वह भी क्षणिक था। हिन्दी के दो-चार ग्रन्थों से अधिक नहीं बन सके। विशेषता यही थी कि काव्य भाषा से भिन्न उन ग्रन्थों में खड़ी बोली ही रखने का प्रयास अधिक था। उसी समय इंशा तथा मुं० सदासुखलाल भी लखनऊ तथा प्रयाग में इसी खड़ी बोली को अपना कर रचना कर रहे थे। तात्पर्य यह कि भारत के उत्तरा-पथ में जन साधारण की साधारण बोली यही हो रही थी और शिक्षित लोग जगह जगह की ग्रामीण बोलियों का नगरों से एक प्रकार बहिष्कार कर रहे थे। श्रीरामपुर के पादरियों ने भी कई ग्रन्थ इसी समय शुद्ध हिन्दी में लिखे थे।

अंगरेज सरकार की ओर से जो यह प्रयत्न हुआ था वह बहुत शीघ्र ठीला हो गया और उसके फल स्वरूप दो-चार ही उल्लेखनीय ग्रन्थ हिन्दी-मंदिर को प्राप्त हुए। इसके अनंतर प्रायः साठ वर्ष से अधिक काल तक मातृ-भाषा का कोई अच्छा सेवक पैदा नहीं हुआ। शिक्षा सम्बन्धिनी थोड़ी-बहुत पुस्तके इस बीच लिखी गईं जिनका अधिकांश मिशनरियों के श्रम का फल था।

विक्रमीय वीसवीं शताब्दि के आरंभ के साथ राजा शिवप्रसाद तथा राजा लक्ष्मण सिंह की रचनाओं का आरंभ होता है। प्रथम राजा साहब की प्राथमिक रचनाएँ सरल हिन्दी ही में थी पर यह भाषा वाद को उर्दू मिश्रित हो गई, यहाँ तक कि आप ने 'आमफहम' शब्द भी आमफहम (सबके

समझने योग्य) समझ लिया । दूसरे राजा साहब ने सरल सुगम हिन्दी ही को आदर्श रखकर अपनी रचनाएँ लिखीं और इस प्रकार उन्होंने उस हिन्दी का आभास दिया जो भारतेन्दु काल में पूर्ण रूपेण विकसित हुई थी । उस समय ऐसे ही प्रतिभाशाली तथा शक्तिसंपन्न लेखक की आवश्यकता थी, जो हिन्दी साहित्य के गद्य तथा पद्य दोनों ही विभागों को सुव्यवस्थित तथा परिमार्जित करते हुए उसे समय के साथ अग्रगामी होती हुई जनता की रुचि के अनुकूल बनाता । भाषा ही का रूप उस समय तक निश्चित नहीं हो सका था और प्रत्येक साहित्यसेवी अपनी खिचड़ी अलग पका रहा था । स्वयं भारतेन्दु जी ही हरिश्चन्द्र मैगजीन के जन्म के साथ हिन्दी का नए साँचे में ढलना मानते थे । साहित्य तथा भाषा की ऐसी ही परिस्थिति में भारतेन्दु जी का उदय हुआ और उनका भाषा तथा साहित्य पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता माने गए । 'भाषा का निखरा हुआ शिष्ट-सामान्य रूप भारतेन्दु की कला के साथ ही प्रकट हुआ ।' गद्य और पद्य दोनों ही की भाषा का इन्होंने बहुत कुछ संस्कार किया था । परंपरागत काव्य भाषा में जो पुराने समय के अप्रचलित हुए शब्द चले आ रहे थे उन्हें निकाल कर और चलते शब्दों का प्रयोग कर इन्हीं ने उसे सुव्यवस्थित तथा समया-नुकूल बनाया ।

इनके समय तक हिन्दी काव्य जगत में वही भक्ति तथा शृङ्गार आदि की पुरानी चाल की कविता होती आ रही थी और भारतियों में नए यूरोपीय ढंग की शिक्षा आदि से जो देश-प्रेम, लोक हित आदि अनेक नए नए भाव, उमंग आदि पैदा हो रहे थे, उन रुचियों के अनुकूल कविता का एक प्रकार अभाव था । पढ़नेवालों की विचारधारा नए मार्ग पर जा रही थी और काव्यधारा उसी पुरानी लीक पर बह रही थी । भारतेन्दु जी ने दोनों मार्ग का साहचर्य कराकर काव्यकला में नई जान डाली ।

गद्य का भी प्रायः यही हाल था, ऐसा कहना चाहिए पर वास्तव में इनके समय के कुछ पहिले तक का हिन्दी गद्य-साहित्य गद्य साहित्य कहलाने के योग्य नहीं है । आज से डेढ़ शताब्दि पहिले की प्राप्त पुस्तकें केवल उस समय

की भाषा के नमूने समझ कर ही आज पढ़ी जाती हैं। लल्लूलाल जी के समय की पुस्तकों में एक तो महज किस्सा है और अन्य पौराणिक कथाएँ हैं। इसके अनंतर कुछ शिक्षा सम्बन्धित पुस्तकें अवश्य निकलीं पर वे समय के साथ अग्रसर होती हुई जन-साधारण की मानसिक तृष्णा को किसी प्रकार तृप्त नहीं कर सकती थीं। राजनैतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, नाट्यकला आदि अनेक विषय-सम्बन्धित पुस्तकों का एक दम अभाव था। यूरोपीय संघर्ष के कारण बंगदेश में नए विचारों के अनुकूल नाटक, उपन्यासादि की रचना होने लगी थी और जनसाधारण में उन्हीं की नई रुचि, विचारादि का उनमें विषम प्रतिविम्ब भाव होने से उनका समादर भी होने लगा था। हिन्दी गद्य-साहित्य में प्रायः इन सबका अभाव था और इसीसे भारतेन्दु जी ने अनेक विषयों पर लेखनी चलाकर जनता के लिए उपयोगी ग्रंथों की रचना की और 'साहित्य को मोड़ कर हमारे जीवन के साथ लगा दिया। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चन्द्र ही हुए।'

भारतेन्दु जी बड़े ही सहृदय कवि थे तथा इनकी कवित्व-शक्ति जन्म-सिद्ध थी। इनके निर्मित कवित्त, सवैये तथा पद शृङ्गाररस से इस प्रकार परिप्लुत और ऐसे हृदय-स्पर्शी थे कि इनके जीवनकाल ही में वे लोगों के मुख से सुनाई पड़ने लगे। साथ ही देश-प्रेम, समाज-सुधार आदि के इनके लेख और कविताओं में इतना जोश था कि उनसे देश में उन्हीं के समय मंगल-मयी जागृत होने लगी। उनकी काव्य रचनाएँ जब एक ओर प्राचीन परंपरा के सुकविगण पद्माकर आदि की रचनाओं में जा मिलती हैं तब दूसरी ओर सामयिक बंग-देशीय कवियों की कृतियों से जा भिड़ती हैं। इसी प्रकार जब एक ओर चंद्रावली नाटिका, भक्तमाल आदि में श्री राधाकृष्ण की युगल-मूर्ति में इनकी भक्ति की अनन्यता और तन्मयता दिखलाई पड़ती है तब दूसरी ओर प्रेमयोगिनी आदि में अंध-विश्वासियों, टीकाधारी गुरुओं की हँसी उड़ाते हुए समाज-सुधार आदि के उपदेश पाए जाते हैं। तात्पर्य यही है

कि 'प्राचीन और नवीन का यही सुन्दर सामंजस्य भारतेन्दु की कला का विशेष माधुर्य है। साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए नए या बाहरी भावों को पचा कर इस ढंग से मिलाना चाहिए कि वे अपने ही साहित्य के विकसित अंग से लगें।' सत्य ही भारतीय इतिहास के अर्वाचीन तथा वर्तमान के जिस संधिकाल में भारतेन्दु जी का उदय हुआ था उसी के ठीक अनुरूप प्राचीन नवीन की गंगा-जमुनी से अलंकृत साहित्य का निर्माण कर निस्संदेह उन्होंने हिन्दी साहित्य के इतिहास में अमर पद प्राप्त कर लिया है।

भारतेन्दु जी मातृभाषा तथा मातृभूमि दोनों ही के सच्चे सपूत थे और उनकी यावत् कृति इन्हीं दोनों के उत्थान को दृष्टिकोण में रखते हुए हुई थी। मातृभाषा की सुव्यवस्था, उसके साहित्य के सभी अंगों की उन्नति तथा उसके प्रचार का जितना इन्होंने प्रयत्न किया था उतना ही देशप्रेम और जातीयता की भावना, समाज-सुधार, ईश्वर-प्रति भक्ति और शिक्षा के प्रसार के लिए वे यत्न-शील रहे। इनकी रचनाओं ने देश के राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विचारों में नए नए भाव पैदा किए और मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयत्न में यही सबके अग्रगण्य भी हुए थे।

भाषा तथा भाषा शैली

गद्य साहित्य के आरम्भ के साथ जो पहिला प्रश्न उठा था वह भाषा का था। फारसी की कठिनता देखकर वह सरकारी दफ्तरों से उठा दी गई और उसके स्थान पर उसी लिपि वाली उर्दू नियत की गई। पहिले यह भाषा कुछ सरल कर लिखी जाती थी पर क्रमशः वह काठिन्य बढ़ाते हुए पुनः हिन्दी की क्रिया आदि युक्त एक प्रकार की फारसी हो गई। इस उर्दू का जन्म बहुत दिनों तक रंगीले मुहम्मद शाह के समय हुआ माना जाता था पर अब यह दक्षिण में सम्राट् अकबर के समय में आविर्भूत हुई मानी जाती है। इसी उर्दू से केवल उर्दू जानने वाले अच्छे अच्छे विद्वान खड़ी बोली हिन्दी का प्रादुर्भाव होना बतला कर कतरा जाते हैं पर वे स्वयं नहीं कह सकते कि

उनकी उर्दू में फारसी शब्दों के सिवा जो और कुछ सम्मिलित है वह किस भाषा से आया है। आवेहयात के वजन में वे कहेंगे कि वह ब्रजभाषा से निकली है। अपनी अपनी राय ही तो है, मुड़े मुंडे मतिभिन्नाः।

भारतवर्ष में इस समय बहुत सी भाषाएँ बोली जाती हैं और उनमें से कुछ में बहुत उच्च कोटि का साहित्य मौजूद भी है, कुछ में साधारण और कुछ में केवल ग्रामीण चर्चनी इत्यादि मात्र प्राप्त हैं। यह एक नियम सा है कि किसी भाषा के साहित्यिक रूप धारण करने के बहुत पहले वह किसी प्रांत विशेष की बोल चाल की भाषा बन जाती है। जिस भाषा के कोई बोलने चालने या समझने वाले ही नहीं होंगे, उनमें साहित्य कहाँ से आ टपकेगा। ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, गुजराती, द्राविड़ी आदि भाषाएँ अपने अपने प्रांतों में बोली जाती थीं और समय समय पर उनमें साहित्य का निर्माण होता जाता था। इसी प्रकार खड़ी बोली हिन्दी भी मेरठ तथा उसके आस पास के प्रांतों में बोली जाती थी। इस बोल चाल की भाषा को सुगम समझ कर या पहिले पहिल इसी से काम पड़ने पर मुसल्मान आक्रमणकारियों ने इस देश के निवासियों से विचारों के आदान प्रदान के लिये इसी भाषा को माध्यम बनाया और इसमें अपनी भाषा के शब्दों को रखकर समझने समझाने लगे। इस प्रकार की मिश्रित भाषा बना कर देशियों को अपना तात्पर्य समझाने में सुगमता लाने के लिये एक शब्द कोष निर्मित हुआ था और विदेशियों में ऊँटों पर लाद कर वितरित किया गया था। इसका नाम 'खालिक चारी' था और इसका रचयिता अमीर खुसरो था। इसका समय विक्रमीय चौदहवीं शताब्दि (जन्म स० १३१२ और मृत्यु स० १६९७) था। इसके दो शेर यों हैं—

मुश्क काफूर अस्त कस्तूरी कपूर। हिंदवी आनंद, शादी और सरूर ॥

मूश चूहा, गुर्वः विल्ली, मार नाग। सेजनो रिशतः वहिंदी सूई ताग ॥

इनमें आए हिंदी शब्द खड़ी बोली ही के हैं और खुसरो खुद उस बोली को हिंदवी या हिंदी कहता है, उर्दू नहीं। खुसरो के तीन शताब्दि बाद इस भाषा को फारसी छंद शास्त्रादि का रंग देकर जिस साहित्य की दक्षिण

मे नींव पड़ी थी, उसका नामकरण इस घटना के बहुत दिनों बाद उर्दू हुआ था। मुसल्मानी राजधानियों तथा बस्तियों में इसी हिंदवी या हिन्दी का बोलबाला रहने लगा और यह भाषा नागरिक भाषा या सभ्य बोल चाल की भाषा बनती चली गई।

हिंदी काव्य परंपरा में राजस्थानी, ब्रज तथा अवधी भाषाओं का प्राधान्य अभी अभी तक रहा है, पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हिन्दी अर्थात् खड़ी बोली में कुछ कविता नहीं हुई है। हाँ, इस हिंदी को आरम्भ में विशेषतः मुसल्मान कवियों ही ने अपनाया और ऐसा होना स्वाभाविक भी था क्योंकि वे किसी प्रकार की परंपरा में बँधे हुए नहीं थे। अस्तु, इस प्रकार यह हिन्दी काव्य भाषा में कुछ कुछ प्रयुक्त होती आ रही थी। साहित्य का पद्य भाग पहिले और गद्य भाग बहुत बाद निर्मित होता है ऐसा नियम सा होगया है। हिंदी साहित्य में भी यही हाल रहा है। ईसवी अठारहवीं शताब्दि के पहिले का जो कुछ गद्य साहित्य मिलता है वह ब्रजभाषा या हिंदी में है अथवा मिश्रित भाषा में है। यह गद्य साहित्य बहुत थोड़ा था और इनके लेखक गण उँगलियों पर गिने जा सकते हैं। इस गद्य साहित्य में विशेषतः कहानी या धार्मिक वार्ताएँ थीं। गद्य में लिखी गई टीकाएँ भी इसमें परिगणित की जा सकती हैं।

इसके अनंतर हिंदी गद्य साहित्य का विशेष रूप से आरम्भ ईसवी उन्नीसवीं शताब्दी के साथ हुआ। कलकत्ते के कॉलेज की तत्वावधानता में कुछ पुस्तकें लिखी गईं और इंशा अल्लह खाँ तथा मुंशी सदासुखलाल ने भी कुछ रचनाएँ कीं, पर इससे भाषा की कोई शैली स्थिर न हो सकी। इसके बाद पुन प्रायः पचास साठ वर्ष तक यह कार्य रुका सा रहा। धर्म प्रचार के लिये ईसाई पादरियो ने और शिक्षा के लिये स्कूली अध्यापकों ने छोटी मोटी पुस्तकें लिखीं। ईसाई धर्म प्रचारको की भाषा लल्लूलाल या मुंशी सदासुख लाल की शैली पर थी, जिसमें संस्कृत के तद्भव शब्दों का प्राचुर्य रहता था। विक्रमी बीसवीं शताब्दि के आरम्भ में दो सुलेखक राजा शिवप्रसाद सितारण-हिंद तथा राजा लक्ष्मण सिंह हिन्दी साहित्य क्षेत्र में भाषा की दो प्रकार की शैली

लेकर उतरे। पहिले सज्जन फारसी तथा अरबी के 'आमफहम और खास पसंद' शब्दों को हिंदी भाषा में स्थान देने के शायक थे और दूसरे शुद्ध हिंदी के। यद्यपि राजा शिवप्रसाद की आरंभिक रचनाओं में 'उसको कोई हिंदू अप्रामाणिक नहीं कह सकता।' या 'उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों के जी से भुलाया और उसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया?' ऐसी ही भाषा थी पर वाद को यह खिचड़ी भाषा के ही समर्थक हो गए और लिखने लगे कि 'वल्कि एक सल्लतनत के मानिन्द कि जिसकी हृदे कायम हो गई हों और जिसका इन्तज़ाम मुतज़िम की अक्लमंदी की गवाही देता हो।' इधर राजा लक्ष्मण सिंह अथ से इति तक इसी प्रकार लिखते रहे, जैसे, 'तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास मे आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूपण हो और किस देश को प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो?' इसकी भाषा में ब्रजभाषा का पुट कम न था पर तब भी यह भाषा हिन्दी गद्य के भावी रूप का आभास दे रही थी। इन दोनों सज्जनों ने भाषा के जो दो रूप उपस्थित किए थे वे एक प्रकार कहा जा सकता है कि प्रस्ताव के रूप में थे और अब ऐसे प्रतिभावान तथा ज़बर्दस्त लेखकों की आवश्यकता थी, जो इनमें से किसी एक को सुव्यवस्थित तथा परिष्कृत कर उसमें ऐसा साहित्य तैयार करते जो सुशिक्षित जनसाधारण की सामयिक रुचि के अनुकूल होता। ठीक इसी परिस्थित में भारतेन्दु जी का उदय हुआ।

भारतेन्दु जी की धार्मिक उदारता का उल्लेख हो चुका है और वे हिन्दू-मुसल्मान विरोध के परिपोषक भी नहीं थे पर स्वदेश-भक्ति तथा स्वमातृभाषा-प्रेम से उनका हृदय इतना भरा हुआ था कि वे एक ऐसी खिचड़ी भाषा का, जिसमें अभारतीय शब्दों का अकारण भरमार हो, समर्थन न कर सके और उन्होंने शुद्ध पर सरस भाषा ही को अपनाया। वे उसे केवल अपना कर ही नहीं रह गए वरन् अपनी प्रतिभा, लेखन शक्ति तथा अथक उद्योग से इस शुद्ध भाषा में अनेक विषयों पर बहुत से ग्रंथ लिख डाले। इनके अनुयायी-मंडल ने भी इसी भाषा का अपनी रचनाओं में

उपयोग किया और वही हिंदी गद्य साहित्य की सर्वमान्य भाषा हो गई । इस प्रकार भारतेन्दु जी ने भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया है । उनके भाषा-संस्कार की महत्ता को सब लोगो ने मुक्तकंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए हैं । 'वर्तमान हिंदी की इनके कारण इतनी उन्नति हुई कि इसका जन्मदाता कहने में भी अत्युक्ति न होगी ।'

भारतेन्दु जी के गद्य की भाषा में दो या उससे अधिक शैलियाँ मिलती हैं । इन्होंने इतिहास, जीवनी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि अनेक विषयो पर रचनाएँ की हैं । कहीं गंभीर गवेषणा, तथ्यातथ्य-निरूपण आदि है तो कहीं परिहास, व्यंग्य और मनोरंजन हो रहा है । कहीं भावावेश में कुछ बातें कह डाली गई हैं तो कहीं एक एक शब्द तौल कर गांभीर्य से लदे हुए निकल रहे हैं । अर्थात् विषय तथा भाव के अनुसार ही भाषा की शैली में परिवर्तन स्वभावतः होता गया है । हाँ इसके लिये भारतेन्दु जी ने विशेष प्रयास नहीं किया और न ऐसा करने बैठने को उनके पास समय था । उन्हें तो अपना छोटा सा जीवन हिन्दी की यथाशक्ति सेवा करने में, उसके साहित्य के प्रायः सभी विभागो में कुछ न कुछ लिखकर उनका आरम्भ कर देने में लगा देना था ।

'उदय पुरोदय' एक इतिहास ग्रंथ है और उसमें 'चीन इतिहास का गवेषणा पूर्ण अनुसंधान किया गया है । इसकी भाषा का एक नमूना लीजिए— 'पहिले कह आए हैं । कि बाप्पा ब्राह्मणगण का गोचारण करते थे । उनकी पालित एक गऊ के स्तन में ब्राह्मणगण के उपर्युपरि कियद्विस तक दुग्ध नहीं पाया, इससे संदेह किया कि बाप्पा इस गऊ को दोहन करके दुग्ध पान कर लेते हैं । बाप्पा इस अपवाद से अति क्रुद्ध हुए किन्तु गऊ के स्तन में स्वरूपतः दुग्ध न देखकर ब्राह्मण गण के संदेह को अमूलक न कह सकें । पश्चात् स्वयं अनुसन्धान करके देखा कि यह गऊ प्रत्यह एक पर्वत-गुहा में जाया करती थी और वहाँ से प्रत्यागमन करने से उसके स्तन पयःशून्य

हो जाते हैं। बाप्पा ने गरु का अनुसरण करके एक दिन गुहा में प्रवेश किया और देखा कि उस वेतस वन में एक योगी ध्यानावस्था में उपविष्ट है।

बादशाह दर्पण का एक अंश इस प्रकार है—‘इसका प्रकृत नाम फखरुद्दीन अलगा खाँ था। पहिले यह बड़ा बुद्धिमान और बड़ा दानी था। हजार दर का महल बनवाया। मुगलो से सुलह किया और दक्षिण में अपना अधिकार फैलाया। पर पीछे से ऐसे काम किए कि लोग उसे पागल समझने लगे। हुकुम दिया कि दिल्ली की प्रजा मात्र दिल्ली छोड़ कर देवगढ़ में रहे, जिसको दक्षिण में दौलताबाद नाम से बसाया था। इसका फल यह हुआ कि देवगढ़ तो न बसा किन्तु दिल्ली उजड़ गई। अन्त में फिर दिल्ली लौट आया। फारस और खुरासान जीतने के लिये तीन लाख सत्तरह हजार सवार इकट्ठे किए, इनमें से एक लाख को चीन लेने के लिए भेजा, ये सब के सब हिमालय में नष्ट हो गए, कोई न बचा।’

पूर्वोक्त दोनों उद्धरणों के देखने से यह ज्ञात हो जाता है कि दोनों शैलियों में बहुत कुछ भेद है। प्रथम में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रचुरता के साथ वाक्यावली भी विशद है पर दूसरे में यह दोनों बात नहीं है प्रत्युत बहुत से फारसी के सरल शब्द प्रयुक्त किए गए हैं और छोटे छोटे वाक्य ही विशेषतः रखे गए हैं। इसका कारण प्रत्यक्ष ही यह है कि पहिले में प्राचीन काल का पुरातत्व-विषयक इतिहास गवेषणा तथा मननपूर्वक लिखा जा रहा है और दूसरे में मुसल्मानी काल के इतिहास की साधारण बातें दी गई हैं तथा इसी से इस भाषा में उर्दू के प्रचलित सुगम शब्द आप से आप आ गए हैं। यही इनकी वास्तविक भाषा शैली है, जो मध्य मार्ग पर अवलंबित है।

स्वनिर्मित नाटक में प्रति कृति के तथ्यातथ्य-निरूपण में इस प्रकार लिखते हैं—

‘किसी चित्रपट द्वारा नदी, पर्वत, वन/वा उपवन आदि की प्रतिच्छाया दिग्बलाने को प्रतिकृति कहते हैं। इसी का नामांतर अतः पटी वा चित्रपट वा दृश्य वा स्थान है। यद्यपि महामुनि भरत-प्रणीत नाट्यशास्त्र में चित्रपट द्वारा

प्रासाद, वन, उपवन किंवा शैल प्रभृति की प्रतिच्छाया दिखाने का कोई नियम स्पष्ट नहीं लिखा है, किंतु अनुधावन करने से बोध होता है कि तत्काल में भी अंतः पटी-परिवर्तन द्वारा वन, उपवन या पर्वतादि की प्रतिच्छाया अवश्य दिखलाई जाती थी। ऐसा न होता तो पौर-जानपद वर्ग के अपवाद-भय से श्री रामकृत सीता-परिहार के समय में उसी रंगस्थल में एक ही बार अयोध्या का राज-प्रासाद और फिर उसी समय वाल्मीकि का तपोवन कैसे दिखलाई पड़ता। इससे निश्चय होता है कि प्रतिकृति के परिवर्तन द्वारा पूर्व काल में यह सब अवश्य दिखलाया जाता था।'

‘लेवी प्राण लेवी’ लेख का एक अंश इस प्रकार है। इसमें व्यंग्यात्मक शैली ही मुख्य है।

‘कोई खड़ा हो जाता था, कोई बैठा ही रह जाता था, कोई घबड़ा कर डेरे के बाहर घूमने चला जाता था कि इतने में कोलाहल हुआ “लाट साहब आते हैं” राय नारायण दास साहिब ने फिर अपने मुख को खोला और पुकारे “स्टैडअप” (खड़े हो जाव)। सब के सब एक संग खड़े हो गए। राय साहिब का “सिट डौन” कहना तो सब को अच्छा लगा पर “स्टैड अप” कहना सबको बुरा लगा मानो भले बुरे का फल देने वाले रायसाहिब ही थे। इतने में फिर कुछ आने में देर हुई और फिर सब लोग बैठ गए। वाह वाह दरबार क्या था “कठ पुतली का तमाशा” था या बल्लमटेरों की “कवायद” थी या बन्दरों का नाच था या किसी पाप का फल भुगतना था या “फौजदारी की सजा” थी।’

सत्य हरिश्चन्द्र में पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु पर महारानी-शैव्या विलाप कर रही हैं। वाक्य छोटे छोटे हैं और भाषा सरल बोलचाल की रखी गई है जो अत्यंत स्वाभाविक है।.....“हाय बेटा ! अरे आज मुझे किसने लूट लिया ! हाय मेरी बोलती चिड़िया कहाँ .उड़ गई ! हाय, अब मैं किसका मुख देख के जीऊँगी ! हाय, मेरी अंधी की लकड़ी कौन छीन ले गया ! हाय, मेरा ऐसा सुन्दर खिलौना किसने तोड़ डाला ! अरे बेटा ! तै तो मरे पर भी

सुन्दर लगता है। हायर ! अरे बोलता क्यों नहीं ! वेदा जल्दी बोल, देख, माँ कव की पुकार रही है ! वच्चा ! तू तो एक ही दफे पुकारने में दौड़ कर गले से लपट जाता था, क्यों नहीं बोलता ?'

इस प्रकार कई उद्धरण देने का एक कारण यह भी था कि कुछ लोगों के इस कथन में कि 'गद्य शैली को विषयानुसार बदलने का सामर्थ्य उनमें कम था' कहाँ तक सत्य है, इसकी परख हो जाय। हो सकता है कि जिस विषय पर उन्होंने एकाध लेख मात्र लिखा हो उसकी भाषा वे उसके अनुरूप न रख सके हो या रखने का ख्याल भी न किया हो पर इस प्रकार का विस्तृत कटाक्ष करना अनुचित ही है।

पूर्वोक्त उद्धरणों से यह मालूम हो जाता है कि विषय के अनुसार इनकी भाषाशैली चाहे जिस प्रकार की रहे पर उन सबकी वाक्यावली सरल होती थी। वाक्यों के अन्वय जटिल तथा दुर्बोध नहीं होते थे। शब्दों के चुनाव में विशेषतर सरलता और सुगमता ही का ध्यान रहता था। सबके ऊपर उनकी भाषा उनके भावों को विकसित कर उन्हें बड़ी मार्मिकता से प्रकट कर देती थी। यही कारण है कि इनके जीवन कालही में तत्कालीन प्रायः सभी प्रमुख सुलेखकों ने इस शैली को अपनाया था।

भारतेन्दु जी ने अपनी भाषा में फारसी अरबी के शब्दों को भी रख दिया है पर उनके वे ही रूप लिये गए हैं जो विलकुल चलते हुए हैं। उनके तत्सम रूप रखने का प्रयास नहीं किया गया है। जनाने, नाराज, हक्का, मसाला, खुरमा, चासनी, खवगी, जादे, वरखास्त आदि के शुद्ध तत्सम रूप जनानः नाराज, हक्कः, मसालः खूर्मा, चाशनी, ख्रवगी, ज्यादाः, वरखास्त आदि नहीं रखे गए हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी के कितने चलते शब्द भी इनके द्वारा प्रयुक्त हुए हैं और उनका तत्सम रूप नहीं लिया गया है। टिकट, अधरी मजिस्टर, कमेटी, किरिस्तानी, पतलून आदि शब्द शुद्ध अंग्रेजी शब्दों के विगड़े रूप हैं पर बोल चाल में इसी प्रकार प्रयुक्त होते आए हैं और इसलिये इसी रूप में रखे गए हैं। संस्कृत के भी तद्भव शब्दों का जो बोल चाल में काम आते हैं

खूब प्रयोग किया गया है उनके शुद्ध ही रूप देने का प्रयास नहीं किया गया है। जजमान, मूरत, नहान, आपुस, गुनी, अच्छे आदि ऐसे बहुत शब्द मिलते हैं जो बोल चाल में इसी रूप में बराबर व्यवहृत होते हैं और जो कानों को बड़े प्रिय भी लगते हैं। इनका प्रयोग उपयुक्त स्थान पर होने से नहीं खलता तथा रचना आधिक्य के कारण वे खटकते भी नहीं।

भई, आवता, ई (यह), कहाते हैं, करथी, लिहिन हैं, होय गई, जाथौ आदि से शब्द भी काम में लाए गए हैं पर प्रायः वे ऐसे पात्रों द्वारा प्रयुक्त कराए गए हैं जो उसी प्रकार की बोली बोलते थे। काशी में अवधीपन युक्त भाषा आज भी बोली जाती है और यहाँ के रहने वाले पात्रों द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग उचित ही हुआ है।

मुहाविरे के प्रयोग से भाषा में सबलता आती है और बहुतेरे भाव इनके प्रयोग से ऐसा खिल उठते हैं जैसा वे कई वाक्यों के लिखे जाने पर स्यात् न होते। इनसे भाव व्यंजना में बड़ी सुगमता हो जाती है। मुहाविरे के थोड़े शब्दों में अधिक बातें समाविष्ट रहती हैं। भारतेन्दु जी ने इस प्रकार के मुहाविरो को प्रचुरता से प्रयुक्त किया है। लोहे का चना चबाना, अपने रंग में मस्त होना, सोरहो दंड एकादशी, अंधी की लकड़ी, कोख में आग लगाना, कलेजे पर सिल रखना आदि मुहाविरो ने इनकी भाषा में खूब चलतापन और सजीवता लादी है। इनकी कविता में भी लोकोक्तियों और मुहाविरो की खूब बहार है और इनका अलग उल्लेख हो चुका है।

नाट्य शास्त्र ज्ञान

वास्तव में हिन्दी-साहित्य में नाटकों का आरम्भ भारतेन्दु जी की कृतियों ही से माना जाता है इसलिए उनके इस विषय के ज्ञान की भी कुछ परख करना आवश्यक है। यहाँ पहिले दो विद्वान पारखियों की राय दी जाती है। एक तो हिन्दी के दिग्गज विद्वान रायसाहब बा० श्यामसुन्दरदास हैं, जिनकी विवेचना से दो प्रकार की ध्वनि निकलती है। पहिली यह है— 'इस प्रकार के अनेक उदाहरण उपस्थित किए जा सकते हैं, जिनसे यह स्पष्ट सिद्ध हो सकता है कि भारतेन्दु जी को दृश्य काव्य का न तो पूरा पूरा

साहित्यिक ज्ञान था और न व्यावहारिक, तथा उन्होंने यूरोपीय और भारतीय पद्धतियों के भेदों को भी पूर्ण रूप से हृदयंगम नहीं किया था, पर थे वे एक निपुण लेखक और अच्छे कवि । इसलिये उनकी कृतियों के ये सब दोष छिप जाते हैं और पाठक उनके नाटकों को पढ़ कर और उसके मूलभाव से मुग्ध होकर आनंद प्राप्त करते हैं ।' दूसरी इस प्रकार है—'सारांश यह कि भारतेन्दु जी ने अपने नाटकों में न तो भारतीय पद्धति का अनुकरण किया है और न यूरोपीय पद्धति का । दोनों की कुछ कुछ बातों का यथा रुचि, पारसी नाटक कंपनियों और आधुनिक बंगला नाटकों के अनुकरण पर, उपयोग किया गया है । यह उपयोग यदि किसी सिद्धान्त पर होता अथवा किसी नई पद्धति को प्रचलित करने के उद्देश्य से किया जाता तो अवश्य कुछ महत्त्व का हो सकता था । जो कुछ आक्षेप या दुःख की बात है, वह यही है कि संस्कृत के कई नाटकों के अनुवादक होने पर भी भारतेन्दु जी ने अपने परम उन्नत नाट्यशास्त्र के ज्ञान का कोई उपयोग नहीं किया । पश्चिमी सभ्यता की चका-चाँध उत्पन्न करने वाली प्रकाशमाला से मोहित होकर उन्होंने उसके आगे सिर झुका दिया । भारतेन्दु जी के समय में जो और नाटक लिखे गए, वे भी इसी ढंग के थे । उनके रचयिताओं ने भारतेन्दु जी को अपना आदर्श माना और उनका अनुकरण करने का प्रयत्न किया । भारतेन्दु जी ने हिन्दी में अनेक नाटक लिखकर हिन्दी साहित्य के एक प्रधान अंग की पूर्ति का उद्योग किया और लोगों को इसका मार्ग दिखाया ।' दूसरे विद्वान साहित्य-मर्मज्ञ पं० रामचन्द्र शुक्ल जी लिखते हैं कि 'इनमें पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक आदि हर प्रकार के नाटक हैं । इन नाटकों की रचना में उन्होंने मध्यम मार्ग का अवलंबन किया । न तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक वारगी छोड़ वे अँगरेजी नाटकों की नक़ल पर चले और न प्राचीन नाट्यशास्त्र की जटिलता में अपने को फँसाया ।' पूर्वोक्त जो दो सम्मतियाँ उद्धृत की गई हैं उनसे स्पष्ट है कि उनके लेखकों ने संस्कृत, बंगला तथा अँगरेजी तीनों नाट्य साहित्यों का मनन किया है और एक सज्जन ने इसके सिवा पारसी थिएट्रिकल साहित्य का भी मंथन किया है ।

भारतेन्दु जी ने कुल मिलाकर लगभग डेढ़ दर्जन के नाटक लिखे , जिनमे कई संस्कृत से, एक बँगला से तथा एक अँगरेजी से अनूदित हैं । इसलिए इनके छोटे बड़े प्रायः नौ दस मौलिक नाटकों ही की रचना से इनके नाट्य-शास्त्रज्ञान की पड़ताल की जायगी । इसके सिवा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारतेन्दु जी ने नाट्यकला पर एक स्वतंत्र पुस्तक 'नाटक' लिखा है, जिसे उन्होंने संस्कृत तथा अँगरेजी दोनों ही के नाट्यकला के ग्रंथों को मनन करके तैयार किया है और स्थान स्थान पर अपनी स्वतंत्र राय भी दी है । सर्वोपरि इन्होंने इसमे "अब नाटक में कहीं 'आशीः' प्रभृति नाट्यालंकार, कहीं 'प्रकरी', कहीं 'विलोभन', कहीं 'संफेट', 'पंचसंधि', वा ऐसे ही अन्य विषयों की कोई आवश्यकता नहीं रही । संस्कृत नाटक की भाँति हिन्दी नाटक मे इनका अनुसन्धान करने, वा किसी नाटकांग मे इनको यत्नपूर्वक रखकर हिन्दी नाटक लिखना व्यर्थ है, क्योंकि प्राचीन लक्षण रखकर आधुनिक नाटकादि की शोभा संपादन करने से उल्टा फल होता है और यत्न व्यर्थ हो जाता है । संस्कृत नाटकादि रचना के निमित्त महामुनि भरत जी जो सब नियम लिख गए हैं, उनमें जो हिन्दी नाटक-रचना के नितांत उपयोगी हैं और इस काल के सहृदय सामाजिक लोगों की रुचि के अनुयायी हैं वे ही नियम यहाँ प्रकाशित होते हैं ।" अस्तु, इस 'नाटक' तथा इनके मौलिक नाटकों के रचना-कौशल दोनों ही पर दृष्टि रखते हुए विवेचना करना उचित होगा ।

भारतीय नाट्यकला के अनुसार नाटक के तीन मूलतत्त्व कथावस्तु, नायक तथा रस होते हैं । कथावस्तु से उस आख्यान या घटना या व्यापार से तात्पर्य नहीं है जिससे नाटक की कथावस्तु का निर्माण हुआ है पर उनके उस स्वरूप से मतलब है जो नाटककार के कौशल ने उन्हें दे दिया है । यह वस्तु दो प्रकार का होता है—आधिकारिक और प्रासंगिक । नाटक के प्रधान फल का जो मालिक होता है उसे अधिकारी कहते हैं और उसकी ही कथा आधिकारिक है । इसकी साधिका इतिवृत्ति प्रासंगिक कहलाती है । यही अधिकारी नायक कहलाता है । जिस प्रकार सत्य हरिश्चन्द्र मे हरिश्चंद्र अधिकारी

या नायक हैं और उनकी कथा आधिकारिक है। इस कथावस्तु के व्यापारों को करने या सहने वाले मनुष्य होते हैं जिनके कार्यों को देखकर तथा वार्तालाप सुनकर कुल वाते दर्शकों पर प्रकट होती हैं। इसीलिए नाटककार इन व्यापारों को अभिनय तथा पात्रों के कथोपकथन द्वारा बड़ी कुशलता से संगठित करता है जससे कुल घटना-क्रम पाठकों, विशेषतः दर्शकों, को हृदयंगम हो जाती हैं। यह कथोपकथन पात्रों के चरित्र के अनुकूल ही होना चाहिए। भितभापी पात्र का वकवाद, गभीर राजनीतिज्ञ का मसखरापन आदि दिखलाना दोष हो जायगा। इस वार्तालाप ही से पात्रों के चरित्र-चित्रण में विशेष सहायता मिलती है। नाटककार को घटना के समय तथा देश के अनुसार पात्रों का चरित्र गुफित करना पड़ता है। घटना यदि दो सहस्र वर्ष पहिले के किसी दक्षिण राजवंश का है और नाटककार उसे वर्तमान समय के राजस्थान के किसी राजवंश की रीति-प्रथा आदि लेकर निर्माण करता है तो वह दोनों ही के विरुद्ध चलता है और वह कभी सफल नहीं हो सकता। नाटक का कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए और वह जिस उद्देश्य से लिखा गया है उसका उसी कथावस्तु के साथ विकास होता चलना चाहिए। नाटककार के निजी भाव, अनुभव, विचार आदि भी क्रमशः आप से आप इस कथावस्तु के विकास के साथ साथ लगे रहते हैं, जिससे हर एक कुशल नाट्यशिल्पी की एक एक निजी शैली हो जाती है। काव्य की आत्मा रस की प्राण-प्रतिष्ठा की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि इनके बिना नाटक नीरस और निर्जीव ही रह जायगा। संस्कृत-साहित्य में रस-विरोध न होना आवश्यक बतलाया गया है पर नवीन प्रणाली के दुःखांत नाटको में ऐसा हो जाना अवश्यम्भावी हो गया है।

कथावस्तु के प्रयोजन की सिद्धि के उपाय को अर्थ प्रकृति कहते हैं, जो पाँच होती हैं। इनके नाम बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य है। प्रयोजन भिद्ध्यर्थ आरम्भ किए गए कार्य की पाँच अवस्थाएँ होती हैं जिनके नाम आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम हैं। एक ही प्रयोजन से युक्त पर इतिवृत्त के अवस्थानुसार विभक्त हुए कथांशों के अवांतर संबधों से पाँच सधियाँ होती हैं, जिन्हे मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण

कहते हैं। इन संधियों में पहिले के बारह अंग, दूसरे के तेरह, तीसरे के तेरह चौथे के तेरह और पाँचवें के चौदह अंग होते हैं। परन्तु इन सबका आधुनिक काल में भारतेन्दु जी के अनुसार विशेष कुछ काम नहीं है, जैसा ऊपर के एक उद्धृत अंश से ज्ञात हो जायगा।

पाश्चात्य नाट्यकला में पूर्वोक्त अर्थप्रकृति तथा संधि का विश्लेषण नहीं है पर कथावस्तु के कर्मानुसार पाँच अवस्थाएँ मानी जाती हैं। पहिली और पाँचवीं आरम्भ और अंत हैं। तीसरी वह है जिसे क्लाइमेक्स अर्थात् चरम सीमा कहते हैं। दूसरी और चौथी अवस्था चढ़ाव और उतार हैं। यह पाँचो भेद साधारण हैं। नाटको में प्रायः प्रेमियों की लीला प्रदर्शित की जाती है। उदाहरणार्थ एक प्रेमलीला लीजिए। दो प्राणियों के प्रेमांकुरण से इसका आरम्भ होता है। उसके मार्ग में रुकावट पड़ती है पर वह अग्रसर होता रहता है। इसके अनंतर यह बाधा अपना पूर्ण रूप प्रगट करते हुए भी असफल होने का आभास देती है। इसके बाद वह क्रमशः बिलकुल दब जाती है, तब अंत युगल-मिलन में हो जाता है।

विद्यासुन्दर नाटक में ठीक इसी प्रकार की एक प्रेम लीला का वर्णन है। इसका मूल आधार तो केवल इतना ही है कि एक राजकुमारी विद्या का उसके सहपाठी सुन्दर से प्रेम हो गया था, जिसका अंत वियोग में हुआ था। बँगला के विद्यासुन्दर नाटक देखने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला है इसलिए इस विषय में कुछ नहीं लिखा जा सकता कि भारतेन्दु जी ने उसमें क्या घटी-बढ़ती की है। यह नाटक तीन अंको में विभाजित है तथा पहिला चार और दूसरा तथा तीसरा तीन तीन गर्भांको में बँटा है। इस 'गर्भांक' शब्द का बड़ा दुरुपयोग किया गया है। यह शब्द अँगरेजी के 'सीन' शब्द का समानार्थी माना गया है, यद्यपि संस्कृत नाट्यशास्त्र के अनुसार किसी अंक के मध्य में आने वाले अंक को गर्भांक कहा है और यह आदेश किया है कि रस, वस्तु और नायक का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। बँगला के आधुनिक नाटको में गर्भांक सीन के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है और जान पड़ता है कि भारतेन्दु जी ने भी इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया

है। हमारी समझ में 'दृश्य' शब्द से इसका काम भलो भाँति चल सकता था। एक शास्त्रीय शब्द का दुरुपयोग वांछनीय नहीं है। इससे व्यर्थ भ्रम उत्पन्न होता है।" यह गर्भांक लेखक को हौआ सा मालूम हुआ है। भारतेन्दु जी नाटक में लिखते हैं कि 'प्राचीन की अपेक्षा नवीन की परम मुख्यता चारों-द्वार दृश्यों के बदलने में है और इसी हेतु एक एक अंक में अनेक अनेक गर्भांकों की कल्पना की जाती है क्योंकि इस समय से नाटक के लेखों के साथ विविध दृश्यों का दिखलाना भी आवश्यक समझा गया है। इन अंक और गर्भांकों की कल्पना यों होनी चाहिए, यथा पाँच वर्ष के आख्यान का एक नाटक है तो उसमें वर्ष वर्ष के इतिहास के एक-एक अंक और उस अंक के अंतःपाती विशेष-विशेष समयों के वर्णन का एक एक गर्भांक। अथवा पाँच मुख्य घटना-विशिष्ट कोई नाटक है तो प्रत्येक घटना के सम्पूर्ण वर्णन का एक एक अंक और भिन्न भिन्न स्थानों में विशेष घटनांतःपाती छोटी-छोटी घटनाओं के वर्णन में एक-एक गर्भांक।'

सत्यहरिश्चन्द्र नाटक पौराणिक आख्यान तथा चंडकौशिक नाटक के आधार पर लिखा गया है। भारतेन्दु जी ने इसका कथावस्तु बड़ी कुशलता से सुगठित किया है। वालको को उपदेश देने के जिस उद्देश्य से यह लिखा गया है, उसे यह पूर्णरूप से चरितार्थ कर रहा है। इसमें वीर रस के सत्य, ज्ञान तथा कर्म तीनों भेद का परिपाक हुआ है और करुण, वीभत्स रसों का भी समावेश हुआ है। इसमें चार ही अंक हैं और अंतिम अंक को चंडकौशिक के समान व्यर्थ ही दो अंकों में विभक्त कर नाटक में कम से कम पाँच अंक होने के नियम का दोष मार्जन नहीं किया गया है। यह कवि-स्वातंत्र्य है। इसमें अर्थ प्रकृति तथा अवस्थाएँ सभी उपयुक्त स्थानों पर मौजूद हैं और यह नाटक सभी लक्षणों से युक्त है।

इनके सिवा चंद्रावली नाटिका, भारतदुर्दशा, नीलदेवी, प्रेमयोगिनी आदि कई छोटे बड़े रूपक लिखे गए, जिनकी सन्निप्त आलोचना अलग की जा चुकी है। उन सब विवेचनों से यह स्पष्ट है कि भारतेन्दु जी को संस्कृत नाट्यशास्त्र का अच्छा ज्ञान था और यूरोपीय नाट्यकला का भी उन्होंने

मनन किया था। पारसी थिएट्रिकल साहित्य के विषय में भारतेन्दु जी की अच्छी सम्मति नहीं थी। वे जिन नाटक कंपनियों के लिए लिखे जाते थे उनका व्यवसाय पैसे कमाना था तथा वे साहित्यिक दृष्टि से नहीं लिखे जाते थे। ऐसी नाटक कंपनियाँ आज भी हैं, जो वृद्धभूषा, दृश्य, पटपरिवर्तन, नर्तकियों आदि की बाहरी चमक दमक से दर्शकों को आकर्षित करना ही अपना धर्म समझते हैं।

चरित्र चित्रण

नाट्य-शास्त्र-ज्ञान की चर्चा के अनंतर चरित्र-चित्रण की उच्चतर कला की ओर आइए, जिसमें मनुष्यों के मनोविकारों तथा उच्चतम भावों का समावेश कर कवि या नाटककार आदर्श चित्र अंकित करते हैं। साधारण पात्रों में ऐसे विकारादि की क्षणिक अभिव्यंजना ही काफी हो सकती है पर प्रधान पात्रों में इन सबकी अर्थ से इति तक अनेक अवसर लाकर अभिव्यक्ति करते रहना आवश्यक होता है। इसी कारण नाटककार को मानव जीवन के सभी अंगों का, विशेषतः जिनको वह चित्रित कर रहा हो पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, नहीं तो वह अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। साथ ही उस ज्ञान का कुशल शिल्पी ही इस प्रकार उपयोग कर सकता है, जिससे उसके चित्र सजीव हो उठते हैं। भारतेन्दु जी ऐसे ही कुशल नाटककार थे और उनके मौलिक नाटकों के कुछ पात्रों का ऐसा ही चित्रण हुआ है।

सत्यहरिश्चन्द्र नाटक में राजा हरिश्चन्द्र तथा विश्वामित्र प्रधान पात्र हैं और रानी शैव्या, इन्द्र, नारद गौण पात्र हैं। पहिले वीरवर सम्राट् हरिश्चन्द्र को लीजिए। इनका व्रत था—

चंद्र टरै सूरज टरै टरै जगत न्यवहार।

पै दृढ़ श्री हरिचंद्र को टरै न सत्य विचार ॥

इस सत्यवीर के प्रभूत ऐश्वर्य, अटलशक्ति, विवेक ज्ञान, धर्मप्रियता, दानशक्ति, शील, धर्मनिष्ठा, क्षमा आदि गुणों को देखकर एक अन्य पात्र को ईर्ष्या होती है और वह विश्वामित्र से क्रोधी ब्राह्मण में उनके प्रति क्रोध

उत्पन्न कर उन्हें हरिश्चन्द्र के सत्य की परीक्षा लेने को उभाड़ता है। अब एक पक्ष अपने सत्य-पथ से जरा भी विचलित न होते हुए सभी रुकावटों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है और दूसरा अपनी षड्यंत्रकारिणी दुष्ट बुद्धि को बाधाएँ उपस्थित करने में अंत तक प्रेरित करता रहता है। महाराज हरिश्चन्द्र स्वप्न में दिए हुए दान को सत्य मानकर दानपात्र ब्राह्मण के नाम पर राज्य चलाते रहने का प्रवध कर रहे थे कि स्वप्न के वही ब्राह्मण देव क्रोध के मूर्तिरूप आ उपस्थित होते हैं और जब बकभक करते हुए भी स्वप्न का प्रतिगृहीत समग्र राज्य पा जाते हैं तब दक्षिणा के बहाने उस सत्यवीर नायक को सखीक विकने पर बाध्य करते हैं। इस 'अकारण कोही' ब्राह्मण बने हुए क्षत्रिय के दुर्व्यवहार पर भी सच्चे क्षत्रिय शूरवीर ने ब्राह्मणों के प्रति जो उदारता थी वह उक्त महाशय को अंत तक सौम्य बनाए रखती है। कुशल नाटककार ने आरम्भ से अंत तक इस प्रकार घटना सगठन किया है कि दर्शकों की नायक के प्रति ज्यों ज्यों सहानुभूति आकर्षित होती जाती है त्यों त्यों तपस्वी प्रतिनायक की ओर उनकी अश्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। महाराज हरिश्चन्द्र राज्य, स्त्री, पुत्र तथा शारीरिक स्वातंत्र्य सब कुछ खोकर भी अपना शील, सौम्यता, सत्य में दृढ़ता तथा ईश्वर-भक्ति नहीं त्यागते। दर्शक उनकी ओर श्रद्धा-पूर्ण नेत्रों से देखते रहते हैं और अंत होते होते स्यात् ही उनमें ऐसा कोई निष्ठुर हृदय होगा, जिसकी आँखें न डबडबा आएँ। प्रतिनायक विश्वामित्र की कुटिलता देखते देखते दर्शकों को उनपर घृणा हो जाती है। यहाँ तक कि स्वर्गस्थित-देवगण भी धिक्कार देने में पीछे नहीं रह जाते। राजा हरिश्चन्द्र का यह सत्यव्रत लोकव्यापी व्यापार हो उठा था और केवल मनुष्यों ही की नहीं, देवगण की भी दृष्टि उसी ओर रहने लगी थी।

राजा हरिश्चन्द्र अपने गौरव तथा आत्माभिमान को कहीं नहीं भूले हैं। उन्हें अपने उच्चतम वंश का, सहज क्षात्रधर्म का तथा सत्यव्रत का सच्चा दर्प था। दक्षिणा-रूपी ऋण रहते शरीर वेंच देने पर सहस्र कष्ट होते हुए भी वे मृत्यु के आवाहन करने का विचार भी लाना अधर्म समझते थे। कहते हैं—

तनहिं बेंचि दासी कहवाई । मरत स्वामी आयसु बिनु पाई ।
करु न अधर्म सोचु मन माहीं । पराधीन सपने सुख नाहीं ॥

कापालिक जब इनकी सहायता से रसेन्द्र आदि सिद्ध करके ले आता है और इन्हें देने लगता है, तब यह उसे अपने स्वामी ही को देने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे समझते थे कि 'देह के साथ ही अपना स्वत्वमात्र बेंच चुका।' इसी पर धर्म आश्चर्य-चकित होकर कहता है कि—

चलै मेरु बरु प्रलय जल पवन ऋकोरन पाय ।
पै बीरन के मन कबहुँ चलहिं नहीं ललचाय ॥

उदारता नायक में इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि सब महाविद्याएँ स्वतः इनकी वशवर्तिनी होकर आईं तब इन्होंने उन्हें अपने सभी कष्टों के मूल विश्वामित्र के पास अपनी ओर से केवल इस कारण भेज दिया कि 'उन्होंने उनके वास्ते बड़ा परिश्रम किया था।' ब्राह्मणों के प्रति उनका यह औदार्य तथा आदर उनके सभी आचरणों से व्यक्त होता था। महारानी शैव्या सी स्त्री के दासी होकर जाते समय कौंडिन्य महाराज के बालक रोहिताश्व को व्यर्थ ढकेलने तथा उस बालक के रोते हुए उठकर लोभ तथा क्रोध भरी आँखों से माता पिता की ओर देखने पर, वे केवल इतना ही कहते हैं कि 'ब्राह्मण देवता बालको के अपराध संरुष्ट न होना।' और पुत्र से कहते हैं कि ब्राह्मण का क्रोध तो सब दशा में सहना चाहिए।

'चांडाल-याजिन्' की कुटिलता से जब हरिश्चन्द्र चांडाल-दास हुए तब इन्होंने अपने स्वामी के प्रति जो स्वामिभक्ति दिखलाई है वह उस स्वामिभक्ति से कठिनतर थी जो वे स्वयं अपने कर्मचारियों तथा दासों से चाहते रहे होंगे। सत्य ही ऐसे सत्यवीर सम्राट् के सभी कार्य आदर्श थे। सांसारिक सुख दुख के अनुभव कटु होते ही हैं। ऐसी कष्टमय परिस्थिति में पड़कर कितने साधारण पुरुष क्या न क्या कर बैठते हैं। इसी कटु अनुभव तथा स्वामिभक्ति के कारण आती हुई निधि, भगवती के आशीर्वाद सभी को अपने मालिक ही के लिए माँग लिया था और महाविद्याओं, अष्टसिद्ध, नवनिधि,

उत्पन्न कर उन्हें हरिश्चन्द्र के सत्य की परीक्षा लेने को उभाड़ता है। अब एक पक्ष अपने सत्य-पथ से जरा भी विचलित न होते हुए सभी रुकावटों को रौदता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है और दूसरा अपनी पड्यत्रकारिणी दुष्ट बुद्धि को बाधाएँ उपस्थित करने में अंत तक प्रेरित करता रहता है। महाराज हरिश्चन्द्र स्वप्न में दिए हुए दान को सत्य मानकर दानपात्र ब्राह्मण के नाम पर राज्य चलाते रहने का प्रवचन कर रहे थे कि स्वप्न के वही ब्राह्मण देव क्रोध के मूर्तिरूप आ उपस्थित होते हैं और जब वक्रभक्त करते हुए भी स्वप्न का प्रतिगृहीत समग्र राज्य पा जाते हैं तब दक्षिणा के वहाने उस सत्यवीर नायक को सखीक विकने पर बाध्य करते हैं। इस 'अकारण कोही' ब्राह्मण बने हुए क्षत्रिय के दुर्व्यवहार पर भी सच्चे क्षत्रिय शूरवीर में ब्राह्मणों के प्रति जो उदारता थी वह उक्त महाशय को अंत तक सौम्य बनाए रखती है। कुशल नाटककार ने आरम्भ से अंत तक इस प्रकार घटना सगठन किया है कि दर्शकों की नायक के प्रति ज्यों ज्यों सहानुभूति आकर्षित होती जाती है त्यों त्यों तपस्वी प्रतिनायक की ओर उनकी अश्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। महाराज हरिश्चन्द्र राज्य, स्त्री, पुत्र तथा शारीरिक स्वातंत्र्य सब कुछ खोकर भी अपना शील, सौम्यता, सत्य में दृढ़ता तथा ईश्वर-भक्ति नहीं त्यागते। दर्शक उनकी ओर श्रद्धा-पूर्ण नेत्रों से देखते रहते हैं और अंत होते होते स्यात् ही उनमें ऐसा कोई निष्ठुर हृदय होगा, जिसकी आँखें न डबडबा आएँ। प्रतिनायक विश्वामित्र की कुटिलता देखते देखते दर्शकों को उनपर घृणा हो जाती है। यहाँ तक कि स्वर्गस्थित-देवगण भी धिक्कार देने में पीछे नहीं रह जाते। राजा हरिश्चन्द्र का यह सत्यव्रत लोकव्यापी व्यापार हो उठा था और केवल मनुष्यों ही की नहीं, देवगण की भी दृष्टि उसी ओर रहने लगी थी।

राजा हरिश्चन्द्र अपने गौरव तथा आत्माभिमान को कहीं नहीं भूले हैं। उन्हें अपने उच्चतम वंश का, सहज क्षात्रधर्म का तथा सत्यव्रत का सच्चा दर्प था। दक्षिणा-रूपी ऋण रहते शरीर बेंच देने पर सहस्र कष्ट होते हुए भी वे मृत्यु के आवाहन करने का विचार भी लाना अधर्म समझते थे। कहते हैं—

तनहिं बेंचि दासी कहवाई । मरत स्वामी आयसु बिनु पाई ।
करु न अधर्म सोचु मन माहीं । पराधीन सपने सुख नाहीं ॥

कापालिक जब इनकी सहायता से रसेन्द्र आदि सिद्ध करके ले आता है और इन्हें देने लगता है, तब यह उसे अपने स्वामी ही को देने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे समझते थे कि 'देह के साथ ही अपना स्वत्वमात्र बेंच चुका।' इसी पर धर्म आश्चर्य-चकित होकर कहता है कि—

चलै मेरु बरु प्रलय जल पवन ऋकोरन पाय ।
पै बीरन के मन कबहुँ चलहिं नहीं ललचाय ॥

उदारता नायक मे इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि सब महाविद्याएँ स्वतः इनकी वशवर्तिनी होकर आईं तब इन्होंने उन्हें अपने सभी कष्टों के मूल विश्वामित्र के पास अपनी ओर से केवल इस कारण भेज दिया कि 'उन्होंने उनके वास्ते बड़ा परिश्रम किया था।' ब्राह्मणों के प्रति उनका यह औदार्य तथा आदर उनके सभी आचरणों से व्यक्त होता था। महारानी शैव्या सी स्त्री के दासी होकर जाते समय कौंडिन्य महाराज के बालक रोहिताश्व को व्यर्थ ढकेलने तथा उस बालक के रोते हुए उठकर क्षोभ तथा क्रोध भरी आँखों से माता पिता की ओर देखने पर, वे केवल इतना ही कहते हैं कि 'ब्राह्मण देवता बालको के अपराध सं रूष्ट न होना।' और पुत्र से कहते हैं कि ब्राह्मण का क्रोध तो सब दशा में सहना चाहिए।'

'चांडाल-याजिन' की कुटिलता से जब हरिश्चन्द्र चांडाल-दास हुए तब इन्होंने अपने स्वामी के प्रति जो स्वामिभक्ति दिखलाई है वह उस स्वामिभक्ति से कठिनतर थी जो वे स्वयं अपने कर्मचारियों तथा दासों से चाहते रहे होंगे। सत्य ही ऐसे सत्यवीर सम्राट् के सभी कार्य आदर्श थे। सांसारिक सुख दुख के अनुभव कटु होते ही हैं। ऐसी कष्टमय परिस्थिति में पड़कर कितने साधारण पुरुष क्या न क्या कर बैठते हैं। इसी कटु अनुभव तथा स्वामिभक्ति के कारण आती हुई निधि, भगवती के आशीर्वाद सभी को अपने मालिक ही के लिए माँग लिया था और महाविद्याओं, अष्टसिद्ध, नवनिधि,

तथा बारह प्रयोगों को विश्वामित्र, योगियों, सज्जनों तथा साधकों के पास विदा कर दिया था। पुत्र की मृत्यु पर नियमानुसार उसके अधखुले कफन से आधा अंश भाँग कर इन्होंने देवताओं तक से कहला डाला—

अहो धैर्यमहो सत्यमहो दानमहो बलम् ।

त्वया राजन् हरिश्चन्द्र सर्वलोकोत्तरं कृतम् ॥

दानवीर जब दान देने में अपने को असमर्थ पाता है और याचक सम्मुख उपस्थित होता है तब उसे कितनी मार्मिक व्यथा होती है, यह भी एक स्थान पर बड़ी सुन्दरता से दिखला दी गई है। आरम्भ में नारद जी से नाटककार ने महाशयता की परिभाषा इस प्रकार कराई है कि 'जिसका भीतर बाहर एक सा हो और विद्यानुरागिता, उपकारप्रियता आदि गुण जिसमें सहज हो, अधिकार में क्षमा हो, विपत्ति में धैर्य, संपत्ति में अनभिमान और युद्ध में जिनकी स्थिरता हो, वही ईश्वर की सृष्टि का रत्न है और उसी की माता पुत्रवती है।' राजा हरिश्चन्द्र महाशय तथा सृष्टि के रत्न थे और यह कारण है कि आज तक सत्यवीरों की सूची में पहिला नाम इन्हीं का रखा जाता है।

प्रतिनायक विश्वामित्र इंद्र द्वारा प्रेरित होने पर ही हरिश्चन्द्र के विरुद्ध उठे थे पर उनका 'इसपर स्वतः भी क्रोध' था। वशिष्ठ ऋषि से विश्वामित्र की शत्रुता पुराण-प्रसिद्ध है और राजा हरिश्चन्द्र इन्हीं वशिष्ठ जी के यजमान थे। जिस समय आप पहिलेपहिले रग मंच पर पधारने हैं और राजा उनका शिष्टाचार करते हैं तब आप 'रे क्षत्रियाधम, सूर्यकुलकलंक, दुष्ट' आदि से उन्हें संबोधित करते हैं। इसके बाद पैर पर गिरकर विनय करने पर भी आप क्रोध से कहते हैं 'सच है रे पाप पाषड मिथ्या दानवीर ! तू क्यों न मुझे "राजप्रतिग्रह-पराङ्मुख" कहेगा; क्योंकि तैने तो कल सारी पृथ्वी मुझे दान दी है, ठहर देख इस भूठ का कैसा फल भोगता है। हाँ ! इसे देखकर क्रोध से जैसे मेरी दाहिनी भुजा शाप देने को उठती है वैसे ही जातिस्मरण के संस्कार से बाईं भुजा फिर से कृपाण ग्रहण किया चाहती है। (अत्यंत क्रोध से लंबी साँस लेकर और बाँह उठाकर) अरे ब्रह्मा ! सम्हाल, अपनी सृष्टि को, नहीं तो

परम तेजपुंज दीर्घ तपोवर्द्धित मेरे आज इस असह्य क्रोध से सारा संसार नाश हो जायगा, अथवा संसार के नाश ही से क्या ? ब्रह्मा का तो गर्व उसी दिन मैंने चूर्ण किया, जिस दिन दूसरी सृष्टि बनाई, आज इस राजकुलांगार का अभिमान चूर्ण करूँगा, जो मिथ्या अहंकार के बल से जगत में दानी प्रसिद्ध हो रहा है ।'

इस प्रकार वह अनेक तरह के वाग्वाण छोड़ते हुए राजा का सर्वस्व अपहरण कर उसे शरीर बेचकर दक्षिणा चुकाने काशी भेज देते हैं । दर्शकों को इनके प्रति इतने ही से घृणा उत्पन्न हो जाती है । काशी में तकाजा करने पहुँचने पर आप कहते हैं कि 'इसके सत्य, धैर्य और विनय के आगे हमारा क्रोध कुछ काम नहीं करता । यद्यपि यह राज्य भ्रष्ट हो चुका पर जब तक इसे सत्य भ्रष्ट न कर लूँगा तब तक मेरा सतोष न होगा । (आगे देखकर) अरे ! यही दुरात्मा (कुछ रुककर) वा महात्मा हरिश्चंद्र है ? (प्रगट) रे आज महीने में कै दिन बाकी हैं ? बोल कब दक्षिणा देगा ?'


इससे घृणा बढ़ती है और साथ ही सच्चे गुण का असर कठोर हृदय पर भी होता दिखलाकर नाटककार ने इसे अस्वाभाविक होने से बचा लिया । यहीं से यह भी लक्षित करा दिया है कि प्रतिनायक पर नायक के लोकोत्तर गुण का असर हो रहा है और उसमें द्वेष की मात्रा कम होती जा रही है जो दो एक परीक्षा के बाद ही मिट जायगी तथा उसके स्थान पर राजा के प्रति उनमें पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हो जायगी । परीक्षक कठोर होता ही है और क्षत्रिय से ब्राह्मण का पद प्राप्त करने पर भी उनमें अहंकार, कठोरता तथा शूर प्रतिभट के प्रति आदर दिखलाना अत्यंत स्वाभाविक हुआ है ।

महारानी शैव्या तथा राजकुमार रोहिताश्व का चरित्र उन्हीं के अनुकूल चित्रित हुआ है । नाटककार ने सहज स्त्री-सुलभ संकोच, लज्जा, पति के प्रति दृढ़ विश्वास तथा श्रद्धा उसके एक एक बात में भर कर रख दी है । पति ही पत्नी का सर्वस्व है, ऐसा मानते हुए भी वह अपनी शका तथा अपनी सम्मति कह देना उचित समझती थीं । उपाध्याय से कहलाकर महारानी के सौंदर्य, सौकुमार्य तथा शील प्रगट करते हुए 'तुम्हारे पति हैं न' प्रश्न ने सती स्त्री के सतीत्व को दमका दिया है । जिस पति के कारण वह एक महाराज

की पुत्री और एक सम्राट् की पुत्रवधू होकर तथा अपने छोटे से पुत्र को लेकर वह उस समय दासी होने जा रही थी उसके प्रति उसका भाव क्या था, यह उसकी सौम्य मूक दृष्टि ही बतला रही है। पति की ओर देखकर नीचे दृष्टि कर लेने में कितना व्यथापूर्ण भाव है कि आज वह अपने ऐसे सर्वश्रेष्ठ रत्न को चिथड़े में रखा हुआ सब को दिखला रही है। पर रत्न रत्न ही है। इसके सिवा पुत्र-शोक-पीड़िता शैव्या के सारे रोने कल्पने को पढ़िए पर एक भा शब्द ऐसा न मिलेगा, जिससे उसका पति के प्रति अविश्वास या रोष का सदेह मात्र भी हो। स्मशान में चांडाल-दास पति के साथ उसका वही व्यवहार रहा जो राजसिंहासन सुशोभित सम्राट् पति के साथ था। महारानी शैव्या आदर्श स्त्री-रत्न थीं। रोहिताश्व बालक था। उसका निज का चाहे कुछ भी आदर्श चरित्र न दिखलाया गया हो पर उसी पर सत्य परोक्षा की अंतिम कसौटी कसी गई थी, जिसका कस विद्युत से भी बढ़कर प्रज्वलित हो उठा था। यही बालक नाटक के करुण रस का स्रोत है और उसी पर की गई परीक्षा सदा सोने वाले आरामपसंद भगवान को मृत्युलोक तक खींच लाई थी।

सहायक पात्रों में इन्द्र और नारद ही मुख्य हैं। इन्द्र का स्वभाव वही दिखलाया गया है जो उनके लिये प्रायः प्रसिद्ध है पर नारद जी का इसके विपरीत चित्रित किया गया है। वास्तव में वे पुराणों से कहाँ तक कलह-प्रिय ज्ञात होते हैं, इस पर विशेष रूप से तो नहीं कह सकता पर तब भी वे कही इस स्वभाव के मुझे नहीं मिले। वे विरक्त थे इससे दत्त की संतानों को उल्टा उपदेश देकर वन में विदा कर दिया और स्वयं शापित होकर घूमने लगे। दुष्टों के संहार कराने में यह सदा दत्तचित्त रहते थे। संस्कृत साहित्य में, माघ आदि काव्यों में, ये ऋषिवत् ही चित्रित हैं; यद्यपि उनमें भी वे दुष्टों के नाश कराने ही के कार्य में लगे हुए वर्णित हैं। हिन्दी ही में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, भगडालुओं के लिये नारद नाम रूढ़ि हुआ है। इस विचार से नारद जी का चित्रण ऋषिवत् करना ही उत्तम हुआ है और उनसे इन्द्र को जो उपदेश दिलाया गया है वह बालकों के लिये उपयोगी है। नारद जी सर्वदा हरिनाम जपते तथा भ्रमण करते हुए सभी स्थानों में जाया आया

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र



स्वर्गीय बा० गोपालचन्द्र उपनाम गिरिधरदास



स्वर्गीय बा० बलदेवदास तथा उनके पाँचों पुत्र

करते थे पर वशिष्ठ जी से ऋषि को सिवा किसी खास काम के इन्द्र के पास जाना तथा हरिश्चन्द्र की प्रशंसा और पक्षपात करना उचित न होता। इसके बाद विश्वामित्र के आने पर दोनों में साक्षात् कराना भी ठीक न होता क्योंकि दोनों 'चांडालयाजिन' के नाते उस समय परस्पर मित्र भाव नहीं रखते थे। अस्तु, नाटककार ने जो कुछ सोचकर ऐसा किया हो, वह उचित ही किया है।

चन्द्रावली नाटिका की नायिका श्रीमती चन्द्रावली जी निरीह प्रेम की पात्री हैं। इनका प्रेम विलक्षण है, जो अकथनीय तथा अकरणीय है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रेमपात्र में माहात्म्य का ज्ञान नहीं रह जाता और जहाँ माहात्म्य-ज्ञान होता है वहाँ प्रेम प्रस्फुटित नहीं हो सकता। पर यह श्रीकृष्ण भगवान के माहात्म्य को अच्छी प्रकार जानकर भी उनमें पूर्ण आसक्ति रखती थीं। इनके प्रेम की निस्पृहता बहुत बढ़ी हुई थी। यह प्रायः ऐना देखा करती थीं जिस पर इनकी सखी ललिता ने उक्ति की 'तेरे नैन मूरति पियारे की वसत ताहि आरसी में रैन दिन देखिबो करत है।' इस पर चन्द्रावली जी उत्तर देती हैं कि 'नहीं सखी! मैं जब आरसी में अपना मुँह देखती और अपना रंग पीला पाती थी तब भगवान से हाथ जोड़कर मनाती थी कि भगवान् मैं उस निर्दयी को चाहूँ पर वह मुझे न चाहे, हा!' वह स्वयं चिरकाल तक विरह कष्ट सहन करने को तैयार हैं पर यह नहीं चाहती कि उसका प्रिय भी उससे वैसा ही प्रेम कर विरह की यातना भोगे। उसने स्वयं कितना कष्ट उठाया होगा यह उसके दो एक दिन के प्रलाप ही से समझ लीजिए। 'प्रेमियों के मडल को पवित्र करनेवाली' श्री चन्द्रावली जी के इसी चरित्र पर भक्त कवियों ने इन्हे श्री राधिका जी के समकक्ष मानते हुए कहा है—

राधा चंद्रावली कृष्ण ब्रज जमुना गिरिवर मुखहि कहौ री।

जनम जनम यह कठिन प्रेम व्रत हरीचंद इक रस निवहौ री ॥

भारत दुर्दशा में 'भारतदुर्दैव' पात्र प्रधान है और इसी ने भारत के नाश करने का पूरा प्रयत्न किया है। भारत की दुर्दशा का इतिहास भारत के परतंत्र होने के समय से आरम्भ होता है। मुसलमानों के आक्रमणों से भारत का स्वातंत्र्य क्रमशः नष्ट हो चला था कि भारतीयों ने उसे पुनः अपना

आरम्भ कर दिया पर उसी प्रयास काल मे यूरोपियन क्रिस्तानी जातियों ने व्यापार की आड़ में यहाँ आकर उसे पुनः परतंत्र कर दिया । यही कारण है कि भारत दुर्दैव को अर्द्ध क्रिस्तानी तथा अर्ध मुसल्मानी वेप दिया गया है । इस पात्र का चित्रण अतीव सुंदर हुआ है और इससे देश की तत्कालीन दशा का पूरा ज्ञान हो जाता है । इसका प्रतिनायक 'भारत भाग्य' है । छठे अंक मे उसने पहुँच कर भारत के प्राचीन गौरव का, वर्तमान समय की उसकी दुर्दशा का और उन्नति करने मे भारतीयों की पंगुता का बड़ी ओजस्विनी भाषा मे वर्णन किया है । इस प्रतिनायक ने देशवासियों को जगाने का बहुत प्रयत्न किया पर जब वे न जागे तब उसने नैराश्य मे आकर आत्म-हत्या कर ली । आशावादी कह सकते हैं कि 'भारतोदय करने की दृढ़ता का भाव' होना चाहिए था । वास्तव मे नाटककार ने भी भारतभाग्य का अंत दिखलाकर सोए हुए भारत का नहीं, दर्शकों पर विशेष रूप से स्थाई प्रभाव डालने का प्रयत्न किया है । भारतीयों में क्या क्या दुर्गुण आ गये थे, जिनके कारण वे इस प्रकार दुर्दशाग्रस्त हो गए थे उनको 'भारतदुर्दैव' के प्रयत्नों के रूप में बड़ी मार्मिकता से दिखलाया है । उसके सेनापति 'सत्यानाश' ने आकर धर्म की आड़ मे होते हुए सामाजिक दोषो पर खूब चुनौतियाँ ली हैं । अपव्यय, कचहरी, फूट आदि दोष गिनाए गए, जो आज तक वर्तमान हैं । इसके अनंतर भारतदुर्दैव अपने अन्य सैनिकों को भारत पर भेजता है । पहिले 'रोग' आता है । इसको लाने का मुख्य कारण भारतीयों की वह मूर्खता दिखलाना था जो बीमारी आने पर दवा इत्यादि न कर भूत-प्रेत पूजना, शुक्रवार को फुँकवाना आदि ही अल समझते थे और हैं । इसके अनंतर आलस्य आता है, जिसका चित्रण बहुत अच्छा हुआ है । यह हम भारतीयों का जीता-जागता नमूना है । मदिरा देवी के प्रभुत्व का वर्णन बहुत उचित हुआ है । अभी तक नशा की वस्तुओं पर पिकेटिंग होती रही थी । इसके अनंतर अन्धकार भेजा गया । इस प्रकार बराबर प्रयत्नशील रहते हुए कर्मठ 'भारतदुर्दैव' सफल सा होता दिखलाया गया है । पाँचवे अंक मे कुछ जागृति के लक्षण आशा रूप मे दिखलाए गए हैं । पुस्तक, अखबार, कमीटी आदि

उसके चिह्न हैं और भारतदुर्देव के प्रयत्नों के निराकरण के उपाय सोचना भारतोदय की आशा करना है।

नील देवी मे सूर्यदेव नायक तथा अब्दुशरीफ खाँ प्रतिनायक हैं। पहिले का चित्र सच्चे राजपूत वीर सा खींचा गया है। वह धर्म-युद्ध वीर है। प्रतिनायक का चित्र भी ठीक है। वह शबखूँ अर्थात् राति-आक्रमण में बहादुर है, अवसर का बंदा है। अन्त मे वह इसी प्रकार के एक धात्रे में सूर्यदेव को कैद कर लेता है और वह वही कैद मे मारा जाता है। एक पागल-घात्र मुसल्मानी पड़ाव मे जाकर उनकी मृत्यु का पता लगाता है और उसी से राजा सूर्यदेव के पुत्र तथा धर्मपत्नी रानी नीलदेवी को सूचना मिलती है। कुमार सोमदेव अपने पिता के समान ही वीरता के साथ सम्मुख युद्ध की घोषणा करता है पर रानी नीलदेवी उसे इस कार्य से रोकती है। वह जानती है कि सम्मुख युद्ध मे ये शत्रु से पार न पावेगे और वह पति का बदला पाने तथा उनके शव के साथ जल सकने से वंचित रह जायगी। नाटककार ने ऐसा उससे कहला भी दिया है। अंत में वह वीर नारी 'शठं प्रति शाठ्यं कुर्यात्' नीति के अनुसार षड्यंत्र रचकर उसे मार डालती है। क्रूर आततायियों को उन्हीं के शस्त्रों से मार डालना प्रतिहिंसा नहीं है।

मौलिक अपूर्ण नाटकों मे प्रेमयोगिनी तथा सती सावित्री हैं। प्रथम मे काशी के अनेक प्रकार के लोगों की बोलचाल, स्वभाव आदि का परिचय दिया गया है। इसमे चरित्र-चित्रण करने का प्रयास विशेष नहीं है पर तब भी मन्दिर के साधारण दर्शन करनेवाले बगुला भक्त, दलाल, गंगापुत्र, गुण्डे, भोजनभट्ट ब्राह्मण आदि के चित्र उतारे गए हैं। इसमें रामचन्द्र नाम से अपने विषय मे भी भारतेन्दु जी ने कुछ लिखा है। सती प्रताप मे सती सावित्री नायिका तथा सत्यवान नायक हैं। दोनो मे प्रेमांकुरण एक दूसरे को वन में देखने से होता है। दोनो ही मनसा एक दूसरे को वरण करते हैं। सावित्री की बातों से पति के प्रति पत्नी का धर्म बतलाया है तथा माता-पिता की आज्ञा भी मान्य बतलाई गई है। सखियों के योगी सत्यवान पर आक्षेप करते हुए अन्य राजकुमारों का उल्लेख करना सुनकर सावित्री

का क्रोध दिखलाना सहज स्वाभाविक हुआ है और उसका यह कथन कि 'निवृत्त करोगी ? धर्म पथ से ? सत्य प्रेम से ? और इसी शरीर में ?' कितना भावावेशपूर्ण है। नारद जी के कथन पर सत्यवान के पिता यह विवाह स्वीकार कर लेते हैं। बाद को सर्पदंशन से मृत्यु होने पर भी सावित्री अपने पातिव्रत्य-बल से उन्हें जिला लेती है।

इस प्रकार भारतेन्दु जी के मौलिक नाटको के मुख्य मुख्य पात्रों के चरित्र-चित्रण की विवेचना करने से यह ज्ञान हो जाता है कि वे इस कला-प्रदर्शन में पूर्णतया सफल हुए हैं।

प्राकृतिक वर्णन की कमी

कवियों के विषय-क्षेत्रों को देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि कुछ कवि-गण ने केवल वाह्य-प्रकृति का वर्णन में अधिक प्रयास किया है और कुछ ने नर-प्रकृति तक ही अपनी कविता आबद्ध रखी है। कुछ ऐसे भी कवि हो गए हैं, जिनकी रुचि दोनों ही ओर समानरूप से थी। एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि कवि द्वारा वाह्य-प्रकृति का वैसा ही वर्णन होता है, जैसा उसके हृदय पर उस दृश्य के देखने से असर पड़ता है। एक ही दृश्य दो या अधिक हृदयों पर कई प्रकार का असर डालता है और वे उसी का कई प्रकार से वर्णन भी कर डालते हैं। इन वर्णनों से श्रोताओं के हृदयों में भी विभिन्न प्रकार के भाव उद्वेलित हो उठते हैं। तात्पर्य इतना ही है कि प्राकृतिक दृश्यों का काव्य-जगत् में जो विधान होता है वह वही है जो उन्हें देखकर कवियों के हृदय में खचित हो जाता है, जिससे भिन्न उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। नर प्रकृति के अंतर्गत मानवी वृत्तियों के और मनुष्यों ही के बनाए हुए प्राकृतिक दृश्यों के शोभादि के वर्णन आते हैं। इस प्रकार देखा जाता है कि प्रधानतः कविता के ये दो ही विषय-क्षेत्र हैं और इनमें विचरण करने वाले कविगण दो कोटि में विभक्त किए जा सकते हैं। ऐसे कवियों का भी एक वर्ग होगा, जिन्होंने दोनों ही क्षेत्रों को समान रूप से अपनाया है।

संस्कृत साहित्यकारों में, आज से एक सहस्र वर्ष पहिले की प्रकृति के

प्रति जो भावुकता, प्रेम और तन्मयता थी वह बाद के कवियों में नहीं रह गई। आदि कवि वाल्मीकि ऋषि से आरम्भ हुई यह परंपरा कालिदास तथा भवभूति तक तो पहुँची पर उसके बाद नर-प्रकृति ही का प्राधान्य बढ़ता चला गया। प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन गौण हो गया। इसका एक मुख्य कारण इतिहास यही बतला रहा है कि हम लोगों का वन्य जीवन का क्या, ग्रामीण जीवन तक का हास होता गया और क्रमशः नागरिक जीवन ही प्रधान होता गया। कविगण बड़े बड़े समृद्धिशाली नगरो में बसने लगे और प्राकृतिक दृश्यों के देखने का उन्हें कम सौभाग्य मिलने लगा। ऐसी दशा में स्वभावतः एक विषय-क्षेत्र संकुचित हो गया और दूसरा विस्तृत हो उठा। निर्मल नदी की धारा के दोनों ओर फैले हुए जंगलो की शोभा के स्थान पर नगर के कृत्रिम जलाशय उद्यानादि ही की शोभा सब कुछ रह गई।

हिन्दी काव्य जगत् का निर्माण ठीक ऐसी ही परिस्थिति में हुआ था और इसी से उसमें वाल्मीकि आदि से कवि कम हुए। भारत का स्वातन्त्र्य-सूर्य अस्त हो रहा था और कुछ वीर गण आशा की अतिम ज्योति कायम रखने का निष्फल प्रयत्न कर रहे थे। उन्हीं वीरों की गाथाएँ बड़ी ओजस्विनी भाषा में कहकर मरे दिल को जिलाना ही उस समय कवियों का कार्य रह गया था। इसके अनंतर आशा-दिवस नैराश्यामिनी में बदल गया और परमाशा रूपी ईश्वर की ओर सब की दृष्टि फिरी। भक्ति काल के कविगण राम और कृष्ण की कथा लेकर अपनी अपनी वाणी पवित्र करने लगे। इन लोगों में वाह्य-प्रकृति, ग्रामीण तथा नागरिक जीवन सभी के दृश्यों के वर्णन हैं पर इसी के बाद रीति काल आरम्भ होजाता है, जिसके शृंगारी कवियों की कविता 'विषय-सुख सिध्यैर्विषयिणाम्' ही को होने लगी। ऋतु, नदी, पर्वत आदि का वर्णन केवल उद्दीपन विभावार्थ होने लगा। उनकी दृष्टि प्राकृतिक शोभा तक जाकर भट नायिका-नायक के वियोग की ओर लौट पड़ती थी। या यों कहा जाय कि वियोग-संयोग शृंगार का वर्णन करने में प्राकृतिक व्यापारों से सहायता पाने के विचार से उनपर भी वे एक नजर डाल लेते थे।

भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र का जन्म नगर ही के एक भव्य भवन में

हुआ था। उनका बाल्यकाल, यौवन तथा प्रौढ़ावस्था भी शहर ही में व्यतीत हुई थी। प्रकृति के यह कभी उपासक नहीं हुए। वन्य शोभा तो दूर इन्हें उद्यानादि का भी विशेष शौक न था। इनके पर्यटन के वृत्तांतों को देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि इनमें पहाड़, जंगल, नदी आदि की शोभा निरीक्षण करने की रुचि बहुत कम थी। यही कारण है कि इनकी कृतियों में शुद्ध प्राकृतिक वर्णनों की बहुत कमी है। सत्य हरिश्चन्द्र में जिस गंगा का वर्णन किया गया है, वह गंगा काशी के विशालकाय घाटों के नीचे बहती हुई गंगा है, जिसमें उसके सहस्रों भक्तगण पाप-प्रक्षालनार्थ अवगाहन कर रहे हैं। वनस्थली के बीच में स्वच्छंद बहती हुई गंगा की जलधारा का वह वर्णन नहीं है। भारतेन्दु जी के गंगा जी के वर्णन में मनुष्य की कृति ही का उल्लेख अधिक हुआ है, देखिए—

नव उज्जल जलधार , हार हीरक सी सोहति ।
 बिच बिच छहरति बूंद , मध्य मुक्ता मनि पोहति ॥
 लोल लहर लहि पवन , एक पै इक इमि आवत ।
 निमिनर-गन मन विविध मनोरथ करत मिटावत ॥
 कासी कहँ प्रिय जानि , ललकि भँट्यो जग धाई ।
 सपनेहू नहिं तजी , रही अंकम लपटाई ॥
 कहँ बँधे नव घाट उच्च , गिरिवर सम सोहत ।
 कहँ छतरी, कहँ मढ़ी , बड़ी मन मोहत जोहत ॥
 मथुरी नौवत वजत , कहँ नारी नर गावत ।
 वेद पढ़त कहँ द्विज , कहँ जोगी ध्यान लगावत ॥
 कहँ सुन्दरी नहात वारि कर जुगल उछारत ।
 जुग अंबुज मिलि मुक्त गुच्छ मनु सुच्छ निकारत ॥
 दीठि जहीं जहँ जात रहत तितही ठहराई ।
 गंगा छवि 'हरिचन्द' कछु वरनी नहिं जाई ॥

चंद्रावली नाटिका में भी ललिता सखी द्वारा यमुना जी का वर्णन

नौ छप्पयो में कराया गया है पर उनमें उपमा तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों ही का आधिक्य है। वास्तव में भारतेन्दु जी यमुना जी की प्राकृतिक शोभा ही का वर्णन नहीं कर रहे थे प्रत्युत् विरहिणी नायिका की एक सखी पर इस शोभा का क्या असर पड़ रहा था, वही दिखला रहे थे।

कहूँ तीर पर कमल अमल सोभित बहूँ भाँतिन ।
 कहूँ सैवाजन मध्य कुमुदिनी लगी रही पाँतिन ॥
 मनु द्यग धारि अनेक जमुन निरखत ब्रज सोभा ।
 कै उमगे पिय-प्रिया प्रेम के अनगिन गोभा ॥
 कै करिकै कर बहु पीय कों डेरत निज ढिग सोहई ।
 कै पूजन को उपचार लै चलति मिलन मन मोहई ॥
 परत चंद्र-प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो ।
 लोल लहर लहि नचत कबहुँ सोई मन भायो ॥
 मनु हरि-दरसन हेत चंद्र जल बसत सुहायो ।
 कै तरंग कर मुकुर लिए सोभित छवि छायो ॥
 कै रास-रमन मैं हरि-मुकुट-आभा जल दिखरात है ।
 कै जल-उर हरि-मूर्ति बसति ता प्रतिबिंब लखात है ॥

‘प्रात समीरन’ में सुबह की मंद मंद बहती हुई वायु का वर्णन किया गया है। पर इसमें भी शहर ही में या उसके आसपास ही की बहने वाली हवा का वर्णन है, देखिए—

दिसा प्राची लाल करै कुमुदी लजाय, होरी को खिलार सो पवन सुख पाय ।
 भौर शिष्य मन्त्र पढ़ै धर्म कर्मवन्त, प्रात को समीर आवै साधु को महन्त ॥
 सौरभ को दान देत मुदित करत, दाता बन्यो प्रात पौन देखो री चलत ।
 पावन कँपावै लेत पराग खिराज, आवत गुमान भस्यौ समीरन राज ॥
 गावैं भौर गूँजि पात खरक मृदंग, गुनी को अखारो लिए प्रात पौन संग ।
 काम में चैतन्य करै देत है जगाय, मित्र उपदेस बन्यौ भोर पौन आय ॥
 पराग को मौर दिए पच्छी बोल बाज, व्याहन आवत प्रात पौन चल्यो आज ।
 आप देत थपकी गुलाब चुटकार, बालक खिलावै देखो प्रात की बयार ॥

गीति-काव्य

गतिगोविंदकार जयदेव की सुधामयी गीति काव्य की जो परंपरा हिंदी साहित्य को मिली थी वह पहिले मैथिल कवि विद्यापति के कोकिल कंठ से आविर्भूत हुई और फिर ब्रज के भक्त सुकवियों की वीणाओं से निनादित होकर ऐसी फैली कि आज भी उसकी मधुर भक्तकार से भक्तों की हृत्तंत्री वज उठती है। इस गीति-काव्य का रस शृंगार ही रहा और इसमें सगुण उपासना की सरलता तथा तन्मयता ऐसी भरी है कि सुनकर निर्गुण उपासना को ओर ऐसे ही कोई भूले भटके भुकते हैं। रसराज के देवता श्री कृष्ण ही की बाल्य-लीला तथा प्रेममयी यौवनलीला के मनोहर चित्र इनमें अंकित होते आए हैं और होंगे। क्यों न हों? ये दोनों काल होते ही कितने मनोहर हैं। अष्टछाप के कवि भक्तो ने भगवान की प्रेमलीला का कीर्तन कर जो सागर तैयार किए हैं उनमें अवगाहन कर प्रत्येक प्राणी पवित्र हो सकता है। यह पदावली इतनी प्रचुर है और वियोग तथा संयोग शृंगार और वात्सल्य दोनों ही क्षेत्रों में इन लोगो की इतनी पहुँच थी कि बाद के कवियों के कहने के लिए इन लोगो ने कुछ न रख छोड़ा था। यही कारण है कि इस परंपरा का सौर काल के बाद बहुत हास रहा और कभी कभी एकाध भक्त कवि कुछ कहते सुनाई पड़ जाते थे। ऐसे कवियों का बाहुल्य न होने पर भी इस दिव्य प्रेम-संगीत की स्वर-लहरी सदा सरस हृदयों को तरंगित करती रहती थी। बीच में निर्गुणिए कवि भी बहुत हुए और बहुत सा साधारण ज्ञान भी वे छँट गए पर उनसे कुछ विशेष लाभ न हुआ और कुछ दिन बाद उनका ज्ञान उन्ही के मानने वाले कुछ पंथियों में रह गया।

कहा जा सकता है कि इस गीति काव्य की परंपरा के प्रायः अंतिम कवि भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र ही हुए हैं। इन्होंने लगभग डेढ़ सहस्र के पद बनाए हैं, जिनमें अधिकतर श्री कृष्ण ही के लीला संबंधी हैं। इनमें विनय के पद, श्रीकृष्ण जी की बाल-लीला तथा गोपियों के प्रेम-संबंधी तीन प्रकार के भजन हैं। कुछ साधारण मानव-संबंधी भी पद हैं। इन पदों के मुख्य रस-

शृंगार तथा वात्सल्य ही हैं पर वीर, शांति, करुण आदि रस भी कुछ पदों में आगए है। शृंगार के संयोग तथा वियोग दोनों ही पक्ष लिए गए हैं।

श्री राधाकृष्ण की युगल मूर्ति का ध्यान कैसा अनुपम है, स्वामी तथा स्वामिनी दोनों ही की शोभा का कैसा सुंदर मिश्रण इस पद में है—

रे मन करु नित-नित यह ध्यान ।

सुंदर रूप गौर श्यामल छवि जो नहि होत बखान ॥
 सुकुट सीस चंद्रिका बनी कनफूल सुकुडल कान ।
 कटि काछिनि सारी पग नूपुर बिछिया अनवट पान ॥
 कर कंकन चूरी दोउ भुज पै बाजू सोभा देत ।
 केसर खौर बिटु सेंदुर को देखत मन हरि लेत ॥
 मुख पै अलक पीठ पै बेनी नागिनि सी लहरात ।
 चटकीली पट निपट मनोहर नील पीत फहरात ॥
 मधुर मधुर अधरान बंसी धुनि तैसा ही मुसकानि ।
 दोउ नैनन रस भीनी चितवनि परम दया को खानि ॥
 ऐसो अद्भुत भेष विलोकत चकित होत सब आय ।
 'हरीचंद' बिन जुगल कृपा यह लख्यो कौन पै जाय ॥

बाल लीला का केवल एक पद लीजिए। छोटे से बालक श्री कृष्ण आँगन में खेल रहे हैं। उनके अग प्रत्यग की शोभा का वर्णन किया गया है, जिनमें उत्प्रेक्षादि अलंकार आप से आप प्रस्फुटित होते गए हैं।

आजु लख्यो आँगन में खेलत यशुदा जो को बारो री ।
 पीत मँगुलिया तनक चौतनी मनहरि लेत दुत्तारो री ॥ १ ॥
 अति सुकुमार चन्द्र से मुख पै तनक डिठौना दीनो री ।
 मानहुँ श्याम कमल पै इक अलि बैठो है रंग भीनो री ॥ २ ॥
 षर बघनहा बिराजत सखिरी उपमा नहि कहि आवै री ।
 मनु फूली अगस्त की कलिका शोभा अतिहि बढ़ावै री ॥ ३ ॥
 छोटी छोटी शीश लुटुरिया अमरावलि जनु आई री ।
 तैसी तनक कुहहइया तापै देखत अति सुखदाई री ॥ ४ ॥

छुद्र घंटिका कटि में सोहत शोभा परम रसाला री ।
मनहुँ भवन सुन्दरता को लखि वाँधी बन्दनमाला री ॥ ५ ॥
पीत मँगा अति तन पै राजत उपमा यह वनि आई री ।
मनु घन में दामिनि लपटानी छवि कछु वरनि न जाई री ॥ ६ ॥
कोटि काम अभिराम रूप लखि अपनो तनमन वारै री ।
'हरीचन्द्र' ब्रजचन्द्र-चरण-रज लेत बलैया हारै री ॥ ७ ॥

शिशु कृष्ण अब कुछ बढ़ने लगे और अपने ही समवयस्क बालकों के साथ चकई भौरा खेलने लगे । इस अनुपम बाल लीला को कवि इस प्रकार कहता है ।

छोटे सो मोहनलाल छोटे छोटे बाल बाल छोटी छोटी चौतनी शिरन पै सोहैं ।
छोटे छोटे भँवरा चकई छोटी छोटी लिए छोटे छोटे हाथन सों खेलैं मन मोहैं ॥
छोटे छोटे चरण सों चलत घुटुरुवन चढ़ी ब्रजवाल छोटी छोटी छवि जोहैं ।
'हरीचंद' छोटे छोटे कर पै माखन लिए उपमा वरनि सकैं ऐसे कवि कोहैं ॥

श्री राधिका जी के अवतरित होने का कारण भक्त कवि प्रेम पथ का प्रागट्य बतलाते हैं । यदि यह अवतीर्ण न होती तो पुष्टि मार्ग कौन स्थापित करता और श्रीकृष्ण के साथ रासमंडल के बीच कौन सुशोभित होता ? सबसे बढ़कर 'सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधारानी के' कवि महोदय किसके शरण जाते ? सुनिए—

जो पै श्री राधारूप न धरतीं ।

प्रेम पंथ जग प्रगट न होतो ब्रज बनिता कहा करतीं ॥

पुष्टि मार्ग थापित को करतो ब्रज रहतो सब सूनो ।

हरि लीला काके सँग करते मंडल हो तो ऊनो ॥

रास मध्य को रमतो हरि सँग रसिक सुकवि कह गाते ।

'हरिचन्द' भव के भय सों भजि किहि के शरणहि जाते ॥

श्री राधिका जी की बाल लीला-वर्णन का एक उदाहरण लीजिए—

मनिमय आँगन प्यारी खेलै ।

किन्नाकि किन्नाकि हुलसत मनहीं मन गहि अँगुरी मुख मेलै ॥

बढ़भागिनी कीरति सी मैया गोहन जागी डोलै ।
 कबहुँक लै सुनसुना बजावति मीठी बतियन बोलै ॥
 अष्ट सिद्धि नव निधि जेहि दासी सो ब्रज शिशु-बपुधारी ।
 जोरी अविचल सदा विराजो 'हरिचंद्र' बलिहारी ॥

दोनो मे प्रेम हो गया है । एक दिवस युगल प्रेमी एक स्थान पर विराजमान थे कि श्री स्वामिनी जी ने कहा कि वह गान एक बार फिर गाकर सुना दीजिए । 'मोहन चतुर सुजान' चूकने वाले थे, उन्होंने ऐसा सन्तृत्य गान किया कि चंद्र की गति भी रुक गई । सुनिए—

“फिर लीजै वह तान अहो प्रिय फिरि लीजै वह तान ।
 निनि धध पप मम गग रिरि सासा मोहन चतुर सुजान ॥
 उदित चन्द्र निर्मल नभमंडल थकि गए देव-विमान ।
 कुनित किंकिनी नूपुर बाजत कनकन शब्द महान ॥
 मोहे शिव ध्यादिक वहि निशि नाचत लखि भगवान ।
 'हरीचंद्र' राधामुख निरखत छुव्यो सुरतिय-मान ॥”

भक्तों ने श्रीराधिका जी का श्रीकृष्ण जी से विवाह हुआ मान रखा है । श्रीकृष्ण विवाह के लिए दूल्हा बनकर आए हैं और उनकी शोभा देखकर सखियाँ आपस में कहती हैं—

सखी चलो साँवला दूल्हा देखन जावैं ।
 मधुरी मूरत लखि अँखियाँ आज सिरावैं ॥
 नीली घोड़ी चढ़ि बना मेरा बन आया ।
 भोले मुख मरवट सुन्दर लगत सुहाया ॥
 तैसी दुलहिन सँग श्री वृषभाजु-कुमारी ।
 मौरी सिर सेहत अंग केसरी सारी ॥
 मुख वखट कर मैं चूरी सरस सँवारी ।
 नकबेसर सेमित चितहि सुरावन वारी ॥
 सिर सँदुर मुख में पान अधिक छबि पावैं । मधुरी..... ॥

सखियन मिलि रस सों नेह गाँठ लै जोरी ।
रहि वारि फेरि तन मन धन सब वृन तोरी ॥
गावत नाचत आनंद सों मिलि कै गोरी ।
मिलि हँसत हँसावत सकत न कङ्कन छोरी ॥
'हरिचन्द्र' जुगल छवि देखि बधाई गावै ।
मधुरी मूरत लखि अँखियाँ आज सिरावै ॥

सखी राधा वर कैसा सजीला ।

देखो री गोइयाँ नजर नहि लागै कैसा खिलै खिर चीरा छत्रीला ॥
वार फेर जल पीयो मेरी सजनी मति देखो भर नैन रँगीला ।
'हरीचंद' मिलि लेहु बलैया अँगुरिन करि चट कारि चुटीला ॥

भारतेन्दु जी ने विशेषतः प्रेमलीला ही का वर्णन किया है। दान, मान, विरह, मिलन आदि के एक से एक अच्छे पद कहे हैं। अंत में ब्रजलीला समाप्त करके श्रीकृष्ण भगवान मथुरा चले गए और गोपियाँ विरह-कातरा हो गईं, वे कहती हैं—

कहाँ गए मेरे बाल सनेही ।

अबलौं फटी नाहि यह छाती रही मिलन अब केही ॥
फेर अबै वह सुख धौं मिलि है जिअत सोचि जिय पही ।
'हरीचंद' जो खबर सुनावै देहुँ प्रान धन तेही ॥

श्रीकृष्ण उपस्थित नहीं है पर उन्हें ध्यानावस्था में संबोधित करते हुए एक सखी कहती है कि—

पिया रे तनी कौन से दोष ।

इतनो हमहुँ तो सुनि पावै फेरि करै संतोष ॥
जो कोठ तुमरो होइ सोई या जग मैं दुख पावै ।
यह अपराध होइ तो भाखौ जासों धीरज आवै ॥
कियो और तो दोष कछु नहि अपनी जान पियारे ।
तुमरे ही है रहे जगत में एक प्रेम पन धारै ॥

यासों चतुर होइ जग मैं कोउ तुम सों प्रेम न लावै ।

‘हरीचंद’ हम तो अब तुमरे करौ जोई मन भावै ॥

एक सखी नित्य की तरह नंदकिशोर को देखने के लिये सुबह होते ही नंद बाबा की पौरी पर पहुँची पर वहाँ के सन्नाटे को देखकर उसे श्रीकृष्ण के मथुरा-नामन का याद पड़ा और वह बेहोश हो गई। सखियाँ यह देखकर दौड़ पड़ों और उसे घर उठा लाईं। यहाँ मधुकर (उद्धव) के आने का संदेश सुनकर उसे होश आया—

नंद-भवन हैं आजु गई ही भूले ही उठि भोर ।

जागत समय जानि मंगल मुख निरखन नंदकिशोर ॥

नहिं बंदीजन गोप गोपिका नाहिन गौवें द्वार ।

नहिं कोउ मथत दही नहिं रोहिनि ठाढ़ी लै उपचार ॥

तब मोहिं सुरत परी घर नाहीं सुन्दर श्याम तमाल ॥

सुरछित धरनि गिरी द्वारहिं पै लखि धाईं ब्रजवाल ॥

लाईं गेह उठाइ कोउ बिधि जीव न गए अँदेस ।

‘हरीचंद’ मधुकर तुव आए जागी सुनत सँदेस ॥

हिन्दी साहित्य में गोपी उद्धव संवाद को लेकर बहुतेरी अनूठी अनूठी उक्तियाँ कही गई हैं। यह घटना उस समय की है जब श्रीकृष्ण भगवान वृन्दावन से लोक-पीडक बाल-हत्याकारी नृशस कंस को मारने के लिये मथुरा चले आए थे और वहीं रह गए थे। इन्होंने कुछ दिन अनंतर गोपियों को ज्ञान सिखलाने के लिए उद्धव जी को भेजा था। इस अमर घटना को लेकर कितने भ्रमरगीत निर्मित हुए हैं। इसी को लेकर भक्ति तथा ज्ञान मार्ग अर्थात् सगुण तथा निर्गुण उपासना पर भी कवियों तथा भक्तों ने खूब उक्तियाँ कही हैं। सभी में अततः उपासना ही अधिक लोकप्रिय साबित हुई है। गोपियों की विजय जनसाधारण की साकार उपासना के प्रति विशेष श्रद्धा प्रकट करता है। उद्धव जी ज्ञान मार्ग के प्रकांड पंडित थे और उनकी द्वार ज्ञान मार्ग की गूढ़ता स्पष्ट करते हुए बतला रही है कि यह दुरूह मार्ग विरले ही लोगों के लिये है। एक सरस है और दूसरा नीरस। पहिली होमियो

पैथि की मीठी गोली है और दूसरी है कषाय, पर हैं दोनों ही लाभकारी । श्रीकृष्ण जी ने उद्धव ही को क्यों भेजा था, केवल इसीलिए कि उनका ज्ञानगर्व गोपियों के प्रेम की तल्लीनता तथा एकनिष्ठा और सरसता में मिट जाय । देखिए गोपियाँ कहती हैं—

पिय सों प्रीति लगी नहिं छूटै ।

ऊधा चाहौ सो समझाओ अब तो नेह न टूटै ॥

सुन्दर रूप छाँड़ि गीता को ज्ञान लेइ को कूटै ।

‘हरीचंद्र’ ऐसो को मूरख सुधा त्यागि विष लूटै ।

साफ जवाब दे दिया गया है कि गीता का ज्ञान लेकर क्या किया जायगा । गीता गानेवाले के सौंदर्य-सुधा को छोड़कर कौन ऐसा मूर्ख है जो ज्ञानरूपी विष को लेगा । गोपियाँ कहती हैं—

“हरि संग भोग कियो जा तन सों तासों कैसे जोग करै ।

जो सरीर हरि संग लपटानो ‘वापै कैसे भसम धरै ॥

जिन श्रवणन हरि बचन सुन्यौ है ते मुद्रा कैसे पहिरै ।

जिन बेनिन हरि निज कर गूँथी जटा होइ ते क्यों बिखरै ॥

जिन अधरन हरि श्रमृत पियो अब ते ज्ञानहिं कैसे उचरै ।

जिन नैनन हरि रूप बिलोक्यौ तिन्हें मूँदि क्यों पलक परै ॥

जा हिय सों हरि हियो मिल्यौ है तहाँ ध्यान केहि भाँति धरै ।

‘हरीचंद्र’ जा सेज रमे हरि तहाँ बधम्बर क्यों बितरै ॥

बतलाइए जिन जिन अंगो ने ऐसे ऐसे सुख लूटे हैं उनसे अब दुख सहन हो सकता है । कितना स्वाभाविक कथन है । ज्ञान की केवल दुहाई देने से क्या उनका स्मृतिपट सूना हो सकता है ? कभी नहीं । उस पर भी यदि दो चार मन, हृदय होते तो वह भी संभव था । तपस्वियों की तरह एक में योग और एक से भोग करते, पर वह भी तो नहीं है—

ऊधौ जौ अनेक मन होते ।

तौ इक श्यामसुंदर को देते इकलै जोग सँजोते ॥

एक सों सब गृह कारज करते एक सों धरते ध्यान ।
एक सों श्याम रंग रँगते तजि लोक जाज कुल कान ॥
को लप करै जोग को साधै को पुनि मूँदे नैन ।
हिये एकरस श्याम मनोहर मोहन कोटिक मैन ॥
ह्यॉतो हुतो एक ही मन सो हरि लै गए चुराई । -
'हरीचंद' कोऊ और खोजि कै जोग सिखावहु जाइ ॥

कई मन को कौन कहे, केवल एक था वह भी चोर ले गया और उस चित्त चोर ने अब तुम्हे सिखलाने को भेजा है । वाह, सीखने वाला मनरूपी शिष्य यहाँ है नहीं, और आप शिक्षक होकर आए हैं । चलिए, शिष्य को पहिले खोजकर तब लेक्चर बाज्जी कीजिए ।

वियोग पक्ष की दश दशाएँ बतलाई जाती हैं । उन सभी का भारतेन्दु जी की पदावली में समावेश हुआ है । प्रिय की अभिलाषा, चिंता तथा स्मरण करते करते उनका चित्त बहकने लगता है, वे प्रलाप करने लगती हैं ।

नखरा राह राह को नीको ।

इत तो प्राण जात हैं तुव बिनु तुम लखत दुख नीको ॥

खुटाई पोरहि पोर भरी ।

हमहिं छाँड़ि मधुघन में बैठे बरी कूर कुचरी ॥

एक सखी प्रिय से मिलने के लिये कुंज में गई पर जब उसे उनके वियोग का एकाएक स्मरण आया तब वह मूर्छित हो पड़ी । होश आने पर वह उन्मादावस्था में कह रही है कि क्या सारे ससार की अमरता ब्रह्मा ने हमारे ही कपाल में लिख रक्खा है—

इतने हूँ पै प्राण गए नहिं फिरहु सुधि आई अघराती ।

हौं पापिन जीवति ही जागी फाटी न अजौं कुलिस की छाती ॥

फिर वह घर व्यवहार वहाँ सब करन परैं नितहीं उठि माई ।

'हरीचंद' मेरे ही सिर बिधि दीनी काह जगत अमराई ॥

एक सखी कैसी मीठी चुटकी लेती है । साधारणतः पुरानी चीजे

निकालकर लोग नई लेते हैं । उसी नियम के अनुसार क्या श्रीकृष्ण भी पुरानी मित्रता त्याग अब नई मित्रता के फदे में पड़ गए—

पुरानी परी लाल पहिचान ।

अब हमको काहे को चीन्हौ प्यारे भए सयान ॥

नई प्रीति नए चाहनवारे तुमहूँ नए सुजान ।

‘हरीचंद’ पै जाइ कहाँ हम लालन करहु बखान ॥

स्मृति सुख और दुख दोनों की कारण होती है । प्रिय के वियोग में उसकी स्मृति दुखद ही होती है, इसीलिए वह दुखित हो कहती है—

पियारे क्यों तुम आवत याद ।

छूटत सकल काज जग के सब मित्त भोग के स्वाद ॥

जब लौं तुम्हरी याद रहै नहिं तब लौं हम सब लायक ।

अंतिम दशा मरण के पहिले जड़ता आती है, उसमें अंगो तथा मन को चेष्टा हीन हो जाना चाहिए पर श्री राधिका जी की जड़ता वह तन्मयता है कि उन्हें वियोग का भान ही नहीं रह जाता । वह अपने ही को श्रीकृष्ण समझती हैं, वियोग हो तो किसका ?

लाल के रंग रंगी तू प्यारी ।

याहो तैं तन धारत मिस कै सदा कसूँभी सारी ॥

लाल अधर कर पद सब तेरे लाल तिलक सिर धारी ।

नैनहूँ में डोरन के मिस कलकत लाल बिहारी ॥

तनमै भई, नहीं सुध तनकी नख शिख तू गिरधारी ।

‘हरीचंद’ जग विदित भई यह प्रेम प्रतीति तिहारी ॥

इसके सिवा भारतेन्दु जी ने साधारण गाने के लिये होली, ठुमरी, सोरठ आदि बहुत बनाए हैं, जिनके एक एक दो दो उदाहरण देने से कुल खूबियाँ प्रगट भी न होंगी और पुस्तक का आकार भी बढ़ जायगा, इसलिए अब केवल विनय के कुछ पदों का उदाहरण दे दिया जाता है ।

जगत जाल में नित वैँध्यो, परयो नारि के फंद ।

मिथ्या अभिमानी पतित, मूढो कवि हरिचंद ॥

ने विनय के अनूठे अनूठे पद कहे हैं । वे कहते हैं कि—

कहौ किमि छूटै नाथ, सुभाब ।

काम क्रोध अमिमान मोह सँग तनको बन्यो बनाव ॥

ताहू मैं तुव नाया सिर पै औरहु करन कुदाव ।

'हरीचंद' विनु नाथ कृपा के नाहिन और उपाव ॥

सत्य ही इतने जंजाल में रहते और इतने सांसारिक मोहजाल के फँदों में फँसते हुए मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है । उसे केवल एक परमाशा रूपी ईश्वर ही की आशा रह जाती है । यही 'उस दरवार की' विशेषता है कि लोभ, मद, मोहादि में लिप्त पतितों ही की वहाँ पूछ होती है । सुनिए—

वलिहारी है या दरवार की ।

बिधि निषेध मरजाद शास्त्र की गति नहीं जहाँ प्रकार की ॥

नेमी धरमी ज्ञानी जोगी दूर किए जिमि नारकी ।

पूछ होत जहँ 'हरिचंद' से पतितन के सरदार की ॥

भक्त का अपने इष्टदेव पर कितना विश्वास होता है, यह नीचे लिखे पद में देखिए—

प्रभु की कृपा कहाँ लौं गये ।

करना में करनानिधि ही के इती बढाई पैये ॥

डार डार जौ अब मेरे तौ पात पात वह बोलै ।

नदी नदी जौ पाप चलत तौ बिन्दु बिन्दु वह डोलै ॥

थल थल में छिपि रहत जु यह वह रेनु रेनु ह्वै धावै ।

दीप दीप जौ यह समान वह किरिन किरिन बनि आवै ॥

काकी उपमा वाहि दीजिए व्यापक गुन जेहि माही ।

हिय अन्तर अँधियार दुराने अबहूँ नहीं वचि जाही ॥

सिन्धु लहर हू सिन्धुमयी है मूढ़ करै जो लेखे ।

माहीं तो 'हरिचंद' सरीखे तरत पतित कहूँ देखे ॥

कृपापात्र के पाप यदि डार डार है तो उसकी कृपा पात पात तक पहुँची हुई है । भाव यही है कि पतित और उसके पाप उस परमेश्वर के

सर्वव्यापी दया से 'सिधु में वुन्द' के समान हैं तथा उस उस दया पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार पूर्णविश्वास हो जाने पर वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे करुणा वरुणालय ! आप पुतली या सुरमा होकर आँखों में, प्राण और कामना होकर हृदय में, शक्ति होकर सारे शरीर में तथा शब्द होकर कान में निवास करिए, जिसमें हम आपमय हो जायँ और आप में हम में द्वैत भाव न रह जाय। अहमत्व ही माया है, खुदी मिटते ही खुदा में जीव मिल जाता है। इसलिए—

नैनन मैं निवसौ पुतरी हूँ, हिय मैं बसौ हूँ प्रान ।
 अंग अंग संचरहु लक्ति हूँ, एहो मीत सुजान ॥
 मन में वृत्ति वासना हूँ के प्यारे, करौ निवास ।
 ससि सूरज हूँ रैन दिना तुम हिय नभ करहु प्रकास ॥
 बसन होइ लिपटै प्रति अंगन भूपन हूँ तन बाँधो ।
 स्त्रीधो हूँ मिलि जाऊ रोम प्रति अहो प्रानपति माधो ॥
 हूँ सुहाग सेन्दुर सिर बिलसौ अधर राग हूँ सोहौ ।
 फूल माल हूँ कंठ लगौ मम निज सुवास मन मोहौ ॥
 नभ हूँ पूरौ मम आँगन औ पवन होइ तन लागौ ।
 हूँ सुगन्ध मो घरहि बसावहु रस हूँ के मन पागौ ॥
 श्रवणन पूरौ होइ मधुर सुर अंजन हूँ दोउ नैन ।
 होइ कामना जागहु हिय में करहु नींद बनि सैन ॥
 रहौ ज्ञान में तुमहीं प्यारे तुम मय तन मम होय ।
 'हरीचंद' यह भाव रहै नहिं प्यारे हम तुम दोय ॥

अत मे कवि कहता है कि—

ब्रज के लता पता मोहि कीजै ।

गोपी पद पंकज पावन की। रज जामैं सिर भीजै ॥

आवत जात कुंज की गलियन रूप-सुधा नित पीजै ।

श्री राधे राधे सुख यह वर 'हरीचंद' को दीजै ॥

ज्ञानपंथियो या साहिवपंथियो के ज्ञान छाँटने की शैली पर भी कुछ पद कहे हैं पर सबके अन्त में वही 'हरीचन्द हरि सच्चवा साहब उसको बिलकुल भूला है' बतलाते हुए कृष्ण-भक्ति की पूर्णता दिखलाई है।

हरिमाया भठियारी ने क्या अजब सराय बसाई है ।
जिसमें आकर बसते ही सब जग की मत बौराई है ॥
होके मुसाफिर सबने जिसमें घर सी नेंव जमाई है ।
भांग पड़ी कूप में जिसने पिया बना सौदाई है ॥
सौदा बना भूर का लड्डू देखत मति लज्जाई है ।
खाया जिसने वह पछताया यह भी अजब मिठाई है ॥
एक एक कर छोड़ रहे हैं नित नित खेप लदाई है ।
जो बचते सो यही सोचते उनकी सदा रहाई है ॥
अजब भंवर है जिसमें पद कर सब दुनिया चकराई है ।
हरीचन्द भगवन्त भजन विनु इससे नहीं रिहाई है ॥
डका कूच का बज रहा मुसाफिर जागो रे भाई ।
देखो लाद चले सब पंथी तुम क्यों रहे भुलाई ॥
जब चलना ही निहचै है तो ले किन माल लदाई ।
हरीचन्द हरिपद विनु नाहीं तो रहि जैहो मुँह बाई ॥

खड़ी बोली तथा उर्दू कविता

इन दोनों भाषाओं की कविता की एक साथ आलोचना करने का यही कारण है कि इन दोनों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। एक पक्ष वाले खड़ी बोली को उर्दू का उद्गम कहते हैं तो दूसरा पक्ष उर्दू से खड़ी बोली का निकलना बतला रहा है। इसपर तर्क वितर्क करने का न यह उपयुक्त स्थान है और न अवकाश ही है। इतना अवश्य कहना उचित है कि मुसलमान नवागंतुको की भाषा तथा इस खड़ीबोली के मिश्रण से उर्दू भाषा की उत्पत्ति हुई अर्थात् फारसी + खड़ी बोली हिन्दी = उर्दू। अब इनमें से किसी भी पहिली दो भाषाओं को उर्दू को जनक कहना नितांत अशुद्ध है। यदि उर्दू से फारसी शब्दावली निकाल कर उनके स्थान पर तत्सम शब्दों को रखकर खड़ी बोली

बना लो गई, ऐसा कहा जाय तो यह भी क्यों नहीं कहा जा सकता कि उर्दू से हिन्दी क्रिया पद आदि निकालकर फारसी बना ली गई है। दोनों ही समान रूपेण निरर्थक कथन हैं। साथ ही यह भी कहना उचित जान पड़ता है कि जब से हिन्दू मुसलमान संघर्ष आरम्भ हुआ है तभी से दोनों धर्म के सहृदय पुरुषों ने एक दूसरे की भाषा को अपनाया है। जिस प्रकार हिन्दी के कवियों ने फारसी शब्दों को अपनी कविता में स्थान देना शुरू कर दिया उसी प्रकार मुसलमान कवि गण हिन्दी को अपनी कविता में स्थान देते रहे। जिस प्रकार हिन्दी साहित्य के इतिहास में रहीम, रसखान, जायसी आदि मुसलमान कवियों का उल्लेख बड़े आदर से होता है, उसी प्रकार उर्दू साहित्य क्षेत्र में हिन्दू शायरो ने भी कुछ कम 'खुशइलहानी' नहीं की है, चाहे उन्हें उसके साहित्य के इतिहास में आदर मिले या न मिले।

हिन्दी साहित्य के कवि परंपरा की भाषाओं में ब्रज भाषा तथा अवधि प्रधान हैं। भारतेन्दु जी ने ब्रजभाषा ही में कविता की है पर वह जिस खड़ी बोली हिन्दी को राष्ट्र भाषा या सार्वदेशिक भाषा बनाने का प्रयास जन्म भर करते रहे, उसमें भी कुछ कविता की है। उसके विषय में इनकी क्या राय थी यह उनके एक पत्र से ज्ञात होता है जो १ सितम्बर सन् १८८१ ई० के 'भारतमित्र' में प्रकाशित हुआ था। उसमें लिखा है कि—“प्रचलित साधुभाषा में कुछ कविता भेजी है। देखियेगा कि इसमें क्या कसर है और किस उपाय के अवलम्बन करने से इस भाषा में काव्य सुन्दर बन सकता है। इस विषय में सर्वसाधारण की अनुमति ज्ञात होने पर आगे से वैसा परिश्रम किया जायगा। तीन भिन्न भिन्न छेदों में यह अनुभव करने ही के लिए कि किस छंद में इस भाषा का काव्य अच्छा होगा, कविता लिखी है। मेरा चित्त इससे संतुष्ट न हुआ और न जाने क्यों ब्रजभाषा से मुझे इसके लिखने में दूना परिश्रम हुआ। इस भाषा की क्रियाओं में दीर्घ मात्रा विशेष होने के कारण बहुत असुविधा होती है। मैंने कहीं कहीं सौकर्य के हेतु दीर्घ मात्राओं को भी लघु करके पढ़ने की चाल रक्खी है। लोग विशेष इच्छा करेंगे और स्पष्ट अनुमति प्रकाश करेंगे तो मैं और भी लिखने का यत्न करूँगा।”

अब खड़ी बोली की इनकी कुछ कविता उद्धृत की जाती है—

चूरन अमलबेद का भारी । जिसको खाते कृष्ण मुरारी ।
मेरा पाचक है पचलोना । जिसको खाता श्याम सलोना ॥
चूरन घना मसालेदार । जिसमें खट्टे की बहार ।
मेरा चूरन जो कोई खाय । मुझको छोड़ कहीं नहिं जाय ॥
हिन्दू चूरन इसका नाम । विलायत पूरन इसका काम ।
चूरन जब से हिन्द में आया । इसका धन बल सभी घटाया ॥

बीर बहूटी मखमली , बूटी सी अति जाल ।
हरे गलीचे पै फिरे , सोभा बड़ी रसाल ॥
करके याद कुटुम्ब की , फिरे विदेशी लोग ।
बिछड़े प्रीतम वालियों , के सिर छाया सोग ॥
छोड़ छोड़ मरजाद निज , बड़े नदी नद नाल ।
जगो नाचने मोर बन , बोले कीर मराल ॥
उपवन में कचनार बनों में , टेसू हैं फूले ।
मदमाते भौरि फूलों पर , फिरते हैं भूले ॥

कहाँ हो हे हमारे राम प्यारे ।
किधर तुम छोड़ कर मुझको सिधारे ॥
बुढ़ापे में मुझे यह देखना था ।
इसी को भोगने को मैं बचा था ॥
छिपाई है कहाँ सुन्दर वह मूरत ।
दिखा दो साँवली सी मुझको सूरत ॥
गई सँग में जनक की जो बली है ।
उसी से मेरे दिव्य में बेकली है ॥

पूर्वोक्त उद्धरणों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इन रचनाओं में कवि का हृदय नहीं है। यह उनके रुचि-वैचित्र्य के कारण की गई रचना है। इससे तो कहीं अच्छी खड़ी बोली की कविता इनकी लावनियाँ हैं, जिनके कुछ उद्धरण देकर इनकी उर्दू कविता पर विचार किया जायगा।

दिलवर, इश्क में दिल को एक मिलावे ।
 अपने को खोए तब अपने को पावे ॥
 दिलवर को एक करके अपने में साने ।
 इस दुनिया को इक अजब तमाशा जाने ॥
 मैं क्या हूँ इसको जी देकर पहिचाने ।
 अपने को अपना सिरजनद्वारा माने ॥

तुम गर सच्चे हो तो जहाँ को कहते हैं सब क्यों झूठा ।
 तुम निर्गुन हो तो फिर यह गुन जग में सब है किस्सा ॥
 जो झूठा होता है उसकी बातें होती हैं झूठी ।
 क्यों सपने की मिली सम्पत् कुछ काम नहीं करती ॥
 सचों के तो काम हैं जितने वह सच्चे होते हैं सभी ।
 फिर बकते हैं भला क्यों सब के जहाँ झूठा है अजी ॥

भारतेन्दु जी उर्दू के सच्चे शायक थे । उर्दू की इनकी गद्य रचनाओं का उल्लेख हो चुका है । इन्होंने उर्दू भाषा में कविता भी काफी की है और इनकी हिन्दी कविता पर भी इस उर्दू की जानकारी का जो असर पड़ा है वह भी उल्लिखित हो चुका है । भारतेन्दु जी के दरबार में अमीर अली नामक कोई कवि आते थे जो इनकी कविता 'इसलाह' कराने का ले जाते थे, पर स्वयं न कर सकने पर मौलवी 'फायज़' के पास उन्हें ले जाते थे, जो उर्दू के प्रसिद्ध कवि तथा फारसी के अपूर्व विद्वान थे । यह स्वयं कहते थे कि 'वा० हरिश्चन्द्र के शैरों में ख्यालात जरूर बहुत ऊँचे होते थे लेकिन चूँकि उन्होंने उर्दू जुवान वाक़ायदा नहीं सीखी थी इसलिये उनकी जुवान चुस्त नहीं थी ।' यह भी कहते थे कि उनके शैरों के इसलाह में वह अपने पिता की सहायता लेते थे और इस कारण भारतेन्दु जी के बहुत से गज़ल उनके पास हैं । इन्होंने उन्हें देने का वादा भी किया था पर इसी बीच उनका देहान्त हो गया ।

भारतेन्दु जी का 'ताज़ीरात शौहर' उर्दू ही में है, जिसकी समालोचना में 'हिन्दुस्तानी लखनऊ' समाचार पत्र में लिखा गया था कि "मुसन्निक ने एक जराफ़त के पैराए में वहमी औरतों का पूरा नकशा खींच दिया है । यह

दिल बहलाने का निहायत उमदा नुसखा है। हम बाबू साहिब से सिफारिश करते हैं कि वह एक 'कानून औरत' का भी बना दें। जुर्माना और कैद दोनों शौहर के वास्ते बाबू साहिब ने निहायत उमदा तजवीज किया है। बाबू साहब की तसनीफात और तालीफात हिन्दी जुबान मे कसरत से हैं बल्कि अगर सच कहा जाय तो हिन्दी की तरक्की आप ही से ख्याल करना चाहिए। अगर बाबू साहब तकलीफ गवारा करके अपनी कुल तसनीफात उर्दू मे तर्जुमा कर दे तो विला शक एक बड़ा इहसान उर्दू पढ़े हुए पबलिक पर उनका होगा। उर्दू जुबान बिलकुल नाटको से खाली है। लेकिन हमको उम्मीद है कि अगर ऐसे ही दो-चार लायक फायक शख्स अपने क्रीमती वक्त को इधर सर्फ करेगे तो बहुत कुछ दावा इस जुबान को होगा। जिस वक्त हम बाबू साहिब की 'नीलदेवी' या 'सत्यहरिश्चन्द्र' वगैरह नाटकों को देखते हैं तो एक किस्म का अफसोस होता है और हमारे अफसोस की वही वजह है।”

उर्दू मे शैर या गजल फखियः कहने की भी प्रथा है। इसका तात्पर्य यही है कि कवि गण अपनी कविता की तारीफ आप करते हैं। संस्कृत तथा हिन्दी के कवियों ने भी ऐसा किया है पर कुछ ही हद तक। उर्दू शायरो ने ऐसा बहुत किया है पर यह उन्हीं को शोभा देता है जो उस योग्य होते हैं। भारतेन्दु जी ने इस प्रकार के कुछ शैर कहे हैं।

मज्जामीने बलंद अपनी पहुँच जायँगी गर्दू तक ।
 बतजें नौ ज़मीं में शैर हम आवाद करते हैं ॥
 उड़ा लाए हो यह तजें सखुन किसके बताओ तो ।
 दमे तकरीर गोया बाग में बुलबुल चहकते हैं ॥
 ज़रा देखो तो ए अहले-सखुन ज़ोरे सनाअत को ।
 नई बंदिश है मज़मूँ नूर के साँचे में ढलते हैं ॥
 'रसा' महवे-फ़साहत दोस्त क्या दुरमन भी हैं सारे ।
 ज़माने में तेरे तजें सखुन की यादगारी है ॥

भक्त कवि भारतेन्दु जी बड़े उदार विचारो के थे। उनमें धर्माघता

रत्ती भर भी नहीं थी और सभी धर्मों के उपदेशों को वे उसी 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' (श्री कृष्ण) समग्र विश्व के स्रष्टा को पाने का साधन समझते थे । वे कहते हैं—

तेरा दम भरते हैं हिन्दू अगर नाकूस वज्रता है ।

तुम्हे ही शेर ने प्यारे अर्जाँ देकर पुकारा है ॥

जो व्रत पत्थर हैं तो काबः में क्या जुझ खाक पत्थर है ।

बहुत भूला है वह इस फर्क में सर जिसने मारा है ।

न होते जिलवः गर तुम तो यह गिरजा कब का गिर जाता ।

निसारा को भी तो आखिर तुम्हारा ही सहारा है ॥

तुम्हारा नूर है हर शै में कह से कोह तक प्यारे ।

इसी से कह के हर हर तुमको हिन्दू ने पुकारा है ॥

और अंत में कहते हैं कि—

गुनह बख़्शो रसाई दो रसा को अपने कदमों तक ।

बुरा है या भला है जो कुछ है प्यारे तुम्हारा है ॥

कैसी सीधी सीधी बातें हैं, जो दिल पर असर कर जाती हैं । कठ-हुज्जती भले ही कोई कर ले पर ऐसे कथनों को कोई काट नहीं सकता है । सब भगड़े की बात को सुलभाते हुए भी अन्त में यह कहना कि 'जो कुछ है तुम्हारा ही है' कितनी नम्रता तथा भक्ति-श्रद्धापूर्ण है ।

कुछ कवि गण आहो नाले वगैरह का कई तरह से वर्णन कर जाते हैं पर उनका दिल पर असर नहीं होता क्योंकि उनमें उनका दिल ही नहीं रहता । वे केवल रूढ़ि परम्परा के अनुसार ऐसी शब्दावली भले ही प्रयुक्त करें और सुननेवाले भी सुन लें कि उसने ऐसे आह मारा, वैसे नाले उड़ाए पर उन पर ऐसी खबरो का असर नहीं होता, वे उसके साथ समवेदना नहीं प्रगट कर सकते । परन्तु जब कवि कुछ ऐसी बात कहता है कि जिससे श्रोताओं के हृदयों पर चोट पहुँचती है तभी उनका कारुण्य उद्विग्न हो उठता है । कुछ शैर लीजिए—

बुरा हो इश्क का यह हाल है अब तेरी फुरकत ^१ में ।
 कि चश्में खूँचकाँ^२ से लखते-दिल पैहम^३ निकलते हैं ॥
 फुगाँ करती है बुलबुल याद में गर गुल के ए गुलची^४ ।
 सदा^५ इक आह की आती है जब गुंचे चटकते हैं ॥
 कोई जाकर कहो यह आखिरी पैगाम उस बुत से ।
 अरे आ जा अभी दम तन में बाकी है, सिसकते हैं ॥
 दोस्तो कौन मेरी तुरबत ^६ पर । रो रहा है 'रसा रसा' करके ।

अधिक दुःख पाने से मनुष्य चिड़चिड़ा हो उठता है, वह हवा, काँटे
 वगैरह सभी से लड़ने-झगड़ने लगता है, कुछ उन्माद सा हो जाता है—

उड़ा दूँगा रसा में धजियाँ दामाने सहरा^७ की ।
 अबस^८ खारे वियाबाँ मेरे दामन से अटकते हैं ॥

अन्त में मृत्यु का समय आता मालूम होता है, उपदेशक कह उठा कि
 'मूठी बाँधे आया साधो हाथ पसार जाता है ।' कवि उसी को अपनी ढग से
 कहता है । पुष्प में सौन्दर्य और सुगंधि है, वह वास्तव में नित्य है, आज
 खिला है, कल नहीं है । उसका मूल्य कुछ नहीं है पर अमूल्य है, ऐसे दो फूल
 भी चलते चलाते न ले जा सकने पर रज्ज होना स्वाभाविक है, सब कुछ छोड़
 चले पर तब भी

ले चले दो फूल भी इस बाग़े आलम से न हम ।
 वक्त रेहलत^९ हैफ है खाली ही दामाँ रह गया ॥

सबके अंत में प्रार्थना की जाती है—

वह नाथ अपनी दयालुता तुम्हें याद हो कि न याद हो ।
 व जो क़ौल भक्तों से था किया तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥
 सुनो गज की ज्योंही व आपदा न बिलब छन का सहा गया ।
 वहीं दौड़े उठके पियादे पा तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥

१. जुदाई, विरह । २. जिससे रक्त टपक रहा है । ३. वरावर, सदा ।
 ४. फूल चुननेवाला, माली । ५. आवाज़, शब्द । ६. क़ब्र, मज़ार । ७. जंगल ।
 ८. व्यर्थ, फ़ज़ूल । ९. महायात्रा, मृत्युकाल ।

अब इनके गजलो से कुछ चुने हुए शैर उद्धृत कर दिये जाते हैं ।
दमे रफ्तार आती है सदा पाजेव से तेरे ।

लहद^१ के खिस्तगों^२ उठो मसीहा याद करते हैं ॥
मसल सच है वशर^३ पर कदरे^४ नेश्रमत वाद हांती है ।

सुना है आज तक तुमको बहुत वह याद करते हैं ॥
लगाया बागवाँ ने ज़रूम कारी दिल पै बुलबुल के ।

गिरेवाँ चाक गुंचः हैं तो गुल फरियाद करते हैं ॥
दिल जलाया सूरते परवानः^५ जब से इश्क में ।

फर्ज़ तब से शमश्रा पर आँसू बहाना हो गया ॥
हो परेशानी सरे मृ^६ भी न जुल्फे यार को ।

इसलिफ़ दिल भी मेरा सद चाक़ शानः हो गया ॥
ख़वाब ग़फ़लत से ज़रा देखो तो कव चौंके थे हम ।

काफ़िला मुल्के अदम को जब रवाना हो गया ॥
खाकसारी ने दिखाया वाद मुर्दन भी उरुज^७ ।

आसमाँ तुर्वत प मेरे शामियाना हो गया ॥
बाद मरने के ख़बर को कौन आता है 'रसा' ।

ख़रूम बस कुंजे लहद तक दोस्ताना हो गया ॥
रिहा करता है सैयादे सितमगर मौसिमे गुल में ।

असीराने^८ क़फ़स लो तुमसे अब ख़ुसत हमारी है ॥
नातवानी ने दिखाया ज़ोर अपना ए 'रसा' ।

सूरते नक़शे क़दम में बस नुमायाँ रह गया ॥
हलक़ए चश्मे सनम लिख के यह कहता है क़लम ।

बस के मरकज़^९ से क़दम अपना न बाहर होगा ॥

१ एक प्रकार की क़व्र । २ घायल । ३. मनुष्य, आदमी । ४. थोड़ी ।
५. पतंग । ६. बाल के नोक बराबर । ७ उत्कर्ष । ८. कैदिश्री । ९. केन्द्र-
बिन्दु, घेरे के बीचोंबीच का बिन्दु ।

दिल न देना कभी इन संगदिलों को यारो ।

चुर होवेगा जो शीशा तहे पत्थर होगा ॥

ए 'रसा' जैसा है बरगशता जमाना हम से ।

ऐसा बरगशता किसी का न सोकरुदर होगा ॥

जहाँ देखो वहाँ मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है ।

उसी का सब है जन्मवा जो जहाँ में आशकारा है ॥

चमक से बर्क के उस बर्कवश की याद आई है ।

घुटा है दम, घटी है जाँ घटा जब से ये छाई है ॥

कौन सुनै कासों कहौ सुरति विसारी नाह ।

बदावदी जिय लेत हैं ए बदरा बदराह ॥

शुभलारू^१ कह तो क्या मिला तुम्हको ।

दिल जलों को जला जला करके ॥

सर्वे क्रामत^२ गज़ब की चाल से तुम ।

क्यों क्रयामत चले बपा करके ॥

भाषा सौन्दर्य

हिन्दी साहित्य पर भारतेन्दु जी का जिस प्रकार प्रभाव पड़ा था उसी प्रकार हिन्दी काव्य भाषा पर भी पड़ा था । उनके समय तक के कविगण प्राचीन परंपरागत काव्य की जिस ब्रजभाषा को अपनाते चले आते थे, उसके बहुतेरे शब्दों को बोलचाल से उठे हुए शताब्दियों व्यतीत हो गए थे पर वे उनके द्वारा व्यवहृत हो रहे थे । इसके सिवा अपभ्रंश-काल तक के कितने शब्द, जो किसी के द्वारा कही बोलचाल में प्रयुक्त नहीं होते थे वे भी बराबर कविता में लाए जा रहे थे । भारतेन्दु जी ने ऐसे पड़े सड़े शब्दों को बिलकुल निकाल बाहर किया और इस प्रकार काव्य भाषा को परिमार्जित कर उसे चलता हुआ सरल और साफ रूप दिया । इस परिष्करण से जन

१. अग्नि के समान चमकता हुआ मुख । २. सरो वृत्त सा जिसका कद हो ।

साधारण की बोलचाल की भाषा से काव्य की जो ब्रजभाषा दूर पड़ गई थी और जिसे समझना भी सुगम नहीं रह गया था, वह फिर अपने सीधे मार्ग पर आ गई। जो लोग ब्रजभाषा की दुरूहता में उससे दूर हटते जा रहे थे वे फिर उसे अपनाने लगे। इसके साथ अन्य रसों में कम और वीर तथा रौद्र रसों में अधिक शब्दों की जो पिच्छाकारी की जाती थी, तोर मरोड़ उनमें होते थे और अंग अंग किए जाने थे तथा मनगढ़ंत शब्दों का प्रयोग हो रहा था उस दोष को भी भारतेन्दु जी ने अपनी कविता में नहीं आने दिया और उसमें अपनी भाषा को बचाए रखा। इस प्रकार इन्होंने अपनी भाषा को जो सुव्यवस्थित शिष्ट निखरा रूप दिया, उससे बाद के सभी सुकवियों ने लाभ उठाया है। भारतेन्दु जी के सवैयों तथा कवित्तों के सर्वप्रिय होने और उन्हीं के सामने ही उन सबके अत्यधिक प्रचलित हो जाने का एक प्रधान कारण भाषा का यह परिष्कार था।

कवि के हृदय से उठने हुए भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त कर देना जैसे भाषा का एक मुख्य गुण है, उसी प्रकार उसका दूसरा मुख्य गुण यह भी होना चाहिए कि वह उस भाव को ठीक ठीक श्रोता या पाठक के हृदय में उसी तरह झटपट पहुँचा दे। साथ ही यदि यह भाव-व्यक्तीकरण प्रसाद पूर्ण होते हुए सरलता के साथ थोड़े शब्दों में हुआ हो तो सोने में सुगंधि का कार्य कर देता है। इसके सिवा काव्य की भाषा में सौकुमार्य भी होना चाहिए। वर्णन शक्ति सरल होनी चाहिए और वह भी जितने ही स्वाभाविक ढंग से, बड़े परिश्रम तथा प्रयास से न गढ़ी जाकर, होगी उतनी ही वह लोकप्रिय होगी। काव्य धारा जितनी सरलता से बहेगी उतनी ही वह सुंदर, निर्मल तथा कलकल निनादमय होगी और यदि उसका प्रवाह अस्वाभाविक रुकावटों से सरल न हुआ तो वह असुंदर, गंदली तथा खड़खड़ाती गर्जन तर्जन पूर्ण होगी।

भाषा का एक यह गुण भी सफल कवियों में होना परमावश्यक है कि उनकी भाषा समान रूप से अनेक प्रकार के भावों को व्यक्त कर सके।

एक पद में यदि दो तीन भाव आ गए हैं और कवि सबको समान भाषा में व्यक्त नहीं कर सका है तो वह उस पद रचना में सफल नहीं हुआ है। उसका वह कार्य अच्छे वस्त्र में दरिद्र पैवंद लगाने के समान है। भाषा में काव्य प्रवाह के अनुकूल ही चलने की शक्ति होनी चाहिये। जिस कवि की भाषा में आप से आप अलंकारों का प्रस्फुटन होता रहता है, उसी की भाषा भाषाओं की अलंकार है। जब अलंकारों के लिये ही कविता की जाती है तब उसकी भाषा में स्वाभाविकता नहीं रह जाती। अलंकार शोभा बढ़ाने के लिये लाने चाहिए न कि उनके बोझ से भाषा को बेदम निर्जीव कर डालने के लिये।

भारतेन्दु जी की भाषा में स्वच्छंदता तथा सजीवता विशेष रूप से पाई जाती है और वह उनकी प्रकृति के अनुकूल ही है। इसी स्वभाव के कारण इनके हृदय में जो भाव उठते थे, उनका बहुत ही मनोरंजक रूप में वर्णन होता था। उर्दू काव्य ग्रन्थों का भी भारतेन्दु जी ने मनन किया था और उर्दू में कविता भी करते थे। यही कारण है कि उस भाषा को जिद-दिली इनकी भाषा में अधिक व्याप्त होगई है। इस प्रकार से जब सजीव भाषा की सुष्ठु-योजना की जाती है तब कविता में जान पडती है और कवि तथा पाठक दोनों ही उसपर मुग्ध हो जाते हैं।

भाषा पर भारतेन्दु जी का अधिकार भी खूब बढ़ा चढ़ा हुआ था। इनकी प्रायः सभी कविता ब्रजभाषा में है। इनकी भाषा में मुहाविरों का बहुत प्रयोग हुआ है। लोकोक्तियों तथा व्यंग्योक्तियों को भी इन्होंने सुचारु रूप से प्रयुक्त किया है। 'निरंकुशाः कवयः' होते हैं पर इन्होंने अपनी भाषा को कही नियम विरुद्ध तथा शिथिल नहीं होने दिया। भर्ती के शब्द कविता में नहीं लाये हैं। भाषा को सुव्यवस्थित करने का तो इन्होंने बीड़ा ही उठाया था तब वे अपनी भाषा को कैसे अव्यवस्थित होने देते। अब कुछ अवतरण देकर पूर्वोक्त बातों का विचार किया जाय।

१ सोई तिया अरसाय के सेज पै सो छवि लाल विचारत ही रहे ।

पोंछि रूमालन सों श्रम सीकर भौरन को निरुवारत ही रहे ॥

ल्यों छवि देखिबे को मुख तें अलकैं 'हरिचंद जू' टारत ही रहे ।

द्वैक घटी लीं जके से खरे वृषभानु-कुमारी निहारत ही रहे ॥

कैसा सुंदर चित्र इन मनोहर शब्दों से चित्रित किया गया है । सोई हुई वृषभानुनंदिनी की छवि को किस प्रकार श्रीकृष्ण जी जके हुए खड़े देख रहे हैं, इस भाव को ऐसी सरलता से कह दिया गया है कि सुनने या पढ़ने वाले के हृदय में वह आप ही खचित होजाता है । भाव के अनुकूल ही शब्द इस प्रकार आप से आप बिना प्रयास के लेश के चले आए हैं कि प्रवाह में कहीं भी कुछ रुकावट नहीं है । शब्दों की सुकुमारता के लिए कहना ही क्या ? थकावट की छवि पर विचार, रूमाल से पसीना पोछना, भौरों को दूर करना, बालों को हटाना और जके से होकर मुख-छवि देखते रहना भावों को कवि ने बड़ी कुशलता से एक पद में वर्णन किया है, पर सभी एक दूसरे से इस प्रकार मिले हुए अंत तक चले आए हैं कि कहीं भी भाषा में बेमेलपन नहीं आया है । पूरा वर्णन भी कितना स्वाभाविक है और पूरे छन्द में स्वभावोक्ति अलंकार का प्रस्फुटन आप से आप हो गया है ।

२ देखि घनश्याम घनश्याम की सुरति करि ,

जियमें विरह घटा घहरि घहरि उठै ।

ल्यों ही इन्द्रधनु बगमाल देखि बनमाल ,

मोतीलर पिय की जिय लहरि लहरि उठै ॥

'हरीचन्द' मोर पिक धुनि सुनि वंशीनाद ,

वाँकी छवि बार बार छहरि छहरि उठै ।

देखि देखि दामिनि की हुगुन दमक पीत ,

पट छोर मेरे हिय फहरि फहरि उठै ॥

विरहिणी के हृदय को वर्षा की शोभा किस प्रकार दुःखदायिनी हो रही है ? सर्व प्रथम काले बादल को देखते ही घनश्याम श्री कृष्ण का स्मरण हो जाता है और उसके हृदय में विरह के बादल घहराने लगते हैं । इन्द्र-धनुष तथा बकों की पंक्ति प्रिय के हृदय पर सुशोभित अनेक रंगों के फूलों की बनमाला तथा मोतियों की लड़ियों की याद दिलाती है जिससे लहर (आनंद तरंग,

विष चढ़ना) सी उठने लगती हैं। मयूर के शब्द से वंशी की ध्वनि याद आती और 'पी कहाँ', 'पी कहाँ' सुनते ही पति की बाँकी टेढ़ी-मेढ़ी छवि हृदय को बार बार बेधती है। विद्युत् की चमक श्री कृष्ण के पीतांबर के छोर को स्मृति में लाकर हृदय को फड़फड़ा देती है। कितना भाव सरल शब्दों से युक्त सुगठित भाषा में कहा गया है। प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ-व्यक्ति, उदारता, कांति आदि सभी गुण इसमें मौजूद हैं। श्लेष, स्मरण, क्रम, स्वभावोक्ति, यमक, अनुप्रासादि अलंकारों का चमत्कार आप से आप आ गया है, कवि को उन्हे लाने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ा है। भाषा की मधुर धारा श्रोता तथा पाठक दोनों ही को मुग्ध कर देती है। दो-चार उदाहरण और दे दिए जाते हैं। सभी भाषा की दृष्टि से, जैसी ऊपर विवेचना की जा चुकी है, एक से एक बढ़ कर हैं।

३. हूलति हिण्ड में प्रानप्यारे के बिरह-सूल ,

फूलति उमंग भरी फूलति हिंडोरे पै ।

गावति रिभावति हँसावति सबन 'हरि,

चन्द' चाव चौगुनो बड़ाइ घन घोरे पै ॥

वारि वारि डारों प्रान हँसनि मुरनि, बतरान ,

मुँह पान, कजरारे दग डोरे पै ।

ऊनरी घटा में देखि दूनरी लगी है आहा ,

कैसी आजु चुनरी फबी है मुख गोरे पै ॥

४. छरी सी छकी सी जड़ भई सी जकी सी घर,

हारी सी बिकी सी सो तो सबही घरी रहै ।

बोले तें न बोलै दग खोलै ना हिंडोलै बैठि,

एक टक देखै सो खिलौना सो धरी रहै ॥

'हरीचद' औरौ घबरात समुझाएँ हाय,

हिचकि-हिचकि रोवै जीवति मरी रहै ।

याद आएँ सखिन रोवावै दुख कहि-कहि,

तौ जौ सुख पावै जौ जौ मुरछि परी रहै ॥

५. सिसुताई अजों न गई तन ते तउ जोवन जोति बटोरै लगी ।
सुनि कै चरचा 'हरिचंद' की कान कछुक दै भौंह मरोरै लगी ॥
बचि सासु जेठानिन सों पियतें दुरि घूँघट में दग जोरै लगी ।
दुलही उलही सब अँगन तें दिन द्वै तें पियूख निचोरै लगी ॥
६. आजु लौं जो न मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भाँति कहावैं ।
मेरो उराहनो है कछु नाहिं सबै फल आपुने भाग कों पावैं ॥
जो 'हरिचंद' भई सो भई अब प्रान चले चहैं तासों सुनावैं ।
प्यारे जू है जग की यह रीति विदा की समै सब कण्ठ लगावैं ॥

कुछ पचांश भी दिए जाते है जिनसे मुहाविरे की भी वहार मिलेगी—

१—कान्ह भए प्रानमय प्रान भए कान्हमय,

हिय मैं न जानी परै कान्ह है कि प्रान है ।

२—गोप सों जो पै भए राजपूत लडो किन जोड़ को आपुने जानी ।

मारत हौ अबलागन को तुम याही मैं वीरता आय खुटानी ॥

३—प्रीतम के सुख में पिय मैं भई आप तें लाल के जान्यौ अकेली ॥

४—प्रीतम पिआरे नंदलाल विनु हाय यह,

सावन की रात किधौं द्रौपदी की सारी है ।

५—सो बनि पडित ज्ञान सिखावत कूबरी हू नहिं ऊबरी जासों ॥

६—मो दुखिया के न पास रहौ उडिकै न लगै तुमहूँ को कहूँ दुख ॥

७—एक जो होय तो ज्ञान सिखाइए कृपहि में यहाँ भाँग परी है ॥

८—साँचे में खरी सी परी सीसी उतरी सी खरी,

बाजूवंद बाँधे बाजू पकरि किवार कै ।

९—पगन में छाले परे नाँघिवे को नाले पर,

तऊ लाल लाले परे रावरे दरस के ॥

१०—रँग दूसरो और चढ़ैगो नहीं अलि साँवरो रँग रँग्यो सो रँग्यो ।

११—सुख कौन सो प्यारे दियो पहिले जिहि के बदले यों सत्ताय रहे ॥

लोकोक्ति

भारतेन्दु जी कविता में नित्य के बोलचाल की कहावतों का बहुत ही अच्छा प्रयोग करते थे और इससे कविता के भावों की खूब पुष्टि होती थी। जिस प्रकार प्रत्येक जीव के लिये जन्म-मरण निश्चित है उसी प्रकार सुख दुःख भी दोनों प्रत्येक जीव के भाग्य में लिखा रहता है। किसी को सुख अधिक है तो किसी को दुःख। इसका समाधान करने के लिये कितना भी तर्क-वितर्क किया जाय पर यह कमी तथा आधिक्य है और रहेगा। कृष्ण जी के मथुरा-गमन पर गोपिकाएँ जब सुनती हैं कि उन्होंने कुब्जा पर अपना प्रेम प्रदर्शित किया है, तब वे सोचती हैं कि क्या कुब्जा संसारोपरि है और मथुरा क्या मिट्टी पत्थर की भूमि नहीं है जो कृष्ण वहाँ रम गये हैं। अंत में कुछ न समझ पड़ने पर वे कहती हैं कि कुछ नहीं यह सब भाग्याधीन है।

कुब्जा जग के कहा बाहर है नन्दलाल ने जा उर हाथ धर्यौ।

मथुरा कहा भूमि की भूमि नहीं जहाँ जाय कै प्यारे निवास कर्यौ ॥

‘हरिचंद’ न काहू को दोष कछू मिलिहैं सोइ भाग में जो उतर्यौ।

सबको जहाँ भोग मिल्यौ तहाँ हाय वियोग हमारे ही बाँटे पर्यौ ॥

साथ ही ये गोपिकाएँ समझती भी थीं कि निर्मोही मोहन को जानते हुए भी जो हम लोगो ने उससे प्रेम करने की भूल की है वही भूल हमारे गले आ पड़ी है।

यामै न और को दोष कछू सखि चूक हमारी, हमारे गले परी।

और हमने उन्हे भला आदमी सुजान समझा था, जानती थी कि वे ऐसे हैं, नहीं तो—

जानि सुजन में प्रीति करी सहि कै जग की बहु भॉति हँसाई।

त्यों ‘हरिचंद जू’ जो जो कष्टो सो करयो चुप हँ करि कोटि उपाई ॥

सोऊ नहीं निबही उनसों उन तोरत वार कछू ना लगाई।

साँची भई कहनावति वा अरी ऊँची दुकान की फीकी मिठाई ॥

प्रेम भी विचारा ऐसा दो के बीच में पड़ा है कि कुछ कहने को नहीं।

प्रतिक्षण मिलन होता रहे तभी ठीक है, नहीं तो कभी एक पक्ष की विरहाग्नि प्रबल, कभी दूसरे पक्ष की। इसी प्रेम में दग्ध होकर सखी अपने आप को कोस रही है।

जानति हो सब मोहन के गुन तौ पुनि प्रेम कहा लागि कीनो ।

त्यौं 'हरिचंद जू' त्यागि सबै चित मोहन के रस रूप में भीनो ॥

तोरि दर्ई उन प्रीति उतै अपवाद इतै जग के हम लीनो ।

हाय सखी इन हाथन सों अपने पग आप कुठार में दीनो ॥

इस प्रकार अपने को कोसती हुई इस विरहिणी की दशा की दूसरी सखी उसके प्रलाप का भी कथन करते हुए या वर्णन करती है—

घेरि घेरि घन आए छाया रहे चहुँ ओर कौन हेत प्राननाथ सुरति बिसारी है ।

दामिनी दमक जैसी जुगुनू चमक तैसी नभ में विशाल वगपंगति सँवारी है ॥

ऐसी समय 'हरिचन्द' धीर ना धरत नेकु विरह विथा तें होत ब्याकुल पिआरी है ।

प्रीतम पिआरे नन्दलाल बिनु हाय यह सावन की रात किधौं द्रौपदी की सारी है ॥

इस प्रकार विकल नायिका को उसकी सखियाँ समझाने लगती हैं तो वह उन्हें कैसा उपालभ देती है—

पहिले बहु भाँति भरोसो दियो अब ही हम लाइ मिलावती है ।

'हरिचंद' भरोसे रहो उनके सखियाँ जे हमारी कहावती हैं ॥

अब वेई जुदा है रहीं हम सों उलटो मिलि कै समुझावती हैं ।

पहिले तो लगाइ कै आग अरी जल को अब आपुहि धावती हैं ॥

खैर किसी प्रकार सखियाँ जब नायक को समुझा बुझाकर सीधा करती हैं तब वही प्रेम इस विरहिणी को मानिनी बना देता है। सखी कहती है—

प्रानपियारे तिहारे लिए सखि बैठे हैं देर सों मालती के तर ॥

वू रही बातें बनाय बनाय मिलै न बृथा गहि कै कर सों कर ।

तोहि घरी छिन बीतत है 'हरिचन्द' उतै जुग सो पलहु भर ॥

तेरी तो हाँसी उतै नहिँ धीरज नौ घरी भद्रा घरी में जरै घर ।

अंत में मानिनी भी मान जाती है और प्रीतम से मिलती है। मान

द्रवित होकर करुणारस में परिवर्तित हो जाता है । नायिका प्रीतम से जो प्रार्थना करती है उसके एक एक अक्षर में उसका हृदयस्थ प्रेम उच्छलित होता जात हो रहा है—

तुम्हरे तुम्हरे सब कोऊ कहै तुम्हैं सो कहा प्यारे सुनात नहीं ।

विरुदावली आपुनी राखौ मिलौ मोहि सोचिबे की कोउ बात नहीं ॥

‘हरिचंद्र जू’ होनी हुती सो भई इन बातन सों कछु हाथ नहीं ।

अपुनावते सोच विचारि तबै जलपान कै पूछनी बात नहीं ॥

इनके सिवा भी अनेक ऐसी लोकोक्तियों की बराबर सुष्ठु योजना इनके पदों में रही है । गद्य में, मुख्यतः नाटकों में, भी ऐसी योजना बहुत है ।

अनुवाद

अनुवाद करना जितना सुगम समझा जाता है वैसा वास्तव में नहीं है । यह जब गद्य के लिये कहा जा सकता है तब पद्य का पद्यानुवाद करना तो अवश्य ही दुरूह है । मौलिक रचना से भी वह अधिक कष्ट साध्य है । अन्य कवि के भाव को उसी प्रकार सरस शैली में व्यक्त कर देना उससे श्रेष्ठतर नहीं तो कम से कम उसके समकक्ष कवि ही के लिए साध्य है । भारतेन्दु जी ने विशेषतः संस्कृत ही से अनुवाद किए हैं, केवल एक दुर्लभबन्धु अँगरेजी नाटक का अनुवाद है । इनके अनुवादों में मौलिक ग्रंथों ही का आस्वादन मिलता है ।

गीतगोविन्दकार जयदेव जी की कविता के लालित्य और प्रसाद गुण से संस्कृत का कौन प्रेमी परिचित नहीं है । संगीत-प्रेमियों को भी इनकी रचना से जो आनन्द मिलता है वह किसी दूसरे कवि की रचना से नहीं मिलता । इसी सुप्रसिद्ध ग्रन्थ गीत-गोविन्द की अष्टपदी का ‘गीत-गोविन्दानन्द’ नाम से भारतेन्दु जी ने अनुवाद किया है । इसके विषय में एक समालोचक लिखते हैं ‘भारतेन्दु जी के अनुवाद में जो सरसता और सुंदरता है वह अन्य अनुवादों में नहीं । आपके अनुवाद में संगीत का मजा भी फीका नहीं होने पाता, वरन् ब्रजभाषा में होने के कारण मौलिक ग्रंथ से टक्कर लेता

है ।' गीतगोविन्द के दो एक उदाहरण लीजिए । मंगलाचरण का प्रथम श्लोक इस प्रकार है ।

मेघैर्मेढुरसंवरंचनभुवः श्यामास्तमालदुमैः ।
 नक्तं भीरुरयं त्वमेवतदिसंराधेगृहं प्रापये ॥
 हृत्थनंदनिदेशतरचलितयोः प्रत्यश्व कुंजदुमं ।
 राधामाधवयोर्जयति यमुनाकूले रहः केलयः ॥

भारतेन्दु जी ने एक सवैये मे इसका अनुवाद किया है, जिसके पढ़ने से साफ मालूम होता है कि इसमें अनुवाद करने का लेशमात्र प्रयास नहीं है । भाषा कितनी मधुर है और मूल-कवि के सभी भावाव्या गए हैं ।

मेघन सों नभ छाड़ रहे वन भूमि तमालन सों भई कारी ।
 साँझ भई ढरिहै वर याहि दया करिकै पहुँचावहु प्यारी ॥
 यों सुनि नन्द निदेस चले दौड कुञ्जन में हरि भानु-दुलारी ।
 सोई कलिन्दी के कूल इकन्त की केलि हरै भवभीति हमारी ॥

गीत-गोविन्द के पंचम पद का कुछ अंश अनुवाद सहित नीचे दिया जाता है—

संघरदधरसुधामधुरश्वनिमुखरितमोहनवंशं ।
 चलितश्गंचलचंचलमौलिकपोलविलोलवतंशं ॥
 रासे हरिमिह विहित विलासं स्मरति मनो ममकृत परिहासं ॥ ध्रुवपदं ॥
 चंद्रकचारुमयूरशिखंडक मंडलवलयितकेशं ।
 प्रसुरपुरंदरधनुरनुरंजितमेदुरमुदिरसुवेशं ॥
 मणिसयमकरमनोहरकुण्डलमंडितगंडमुदारं ।
 पीतवसनमनुगतमुनिमनुजसुरासुरवरपरिवारं ॥
 विशदकदंबतले मिलितं कलिकलुपभयं शमयंतं ।
 मामपि; किमपि तरंगदन्गदशा मनसा रमयंतं ॥
 श्रीजयदेवभणितमति सुन्दर मोहन मधुरिपुरुषं ।
 हरिचरणस्मरणं प्रतिप्रति पुण्यवत्त मनुरूपं ॥

जिय तें सो छबि दरत न टारी ।

रासविज्ञास रमत लखि मो तन हँसे जौन गिरधारी ॥ ध्रु० ॥
 अघर मधुर मधु पान छकी बंसी-धुनि देत छकाई ।
 ग्रीव-हुलनि चंचल कटाच्छ मिलि कुण्डल-द्विलनि सुहाई ॥
 घुंघुरारी अलकन पै प्यारी मोर चन्द्रिका राजै ।
 नवल सजल घन पै मनु सुन्दर इन्द्रधनुष छबि छाजै ॥
 गंधन पर मनिमंडित कुण्डल कलकत सब मन मोहै ।
 सुर-नर-मुनिगन बन्दित कटि तट लपटि पीतपट सोहै ॥
 बिसद कदम्ब तरे ठाढ़े जन-भव-भय-मेतनवारे ।
 काम भरी चितवन लखि मम उर काम-बढ़ावनहारे ॥ ।
 श्री जयदेव कथित यह हरि को रूप ध्यान मन भायो ।
 बसै सदा रसिकन के हिय 'हरिचन्द' अनूप सुहायो ॥

महाकवि विशाखदत्त कृत मुद्राराक्षस नाटक का आपका अनुवाद बहुत ही अच्छा हुआ है। उसके भी दो उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। मंगला-चरण के प्रथम श्लोक में महादेव जी के गंगा जी के छिपाने के प्रयास का वर्णन है—

१—धन्या केयं स्थिता ते शिरसि ? शशिकजा; किन्तु नामैतदस्या ?
 नामैवास्यास्तदेतत्परिचितमपि ते विस्मृतं कस्य हेतोः ?
 नारीं पृच्छामि नेन्दुं; कथयतु विजया न प्रमाणं यदीन्दु-
 देव्या निह्नोतुमिच्छोरिति सुरसरितं शाठ्यमन्याद्विभोर्वः ॥

(अनुवाद, सवैया)

'कौन है सीस पै ?' 'चंद्रकजा', 'कहा याको है नाम यही त्रिपुरारी' ?
 'हाँ यही नाम है भूल गई' किमि जानत हूँ तुम प्राणपियारी' ॥
 'नारिहि पृच्छत चंद्रहि नारि', 'कहै विजया जदि चंद्र लयारी' ।
 यों गिरिजै छलि गंग छिपावत ईस हरौ सब पीर तुम्हारी ॥

२—प्रत्यग्रोन्मेष जिज्ञा क्षणयनभिमुखी रत्नदीप प्रमाणम् ।
 आत्मव्यापार गुर्वी जमित जलकवा जृम्भितैः साङ्गभङ्गैः ॥

नागाङ्गं मोक्तुमिच्छाः शयने गुरु फणा चक्रवालौपधाने ।
निद्राच्छेदाभिताम्रा चिरमवतु हरेर्दृष्टि राके करा वः ॥
इसका अनुवाद पद मे वैतालिक के गाने योग्य किया गया है—

हरौ हरि-नैन तुम्हारी बाधा ।

सरद-अन्त लखि सेस-शंक तें जगे जगत-सुभ-साधा ॥
कछु कछु खुले, सुँदे कछु सोभित आलस भरि अनियारे ।
अरुन कमल से मद के माते थिर भे, नदपि डरारे ॥
सेस-सीस-मनि-चमक-चकौंधन तनिकहुँ नहिँ सकुचाहीं ।
नींद-भरे श्रम जगे चुभत जे नित कमला-उर माहीं ॥
हरौ हरि-नैन तुम्हारी बाधा ।

पाखंड विडंबन तथा धनंजय विजय दोनों ही संस्कृत से अनूदित हैं ।
इन दोनों के एक एक पद नीचे दे दिए जाते हैं ।

१—श्री रघुनाथ की प्राण-प्रिया मिथिलेश-लली दससीस चही है ।
वेद चुराय कै दानव के गन भागे पताल न जाय कही है ॥
वाम मदालसा जो सुरलोक की सो छलकै खल दैत लही है ।
जो विधि वाम भयो सजनी तव जो जो करै सो अर्चन नहीं है ॥

२—सागर परम गंभीर नघ्यो, गोपद सम छिन मैं ।
सीता-विरह-मिटावन की अद्भुत मति जिन मैं ॥
जारी जिन तूल फूस हूससी लंका सारी ।
रावन-गरव मिटाइ हने निसिचर-बल भारी ॥
श्री राम-प्राण-सम, वीर वर, भक्तराज, सुग्रीव-प्रिय ।
साइ वायुतनय धुज बैठि कै गरजि डरावत शत्रु-हिय ॥

कर्पूर मंजरी सटक शुद्ध प्राकृत भाषा मे राजशेखर द्वारा निर्मित हुआ था, उसके अनुवाद से भी दो एक पद यहाँ उद्धृत किए जाते हैं—

१—फूलैगे पलास बन आगि सी लगाइ फूर ,

कोकिल कुहूकि कल सबद सुनावैगो ।

त्यों ही सखी लोक सबै गावैगो धमार धीर ,
 हरन अवीर बीर सब ही उड़ावैगो ॥
 सावधान होहु रे बियोगिनी सम्हारि तन ,
 अतन तनक ही मैं तापन तें तावैगो ।
 धीरज नसावत बढ़ावत विरह काम ,
 कहर मचावत बसंत अब आवैगो ॥

२—गोरो सो रंग उमंग भर्यो चित, अंग अनंग को मंत्र जगाए ।
 काजर रेख खुभी दग मैं दोउ , मोहन काम कमान चढ़ाए ॥
 आबनि बोलनी डोलनि ताकी , चढ़ी चित में अति चोप बढ़ाए ।
 सुन्दर रूप सो नैनन मे बस्यो , भूलत नाहिनै क्यों हूँ भुलाए ॥

पूर्वोक्त उद्धरणों के पढ़ने से उनमें अनुवाद की गद्य ही नहीं आती प्रत्युत् मूल सा आनन्द मिलता है । इस प्रकार सहज ही मूल के समान अनुवाद कर डालने का मुख्य कारण भारतेन्दु जी की जन्मसिद्ध काव्य-प्रतिभा थी । अनुवाद करने में वे इतने कुशल थे और उसे मूल में इस प्रकार मिला देते थे कि पाठको को भ्रम हो जाता है कि दोनों में कौन बढ़कर है । अंग्रेजी के अनुवाद दुर्लभबंधु का उल्लेख हो चुका है और उसकी रचना में अन्य लोगों की सहायता भी ली गई थी इससे उसपर विशेष यहाँ नहीं लिखा जाता । इसके पात्रों के नामों को अनुवाद ही, जो वास्तव में इन्हीं का किया हुआ है, अति सुन्दर हुआ है । पोर्शिया का पुर श्री, जेसिका का यशोदा, ऐन्टॉनियो का अनंत आदि नामकरण किए गए हैं, यह सब भारतेन्दु जी की सजीवता ही का फल है ।

नवीन रस

सहृदय पुरुषों के हृदय में रति-शोक आदि अनेक भाव स्थायी रूप से पाए जाते हैं, जिनका वे बराबर अनुभव किया करते हैं । कभी वे किसी से प्रेम करते हैं, किसी पर क्रोध प्रकाश करते हैं, किसी अद्भुत वस्तु को देख कर चकित होते हैं या किसी के लिए शोक करते हैं । इस प्रकार के बहुत से

भाव क्रमशः उनके हृदय में वासना रूप से स्थित हो जाते हैं जो अवलम्बन पाते ही प्रस्फुटित हो सकते हैं। ऐसे भाव, जो एक प्रकार की चित्तवृत्ति हो जाते हैं, स्थायी कहलाने लगते हैं। ये 'विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणः तथा । रसतामेति' अर्थात् आलम्बनउद्दीपन विभाव द्वाग प्रस्फुटित और उद्दीप्त होने पर कटाक्षादि अनुभावों तथा ग्लानि आदि संचारी भावों द्वारा अभिव्यक्त होकर रसत्व को प्राप्त होते हैं। रति, शोक, क्रोध, उत्साह, विस्मय, हास, भय, जुगुप्सा और निर्वेद नव स्थायी भाव हैं, जिनके अभिव्यक्त होने पर शृंगार, करुणा, रौद्र, वीर, अद्भुत, हास्य, भयानक, वीभत्स तथा शांत रसों के परिपाक हो जाते हैं। कुछ आचार्यों का मत है कि इनमें से एक शांत रस नाटक में नहीं आ सकता। 'शांतस्य शमसाध्यत्वान्नटे च तदसम्भवात्' अर्थात् नट में शांति असंभव है। पर यह कथन ठीक नहीं है। जो नट अभी क्रोध और तुरंत ही वाद को (परदा बदलने ही के फेर में) हास्य दिखला सकता है, वह शांत क्यों नहीं हो सकता। यदि वह समाधिस्थ तपस्वी का स्वाँग धारण किए हुए है तो वह क्या बंदर की चंचलता दिखलावे ही गा। वह अभिनेता है, उसे तो सभी प्रकार के भावों का बिना स्वयं उसे अनुभव किए, इस प्रकार स्वाँग दिखलाना है कि दर्शकगण पर उनका ठीक और सत्य प्रभाव पड़ जाय। यदि वह स्वयं क्रोध, प्रेम आदि के फंदे में पड़ जाएगा, तो अभिनय का उसे ध्यान ही कहाँ रह जायगा।

पंडितराज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में 'अथ कथमेत एव रसाः' कहकर रसों के केवल नौ ही होने अर्थात् उससे अधिक न होने की चर्चा चलाई है। भक्ति को एक स्थायी भाव मानकर तर्क किया है। पूर्वोक्त आचार्यों का मत 'रतिर्देवादि विषया व्यभिचारी' कहकर तथा 'भरतादि मुनि वचनानामेवात्र रसभावत्वादि व्यवस्थापकत्व' मानकर चुप रह गए हैं। वात्सल्य प्रेम का भी उल्लेख मात्र इन्होंने किया है पर अन्य कोई रस माना नहीं है। इनके अनंतर संस्कृत में शृंगार रत्नाकर नामक एक ग्रंथ काशिराज की आज्ञा से निर्मित होकर सं० १९१९ वि० में प्रकाशित हुआ था। इसके रचेता प्रसिद्ध विद्वान् प० ताराचरण तर्करत्न थे। इन्होंने अपने ग्रन्थ में एक स्थान पर लिखा है—

کرارہ

کہد عالمہ تیار ہیں جو پاپے کا لکھنے سے نہ کھو لیتا
 اور اس کے لئے لکھنے کا پاپہ اور کتا بھرتی

۱۷/۱۱/۲۰۰۷
 Harin Chaudhary

भारतेन्दु जी का उर्दू तथा अंग्रेज़ी हस्ताक्षर

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

3. 4. 13.

अनेक कोटि साक्षात् दण्डन प्रणामानन्तरं निवेदयति
लघु २.५ मिली. धन्यवाद. नास्कादि मात्र इ.
भारतेन्दु (कृत अन्वी आल से अला है किन्तु तनिक
आदि विषय है. लोक परिपाटी उत्तम है. भाग्य ही
लगाए आला है. मैं अब तक नहीं अच्छा हुआ. श्री श्री सुखी
हे- आणकरी ने उनील है. हारी लक्ष्मी त्रिदि जो आप उग्र
दर रहे शीघ्र भेजिए. इस फल में तम प्रकार महाप्रद होगी

श्री भद्राग लेखक
इति

EAST INDIA




POST CARD

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE



भारतेन्दु का इच्छित फल



Sri Ratha Chandraji Goswami
Sri Ratha Ramaji Kashera
Bhindraon Sri Vrindaban

गोस्वामी राधाचरण जी के भारतेन्दु जी का पत्र

हरिश्चन्द्रांस्तु वात्सल्यसख्यभक्त्यानांदाख्यमधिकं रसचतुष्टयं मन्वते । उक्त ग्रंथ के प्रकाशित होते समय भारतेन्दु जी को अवस्था बारह वर्ष की थी पर उसी अवस्था में इनके अकाट्य तर्कों को सुनकर उक्त पंडित जी को इनकी सम्मति भी अपने ग्रंथ में लिखनी पड़ी थी । सं० १९४० वि० में लिखे गए 'नाटक' पुस्तक में भारतेन्दु जी ने शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, अद्भुत, वीभत्स, शांत, भक्ति वा दास्य, प्रेम वा माधुर्य, सख्य, वात्सल्य और प्रमोद वा आनंद चौदह रस लिखे हैं । इस प्रकार भारतेन्दु जी ने पाँच नए रसों की कल्पना की है ।

शृंगार रस रसराज है क्योंकि इसका स्थायी भाव प्रेम है । प्रेम की महत्ता अन्यत्र भी कुछ लिखी गई है पर यहाँ इतना ही कहना अलं है कि इस प्रेम ही से सृष्टि बनी हुई है और इन नवो रसों का मूल मंत्र भी यही प्रेम है । शृंगार के दो भेद हैं—संयोग और वियोग । भारतेन्दु जी ने दोनों ही पर कविता की है और बहुत की है । इनके शृंगार रस के कवित्त सवैये अत्यंत रसावह तथा हृदयस्पर्शी होते थे । यहाँ दो ही चार उदाहरण दिए जा सकते हैं ।

१—सिसुताई अजौं न गई तन ते तउ जोवन-जोति बटौरै लगी ।

सुनि कै चरचा 'हरिचन्द्र' की कान कळक दै भौह मरौरै लगी ॥

बचि सासु जेठानिन सों पिय तें दुरि घूँघट में दग जेरै लगी ।

दुलही उलही सब अंगन तें दिन द्वै तें पियूप निचौरै लगी ॥

देखिए बिहारी के 'सक्रोन काल' की नायिका का कैसा मनोरंजक चित्र सा खिंच गया है । शिशुताई, लड़कपन, अभी नहीं गई है पर यौवन का आगम आरंभ हो गया है । पति का नाम सुनते ही भौंहे तिरछी हो जाती हैं और गुरुजनो से बचाकर तथा पति से भी छिपा कर घूँघट से उसकी ओर देखने लगी है । दो ही दिन से मुग्धा बाला के अंग ऐसे उमड़ रहे हैं मानों अमृत बरस रहा है । यहाँ अभी प्रेम का अंकुरण हो रहा है । आलंबन नायक नायिका दृग जोर रहे हैं और एक दूसरे के विषय की बातें सुनते हैं, जिससे उनके प्रेम को उदीप्ति मिलती है । भौंहे मरोरना और आँखे बचाकर देखना

अनुभावों से स्थायी भाव रति के पुष्ट होने पर शृंगार रस का परिपाक हो जाता है ।

२—हूलति हिये में प्रानप्यारे के बिरह-सूज ,
फूलति उमंग भरी भूलति हिंडोरे पै ।
गावति रिभावति हँसावति सबन हरि—
चन्द चाव चौगुनो बढाइ घन घोरे पै ॥
वारि वारि डारौं प्रान हँसनि मुरनि बतरान ,
सुँह पान कजरारे दग डोरे पै ।
ऊनरी घटा में देखि दूनरी लगी है आहा ,
कैसी आजु चूनरी फबी है मुख गोरे पै ॥

सभी शोभाओं से युक्त वर्षाऋतु आगई है, हिंडोला पड़ा हुआ है और एक गौर वर्णा नायिका उस पर बैठकर पेंग लगा रही है । सखियाँ उस मन-हरण दृश्य का वर्णन कर रही हैं कि देखो यह प्राण प्यारे के हृदय में, हिंडोले पर दूर रहकर, विरह-शूल हूलते हुए किस प्रकार स्वयं उमंग के साथ भूल रही है । घोर घन के कारण अपना उत्साह बढ़ाते हुए गा रही है और सबको हँसाती रिभाती है । उसके हँसने, मुख फेरने, बोलने, मुख की लाली तथा आँखों के श्याम रतनार डोरे पर, एक एक अदा पर, प्राण निछावर हो रहा है । क्या कहें, देखो इस हलकी घटा में इसका भूलने में दोहरा हो जाना कैसा अच्छा लगता है और सबके ऊपर उसके गोरे मुख पर आज चूनरी कैसी फब रही है । कितना सुंदर चित्रण है, समा सा बाँध दिया गया है । स्थायी भाव रति आलबन तथा उद्दीपन दोनों ही के रहने से कैसी आनंदातिरेक में अनुभूत हो रही है । संयोग शृंगार रस का पूर्णरूप से इसमें परिपाक हो गया है ।

३—मनमोहन तैं बिछुरी जब सों ,
तन आँसुन सों सदा धोवती हैं ।
'हरिचन्द जू' प्रेम के फंद परी ,
कुल की कुल बाजहि खोवती हैं ॥

दुख के दिन कों कोउ भाँति बितै ,
विरहागम रैन संजोवती हैं ।
हमहीं अपुनी दशा जानै सखी ,
निसि सोवती हैं किधौं रोवती हैं ॥

विरहिणी अपनी दशा का सखी से वर्णन कर रही है। कितनी सादगी से वह अपना दुख कह गई है और इसका सहृद्यों पर कितना असर पड़ता है, यह सहृदय ही समझ सकते हैं। ठीक ही कहती है कि 'हम ही अपनी दशा जानै सखी।' विप्रलभ शृंगार का यह अतिसुंदर उदाहरण है।

वीर रस का स्थायी भाव उत्साह भी अमूल्य वस्तु है। इसके मुख्यतः चार भेद कहे गए हैं—युद्ध, धर्म, दान तथा दया। कर्मवीर, सत्यवीर आदि भी कुछ भेद माने जाते हैं। इस रस के आलंबन नायक और प्रतिनायक होते हैं। प्रतिनायक या दानपात्र आदि की चेष्टाएँ उद्दीपन विभाव हैं। युद्ध-दान-सत्य व्रतपालन आदि के सहायक कार्य अनुभाव हैं। वीर रस के कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं।

१—सावधान सब लोग रहहु सब भाँति सदा हीं ।

जागत ही सब रहैं रैन हूँ सोअहिं नहीं ॥

कसे रहैं कटि रात-दिवस सब वीर हमारे ।

अस्वपीठ सेां होहिं चारजामें जिनि न्यारे ॥

तोड़ा सुलगत चढ़े रहैं घोषा बंदूकन ।

रहैं खुली ही म्यान प्रतंचे नहिं उतरें छन ॥

देखि लेहिंगे कैसे पामर यवन बहादुर ।

आवहिं तो चढ़ि सनमुख कायर कूर सबै जुर ॥

दैहैं रन को स्वाद तुरन्तहिं तिनहिं चखाई ।

जो पै इक छनहु सनमुख है करहिं लराई ॥

इन पंक्तियों के एक-एक शब्द से उत्साह छलका पड़ता है, जो स्थायी भाव है। राजा नायक तथा यवन आक्रमणकारी प्रतिनायक है। युद्ध में शत्रु को परास्त करने की चेष्टा उद्दीपन है। शत्रु लिये हुए सैनिकों को युद्धार्थ तैयार

रखना अनुभाव हैं। गर्व, धैर्य आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार युद्ध वीर रस का पूर्णरूपेण परिपाक इन पदों में हुआ है। वीर रस की कविता में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर और दो दो तीन तीन अक्षरों को एक में कूटकर एक कर डालना तथा टवर्ग का खूब उपयोग करना प्रधान लक्षण माना गया था पर भारतेन्दु जी ने यह सब खड्ड बड्ड अकार्य न कर भी उद्धृत पदों को वीर रस से परिप्लुत कर डाला है। इन्हें सुनकर केवल कानों ही तक कटु-उत्साह नहीं रह जाता वरन् हृदय तक पहुँच कर श्रोताओं को उत्साह से भर देता है।

२ तनहि बेचि दासी कहवाई । मरत स्वामि आयसु विन पाई ।

करु न अधर्म सोचु मनमाहीं । 'पराधीन सपने सुख नाही ॥'

धर्म वीर, दान वीर तथा सत्यवीर महाराज हरिश्चन्द्र पुत्रशोक पीड़िता महारानी शैव्या को आत्महत्या करने पर उद्यत देखकर कहते हैं कि 'जिस शरीर को बेचकर दासी हुई' उसको स्वामी की आज्ञा बिना लिए किस प्रकार नष्ट कर सकती हो। मनमें इस प्रकार विचार कर अधर्म न करो क्योंकि परतंत्र को स्वप्न में भी सुख नहीं है।' वह असह्य कष्ट पाती हुई उनसे छुटकारा पाने के लिये अपनी मृत्यु भी नहीं बुला सकती। धर्म की कैसी मर्म-स्पर्शी व्यंजना है। हृदय भर जाता है, धर्म वीरत्व के सभी लक्षण होने से इस पद में वीर रसत्व प्रचुरता से आ गया है।

३— जेहि पाली इक्ष्वाकु सों अब लौं रवि कुल-राज ।

ताहि देत हरिचंद नृप विश्वामित्रहि आज ॥

समग्र राज्य को बिना किसी प्रकार के प्रतिफल की इच्छा से राजा हरिश्चन्द्र विश्वामित्र को दान कर देते हैं। राज्य दान में उत्साह स्थायी भाव है। दानपात्र विश्वामित्र आलंबन और दान देने की चेष्टा उद्दीपन है। सर्वस्व दान देने से अनुभावित होकर तथा मति आदि संचारियों से परिपोषित होकर यह दोहा दानवीर रसत्व को प्राप्त हुआ। इस दोहे में यह शका उठाई जा सकती है कि दान देने में राजा हरिश्चन्द्र को कुछ कष्ट ज्ञात हो रहा है पर नहीं आगे का दोहा इसे स्पष्ट कर देता है—

बसुधे ! तुम बहु सुख कियो मम पुरुषन की होय ।

धरम बद्ध हरिचंद को छमहु सु परबस जोय ॥

अर्थात् धर्मबद्ध होने ही के कारण राजा हरिश्चन्द्र उस पृथ्वी को जिसका पालन उनके कितने पूर्वजों ने किया था और जो उस समय उनकी संरक्षा में थी, दूसरे को सौंप रहे थे और उसे इस कारण किसी प्रकार का यदि दुःख पहुँचे तो वह उन्हें क्षमा करे। पृथ्वी के प्रति उनकी समवेदना ही ने यह कहलाया था। वे सोच रहे थे कि इतने बड़े राज्य का उत्तरदायित्व, जिसके लिये वे निरंतर दत्तचित्त रहते थे, ऐसे अकारण क्रोधी ब्राह्मण को सौंप रहे थे, जो न जाने किस समय इस पर गजब ढहा दे। सब कुछ समझने पर भी दान की हुई वस्तु को दान-पात्र को देकर वे सच्चे दानवीर हुए थे।

हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जिस विकृत आकार, वाणी, वेष तथा चेष्टा को देखकर लोग हँसैं वही आलंबन और उसकी चेष्टा आदि उद्दीपन विभाव हैं। आँखों का खिल उठना, मुस्कराना, हँसना आदि अनुभाव हैं और निद्रा, आलस्य आदि संचारी भाव होते हैं। हास्य के छ भेद स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित तथा अविहसित हँसने के छ भेदों के अनुसार होते हैं। दो एक उदाहरण लीजिए—

१— जोर किया जोर किया जोर किया रे ।

आज तो मैंने नशा जोर किया रे ।

साँझहि से हम पीने बैठे पीते पीते भोर किया रे ।

२— गेंदा फूले जैसे पकौरी । लड्डू से फले फल बौरि बौरि ॥

खेतन में फूले भात दाज । घर में हम फूले कुल के पाल ॥

आयो आयो बसंत आयो आयो बसंत ।

उपर्युक्त दोनों ही गाने विकृत आकार, वाणी तथा चेष्टा वालों द्वारा पागलपन में हँसने को सी चेष्टा करते हुए गाया जा रहा है। इन्हे सुनने से कोरी हँसी आती है और इनमें हास्य रस है।

करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जिस इष्ट के नाश के कारण शोक हो रहा है, वही आलंबन है। उसके शव को देखना, उसका संस्कार

करना आदि उद्दीपन विभाव हैं। अपने कर्म को कोसना, रोना, प्रलाप आदि अनुभाव हैं। निर्वेद, मोह, ग्लानि, स्मृति, उन्माद आदि व्यभिचारी हैं। सत्य हरिश्चन्द्र नाटक में करुण रस विशेष रूप से आया है, उसी से एक छोटा सा अवतरण दिया जाता है—

जाकी आयसु जग नृपति सुनतहि धारत सीस ।

तेहि द्विज वदु आज्ञा करत अहह कठिन अति ईस ॥

‘जिसकी आज्ञा संसार के राजे सुनते ही सहर्ष शिर पर धारण करते थे उस पर आज साधारण विद्यार्थी वालक हुक्म चलाता है। हे दैव ! आप अत्यंत कठोर हैं।’ यहाँ राजा हरिश्चन्द्र स्वपत्नी के कष्टों का अनुभव करके दैव की निंदा कर रहे हैं। दुःखी महारानी शैव्या आलंबन, उनके कष्ट उद्दीपन तथा कर्म को कोसना अनुभाव हैं। स्मृति, ग्लानि आदि इसके व्यभिचारी हैं। राजा हरिश्चन्द्र को पुनः रानी से मिलने तथा उनके कष्टों को दूर कर पुनः महारानी बनाने की रत्ती भर आशा नहीं है, इसलिए यहाँ करुण रस ही है। यदि कुछ भी मिलने की आशा होती तो यहाँ करुण रस न होकर करुण विप्रलंभ शृंगार हो जाता है।

रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। शत्रु आलंबन तथा मुक्का चलाना मार काट करना, युद्ध के लिये घबड़ाना आदि चेष्टाएँ उद्दीपन हैं। क्रोध से आँठ चवाना, आँखे लाल करना, उग्रता आदि अनुभाव हैं। आक्षेप, व्यंग्य, घूरना, अमर्ष, मोह आदि संचारी हैं। एक उदाहरण लीजिए—

तोरि गदा सों हृदय दुष्ट दुस्सासन केरो ।

तासों ताजो सब रुधिर करि पान घनेरो ॥

ताही कर सों कृष्णा की बेनी बँधवाई ।

मीमसेन ही सो वदलो लैहै चुकवाई ॥

इसमें दुश्शासन आलंबन है और उसे मार कर उसका रक्तपान तथा उस रक्त से द्रौपदी के बेणी बँधवाने के लिए घबड़ाहट उद्दीपन है। क्रोध से हाथ पैर चलाते हुए कहना अनुभाव है और इधर उधर घूरना, अमर्ष आदि संचारी भाव हैं।

भयानक रस का स्थायी भाव भय है। भय का कारण आलंबन, भयोत्पादक चेष्टाएँ उद्दीपन और विवर्णता, मूर्छा, कंप आदि अनुभाव होते हैं। त्रास, आवेग, शंका आदि व्यभिचारी भाव हैं। देखिए—

रुश्रा चहुँदिसि ररत डरत सुनि के नर-नारी ।

फटफटाइ दोउ पंख उलूकहु ररत पुकारी ॥

अंधकार बस गिरत काक अरु चील करत रव ।

गिद्ध-गरुड़-हृदगिल्ल भजत लखि निकट भयद रव ॥

रोअत सियार, गरजत नदी, स्वान भूँकि डरपावई ।

संग दादुर म्हीगुर रुदन-धुनि, मिलि स्वर तुमुल मचावई ॥

इस अवतरण में भयोत्पादक वस्तु अनेक हैं और रचना, फटफटाना आदि कई उद्दीप्ति-कारक कार्य हो रहे हैं। हृदय में कंप उठना विवर्ण होना अनुभाव हैं। इन सब के होने से भयानक रस पूर्ण रूप से इस पद में व्याप्त है।

वीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, घृणोत्पादक वस्तु आलंबन, घृणित वस्तु के अत्यधिक घृणित होने वाले कार्य उद्दीपन, घृणा से मुख फेर कर थूकना आदि अनुभाव और आवेग, मोह आदि संचारी हैं। एक उदाहरण दिया जाता है।

सिर पै बैछ्यो काग आँख दोउ खात निकारत ।

खींचत जीभहि स्यार अतिहि आनंद उर धारत ॥

गिद्ध जाँघ कहँ खोदि खोदि कै, माँस उचारत ।

स्वान आँगुरिन काटि काटि के, खान विचारत ॥

कहुँ चील नोचि लै जात तुच मोह बढ़यो सबको हियो ।

मनु ब्रह्म भोज निजमान कोउ आजु भिखारिन कहँ दियो ।

आलंबन शव को देखकर स्थायीभाव जुगुप्सा उद्बुद्ध हो उठती है। शरीर की दुर्दशा देखकर उसकी उद्दीप्ति होती है। मुख फेर लेना अर्थात् विचारो को उस ओर से हटाकर दूसरी ओर ले जाना अनुभाव है। मोह संचारी है।

अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, आलंबन आश्चर्यजनक वस्तु है, और उद्दीपन अलौकिकता का वर्णन है, अनुभाव स्तंभ, स्वेद, रोमांच आदि हैं और भ्रांति, हर्ष आदि संचारी हैं। उदाहरण लीजिए—

चलै मेरु वरु प्रलय जल पवन ऋकोरन पाय ।

पै वीरन के मन कवहुँ चलहि नही ललचाय ॥

सत्य हरिश्चन्द्र में जब कापालिक रूप में धर्म ने राजा हरिश्चन्द्र को रसेन्द्र देना चाहा था तब उनके इस कथन पर कि 'जब मैं दूसरे का दास हो चुका तो इस अवस्था में मुझे जो कुछ मिले सब स्वामी का है। क्योंकि मैं तो देह के साथ ही अपना स्वत्व मात्र बेच चुका।' वह अत्यंत-आश्चर्यान्वित होकर कहता है कि 'चाहे मेरु पर्वत प्रलय के आँधी पानी के भटके पाकर चलने लगे तो चले पर सत्य वीरों का मन कभी चलायमान नहीं होता।' यहाँ धर्म का विस्मय स्थायी भाव है। हरिश्चन्द्र का रसेन्द्र न लेना आलंबन है। न लेने का कारण परदासता बतलाना उद्दीपन है। धर्म का इस प्रकार राजा हरिश्चन्द्र की महिमा का वर्णन करना अनुभाव है।

शांत रस का स्थायी भाव शम है। संसार की असारता तथा परमेश्वर का स्वरूप आलंबन और तीर्थ यात्रा, सत्संग, मंदिर आदि उद्दीपन है। रोमांच आदि अनुभाव और निर्वेद, हर्ष, स्मृति आदि व्यभिचारी भाव हैं। उदाहरण—

ब्रज के लता पता मोहिं कीजै ।

गोपी-पद-पंकज पावन की रज जाँसै सिर भीजै ॥

आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजै ।

श्री राधे राधे सुख, यह वर सुँह माँग्यो हरि दीजै ।

यह पद श्रीनारद जी ने श्रीशुकदेव जी के ब्रजभूमि के विषय में पूछने पर गाया था। सांसारिक भ्रमों से मन हटकर श्रीकृष्ण भगवान तथा श्री राधिका जी के प्रति लगे, इसलिए ब्रज का लता पता होने की इच्छा ही शम स्थायी भाव है। इसका आलंबन युगल-मूर्ति श्रीराधाकृष्ण है। तीर्थयात्रा (ब्रजयात्रा) और श्रीशुकदेव जी का सत्संग उद्दीपन है। स्मृति, हर्ष, निर्वेद

संचारी भाव हैं और रोमांच, नेत्र मे आँसू तथा प्रेमावस्था अनुभाव हैं, जिनसे इस रस का परिपाक पूर्णरूपेण होना स्पष्ट है ।

इन नव रसों के सिवा, जैसा लिखा जा चुका है, भारतेन्दु जी ने वात्सल्य, सख्य, भक्ति या दास्य, आनंद या प्रमोद और प्रेम या माधुर्य पाँच नव्य रसों की कल्पना की है । “योही शृंगार रस में भी ये अनेक सूक्ष्म भेद मानते थे, जैसे ईर्ष्या-मान के दो भेद, विरह के तीन, शृंगार के पचधा, नायिका के पाँच और गर्विता के आठ ; यों ही कितने ही सूक्ष्म विचार हैं जिनको तर्करत्न महाशय ने सोदाहरण इनके नाम से अपने उक्त ग्रंथ मे मानकर उद्धृत किए हैं । इनके इन नए नए मतों पर उस समय पंडित मंडली मे बहुत कुछ लिखा पढ़ी हुई थी, इसका आंदोलन कुछ दिनों तक सुप्रसिद्ध ‘पंडित’ पत्र में (जो काशी विद्या-सुधानिधि’ के नाम से संस्कृत कॉलेज से निकलता है) चला था । खेद का विषय है कि इस विषय का पूरा निराकरण वह अपने किसी ग्रंथ मे न कर सके ।”

अलंकार

विभावो को पाकर भावो का जो स्वाभाविक उद्रेक होता है, उसका प्रत्यक्षीकरण अनुभावों द्वारा होता है । इस प्रकार से रस पुष्ट काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं, जिन्हे अस्थिर भी कहा गया है । जिस प्रकार मनुष्य के गुण स्थिर होते हैं, पर उसका अलंकरण-गहने-अस्थिर होते हैं उसी प्रकार काव्य के भी गुण तथा अलंकार होते हैं । अलंकार के दो भेद होते हैं । काव्य का शब्द तथा अर्थ दोनों शरीर हैं इसीलिए शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दो भेद हो गए । शब्दों मे चमत्कार उत्पन्न करने वाले अनुप्रास यमकादि अलंकार तभी तक सुन्दर ज्ञात होते हैं जब तक वे बिना प्रयास के आपसे आप सहज ही आ जाते हैं पर जब जबर-दस्ती अकारण ऐसे अलंकारों की भरती की जाती है तब वे भूषण नहीं रह जाते । अर्थालंकार काव्य के भावों की अनुभूति को तीव्र करने या वर्णित वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया आदि का उत्कर्ष दिखलाने मे सहायक होते हैं ।

यदि वे ऐसा न कर सके तो वे अलंकार न होकर भारमात्र हो जाते हैं। अलंकार अलंकार ही है, वह कोई विलक्षण अज्ञेय आश्चर्यजनक तिलस्मी वस्तु नहीं है, इसलिए उसका चमत्कार या उसकी रमणीयता काव्यांगों की शोभा ही बढ़ाना है और अन्य कुछ नहीं है।

महाराज हरिश्चन्द्र स्त्री पुत्र के विरह में दुखी ही थे, राजोचित सभी आराम से वंचित थे तथा उसपर छाया रहित स्मशानघाट पर वर्षा भी जोरशोर से होने लगी। दुःखी हृदय में इस पावस का असर स्वभावतः कष्ट को अधिक करना ही मात्र था। पावस की सारी शोभा उन्हें स्मशानवत् दृष्टिगोचर हुई। उन्होंने पावस की शोभा का जो वर्णन किया है वह उनके हृदयस्थ भाव का पूर्ण द्योतक है। विद्युन्माला की चमक चिता की लपटे, खद्योतगण, चिनगारी, वगुलो की माला, ऊपरी श्वेत लपट, काले बादल, काली भूमि, बीर बहूटी, रक्तविटु, जल धार, अश्रुधारा और दादुर की रट, दुःखी संबंधियों का रुदन ज्ञात होता है। अर्थात् वियोगियों के कष्ट को बढ़ाने के लिए यह पापी पावस स्मशान सा बनकर आया है। उत्प्रेक्षा युक्त सांग रूपक कितना सुन्दर बना है, जिससे भाव की अनुभूति तीव्र होती है और वर्णित विषय का भी उत्कर्ष बोध होता है। कवित्त इस प्रकार है—

चपला की चमक चहुँधा सों लगाई चिता,
 चिनगी चिलक पटबीजना चलायो है।
 हेती वगमाल स्याम बादर सु भूमि कारी,
 बीरवधू लहू वृंद भुव लपटायो है ॥
 'हरीचन्द्र' नीर-धार आँसू सी परत जहाँ,
 दादुर को सोर रोर दुखिन मचायो है।
 दाहन वियोग दुखियान को मरे हूँ यह,
 देखो पापी पावस मसान बनि आयो है ॥

एक और रूपक लीजिए। विरहिणी श्री चंद्रावली जी से उनकी सखियाँ हिंडोला पर भूलने के लिये आग्रह कर रही हैं। दुखी हृदय को यह सब खेल कहाँ सुहाता है, वह कहती है कि 'मेरा जी हिंडोला पर और

उदास होगा'। उसके तो नेत्र आप ही आप हिंडोले झूलते रहते हैं। पूरे हिंडोले का रूपक खड़ा कर दिया गया है। वर्षा भी मौजूद है तथा मलार का भी आलाप हो रहा है।

पल पटुली पै ढोर प्रेम की लगाय चारु
 आसा ही के खंभ दोय गाड़ कै धरत हैं।
 झुमका ललित काम पूरन उछाह भर्यो,
 लोक बदनामी भूमि भालर करत हैं ॥
 'हरीचन्द' आँसू दग नीर बरसाह प्यारे,
 पिया गुन-गान सो मलार उचरत हैं।
 मिलन मनोरथ के मोटन बढ़ाई सदा,
 बिरह हिंडोरे नैन झूल्योई करत हैं ॥

किसी दानवीर सज्जन की दुर्दशा का वृत्त सुनिए। यथाशक्ति दान करते हुए वह कितने प्रकार के कष्ट सहता है और उससे लाभ उठाने वाले उसका क्या प्रतिकार देते हैं। इसे वृत्त पर घटा कर कवि इस प्रकार कहता है—

क्यों उपज्यौ नरलोक ? ग्राम के निकट भयो क्यों ?
 सघन पात सों सातल छाया दान दयो क्यों ?
 मीठे फल क्यों फल्यो ? फल्यौ तो नम्र भयो कित ।
 नम्र भयो तो सहु सिर पै बहु बिपति लोक कृत ॥
 तोरि मरोरि उपारिहैं पाथर हनिहैं सबहि नित ।
 जे सज्जन है नै कै चलहिं तिनकी यह दुर्गति उचित ॥

इसके उत्तर में घन की अन्योक्ति की जाती है कि सब कुछ दे देने पर भी मेघ की बड़ाई है। दानी प्रतिफल नहीं चाहता, उसे दान देने ही में सुख मिलता है। कवि कहता है—

चावक को दुख दूर कियो पुनि दीनो सबै जग जीवन भारी ।
 पूरे नदी-नद-ताल-तलैया किणु सब भाँति किसान सुखारी ॥

सूखे हू रूखन कीने हरे जग पूज्यो महामुद वै निज बारी ।

हे घन आसिन लौं इतनी करि रीते भए हूँ बढ़ाई तिहारी ॥

वृक्ष और मेघ पर अन्योक्तियाँ कहकर दानी ही की प्रशंसा की गई है और इनमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भावों की व्यंजना का पूर्णोत्कर्ष करता है ।

भ्रमर आम की बौर देखकर लोभ के मारे उसी पर बौराया हुआ मँडरा रहा है । यहाँ भ्रमर के बहाने प्रिय में प्रिया-प्रति प्रीति पैदा होने का कथन किया गया है, इसलिए समासोक्ति है । पद है—

भौरा रे बौरान्यो लखि बौर ।

लुबध्यौ उतहि फिरत मँडरान्यौ जात कहुँ नहिँ और ॥

तपस्वी सत्यवान को बन में देखकर उसके सौंदर्य पर सभी मोहित हो जाती हैं और कहती हैं कि—

लखो सखि भूतल घन्द खस्यो ।

राहु-केतु-भय छोड़ि रोहिनिहि या बन आइ बस्यो ॥

कै सिव-जय-हित करत तपस्या मनसिन इतनिबस्यो ।

कै कोऊ बनदेव कुंज में बन बिहार बिलस्यो ॥

इसमें संदेहालंकार द्वारा सत्यवान के सौंदर्य का, उसके रूप का अतीव अनुरंजक वर्णन किया गया है । रूप का अनुभव तीव्र करने में यह अलंकार हर पहलू से सहायक हो रहा है ।

ऊधो जी ज्ञान छाँट रहे हैं पर ब्रजबालाओं पर उसका कुछ भी असर नहीं हो रहा है । श्याम की खरी प्रीति के आगे इनकी शिक्षा कौन मानता है । सारी मंडली ही बिगड़ गई है । एक हो तो उसे कोई सिखलाए यहाँ तो सब के सब मदमस्त हैं । एक नहीं दो लोकोक्तियाँ साधारण कथन को अलंकृत कर रही हैं । सुनिए—

ऊधो नू सूधो गहो वह मारग ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है ।

कोऊ नहीं सिख मानिहैं ह्याँ इक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है ॥

ये वृजबाबा सबै इक सी 'हरिचन्द नू' मण्डली ही बिगरी है।

एक जौ होय तो ज्ञान सिखाइए कूपही में यहाँ भाँग परी है ॥

जब कुछ विशेष अभिप्राय लिए हुए विशेषण का प्रयोग किया जाता है तब उसे परिकर अलंकार कहते हैं। 'सुजान' अर्थात् अच्छे जानकार, खूब जानने वाले कहलाकर भी दूसरों के मन की पीड़ा नहीं जानते। यहाँ सुजान शब्द साभिप्राय है और कुल पद को चमत्कृत करता है।

लै मन फेरिबो जानौ नहीं बलि नेह निबाह कियो नहिं आवत ।

हेरि कै फेरि मुखै 'हरिचन्द नू' देखन हूँ को हमैं तरसावत ॥

प्रीत पयोहन कों घन साँवरे पानिप रूप कबौं न पिआवत ।

जानौ न नेक बिथा पर की बलिहारी तरु हौ सुजान कहावत ॥

प्रेम

जेहि लहि फिर कछु लहन की आस न चित में होय ।

जयति जगत पावन करन प्रेम, वरन यह दोय ॥

प्रेम एक मनोवृत्ति या भाव है, जो जीव मात्र में स्थायी रूप से रहता है। यह वह विकार है, जो किसी अन्य जीव, वस्तु आदि के देखने से या उसके गुण श्रवण करने से या इसी प्रकार के किसी दूसरे साधन से हमारे हृदय में उद्बुद्ध होता है और हम उससे विलग रहना नहीं चाहते। जिस वस्तु पर हमारा प्रेम हो जाता है उस वस्तु को हम सदा अपने पास रखना चाहते हैं या उसके पास रहना चाहते हैं। यदि ऐसा हम कर सकते हैं तो हम संतुष्ट रहते हैं और यदि नहीं कर सकते हैं तो हमे अतीव कष्ट होता है। इस प्रेम के अनेक प्रकार के भेद हो सकते हैं। प्रेम एकांगी तथा पारस्परिक दोनों होता है। यदि हमारे प्रेम-पात्र का भी हमपर प्रेम है तो वह पारस्परिक है, नहीं तो वह एकांगी ही रह जायगा। प्रेम उत्तम, मध्यम तथा अधम भी होता है। एक रस रहने वाला निस्वार्थ प्रेम, जो भक्ति में बदल जाता है, पहिला है। मित्रता आदि अकारण प्रेम दूसरा है। स्वार्थमय प्रेम अतिम है पर इसे वास्तव में ऐसा पवित्र नाम न देना ही उचित होगा। इन सब भेदों के सिवा

भी यह कहना उचित होगा कि प्रेम अत्यंत व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत दाम्पत्यप्रेम, देशप्रेम, ईश्वरोन्मुखप्रेम, वात्सल्य स्नेह आदि सभी आ सकते हैं ।

‘परम प्रेमनिधि रसिकवर’ भारतेन्दु जी उसी को सच्चा आदर्शप्रेम मानते हैं जो एकांगी, अकारण, निस्वार्थ, सदा समान रूप से रहने वाला और पति ही को सर्वस्व मानने वाला हो । सुनिए—

एकांगी बिनु कारने इक रस सदा समान ।

प्रियहिं गनै सरवस्व जो सोई प्रेम प्रमान ॥

प्रेम का महत्व भी कवि इस प्रकार प्रगट करता है कि—

बँध्यौ सकल जगप्रेम में, भयो सकल करि प्रेम ।

चलत सकल लहि प्रेम कों, बिना प्रेम नहिं छेम ॥

भारतेन्दु जी ने अपनी कविता में जिस प्रेम का अधिक वर्णन किया है वह दाम्पत्य प्रेम के अंतर्गत होते हुए भी ईश्वरोन्मुखी है । कुछ कविता कोरी सांसारिक प्रेम की भी है । इनके मौलिक नाटकों में शुद्ध शृंगारिक एक भी नहीं है, जिससे इनके दाम्पत्य प्रेम की पद्धति का कुछ पता लगता । स्फुट कविताएँ प्रेम विषयक बहुत हैं पर इनमें विषय-वासनादि से लिप्त साधारण पद बहुत कम हैं ।

रसरज शृंगार का स्थायी भाव प्रेम है और इसी प्रेम के कारण ही शृंगार रसरज कहलाया है । यह प्रेम सत्य, स्थायी, अत्यंत व्यापक तथा आकर्षक है । यही प्रेम दो हृदयों को एक कर देता है, इसी प्रेम के कारण ससार की सभी वस्तुओं का आदर होता है, और अंत में इसी प्रेम के सहारे जीव ईश्वर में लीन हो जाते हैं । शृंगार रस के देवता श्री कृष्ण इस प्रेम के आधार हैं और इनके प्रति गोपियो तथा विशेषकर श्री राधिका जी का जो प्रेम है उसको लेकर जो कविता शुद्ध हृदय से भक्त कवियों द्वारा की गई है, वह अत्यंत पावन है या यों कहा जाय कि पतित पावन है । श्रीकृष्ण जी में शक्ति तथा शील के साथ सौंदर्य, प्रेम, ज्ञान आदि का भी पूर्ण विकास हुआ था । इनमें माधुर्य की अधिकता थी और यह वृन्दावन गोकुल

आदि में प्रजा के साथ साथ, घर घर और वन वन सुख तथा दुख में रहकर सबसे ऐसे मिल गए थे कि यह वहाँ सर्व प्रिय हो उठे थे। यही कारण था कि इनके मथुरा चले आने पर स्त्री, बालक, पुरुष का क्या कहना, गायें, पशु-पक्षी तक इनके लिये दुःखित हुए थे। मथुरा में कंस को मारने पर स्वयं राज्य न लेकर मंत्री तथा सदाँर ही बने रहे। महाभारत से विध्वंसकारी महायुद्ध में पांडवों को पार लगाने वाले होकर भी सारथी बने रहे। इसी युद्ध में ज्ञान, दया तथा शक्ति का अति उज्ज्वल प्रभाव दिखलाया है। ऐसे ही नायक पर पूर्ण भक्ति रख कर की गई कविता का हिन्दी साहित्य में विशेष स्थान है।

एक हृदय दूसरे को देखकर प्रेम विद्ध हो गया है और वह सहृदया अपनी दशा अपने एक सखी से कह रही है। यद्यपि वह 'उनके मन की गति' नहीं जानती, वह उसे प्यार करते हैं या नहीं, यह ज्ञात नहीं है तब भी वह निस्वार्थ रूप से उनपर प्रेम रखती है। एकांगी ही प्रेम हो या न हो पर वह प्रेम करने वाली उसका कुछ न ध्यान कर तन मन सर्वस्व उन पर निछावर कर रही है। उसके प्रत्येक अंग इस प्रेम से सावित हो रहे हैं, वह 'प्रेम-रस मग्न' हो रही है। वह कहती है—

सखी हम कहा करै कित जायँ ।

बिनु देखे वह मोहिनि मूरति नैना नाहि अघायँ ॥

कछु न सुहात धाम धन गृह सुख मात पिता परिवार ।

बसति एक हिय मैं उनको छवि नैनन वही निहार ॥२॥

बैठत उठत सयन सोवत निखि चलत फिरत सब ठौर ।

नैनन तें वह रूप रसीलो टरत न इक पल और ॥३॥

हमरे तो तन मन धन प्यारे मन बच क्रम चित्त माँहिं ।

पै उनके मन की गति, सजनी, जानि परत कछु नाहिं ॥४॥

सुमिरन वही, ध्यान उनको ही, मुख मैं उनको नाम ।

दूजी और नाहिं गति मेरी, बिनु पिय और न काम ॥५॥

वैना दरसन विनु नित तलफैं, वैन सुनन कों कान ।
वात करन कों मुख तलफैं, गर मिलिबे को ये प्रान ॥६॥

ईश्वरोन्मुख प्रेम

‘जो परम प्रेम अमृतमय एकांत भक्ति है, जिसके उदय होते ही अनेक प्रकार के आग्रह स्वरूप ज्ञान-विज्ञानादिक अंधकार नाश हो जाते हैं और जिसके चित्त में आते ही ससार का निगड़ आप से आप खुल जाता है, वह किसी को नहीं मिली ।’ ‘इस मदिरा को शिवजी ने पान किया है और कोई क्या पियेगा ? जिसके प्रभाव से अर्द्धांग में बैठी पार्वती भी उनको विकार नहीं कर सकतीं, धन्य हैं, धन्य हैं, और दूसरा कौन ऐसा है । नहीं, नहीं ब्रज की गोपियो ने इन्हे भी जीत लिया है । अहा, इनका कैसा विलक्षण प्रेम है कि अकथनीय और अकरणीय है क्योंकि जहाँ माहात्म्य-ज्ञान होता है, वहाँ प्रेम नहीं होता और जहाँ पूर्ण प्रीति होती है वहाँ माहात्म्य-ज्ञान नहीं होता ।’ भक्ति में माहात्म्य ज्ञान तथा प्रेम दोनों ही होने चाहिए ।

भक्ति तत्व की विवेचना करने के पहिले भक्ति के विकास पर कुछ विचार करना जरूरी है । मानव जाति आदिम काल में बड़े बड़े नगर बसा कर नहीं रहती थी प्रत्युत् कुछ परिवार एक स्थान पर बस जाते थे और कृषि तथा पशु पालन कर जीवन निर्वाह करते थे । खेती, पशु तथा मनुष्य संबंधी अनेक प्रकार के कष्ट भी इन्हे भेलने पड़ते थे । ये सभी कष्ट अपनी ही कृति के परिणाम न थे, इसलिये वे किसी परोक्ष शक्ति द्वारा प्रेरित माने जाने लगे और उस शक्ति के प्रति इनमें भय की उत्पत्ति हुई । तब ऐसी शक्ति की अपनी अपनी परिस्थिति के अनुकूल भावनाएँ की गईं और उन्हें तुष्ट रखने के लिये बलिदान आदि देकर वे उन्हें पूजने लगे । प्रेतपूजा, नागपूजा आदि उसी आदिम काल की उपासना के द्योतक हैं । इसके अनंतर केवल दुःख ही दूर करना ध्येय नहीं रह गया वरन् अधिक सुख पाने की इच्छा मनुष्यों में उत्पन्न हुई । वर्षा से कृषि को लाभ पहुँचता है, इसलिये उसके देवता इन्द्र की भावना की गई । जल देवता वरुण, धन देवता कुबेर, स्वयं प्रकाशमान

प्रत्यक्ष देव सूर्य आदि की उपासना इस लाभ के लोभ से की जाने लगी कि वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सब प्रकार से फायदा पहुँचावे। इस तरह देखा जाता है कि दो प्रकार के देवताओं की भावना की गई, जिनमें कुछ आनष्ट कारक और कुछ इष्ट लाभदायक थे। यह भावना बहुत दिनों तक या यों कहिए कि अब तक बनी हुई है।

मानव जाति में यह धारणा बहुत दिनों तक बनी रही थी कि देवगण पूजा पाने से प्रसन्न और न पाने से अप्रसन्न होते हैं तथा वे अपने पूजकों के सुकर्मों और कुकर्मों पर विचार नहीं करते थे। साथ ही इस प्रकार देवताओं की सख्या में वृद्धि होते होते यह भी भावना उठने लगी थी कि इन सबसे भी बड़ा, या इन सब का मुखिया, कोई अव्यक्त अचित्यादि गुणों से विभूषित कोई परब्रह्म परमेश्वर भी होगा जिससे ये देवगण अपनी अपनी शक्ति पाते होंगे। यह निर्गुण भावना ज्ञान मार्ग की थी जिसकी उपासना करना साधारण जनसमुदाय की शक्ति के बाहर था। वे देखते थे कि मनुष्य की उत्पत्ति होती है, उसका पालन होता है और अंत में उसका नाश होता है। उस निर्गुण परब्रह्म को इन तीनों कार्य-शक्तियों से युक्त समझकर उसके तीन सगुण रूपों की भावना की गई और उसका ध्यान स्रष्टा रूप में ब्रह्मा, पालक रूप में विष्णु तथा संहारक रूप में शिव नामकरण करके किया जाने लगा। उसी आदिम काल की भावना की प्रबलता ने भय के कारण शिव की तथा लाभार्थे विष्णु के उपासना की और जनसमुदाय को विशेष आकृष्ट किया था।

समय के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था उन्नत होती जा रही थी, ग्राम नगर बस रहे थे और विचारों के आदान प्रदान बढ़ रहे थे। समाज में एक ओर दुष्ट आततायियों की नृशसता, अत्याचार आदि दृष्टिगोचर हो रहे थे तो दूसरी ओर ऐसे क्रूरों का नाश कर लोक रक्षा करने वाले आदर्श वीर भी अवतरित होते पाए जाते थे। ऐसे आदर्श वीरों में दया, उदारता, शील, शक्ति आदि लोक-रक्षक उदात्त वृत्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति पाकर जनता उनपर ऐसी मुग्ध हुई कि उसने उन्हें परब्रह्म के लोक-पालक सगुण रूप विष्णु का

अंश मान लिया । लोक-पालक विष्णु ही इष्टदेव हुए, जिनमें मानव-मंगल को समग्र आशाएँ केद्रीभूत हो उठीं । ये ही बार बार लोक रक्षा के लिये असाध्य नृशंस राक्षसों का संहार करने को इस पृथ्वी पर आते दिखलाई पड़ने लगे और इनके ऐसे ही अनेक अवतारों में श्री रामचन्द्र और श्री कृष्णचन्द्र ही वैष्णवों के विशेष प्रिय उपास्य देव हुए । इसका कारण यही है कि इन दोनों महान् आत्माओं ने मानव समाज में मिलकर उसी को अपने स्थिति-विधायक धर्म, शील तथा अन्य गुणों से एकदम मुग्ध कर लिया था । इनके प्रति मनुष्यों के हृदय में जो प्रेमभाव भर उठा था वह 'माहात्म्य ज्ञान' अर्थात् उपासना बुद्धि से मिलकर भक्ति में परिवर्तित हो उठी । यही कारण है कि भक्ति का पूर्ण विकास वैष्णवों ही में हुआ है ।

वैष्णव संप्रदाय के दो मुख्य विभाग हो गए, एक कृष्णोपासक तथा दूसरा रामोपासक । श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बंग देश में तथा श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने पश्चिमोत्तर प्रांत में कृष्ण भक्ति-भाव को प्रवाहित कर जनसाधारण के निराशामय खाली हृदयों को आशा तथा आनंद से परिपूर्ण कर दिया । अष्टछाप के सुकवियों तथा अन्य भक्त जनों की वीणाओं की स्वर लहरी भी उनके हृदयों को तरंगित करने लगी । इन महात्माओं ने बालमुकुन्दोपासना ही का विशेषतः प्रचार किया था पर ब्रजलीला के समग्र प्रेम की आधारभूता श्री राधिका जी की उपासना अवश्यम्भावी थी, इसी लिए आज तक कृष्णोपासकगण या तो बालगोपाल की या युगलमूर्ति की पूजा करते आए हैं ।

भाग्येन्दु जी तदीय नामांकित अनन्यवीर वैष्णव थे और इनके यहाँ युगलमूर्ति की सेवा होती आई थी । इन्होंने तदीय-सर्वस्व में श्री नारदीय सूत्र की व्याख्या करते हुए भक्ति का बहुत ही अच्छा प्रतिपादन किया है । इसके समर्पण में अपने इष्टदेव श्री कृष्ण के प्रति कह रहे हैं कि "जीवन का परम फल तुम्हारा अमृतमय प्रेम है यदि वही नहीं तो फिर यह क्यों ? क्या संसार में कोई ऐसा है जिससे प्रेम करै । जो फूल आज सुन्दर कोमल हैं और जो फल आज सुस्वादु हैं, पर कल न इनमें रंग है न रूप न स्वाद, सूखे गले

मारे मारे फिरते हैं भला उनसे अनुराग ही क्या ? प्रेम को तो हम चिरस्थायी किया चाहें यहाँ प्रेमपात्र ही स्थायी नहीं। तो चलो बस हो चुकी फिर इनसे प्रीति का फल ही क्या ? फल शब्द से आप कोई वांछा मत समझियेगा। प्रेम का यह सहज स्वभाव है कि वह प्रत्युत्तर चाहता है सो यहाँ दुर्लभ है। हमने माना कि ऐसे भी सत् लोग हैं जो प्रेम का प्रत्युत्तर दें, वह भी तो परिणाम दुःख स्वरूप ही है। 'संयोगास्त्वप्रयोगान्ताः' कहा ही है। तो जिसके परिणाम में दुःख है वह वस्तु किस काम की। फिर उस दुःख में जीवन की कैसी बुरी दशा होगी। तो ऐसे प्रेम ही से क्या और जीवन ही से क्या ? इसी से न कहा है 'जैसे उड़ि जहाज को पच्छी फिर जहाज पर आवै'। और जाय कहाँ। तो देखो संसार से वह कितना उदासीन है जिसको तुम्हारे प्रेम का लेश भी है। तो नाथ ! जो फिर उस उत्तम जीव को इसी संसार के पंक में फँसाओ तो कैसे बनें। हमने माना कि हमारी करनी वैसी नहीं। हाय ! भला यह किस मुँह से और कौन कह सकता है कि हम इसके योग्य हैं पर अपनी ओर देखो। नाथ ! अब नहीं सही जाती। कृत्रिम प्रेम-परायण और स्वार्थपर संसार से जी अब बहुत ही घबड़ाता है। सब तुम्हारे स्नेह के बाधक ही हैं, साधक कोई नहीं, और जो स्वार्थपर नहीं है वे बिचारे भी क्या है कि कुछ सन्तोष देगे, हाय ! क्या करै। हार करके स्नेह करके जैसे हो जैसे तुम्हारे ही शरण जाते हैं और वहाँ से भी दुरदुराए जाँय तो फिर क्या करें।”

इनका अनन्य प्रेम बहुत चढ़ा हुआ था। अपने 'गोपाल' की मूर्ति का कैसा सुंदर वर्णन किया है—

सकल की मूलमयी वेदन की भेदमयी,
 अंधन की तत्वमयी बादन के जाल की।
 मन बुद्धि सीमामयी सृष्टिहु की आदिमयी,
 देवन की पूजामयी जीवमयी काल की ॥
 ध्यानमयी ज्ञानमयी सोभामयी सुखमयी,
 गोपी-गोप-गाय-ब्रज-भागमयी भाव की।

भक्त-अनुरागमयी राधिका-सुहागमयी,

प्राणमयी प्रेममयी मूर्ति गोपाल की ॥

और फिर कहते हैं कि यदि संसार मे हमे कुछ करना है तो वह सब 'गोपाल' ही के निमित्त है । सुनिए—

भजौं तो गुपाल ही कों सेवौं तो गुपालै एक,

मेरो मन लाग्यो सब भाँति नन्दलाल सों ।

मेरे देव देवी गुरु माता पिता बन्धु 'इष्ट,

मित्र सखा हरि नातो एक गोप बाल सों ॥

'हरीचंद' और सों न मेरो सनबन्ध कछु,

आसरो सदैव एक लोचन विसाल सों ।

माँगौं तो गुपाल सों न माँगौं तो गुपाल ही सों,

रीझौं तो गुपाल पै औ खीझौं तो गुपाल सों ॥

सत्य ही इस अनित्य संसार के एक भी संबंध अत मे काम नहीं आते हैं और यह वड़ा ही क्रूर सत्य है । यह वह बात है कि प्रत्येक जीव उसे जानते हुए भी भयादि कारणों से उसे न जानने का स्वाँग करता रहता है ।

झारहिं पै लुटि जायगो वाग औ आतिसवाजी छिनै में जरैगी ।

हैंहैं बिदा टका लै ह्य हाथिहु खाय पकाय वरात फिरैगी ॥

दान दै मात पिता छुटहैं 'हरिचन्द' सखीहु न साथ करैगी ।

गाय बजाय जुदा सब हैंहैं अकेलो पिया के तू पाले परैगी ॥

इस अनन्यता से यह तात्पर्य नहीं है कि भारतेन्दु जी मे हठधर्मी थी । 'हस्तिना पीड्यमानोऽपि न गच्छेत् जैनमन्दिऱम्' के रहते भी वे ऐसे मंदिर मे गए थे और शोर गुल मचाने पर 'जैनकुतूहल' ही लिख डाला । 'सियाराम-मय' के भाव मे कहते हैं—

घात कोठ मूरख की यह मानो ।

हाथी मारै तौ हू नाहीं जिन मन्दिर में जानो ॥

लग में तेरे बिना और है दूजो कौन ठिकानो ।

जहाँ लखो तहाँ रूप तुम्हारो नैनन माहिं समानो ॥

एक प्रेम है, एकहि प्रन है हमरो एकहि बानो ।

‘हरीचंद’ तब जग में दूजो भाव कहाँ प्रगटानो ॥

इनका प्रेम सर्वतोमुखी था। धर्म की व्याख्याएँ करते हुए भी यह देश को नहीं भूले। ‘वैष्णवता और भारतवर्ष’ में वैष्णव धर्म की प्राचीनता स्थापित करते हुए अंत में लिखते हैं कि “उपासना एक हृदय की रत्न वस्तु है उसको आर्यक्षेत्र में फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं। वैष्णव शैव ब्राह्म आर्यसमाजी सब अलग अलग पतली पतली डोरी हो रहे हैं इसी से ऐश्वर्य रूपी मस्त हाथी उनसे नहीं बँधता। इन सब डोरी को एक में बाँध कर मोटा रस्सा बनाओ, तब यह हाथी दिगदिगत भागने से रुकैगा। अर्थात् अब वह काल नहीं है कि हम लोग भिन्न भिन्न अपनी अपनी खिचड़ी अलग पकाया करै। अब महाघोर काल उपस्थित है। चारों ओर आग लगी हुई है। दरिद्रता के मारे देश जला जाता है। अँगरेजों से जो नौकरी बच जाती है उनपर मुसल्मान आदि विधर्मी भरती होते जाते हैं। आमदनी वाणिज्य की थी ही नहीं, केवल नौकरी की थी, सो भी धीरे धीरे खसकी। तो अब कैसे काम चलैगा। हिन्दू नामधारी वेद से लेकर तंत्र वरंच भाषा ग्रन्थ मानने वाले तक सब एक होकर अब अपना परम धर्म यह रक्खो कि आर्य जाति में एका हो। इसी में धर्म की रक्षा है। भीतर तुम्हारे चाहे जो भाव और जैसी उपासना हो ऊपर से सब आर्य मात्र एक रहो। धर्म संबंधी उपाधियों को छोड़कर प्रकृत धर्म की उन्नति करो।”

देश प्रेम

जैसा लिखा जा चुका है, भारतेन्दु जी ने देश-काल-समाज के अनुसार पद्य साहित्य क्षेत्र को भी, केवल प्राचीन रूढ़िगत विषयों ही में संकुचित न रखकर, अनेक नए नए क्षेत्र जोड़कर अधिक विस्तृत किया था। इन सभी नए पुराने क्षेत्रों में देशभक्ति के रंग ही का प्राधान्य था। राजभक्ति, लोक हित, समाज-सेवा सभी में देशभक्ति व्याप्त थी वा यों कहा जाय कि इनको देशभक्ति मूल थी तथा राजभक्ति, लोक-हित, मातृभाषा-हितचितन

आदि उसी की शाखा प्रशाखाएँ थीं। भारतेन्दु जी ने स्वदेश के लिये तन मन धन सभी कुछ अर्पित कर दिया था और देश ही की चिंता में सदा व्यग्र रहकर इन्हो ने अपना छोटा सा जीवन वित्त दिया था। 'भारतवर्ष के पुरावृत्त के प्रारम्भ काल से आज तक जो बड़े बड़े दृश्य यहाँ बीते हैं और जो महायुद्ध, महाशोभा और महादुर्दशा भारतवर्ष की हुई है उनके चित्र नेत्र के सामने लिख जाते हैं।' यही कारण है कि उनकी समग्र कृति में देश के प्रति उनका जो प्रेम था वह किसी न किसी रूप में परिलक्षित होता रहता है। भारत की करुण कथा के तीन स्पष्ट विभाग हैं और इन तीनों की भारतेन्दु जी ने जो मार्मिक व्यंजना की है उसे पढ़कर सहृदयों के हृदय में अतीत के प्रति गव, वर्तमान के लिये क्षोभ और भविष्य के लिए मगल कामना एक के बाद दूसरी उठकर उन्हें उद्वेलित कर देती है। इतिहास, नाटक, काव्य सभी में इन्हों ने देश-दशा पर जो कुछ कहा है उनके एक एक शब्द इनके हृदय-रक्त से रजित है।

किसी स्थान विशेष की दुर्दशा का वर्णन तभी किया जा सकता है जब वह उस कुदशा को प्राप्त होने के पहिले बहुत ही समुन्नत अवस्था में रहा हो। भारत पहिले कितनी उन्नत अवस्था में था, इसका कवि ने बहुत उदात्त-पूर्ण वर्णन किया है पर साथ ही ध्यान रहे कि वह सब कविता भारत की दुर्दशा देखकर कवि के दग्ध हृदय से निकली है। कवि कहता है 'हा ? यह वही भूमि है जहाँ साक्षात् भगवान् श्री कृष्णचंद्र के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था "शूच्यग्रं नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव" और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि श्मशान हो रही है।' इसी भाव से देशभक्त कवि मर्माहत हो रहा है, उसका भारत की प्राचीन अवस्था का वर्णन करना मानो जले हुए दिल के फफोले फोड़ना है। देखिए—

ये कृष्ण-वरन जब मधुर तान ।

करते अमृतोपम वेद-गान ॥

तब मोहत सब नर-नारि-वृन्द ।

सुनि मधुर वरन सज्जित सुखंद ॥

जग के सबहीं जन धारि स्वाद ।
सुनते इनहीं को वीन नाद ॥
इनके गुन होतो सबहि चैन ।
इनहीं कुल नारद तानसैन ॥
इनहीं के क्रोध किये प्रकास ।
सब काँपत भूमंडल अकास ॥
इनहीं के हुंकृति शब्द घोर ।
गिरि काँपत हे सुनि चार ओर ॥
जब जेत रहे कर में कृपान ।
इनहीं कहँ हो जग तुन समान ॥
सुनि कै रनवाजन खेत माहिं ।
इनहीं कहँ हो जिय संक नाहि ॥

प्रथम पंक्ति का 'कृष्ण बरन' कितने अर्थों से गर्भित है और कैसा चोभ-पूर्ण है। ये काले हैं, ऐसा कह कर आज हमें घृणा की दृष्टि से देखते हो। पर इन्हीं कृष्णकाय पुरुषों के दिग्विजय से पृथ्वी किसी समय थर्रा उठती थी, कपिलदेव, बुद्ध आदि इसी वर्ण के थे और भास, कालिदास, माघ आदि कवि गण भी काले कलूटे थे। इन लोगो के विजय-यात्रा-वर्णन, उपदेश तथा काव्यामृत काले ही अक्षरो में लिखे जाते हैं, पर फल क्या? आज हाय वहै भारत भुव भारी। सब ही बिधि सो भयो दुखारी ॥

भारत का स्वातंत्र्य-सूर्य पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ अस्त हो गया और यह देश दूर देश से आए हुए यवनों से पादाक्रांत होकर परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ गया। सहस्रवीं तथा अष्टारहवीं शताब्दियों में हिन्दुओं ने स्वातंत्र्य के लिए घोर प्रयत्न किया और स्यात् वे उसमें सफल भी होते पर नई नई बाह्य शक्तियों ने आकर उनके उस प्रयास को विफल कर दिया। उसकी वही दशा ज्यों की त्यों बनी रह गई। स्वभावतः यह भी देखा जाता है कि समान दुःख के साथी यदि मिल जाते हैं तो दुःखी हृदय को बहुत कुछ धैर्य मिल जाता है। भारत ही के समान ग्रीस और रोम भी पहिले बहुत उन्नत

अवस्था में थे, सभ्यता की दीक्षा देने में येही दोनों समग्र योगोप के गुरु माने जाते थे, पर बाद को अर्वाचान-काल में इनकी अवस्था बहुत खराब हो गई थी। इस के अनंतर इन दोनों ने पुनः उन्नति कर ली है पर भारत वैसा ही बना रह गया है। दुःख के साधियों के रहने से जो धैर्य था वह भी भारत के भाग्य में न रह गया, जिससे उसे—

रोम ग्रीस पुनि निज बल पाया । सब विधि भारत दुखी बनायो ॥

इस में क्षोभ, अधैर्य, द्वेष, विषाद सभी का सरल सन्मिश्रण है। कवि कह उठता है—

कहा करी तकसीर तिहारी । रे विधना भारतहि दुखारी ॥

सोइ भारत की आज यह भई दुरदशा हाय ।

कहा करै कित जायँ नहि सूक्त कछु उपाय ॥

जब कुछ उपाय नहीं सूझता, तब मनुष्य 'क्षीणा नराः कापुरुषा भवन्ति' के अनुसार प्राण देना ही उत्तम समझता है। सुनिये—

काशी प्राग अयोध्या नगरी ।

दीन रूप सम ठाढ़ी सगरी ॥

चंडालहु जेहि निरखि घिनाई ।

रहीं सबै भुव मुँह मसि जाई ॥

हाय पंचनद ! हा पानीपत !

अजहुँ रहे तुम धरनि बिराजत ॥

हाय चितौर ! निजज तू भारी ।

अजहुँ खरो भारतहि मँकारी ॥

जा दिन तुव अधिकार नसायो ।

सो दिन क्यों नहि धरनि समायो ॥

तुम में जल नहि जमुना गंगा ।

बढ़हु बेग करि तरल तरंगा ॥

धोवहु यह कलंक की रासी ।

बोरहु 'किन कूट मथुरा कासी ॥

कुस कझौज भंग अरु बंगहि ।
बोरहु किन निज कठिन तरंगहि ॥
अहो भयानक भ्राता सागर ।
तुम तरंगनिधि अति बल-भागर ॥
बढ़हु न बेगि धाइ क्यों भाई ।
देहु भरत भुव तुरत हुबाई ॥
घेरि छिपावहु विंध्य हिमालय ।
करहु सकल जल भीतर तुम लय ॥
धोवहु भारत अपजस-पंका ।
मेढहु भारत भूमि कलंका ॥

अयोध्या, चितौर, पचनद आदि नामों का केवल उल्लेख ही सच्चे देश भक्त के हृदय में किन किन भावों का प्रस्फुरण कर देता है, वह अकथनीय है । कहाँ रामराज्य का गर्व और कहाँ वर्तमान काल की उसकी कुदशा पर क्षोभ । इन थोड़ी सी पंक्तियों के एक एक शब्द में हमारे भारत की करुण कथा भरी है । गौरव काल के बाद अधोगति को प्राप्त न होना ही श्रेय है पर मनचाही मृत्यु भी नहीं मिलती, इसलिए पुनः कवि ईश्वर से अपनी करुण गाथा कहकर स्वदेश के लिये मंगल कामना की इच्छा से प्रार्थना करता है ।

कहाँ करुनानिधि केसव सोए !

जागत नेक न जदपि बहुत विधि भारतवासी रोए ॥
इक दिन वह हो जब तुम छिन नहिं भारतहित बिसराए ।
इतके पसु गज कों आरत लखि आतुर प्यादे धाए ॥
इक इक दीन हीन नर के हित तुम दुख सुनि अकुलाई ।
अपनी सम्पति जानि इनहिं तुम गह्यौ तुरंतहि धाई ॥
प्रलय काल सम जौन सुदरसन असुर-प्रानसंहारी ।
ताकी धार भई अब कुंडित हमरी बेर मुरारी ॥
दुष्ट जवन बरबर तुव संतति घास साग सम काटै ।
एक-एक दिन सहस सहस नर सीस काटि भुव पाटै ॥

हैं अनाथ भारत कुब्ज-विधवा विलपहिं दीन दुखारी ।
 बल करि दासी तिनहिं बनावहिं तुम नहिं लजत खरारी ॥
 कहाँ गए सब शास्त्र कही जिन भारी महिमा गाई ।
 भक्तबल्ल कसनानिधि तुम कहँ गायो बहुत बनाई ॥
 हाय सुनत नहिं निदुर भए क्यों परम दयाल कहाई ।
 सब विधि बूढत लखि निज देसहि लेहु न अबहुँ बचाई ॥

भारत के मेवे फूट और बैर, यहाँ के विभीषणों तथा विषयभोग-
 लोलुप राजाओं, अविद्या-अंधकार आदि के मारे दुर्दशाग्रस्त देश को देख
 कवि ने घबड़ाकर एक देवता से इस प्रकार कहला डाला है—

सब भाँति दैव प्रतिकूल होइ एहि नासा ।
 अब तजहु वीर-वर भारत की सब आसा ॥
 इत कबह विरोध सबन के हिय घर करिहै ।
 मूरखता को तम चारहु ओर पसरिहै ॥
 वीरता एकता ममता दूर सिधरिहै ।
 तजि उद्यम सब ही दासवृत्ति अनुसरिहै ॥
 नसि जैहैं सगरे सत्यधर्म अविनासी ।
 निज हरि सेां है हैं विमुख भरतभुववासी ॥

'धन्य भारत भूमि ! तुम्हें ऐसे ही पुत्र प्रसव करने थे । हाय ! मुहम्मद
 शाह और वाजिद अलीशाह तो मुसलमान होके छूटे पर मल्हारराव का
 कलंक हिन्दुओं से कैसे छूटेगा । विधवा-विवाह सब कराया चाहते हैं पर
 इसने सौभाग्यवती विवाह निकाला ।' ऐसे अयोग्य कर्णधारों के हाथ में
 पड़ कर देश की दशा और विगड़ेगी, इसी से घबड़ा कर कवि कहता है—

परतिय पर धन देखि, न नृपगन चित्त चलावें ।
 गाय दूध बहु देहिं, मेघ सुम जल वरसावें ॥
 हरि पद में रति होइ, न दुख कोऊ कहँ च्यापै ।
 अँगरेजन को राज ईस इत थिर करि थापै ॥

श्रुति-पंथ चलै सज्जन सबै सुखी होहिं तनि दुष्ट-भय ।

कवि बानी थिर रस सों रहै भारत की नित होइ जय ॥

यहाँ कवि अपने देशवासियों की त्रुटियों को देखकर ही ऐसा लिखने को वाध्य हुआ है, वह मिल्टन के पिशाच के समान नर्क के राज्य को स्वर्ग की दासता से बढ़कर नहीं मान सका है । वह इन त्रुटियों तथा दोषों का परिहार इस प्रकार कहकर कराना चाहता है । वह अच्छी प्रकार जानता है कि 'बढ़ै बृटिश वाणिज्य पै हमको केवल सोक ।' और 'जज कलक्टर होंइहैं हिन्दू नहिं तित धाइ । ये तो केवल मरन हित, द्रव्य देन हित हीन ।' पर-तंत्रता दुःख मूलक ही है पर जब गृह ही में द्वंद्व मचा रहता है तभी दूसरे सबल पुरुष वहाँ शांति स्थापित करने आ पहुँचते हैं । भारतेन्दु जी के समय के भारत का क्या हाल था, उसे सुनिए । 'विद्या की चरचा फैली, सबको सब कुछ कहने-सुनने का अधिकार मिला, देश विदेश से नई नई विद्या और कारीगरी आई । तुमको उसपर भी वही सीधी बातें, भाँग के गोले, ग्रामगीत, वही बाल्यविवाह, भूतप्रेत की पूजा, जन्मपत्री की विधि ! वही थोड़े में संतोष, गाय हाँकने में प्रीति और सत्यानाशी चाले ! हाय अब भी भारत की यह दुर्दशा ! अरे अब क्या चिंता पर सम्हलेगा ।' ऐसे ही लोगों का प्रबन्ध दूसरे करते हैं, कितने ही पीर नावालिगों आदि का प्रबन्ध कोर्ट ऑफ वार्ड्स अब भी कर रहा है । वह समय और था तथा उसी का कवि के हृदय पर जैसा प्रभाव पड़ा था उसी के अनुसार उद्गार निकले थे । यह देशभक्त के हृदय का नीरव रुदन है, 'बधावे बजाना नहीं है ।'

हिन्दी कविपरंपरा में भारतेन्दु जी के पहिले वीर रस के अनेक कवि हो चुके हैं जिनमें अंतिम महाकवि 'भूषण' थे । इन्होंने छत्रपति महाराज शिवाजी के विजयों, उनकी वीरता, देश-सेवा, धर्मोन्नति तथा धर्म रक्षा के कार्यों आदि का अत्यंत ओजपूर्ण वर्णन किया है पर यह सब, कहा जा सकता है कि वास्तव में, घनाकांक्षा तथा ऐसे प्रातःस्मरणीय सुपात्र के पा जाने के कारण लिखा जा सका है । यदि इनकी कविता शिवाजी के लिए न होकर किसी 'अवधूत सिंह' आदि के लिए ही होती तो एक सवार ही के समग्र

पृथ्वी को कँपा देने के वर्णन के समान मञ्जाक ही समझी जाती। भूषण के बाद वीर रस के कोई अच्छे कवि हुए भी नहीं। इन वीर रस के कवि ने समग्र भारतवासियों को संवोधित कर उनकी तथा उनके देश की प्राचीन उन्नत अवस्था, मध्यकाल की परतंत्रता तथा अवनत अवस्था और वर्तमान काल में भी अवसर पाकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर न होने की कायरता या मूर्खता डंके की चोट वर्णन की और उन्हें राष्ट्रभाषा की उन्नति करते हुए देश-सेवा करने को अनेक प्रकार से उत्साह दिलाया है। काव्य, नाटक, लेख जो कुछ लिखा है, उनमें कहीं न कहीं अवसर लाकर इन विषयों पर अपने पाठको, दर्शकों, श्रोताओं को निरंतर आकर्षित करते रहे। इनके चरित्र तथा इनकी रचनाएँ सभी इस देश-भक्ति के रग से रजित हैं और इनकी यह ऐसी निजी विशेषता है कि यह हिंदी तथा हिंदुस्थान के इतिहास में भी अमर हो गए हैं।

आरसी

आरसी को लेकर कवि ने प्रेम का अत्यंत भव्य रूप खड़ा कर दिया है। नायिका नायक को हठ वश आरसी नहीं देखने दे रही है। क्यों? जिसमें वह अपना रूप देखकर अपने ही पर मोहित न हो जाय और उसे भूल जाय। पुरुषो का रूप लोभ प्रसिद्ध ही है। नायिका का ऐसा दृढ़ विश्वास है कि उसके पति का या प्रेमी का रूप उससे कहीं बड़ा चढ़ा हुआ है और वह उसे अपने रूप को देखकर भूल सकता है। यह उसकी अपने प्रिय पर की दृढ़तम आसक्ति है। यह स्त्री सुलभ स्वभाव है कि वे किसी दूसरे को अपने से बढ़कर सुंदर देखना नहीं चाहतीं पर यहाँ उसे प्रिय के अपने से बहुत अधिक सुंदर होने का विश्वास है। कहा है—

देखन देहुँ न आरसी सुन्दर नन्दकुमार ।

कहुँ मोहित है रूप निज मति मोहिं देहु बिसार ॥

साथ ही वह पति के उस रूप-सुधा को अनेक उपाय से सुरक्षित रखना चाहती है जिसमें उसका कोई अन्य स्वाद न ले सके। उसे वह आँखों

में और हृदय में बंद रखना चाहती है। ऐसा प्रेमोन्माद है कि सबतों की कौन कहे ढंगे हुए चित्रों से इठलाती है कि वे भी उसे न देख लें। इस प्रकार सबसे लाग डाँट करती हुई वह अनुरागिणी प्रिय के रूप-सुधा का सर्वग्रास कर जाना चाहती है, यहाँ तक कि वेचारे प्रेमी को अपने मुख तक देखने के लाले पड़ गए हैं। वह प्रिय और आँखों के बीच आईने के आजाने का वियोग तक नहीं सह सकती।

राखत नैनन में हिय मैं भरि दूर भए 'छिन होत अचेत है।

सौतिन की कहै कौन कथा तसबीर हू सों सतराति सहेत है ॥

लाग भरी अनुराग भरी 'हरिचन्द' सबै रस आपुहि लेत है।

रूप-सुधा इकली ही पियै पियहू कों न आरसी देखन देत है ॥

दो सखियाँ आपस में तर्क वितर्क कर रही है। एक का कृष्ण-प्रति प्रेम उसी समय जब दूसरे पर प्रगट हुआ तब वह उसके नित्य बराबर आरसी देखते रहने पर अपना विचार यों कहती है कि—

हौं तो याही सोच मैं विचारत रही री काहे ,

दरपन हाथ तें न छिन विसरत है।

त्योही 'हरिचन्द जू' वियोग औ संयोग दोऊ ,

एक से तिहारे कछु लखि न परत है।

जानी आज हम ठकुरानी तेरी वान ,

तू तौ परम पुनीत प्रेम पथ बिचरत है।

तेरे नैन मूरति पियारे की बसत ताहि ,

आरसी मैं रैन-दिन देखिबो करत है ॥

सखी के ये ऊहात्मक विचार कितने ऊँचे तथा पवित्र प्रेम के हैं। आरसी हाथ से नहीं छूटती, सो ठीक है पर प्रेमिका का वियोग तथा संयोग दोनों ही में एक सी दशा देखकर वह चकित है। एकान्त में वियोग से वह विरहिणी चाहे कितना भी विलाप करे पर वह संसार के सामने अपने प्रेम के कारण प्रिय के प्रति लोगों की सहानुभूति नहीं कम कराना चाहती, इसी से सखी कहती है, कि ऐसे श्रेष्ठ पवित्रतम प्रेम मार्ग पर विचरण करने वाली

केवल तू ही है। आरसी में दिन रात देखने का भी वह एक कारण यह बतलाती है कि प्रिय की मूर्ति तुम्हारे नेत्रों में बसी हुई है और तू उसी प्रेम मूर्ति का रात दिन दर्पण ही में दर्शन किया करती है। इस ऊहा पर प्रेमिका जो उत्तर देती है वह प्रत्येक सच्चे प्रेमी के लिए आदर्श है। वह कहती है कि 'नहीं सखी ! ऐसा नहीं है। मैं जो आरसी देखती थी उसका कारण कुछ दूसरा ही है। हा ! (लंबी साँस लेकर) सखी ! मैं जब आरसी में अपना मुँह देखती और अपना रग पीला पाती थी, तब भगवान से हाथ जोड़कर मनाती थी कि भगवन् मैं उस निर्दयी को चाहूँ पर वह मुझे न चाहे, हा !' (आँसू टपकते हैं)

कैसा दैवी प्रेम है। विरह कष्ट को प्रेमिका नहीं चाहती कि उसका प्रेमी भी उठावे। वह चाहे जीवन भर इस कष्ट को भोगे पर उसके प्रति कृष्ण भी प्रेम कर वैसा कष्ट क्षण भर भी न पावें। उसकी प्रेम-लालसा इच्छा रहित है। वह स्वयं आदर्श देखकर निरीह प्रेम का आदर्श हो रही है। यही प्रेम धन्य है, आदर्श है, दैवी है। 'यह तेरी चाल संसार से निराली है। इसी से मैंने कहा था कि तू प्रेमियों के मडल को पवित्र करने वाली है।' नहीं कह सकता कि किसी अन्य कवि ने प्रेम का ऐसा ऊँचा आदर्श दिखलाया है। कविश्रेष्ठ महात्मा तुलसीदास जी ने भी राम तथा सीता का विरह वर्णन किया है। सीता जी का हनुमान जी से पहिला प्रश्न यही होता है कि 'भगवान रामचन्द्र कभी मेरा याद करते हैं या नहीं !'

एक खंडिता नायिका आरसी ही को लेकर अपने पति को कैसी मीठी चुटकी देती है। वह कुछ उपालभ नहीं देती, अपना विरह, दुर्भाग्य आदि सुनाकर अपने को नहीं कोसती और न सवति ही पर कुछ फफोले फोड़ती है। वह केवल यही कहती है कि 'देखिए यह हीरक जटित मीने के चित्रों से चित्रित दर्पण आपको दिखलाने के लिये मैं रात्रि भर हाथ में लिए जागती रही। देखिए यह कैसी बनी है।' सहृदय प्रिय के लिये यह चुनौती बड़ी ही कठोर है, वह स्वयं आईना बन जाता है, वह किसे देखे ? देखिए—

हैं तो तिहारे दिखाइवे के हित जागत ही रही नैन उजार सी ।
आए न राति पिया 'हरिचंद' लिए कर भोर लौं हों रही भार सी ॥
है यह हीरन सों जढ़ी रंगन तापै करी कछु चित्र चितार सी ।
देखो जू लालन कैसी बनी है नई यह सुन्दर कंचन धारसी ॥

नेत्र

हिन्दी मे नखशिख और उर्दू मे सरापा लिखने की प्रथा प्राचीन है । पर दोनो ही में वैसी स्वतंत्र कविताएँ कम हैं । सर्वांग पर उतनी कविताएँ नहीं मिलती जितनी विशेष विशेष अंगों पर मिलती हैं । इनमे भी नेत्र का स्थान बहुत ही ऊँचा है और क्यों न हो ? एक साधारण सूरदास का यह कहना है कि 'अँखिया हज्जार निआमत है' बहुत ही ठीक है । सारी सृष्टि का दर्शन इसी से होता है । काव्य जगत के रसराज का आधार प्रेम का अंकुरण इन्ही आँखो द्वारा ही होता है । आँखों ने जिसे अपनाया उसी के हाथ मन ही नहीं सारा शरीर 'बिकान' । साथ ही 'वे नैना औरै कछु जेहि बस होत सुजान ।' (बिहारी) आँखे तो सभी को होती हैं, अनेक प्रकार की होती हैं, पर विशेषता उसी मे कुछ है जिसमें आकर्षिणी शक्ति हो, जादू हो । एक बेर नैन भरि देखै जाहि मोहै तौन माच्यौ ब्रज गाँव ठाँव ठाँव में कहर है ।

और अत मे कहना ही पड़ा कि,

यामें न संदेह कछु दैया हों पुकारे कहीं भैया की सों भैया री कन्हैया जादूगर है ।

और यदि तरफैन की, दोनों ओर की, वैसी ही आँखे हुईं तब वे 'का करौ गोइयाँ अरुभि गई अँखियाँ' ॥ का दृश्य हो जाता है और सुल-भाना बेकार हो जाता है ।

होत सखि ये उलझैहैं नैन ।

उरभि परत सुरभ्यौ नहिं जानत सोचत समुक्त हैं न ॥

फोऊ नहिं बरजै जो इनकों बनत मत्त जिमि भैन ।

कहा कहीं इन बैरिन पाछे होत लैन को दैन ॥

सत्य ही बरजै कौन और सुने कौन ? इनके व्यवहार मे विवेक की

भी कमी है। सोचना, समझना ये आलसियों का काम समझती हैं। 'योग्यं योग्येन युज्यते' के अनुसार जब दो से चार हुईं तभी प्रेम का लेन देन जारी हुआ। यह प्रेम-व्यवहार भी विलक्षण है, लेन के बदले देन और देन के बदले लेन। उसपर तुरा यह कि 'ये आँखे ऐसी बुरी हैं कि जब किसी से लगती हैं तो कितना भी छिपाओ नहीं छिपतीं।' जो देखता है उसी से वे अपनी विरह कथा कह डालती हैं, न हया है, न शील है। निशंक होकर लाज को तिलांजलि देकर अपना गुण गान करती फिरती हैं—

छिपाए छिपत न नैन लगे ।

उधरि परत सब जानि जात हैं घूँघट में न खगे ॥

कितनौ करौ दुराव दुरत नहिं जब ये प्रेम पगे ।

निडर भए उधरे से डोलत मोहन रंग रंगे ॥

प्रीतिवद्ध हो जाने पर उन नेत्रों का कुछ और ही रंग हो जाता है—

लगौं ही चितवनि औरहि होति ।

दुरत न लाख दुराओ कोऊ प्रेम फलक की जोति ॥

दोष भी 'इन्ही नेत्रों का है, यही रीझते, यही अपने को छिपा नहीं सकते और यही दुष्ट अंत में अपने किए पर रोते हैं।' ये अपने होकर भी पराए हो जाते हैं। 'अमृत भरे देखत कमलन से विष के बुते छुरे।' बेचारे नेत्रों पर ये आक्षेप अंशतः ठीक हैं पर वे क्या करे। ईश्वर ने भी तो इनपर विशेष कृपा कर इनकी स्मरण शक्ति तीव्र कर दी है—

नैना वह छवि नाहिन भूले ।

दया भी चहुँदिसि की चितवनि नैन कमल दल फूले ॥

परवस भए फिरत हैं नैना एक छन टरत न टारे ।

हरि-ससिमुख ऐसी छवि निरखत तन मन धन सब हारे ॥

इसीलिए कवि कहता है—'आँखे तरस रही हैं सूरत इन्हें दिखा जा।' पर क्या एक बार दर्शन देकर चले जाने से इन नेत्रों की तृप्ति होगी। नहीं, नहीं, दिखलाते जाइए अर्थात् दिखलाकर चले न जाइये प्रत्युत् वरावर इनके आगे मूर्तिवत् बैठे रहिए।

इन्हीं सब कारणों से अपनी ही आँखों पर उनकी करतूत देखकर आप ही अमर्ष होता है, उनपर कैसी फटकार पड़ती है। प्रश्न पर प्रश्न होते हैं और अत में उनसे स्पष्ट कह दिया जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी।

धाइके आगे मिलीं पहिले तुम कौन सों पृछि कै सो मोहि भाखौ ।
 त्यों सब लाज तजी छिन में केहि के कहे एतौ कियो अभिलाखौ ॥
 काज बिगारि सबै अपुनो 'हरिचंद जू' धीरज क्यों नहिं राखौ ।
 क्यों अब रोइ कै प्रान तजौ अपने किए को फल क्यों नहिं चाखौ ॥

यह सब डाँट फटकार बतलाने पर भी तुरन्त ही कवि की उनपर सहानुभूति भी पैदा हो जाती है। 'बरियाई।लखौ इनकी उलटी अब रोवहिं आपु निहारे बिना'। इसी एकनिष्ठा के कारण समवेदना भी कैसी है और क्यों न हो। देखिए, ये आँखे उर्दू शायरी की बेवफाई छोड़कर यहीं 'लहद' तक ही देखने को नहीं तरसती बल्कि जन्मजन्मांतर मे जिस जिस लोक मे वे जाएँगी वहाँ वहाँ उन्हे इस अदर्शन की याद बनी रहेगी।

इन दुखियान को न सुख सपने हू मिल्यौ,
 यों ही सदा व्याकुल बिकल अकुलायँगी ।
 प्यारे 'हरिचन्द जू' की बीती जानि औध जो पै,
 जैहैं प्रान तऊ ये तो साथ न समायँगी ॥
 देख्यौ एक बार हू न नैन भरि तोहि यातें,
 जौन जौन लोक जैहैं तहीं पछितायँगी ।
 बिना प्रान प्यारे भए दरस तिहारे हाय,
 देखि लीजौ आँखें ये खुली ही रहि जायँगी ॥

समवेदना ही नहीं करके रह जाता प्रत्युत् उनकी ओर से प्रार्थना भी करता है कि—

पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अँखिया दुखिया नहिं मानती हैं ।
 यदि कोई कहे कि संसार मे सौदर्य की कमी नहीं है, कुछ और देखो,
 तब इन आँखों की ओर से कवि कहता है कि—

बिछुरे पिय के जग सूनो भयो,
 अब का करिए कहि पेखिये का ।
 सुख छाँड़ि के संगम को तुम्हरे,
 इन तुच्छन को अब लेखिए का ॥
 'हरिचंद जू' हीरन को व्यवहार—
 कै काँचन कों लै परेखिए का ।
 जिन आँखिन में तुव रूप बस्यो,
 उन आँखिन सों अब देखिए का ॥

आँसू

जिन नेत्रों के परस्पर मिलने से प्रेम की मूलोत्पत्ति होती है उन्हीं से उत्पन्न जल से उस प्रेमवल्लि को 'आँसुअन जल सींचि सींचि' भक्त मीरा ने लहलहाया था । प्रेम की विरह दशा के अश्रुकण आँखों से निकलनेवाले हैं । नेत्र दर्शन न पाने से अत्यंत दुखी हो रहे हैं, उनका धैर्य छूटा जा रहा है, अतः कवि उनकी ओर से कहता है कि—

सदा व्याकुल ही रहैं आपु विना इनकों हू कळू कहि जाइए तो ।
 इक वारहु तोहि न देख्यौ कभू तिनको मुखचन्द दिखाइए तो ॥
 'हरिचन्द जू' ये आँखिया नित की हैं बियोगी इन्हें समुझाइए तो ।
 दुखियान को प्रीतम प्यारे कबों बहराइ कै धीर धराइए तो ॥

पर ये नेत्र विना दर्शन पाए भला बहलाने से मानते हैं । इनकी दशा विगड़ जाती है और अश्रु उमड़ पड़ते हैं । यह विरह व्याधि साधारण नहीं है, इसे दूर करने का उपाय धन्वन्तरि भी नहीं जानते । उद्धव से ज्ञानी भी समझाकर धैर्य नहीं दिला सकते । मर्ज़ बढ़ता ही जाता है ज्यों ज्यों दवा की जाती है । इसके एक मात्र वैद्य या मसीहा वही 'लालन' हैं जिनके 'लालन' से इन्हें धैर्य हो सकता है और ये अपना रोना छोड़ सकते हैं—

घर बाहर केन को काम कळू नहिं को यह रार निवारि सकै ।
 'हरिचन्द जू' जो विगरीं बदि कै तिन्है कौन है नौन सँवारि सकै ॥

समुझाह प्रबोधि कै नीति कथा इन्हें धीरज कोऊ न पारि सकै ।

तुम्हरे बिनु लालन कौन है जो यह प्रेम के आँसू निवारि सकै ॥

सत्य ही जिसकी दृष्टि में एक के सिवा अन्य कोई दूसरा रही नहीं गया और जो उसका अनन्य प्रेमाराध्य देव बन गया है उसके सिवा किसकी सामर्थ्य है, जो उस प्रेम के आँसू को दूर कर सकता है। यह उपाय उसी शक्तिमान के हाथ में है जो ऐसी आग लगा सकता है जिससे निरंतर अश्रु-जल बहता रहे। शरीर छीजता रहता है पर उसका जला दिला, विरह दग्ध हृदय, जल का अजस्र स्रोत बना रहता है। अग्नि से उत्पन्न होते अश्रुजल को रोकना उसी जादूगर के हाथ में है। विरह विधुरा को समझाई ही नहीं देता कि यह कैसी आग है—

बाद्यों करै दिन दिन छिन ही छिन कोटि उपाय करौ न बुझाई ।

दाहत लाल समान सुखै गुरु की भय नोंद सबै संग लाई ॥

छीजत देह के साथ में प्रानहु हा 'हरिचन्द' करौं का उपाई ।

क्यों हूँ बुझै नहिं आँसू के नीरन लालन कैसी दवारि लगार्ई ॥

विरह के आँसू गर्म होते ही हैं और इस प्रकार अग्नि के सपर्क से उमड़ते हुये आँसू की इस बाढ़ को देखकर प्रेमिका घबड़ा जाती है और अन्य कुछ न माँग कर केवल यही चाहती है कि आँसुओं को अपने दामन से पोंछ कर इन्हें बड़भागी बना दो, हम तो दुःख भोग लेंगे पर ये नित को दुखिया आँखें बेचारी तुम्हारी ही हैं, इससे इनपर तो ज़रा दया करो। आँसुओं की झड़ी के मारे ये बेचारी और भी कष्ट में हैं, कही तुम आगए तो भी ये न देख सकेंगी और पुछ जाने पर ही रूप सुधा पा सकेंगी। यदि इतने पर भी प्रियतम कष्ट न करे तो उसे क्या कहा जा सकता है—

रोवैं सदा नित की दुखिया अनि ये अँखियाँ निहि दौस सों लागीं ।

रूप दिखाओ इन्हें कब हूँ 'हरिचन्द जू' जानि महा अनुरागीं ॥

मानिहैं औरन सों नहिं ये तुव रंग रँगी कुल लानहिं त्यागी ।

आँसुन को अपने अँचरान सों लालन पोंछि करौ बड़ भागी ॥

भारतेन्दु जी का विरह-वर्णन

भारतेन्दु जी का विरह-वर्णन पुरानी रूढ़ि के कवियों के वर्णन से कुछ भिन्न है। इनमें अतिशयोक्ति की कमी और स्वाभाविकता की पूर्णता है। यद्यपि पुराने कवियों ने कल्पनाओं की खूब उड्डान मारी है, बड़े बड़े बाँधनू बाँधे हैं, पर सभी में अनैसर्गिकता पद पद पर साथ लगी चली आई है। हिन्दी तथा उर्दू दोनों ही के कवियों ने विरह के ऐसे ऐसे चित्र खींचे हैं जिन्हे जयपुर के चित्रकारों की बारीक से बारीक कलम की नज़ाकत नहीं दिखला सकती। उर्दू के दो उस्तादों की उस्तादी की बातें सुनिए और आँखें मूँदकर ध्यान कीजिए, कुछ समझ में आता है।

इन्तहाए-लागरी से जब नज़र आया न मैं ।
 हँस के वह कहने लगे बिस्तर को भाड़ा चाहिए ॥
 नातवानी ने बचाई जान मेरी हिज़्र में ।
 केने केने ढूँढ़ती फिरती क़ज़ा थी मैं न था ॥

पहिले साहब चुचुक कर ऐसे अमहर हो गए थे कि नहीं से हो रहे थे और उन्हे न देखकर माशूक हँस पड़ा, देखते तो शायद रो पड़ते पर जब वह दिखलाई ही न पड़े तब सिवा हँसने के भोंप मिटाने का और उपाय ही क्या था। हाँ खोजने के लिये बिस्तर भाड़ने का हुक्म हुआ, मानों आशिक पिस्तू बनकर उसके नीचे दबक गया था। दूसरे साहब की बात ही निराली है। पहिले तो यही ज्ञात होता है कि बेचारे इस हिज़्र से बड़े प्रसन्न हैं कि उसने इन्हे ऐसा कर दिया है कि मौत भी उन्हे ढूँढ़ कर न पा सकी और उनकी जान बच गई। यदि हिज़्र न होता तो स्यात् उनकी मुटाई से क़ज़ा को अधिक परिश्रम न करना पड़ता और 'मैं न था' सत्य हो जाता।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि बिहारी की विरहिणी परमाणुता को पहुँची थी। वह भी गलपच कर ऐसी बे मालूम हो गई थी कि मीच (मृत्यु) चश्मा लगाकर भी उसे नहीं देख सकती थी। यद्यपि, विरहिणी सामने से हटती नहीं थी पर वह स्यात् मृत्यु चाहने में कुछ आगा पीछा कर रही थी, नहीं तो भट

मृत्यु से कहकर ऐसे विरह कष्ट से छुटकारा पा जाती । दोहा इस प्रकार है—

करी विरह ऐसी तऊ गैल न छाँड़तु नीच ।

दीने हू चसमा चखनि चाहै लखै न मीच ॥

इसके सिवा विरहिणी की विरहाग्नि उसी तक नहीं रह जाती, उसके पास आने वाली सखी झुलसने लगती हैं, गुलाब का कँटर सूख जाता है, सीसी पिघल जाती है, पिसा अरगजा सूख कर अबीर हो जाता है इत्यादि । अग्नि और बढ़ती है, गाँव का गाँव ही गर्मी से तड़फड़ाने लगता है, जाड़े में ग्रीष्म से बढ़कर तपन हो जाती है । अति हो गई, खसखाने में विरहिणी अपनी ही गर्मी से औटी जाती है । धन्य है अतिशयोक्ति, जो न तू संभव कर दे । चुहल बाज़ इशा ने ऐसी ही विरहिणी के आह को भाड़ कहा है ।

जो दानेहाय अजुमे गेहूँ को डाले भून ।

उस आह शोलाखेज़ को इंशा तू भाड़ बाँध ॥

विरहाग्नि से गाँव की नदी ऐसी खौल उठी कि समुद्र तक पहुँच उसे गरम कर डाला और बड़वाग्नि को जलाने लगी । जायसी ने भी ऐसी ही कुछ अंट संट बातें कही हैं । विरही के लिखे पत्र के अक्षर अँगारे हो रहे थे, जिससे कागज को न जलाते हुए भी उसे कोई छूता न था, तब सुग्गा उसे ले चला । अन्य स्थान पर कहते हैं कि विरह कथा जिस पक्षी से वह कहता था उसके पक्ष सुनते ही जल जाते थे । मालूम होता है कि वह सुग्गा भी कागज की तरह किसी विरह-साबर मत्र से सुरक्षित किया गया था ।

इस प्रकार के ऊहात्मक अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णनों के अधार असत्य हैं, जिन्हे सुनने से विरही-विरहिणी के असीम दुःखों के अतिशयाधिक्य का अदाजा शायद कुछ लोगों को लगता हो पर श्रोतागण उनसे समवेदना करने के बदले इन बातों की करामात में फँस जाते हैं और उनकी तीव्र वेदना से उत्पन्न तपन की जो जोख (नाप) बतलाई जा रही है, उसके विचार में लग जाते हैं । तात्पर्य इतना ही है कि ऐसे वर्णन के श्रोता या पाठक की दृष्टि, जिसके प्रति कवि को उनकी समवेदना उत्पन्न करानी थी उन पर न रह कर

उनके अत्युक्तिपूर्ण असंभाव्य बातों के घटाटोप में बंद हो जाती है। यदि यही अत्युक्तियाँ संभाव्य हों, ऐसे वर्णनों का आधार सत्य और स्वाभाविक हो तो पाठकों के हृदय में उनके चित्र तुरंत रखचित हो जायँगे और विरही-विरहिणी के प्रति उनकी समवेदना तुरंत आकृष्ट हो जायगी। 'आह रूपी नागिन ने उड़कर आकाश को काट लिया जिससे वह नीला हो गया,' ऐसे वर्णन में आधार आकाश का नीला होना सत्य है पर उसका जो कारण बतलाया गया है, वह असत्य है। इस प्रकार के वर्णन में सत्य आधारों का विरह के कारण वैसा होना दिखलाने के लिये ऐसे हेतु का आरोपण किया जाता है जिससे वैसा होना संभव है। सर्प के दंशन से विष फैलने पर मनुष्य नीला हो जाता है, इसलिये आह रूपी सर्प के दंशन से आकाश का नीला होना कहना उचित हुआ। कल्पना की उड़ान इसमें भी ऊँची उड़ी है पर इस प्रकार की अत्युक्तियों में तब भी कुछ गांभीर्य है, कोरा मजाक नहीं।

विप्रलंभ शृंगार के चार भेद होते हैं, पूर्वानुराग, मान, प्रवास और करुण। समागम होने के पहिले केवल दर्शन, गुण-श्रवण आदि से प्रेम। अंकुरित होने पर मिलन तक का विरह पूर्वानुराग के अंतर्गत है। प्रेमियों के एक दूसरे से कारण वश खफा होने पर उत्पन्न वियोग मान कहलायगा। जब दो में से एक कहीं विदेश चले जाँय तब प्रवास विप्रलंभ होता है। प्राचीन आचार्यों ने, प्रेमियों में कितना अंतर पड़ने पर ऐसे वियोग को प्रवास विप्रलंभ कहना चाहिए, इस पर विचार नहीं किया है। पर एक आधुनिक आचार्य एक स्थान पर लिखते हैं कि 'वन में सीता का वियोग चारपाई पर करवटें बदलवाने वाला प्रेम नहीं है—चार कदम पर मथुरा गए हुए गोपाल के लिये गोपियों को बैठे बैठे रुलाने वाला वियोग नहीं है, झाड़ियों में थोड़ी देर के लिये छिपे हुए कृष्ण के निमित्त राधा की आँखों से आँसुओं की नदी बहाने वाला वियोग नहीं है। यह राम को निर्जन वनों और पहाड़ों में घूमने वाला, सेना एकत्र कराने वाला, पृथ्वी का भार उतरवाने वाला वियोग है। इस वियोग की गंभीरता के सामने सूरदास द्वारा अकित वियोग अतिशयोक्ति-पूर्ण होने पर भी बालक्रीड़ा सा लगता है।' इस उद्धरण में पहिले यही नहीं

पता लगता कि रामचन्द्र से सबल तथा राधा-गोपी आदि अबलाओं की समता क्यों की गई। क्या ये अबलाएँ रणचंडी बन कर मथुरा या लाखों 'चार कदम' दूर द्वारिका चढ़ जातीं और कृष्ण को पकड़ लातीं। मान-विरह तो चार कदम क्या एक कदम की दूरी भी न रहने पर हो सकता है। जब रावण के समान कोई नृशंस पुरुष किसी का प्रणयी उड़ा ले जाय तभी न वह विरही होते भी वीर पुरुष के समान उससे अपने प्रणयी को छीन लाने का प्रयत्न करेगा। जब दो प्रेमी वन्यप्रदेश में घूमते फिरते किसी प्रकार एक दूसरे से खफा होने के कारण अलग हो गए उस समय, प्रेमी चाहे भाड़ी में छिपा तमाशा देख रहा हो, प्रणयिनी अबला अवश्य ही मान, रोष, विरह दुःख आदि के कारण रो बैठेगी। इसमें रत्ती भर भी अस्वाभाविकता नहीं है। कुछ समालोचक जब एक कवि की आलोचना करते रहते हैं तो अन्य कवियों पर कुछ फवतियाँ कसते जाते हैं, ऐसी एक प्रथा सी हो गई है।

करुण विप्रलंभ नायक तथा नायिका दो में से एक के मरण पश्चात् दूसरे के शोक को कहा जा सकता है पर उसी अवस्था तक यह करुण-विप्रलंभ रहेगा जब इस बात की उसे आशा होती है कि वह पुनर्जीवित हो उठेगा। सत्यवान की मृत्यु पर सावित्री का रुदन इसी प्रकार का था, क्योंकि उसे दृढ़ आशा थी कि उसका पति पुनः जी उठेगा। यदि जी उठने की आशा ही न रहे तो करुण विप्रलंभ न रह कर करुण रस हो जायगा।

श्री चन्द्रावली नाटिका हिन्दी साहित्य की एक अमूल्य निधि है और इसकी सारी विशेषता केवल एक मात्र शब्द प्रेम में भरी पड़ी है। इसमें का विरह-वर्णन इतना स्वाभाविक, इतना हृदय-ग्राही और समवेदना-उत्पादक है कि इसके पाठक या श्रोता गण इसे पढ़ सुन तन्मय हो जाते हैं। इस समग्र नाटक में शृंगार रस का वियोग पक्ष ही प्रधान है, केवल अन्त में मिलन होता है। 'प्रेमियों के मडल को पवित्र करनेवाली' चन्द्रावली में श्रीकृष्ण के बाल्य-सुलभ चपलता, सौंदर्य तथा गुण सुनने से पूर्वानुराग उत्पन्न होता है। आसपास के गाँव में रहने से देखा देखी भी होती है और वह प्रेम रूप में परिणत हो जाता है।

‘वह सुन्दर रूप विलोकि सखी, मन हाथ ते मेरे भग्यो सो भग्यो ।’

इस प्रकार मन के भाग जाने से अनमनी हुई किसी नायिका का कवि यों वर्णन करता है—

भूली सी भ्रमी सी चौकी जकी सी थकी सी गोपी ,
 दुखी सी रहत कछु नार्हीं सुधि देह की ।
 मोही सी लुभाई कछु मादक सी खाए सदा ,
 विसरी सी रहै नेक खबर न गेह की ॥
 रिस भरी रहे कबों फूलि न समाति अंग ,
 हँसि हँसि कहै वात अधिक उमेह की ।
 पूछे ते निसानी होय उत्तर न आवै तोहि ,
 जानी हम जानी है निसानी या सनेह की ॥

इस प्रकार प्रेम का आधिक्य हो जाने पर उसे छिपाना कठिन हो जाता है । सखियाँ प्रश्न करती हैं, हठ करती हैं तब बतलाना पड़ता है । विरह कष्ट के विशेष रूप से प्रकट न मालूम होने से जब शंका होती है तब उत्तर मिलता है कि—

मन मोहन तें विछुरी जब सों ,
 तन आँसुन सों सदा धोवती हैं ।
 ‘हरिचंद जू’ प्रेम के फंद परी ,
 कुल की कुल लाजहि खोवती हैं ॥
 दुख के दिन को कोऊ भाँति बितै ,
 विरहागम रैन सँजोवती हैं ।
 हमहीं अपुनी दशा जानै सखी ,
 निसि सोवती हैं किधौं रोवती हैं ॥

सत्य ही दूसरे का दुःख कौन समझ सकता है । कष्ट के दिन तो किसी प्रकार बीत भी जाते हैं पर रात्रि कैसे व्यतीत होती है यह दुखिया ही समझ सकती है । इस पद का पूर्वानुराग नीली राग ही कहलाएगा यद्यपि आगे चलकर चंद्रावली जी का यह अनुराग मंजिष्ठा राग में परिवर्तित हो गया है ।

किस प्रकार यह अनुराग बढ़ा है, इसके कथन के साथ साथ इस पद में विरह की प्रथम तीन दशाएँ अभिलाषा, चिंता तथा स्मृति भी लक्षित हो रही हैं।

पहिले सुसुझाइ लजाइ कछु ,
 क्यों चितै मुरि मो तन छाम कियो ।
 पुनि नैन लगाइ बढ़ाइ कै प्रीति ,
 निबाहन को क्यों कलाम कियो ॥
 'हरिचन्द' भए निरमोही इते निज ,
 नेह को यों परिनाम कियो ।
 मन माँहि जो तोरन ही की हुती ,
 अपनाइ के क्यों बढ़नाम कियो ॥

विग्रह से उद्वेग बढ़ा, उन्माद के लक्षण दिखलाई पड़ने लगे और जड़ तथा चेतन का भेद न रह गया। 'राजा चन्द्रभानु की बेटी चन्द्रावली' पक्षियों पर विगड़ उठती है, कहती है—'क्यों रे मोरो, इम समय नहीं बोलते ? नहीं तो रात को बोल बाल के प्राण खाए जाते थे । कहे न वह कहाँ छिपा है ? (गाती है)

अहो अहो बन के रूख कहुँ देख्यौ पिय प्यारो ।
 मेरो हाथ छुडाइ कहौ वह कितै सिधारो ॥
 अहो कदंब अहो अंब-निंब अहो बकुल तमाला ।
 तुम देख्यौ, कहुँ मनमोहन सुंदर नँदलाला ॥
 अहो कुंज बन लता विरुध वृन पूछत तोसों ।
 तुम देखे कहुँ श्याम मनोहर कहहु न मोसों ॥
 अहो जमुना अहो खग मृग हो अहो गोबरधन गिरि ।
 तुम देखे कहुँ प्राण पियारे मन मोहन हरि ॥

कैसी उन्मत्त दशा है, ये पेड़ पक्षी भी अपने साथ सहानुभूति दिखाते हुए ज्ञात होते हैं पर बेचारों का कुछ वश चलता नहीं। विरहिणी उनसे बड़े दुलार के साथ, आदर के साथ पूछती है पर वे निरुत्तर हैं। उन्मादिनी

के कान मे किसी ने वर्षा का शब्द पहुँचा दिया बस वह अपने घनश्याम आनंद घन का स्वप्न देखने लगी । वह कहती है—

बलि साँवली सुरत मोहनी मूरत ,
 आँखिन को कबों आइ दिखाइए ।
 चातक सी मरै प्यासी परी ,
 इन्हें पानिप रूप सुधा कबों प्याइए ॥
 पोत पटै विजुरी से कबों ,
 'हरिचंद जू' धाइ इतै चमकाइए ।
 इतहु कबों आइकै आनंद के घन ,
 नेह को मेह पिया बरसाइए ॥

सच्चे प्रेमी चातक ही स्वरूप हैं, उनकी प्यास, हृदय-तृष्णा, उन्हीं के प्रेमपात्र के मिलने से तृप्त होती है, उससे हजार गुणा बढ़कर सौंदर्यादि गुणों से युक्त पात्र को देखने से नहीं होती । ऐसी विरहिणी को दिन होता है ता शोक, सध्या होती है तब भी शोक । चंद्र की सुधामयी किरणों तथा सूर्य की उत्तम रश्मियाँ उनके लिए समान हैं । चंद्रोदय होने पर पहिले उसमें वह अपने प्रिय—“गोप कुल-कुमुद निसाकर उदै भयो” मानती है और जब वह भ्रांति मिटती है तब उसे सूर्य समझ कहती है—

निसि आजहु की गई हाय बिहाय ,
 पिया विनु कैसे न जीव गयो ।
 हत्त-भागिनी आँखिन कों नित के ,
 दुख-देखिबे कों फिर भोर भयो ॥

जब चन्द्रमा बादल के आ जाने से छिप जाता है तब एकाएक उसे रात्रि का पता चलता है । वह घबड़ाकर कहती है—“प्यारे देखो, जो जो तुम्हारे मिलने मे सुहावने जान पड़ते थे वही अब भयावने हो गए । हा ! जो वन आँखों से देखने मे कैसा भला दिखाता था वही अब कैसा भयंकर दिखाई पड़ता है । देखो सब कुछ है, एक तुम्ही नही है ।’

विरह दशा में यदि सहायक मिल जायँ तो अवश्य ही विरह कष्ट कुछ

कम हो जाता है, आशा बड़ी बलवती होती है, पर इस दशा में निरवलंबता ही अधिक मालूम होती है और इसी से यह कष्टकर होती है। विरहिणी कहती है—अरे मेरे नित के साथियो, कुछ तो सहाय करो।

अरे ! पौन, सुख-भौन सबै थल गौन तुम्हारो ।
 क्यों न कहै राधिका-रौन सों मौन निवारो ॥
 अहो ! भँवर, तुम श्याम रंग मोहन-व्रत धारी ।
 क्यों न कहौ वा निठुर श्याम सों दसा हमारी ॥
 अहो ! हंस, तुम राजबंस सरवर की सोभा ।
 क्यों न कहो मेरे मानस सों दुख के गोभा ॥

विरह में सुखद वस्तु भी दुःखद प्रतीत होती हैं। श्याम घन को देख घनश्याम की, इन्द्रधनुष तथा बगमाल देखकर श्री कृष्ण की वनमाला और मोतीमाला की, मोर पिक आदि के शब्द सुनकर वंशीनाद करनेवाले की छवि की और 'देखि देखि दामिनि की दुगुन दमक पीतपट छोर मेरे हिय फहरि फहरि उठै।'।

यह दुःख अनुपम है, और सब दुःख दवा करने, साँत्वना देने, धैर्य घराने से कुछ कम होते ज्ञात होते हैं पर यह इन सबसे और बढ़ता है। एक ऐसी ही विरहिणी का वर्णन कितना स्वाभाविक हुआ कि सुनने वाले का मन बरबस उसके प्रति सहानुभूति-पूर्ण होकर उमड़ पड़ता है—

छरी सी छकी सी जड़ भई सी जकी सी घर ,
 हरी सी बिकी सी सो तो सबही घरी रहै ।
 बोले तें न बोलै दृग खोलै ना हिंडौलै बैठि ,
 एकटक देखे सो खिलौना सी धरी रहै ॥
 'हरीचंद' औरौ घबरात समुझाएँ हाथ ,
 हिचकि-हिचकि रोवै जीवति मरी रहै ।
 माद आएँ सखिन रोवावै दुख कहि कहि ,
 तो जौ सुख पावै जौ जौ मुरछि परी रहै ॥

वह तभी तक कुछ आराम पाती है जब तक अपने होश में वह नहीं रहती। यही जड़ता नवीं काम दशा है। विरही-विरहिणी प्रायः अपना दुःख दूसरे स्त्री-पुरुष से नहीं कहते और कहते भी हैं तो जड़-पदार्थों से कहकर अपने जी का बोझ हलका करते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं, यह कवि ने एक पद में इस प्रकार कहलाया है—

मन की कासों पोर सुनाऊ ।

बकनो वृथा और पत खोनो सबै चवाई गाऊँ ॥

कठिन दरद कोऊ नहिं हरि है धरि है उलटो नाऊँ ।

यह तो जो जानै सोइ जानै क्यों कगि प्रगट जनाऊँ ॥

रोम रोम प्रति नैन श्रवन मन कोह धुनि रूप लखाऊँ ।

बिना सुलान-सिरोमनि री केहि हियरो कादि दिखाऊँ ॥

मरमिन सखिन वियोग दुखिन क्यों कहि निज दसा रोआऊँ ।

‘हरीचंद’ पिय मिले तो पग धरि गहि पटुका समुझाऊँ ॥

विरह प्रलाप भी विचित्र होते हैं। एक वियोगिनी इस दुःख से घबरा कर बूढ़े ब्रह्मा को दोष दे रही है कि क्या सप्तर भर में यही ब्रजमंडल मुझे जन्म देने के लिये बच रहा था और यदि जन्म दिया भी तो न मालूम किस वैर से उसने हमारा सब सुख ठगकर हमें दुःख देने को जिला रखा है—

वृजवासी वियोगिन के घर मैं जग छाँडि कै क्यों जनमाई हमैं ।

मिलिवो बड़ी दूर रह्यो ‘हरिचन्द’ दई इक नाम धराई हमैं ॥

जग के सगरे सुख सों ठगि कै सहिवे को यही है जिचाई हमैं ।

केहि वैर सां हाय दई विधिना दुख देखिवे हीं को बनाई हमैं ॥

मान प्रणय तथा ईर्ष्या दोनों ही से होता है और इसलिए इसका इस प्रकार दो भेद माना गया है। प्रणयमान का एक उदाहरण लीजिए—

पिय रुसिवे लायक होय जो रुसनो वाही सों चाहिए मान किये ।

‘हरिचन्द’ तो दास सदा बिन मोल कों बोलै सदा रख तेरो लिये ॥

रहै तेरे सुखी सों सुखी नित ही सुख तेरो ही प्यारी बिलोकि जिये ।
इतने हूँ पै जानै न क्यों तू रहै सदा पीय सों भौह तनेनी किये ॥

इसमे पति का पत्नी के प्रति सच्चा प्रेम है और उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे प्रेमिका का मान करने का अवसर मिले पर वह स्यात् प्रणयाधिक्य से मान की साध पूरी करने के लिये 'भौह-तनेनी किए' रहती है । ईर्ष्या से उत्पन्न मान होने पर उस मानवती को विरह कष्ट विशेष रूप से होता है । कार्यवश, शाप या भयवश प्रिय का प्रवास हा जाने पर प्रेमी-प्रेमिका को जो विरह कष्ट होता है उसको प्रतीति पूर्वानुराग तथा मान के विरह कष्ट से अधिक तीव्र होती है । इसी से प्रवासोद्यत नायक से प्रेमिका कहती है—

करिकै अकेली मोहिं जात प्राननाथ अत्रै कौन जानै आय कब फेर दुख हरिहौ ।
श्रीध'को न काम कछु प्यारे घनश्याम बिना आप कै न जी है हम जोपै इतै धरिहौ ॥
'हरिचन्द' साथ नाथ लेन मैं न मोहिं कहा लाभ निज जीअ मैं बताओ तो बिचरिहौ ।
देह संग लेते तो टहजहू करत जातो एहो प्रानप्यारे प्रान लाइ कहा करिहौ ॥

कैसी सुन्दर व्यंजना है । विरह मे वह जीवित रहेगी ही नहीं और इसलिये उसके प्राण निकल कर साथ ही चल जायेंगे । ऐसी अवस्था में केवल प्राणरूपी साथी को साथ ले जाने से उसे किसी भी प्रकार का लाभ न होगा । ऐसी ही एक विरहिणी ने प्राण को त्याग दिया पर प्राण ही बेचारा उस महा-गुण रूपराशि को 'शरीर' को न छोड़ सका । इस प्रकार यह पद करुण-विप्रलम्भ शृंगार रस पूर्ण हो गया है । संवाद-दाता कहता है—

हे हरि जू बिछुरे तुम्हरे नहिं धारि सकी सो कोऊ बिधि धीरहिं ।
आखिर प्रान तजे दुख सों न सम्हारि सकी वा वियोग को पीरहिं ॥
पै 'हरिचन्द' महा कलकानि कहानी सुनाऊँ कहा बलबीरहिं ।
जानि महा 'गुनरूप की रासि न प्रान तज्यो चहै वाके सरीरहिं ॥

संयोग शृङ्गार

किसी कवि की उक्ति है कि—

न विना विप्रलंभेन संभोगः पुष्टिमश्रुते ।

कपायितेहि वस्त्रादौ भूयान्रागो विवर्धते ॥

संभोग शृङ्गार की रस-पुष्टि विना वियोग के नहीं होती, जैसे रंग अच्छी प्रकार चढ़ने के लिये पहिले कपड़े पर कषाय रंग दिया जाता है। 'जो मजा हिजे यार मे' होता है, वह संभोग मे नहीं होता। वास्तव में दोनों ही का सम्बन्ध पारस्परिक है। 'मीठो भावै लोनपर अरु मीठे पर लोन' कहा ही गया है। जब तक जीववियोग के कष्ट नहीं उठा लेता तब तक उसे संयोग का लुत्फ नही मिलता। इसीलिए विप्रलंभ का वर्णन कर लेने पर संयोग शृङ्गार पर भी थोड़ा सा कुछ लिखा जाता है।

संयोग शृङ्गार का आरम्भ पूर्वानुराग में होता है पर इसमें वियोग ही का अंश अधिक होता है। केवल दूर से देख लेना, गुण सुनना, अवसर निकालकर क्षण मात्र एक दूसरे को देख मुस्कुराकर प्रेम प्रकट करना, चवाइनों (चुगुलखोरो) को फटकार आदि संयोग के अंतर्गत है। देखिए, एक दिन एकाएक पहिली बार दोनों की आँखें चार हो रही हैं—

जा दिन लाल बजावत बेनु अचानक आय कड़े मम द्वारे ।

हैं रही ठाढ़ी अटा अपने लखि कै हँसे मो तन नन्ददुलारे ॥

लाजि कै भाजि गई 'हरिचन्द' हौं भौन के भीतर भीति के मारे ।

ताही दिना तें चवाइन हूँ मिलि हाय चवाय कै चौचन्द पारे ॥

इस प्रकार नन्ददुलारे को पहिली बार एकाएक देखकर बेचारी डर कर घर के भीतर भाग गई, पर जिसके डर से भागी वे चवाइनें कब पीछा छोड़ती है। उनके लिए उतना ही बहुत था, उन्होंने चौआई बहा दी। इन चवाइनों की तारीफ सुनिए—

ब्रज में अब कौन कला बसिए विनु बात ही चौगुनों चाव करै ।

अपराध विना 'हरिचन्द जू' हाय चवाइनैं बात कुदाव करै ॥

पौन मों गौन करे हीं त्वरी परें हाय बड़ोई हियाव करै ।
 जौ सपने हूँ मिलै नन्दलाल तौ सौतुख में ये चबाव करै ॥
 प्रेमाधिक्य मे वे इन चवाइनो की उपेक्षा कर जाती हैं, वे ज्यो ज्यो इन्हे
 बदनाम करती हैं, त्यों त्यों वे अपना प्रेम बढ़ाती जाती हैं और इनकी ओर
 ध्यान भी नहीं देतीं ।

बृज के सब नाव धरैं मिलि ज्यों ज्यों बढ़ाई कै त्यों दोउ चाव करै ।
 'हरिचन्द' हूँसैं जितनो सब ही तितनो दृढ़ दोऊ निभाव करै ॥
 सुनि कै चहुँघा चरचा रिसि सों परतच्छ ये प्रेम प्रभाव करै ।
 इत दोऊ निसंक मिलैं बिहरै उत चौगुनो लोग चबाव करै ॥
 उनकी ठिठाई और बढ़ती है, प्रेम उन्हे परले दर्जे का बेहया बना देता
 है, वे इन चवाइनों से बेतरह चिढ़ जाती हैं और उन्हे ललकार कर कहती हैं—
 मिलि गाँव के नाँव धरौ सबही चहुँघा लखि चौगुनो चाव करौ ।
 सब भाँति हमैं बदनाम करौ कढ़ि कोटिन कोटि कुदाव करौ ॥
 'हरिचन्द जू' जीवन को फल पाय सुकीं अब लाख उपाव करौ ।
 हम सोवत हैं पिय अंक निसंक चवाइने आओ चबाव करौ ॥
 उद्दीपन रूप में, वर्षा ऋतु जिस प्रकार वियोग में दुःखदायी होती है
 उसी प्रकार सयोग में वह रति की उद्दीपक हो उठती है, उसके बादलो के घिर
 जाने, ठडी हवा चलने, दादुर की बोल, मयूर का नृत्य, हरे हरे खुले पत्तों का
 का हिलना तथा कदम्ब पर कोयलो का कूकना सयोगियों के हृदय को गुद-
 गुदाने लगता है ।

कूकै लगीं कोइलै कदम्बन पै बैठि फेरि धोए धोए पात हिल हिल सरसै लगे ।
 बोलै लगे दादुर मयूर लगे नाचै फेरि देखि कै संजागी जन हिय हरसै लगे ॥
 हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागी लखि 'हरिचन्द' फेर प्राण तरसै लगे ।
 फेरि भूमि भूमि बरषा की ऋतु आई फेरि बादर निगोरे सुकि सुकि बरसै लगे ।

चन्द्रावली नाटिका में विप्रलम्भ शृङ्गार ही की प्रधानता है और
 उसका उल्लेख भी हो चुका है । चन्द्रावली जी की सखियों के मेहनत से जब
 श्री कृष्ण भगवान् जोगिन का रूप धारण कर उससे मिलने आए और विरहो-

न्माद से गाते गाते बेसुध हुई चन्द्रावली को अपने अंक में लपटा लिया था, उस समय विरह का उन्माद हर्ष के उन्माद में परिणत हो गया। वह पागल के समान श्री कृष्ण के गले में लिपट कर कहती हैं—

पिय तोहि राखौंगो भुजन मैं बाँधि ।

जान न दैहैं तोहि पियारे धरौंगी हिण सेां नाधि ॥

वाहर गर लगाइ राखौंगी अन्तर करौंगी समाधि ।

‘हरीचन्द’ छूटन नहिं पैहैं लाल चतुरई साधि ॥

वह घबड़ाकर कहती है, सोचती है कि अब पिय को ऐसी कौन जगह छिपा लूँ कि वह कहीं भाग ही न जा सके। आँखों की पुतली में रख ले या हृदय के भीतर रखें, यह उसे समझाई ही नहीं देता। तब वह प्रिय से प्रार्थना करती है कि तुम्हीं अब हमें छोड़ कर मत जाओ और जहाँ चाहो हमारे हृदय या आँखों में निवास करो। यहाँ तक क्षणमात्र के लिए भी हमारी आँखों से दूर न हो। अतः मैं वह कहती हूँ—

पिय तोहि कैसे बस करि राखौं ?

तुव दग मैं तुव हिय मैं निज हियरो केहि विधि नाखौं ॥

कहा करौ का जनन विचारौं बिनती केहि विधि भाखौं ।

‘हरीचन्द’ प्यासी जनमन की अधर सुधा किमि चाखौं ॥

इस सब दर्पोन्माद में किल किंचित हाव पूर्णतया विकसित हो गया है। इसमें विह्वत हाव भी मिला है क्योंकि आगे श्री चन्द्रावली जी कहती हैं कि ‘जब कभी पाऊँगी तो यह पूछूँगी वह पूछूँगी पर आज सामने कुछ नहीं पूछा जाता ।’

नायिकाओं के अट्टाईस सात्विक अलंकार कहे गए हैं, जिनमें भाव, हाव और हेला अगज कहलाते हैं। शोभा, कांति, दीप्ति, साधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य और धैर्य अयत्नज इस कारण कहे जाते हैं कि ये आपसे-आप उत्पन्न होते हैं। लीला, विलास, विच्छिति, विव्वोक, किलकिंचित, विभ्रम, ललित, मद, विह्वत, तपन, मौग्ध्य, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित और केलि ये यत्नज अर्थात् साध्य हैं। भाव तो वही है जो प्रत्येक प्राणी में स्थायी रूप से

होते हुए भी अवस्था या अवसर प्राप्त होने पर उद्बुद्ध हो जाता है। शृङ्गार रस में यह भाव रति है। यह काम जब विकार नेत्र-चालनादि से व्यक्त हो जाता है तब उसे हाव कहते हैं। जब यह व्यंजना अधिक स्पष्ट हो जाती है तब हेला कहलाती है।

सिसुताई अजौं न गई तन ते तउ जोवन जोति बटोरै लगी ।

सुनि कै चरचा 'हरिचन्द' की कान कछुक दै भौह मरोरै लगी ॥

बचि सासु जेठानिन सों पिय तें दुरि धूँघट में दग जोरै लगी ।

दुलही उलही सब अंगन तें दिन द्वै तें पियूप निचोरै लगी ॥

इस छन्द में नायिका में यौवन का आगम हो चला है, रतिभाव उद्बुद्ध हो गया है और प्रिय की चर्चा सुनकर भौह मरोरना आदि हाव भी व्यक्त हो रहा है। शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य सभी के होते धैर्य के साथ आँखें बचा बचा कर पति से आँखें लड़ाना प्रगल्भता प्रगट करती है।

नव कुंजन बैठे पिया नँदलाल जू जानत हैं सब कोक-कला ।

दिन में तहाँ दूती भुराय कै लाई महाछविधाम नई अवला ॥

जब धाय गही 'हरिचंद' पिया तब बोली अजू तुम मोहि छला ।

मोहि जान लगै बलि पाँव परों दिन हीं हहा ऐसी न कीजै लला ॥

इस पद में कुट्टमित हाव स्पष्ट है। पति के नायिका को अंक में लेने पर वह हाथ छुड़ाकर घबराती हुई सी नहीं नहीं कहने लगती है। अब दो-एक नायिका-भेद के भी उदाहरण दे दिए जाते हैं।

वासकसज्जा नायिका उसे कहते हैं जो पति से मिलने के लिए शृङ्गार करके तथा अन्य सब तैयारी करके दुरुस्त बैठी हो। भारतेन्दु जी ने ऐसी ही एक नायिका का एक सवैया में अनूठा वर्णन किया है। प्रेमाधिक्य तथा औत्सुक्य ने मिलकर उस अकेली नायिका का एकाकिनीपन मिटा दिया और उसे प्रीतम के वहाँ होने का ऐसा भान होने लगा कि वह अकेली ही केलि करने लगी। वह मानों पति के मिलने का स्वप्न देख रही थी और पति के आने पर उसे अपने अकेले होने का ज्ञान हुआ, जिससे वह अति लज्जित हुई।

आजु सिंगार कै केलि के मन्दिर वैठी न साथ मैं कोऊ सहेली ।
 धाय कै चूमै कबौं प्रतिविब कबौं कहै आपुहि प्रेम पहेली ॥
 अंक में आपुने आपै लगै 'हरिचन्द जू' सी करै आपु नवेली ।
 प्रीतम के सुख मैं पियमै भई आपु तैं लाल के जान्यौ अकेली ॥

कितना सहज स्वाभाविक वर्णन है और वैसी ही सरल भाषा भी है । प्रीतम से मिलने के लिए जानेवाली नायिका को अभिसार करना कहते हैं । एक नायिका ने इस प्रकार के बहुत प्रयास किए पर उसे दर्शन के लाले ही पड़े रहे । वह कहती है—

काले परे कोस चलि चलि थक गए पाय सुख के कसाले परे ताले परे नस के ।
 रोय रोय नैनन में हाले परे जाले परे मदन के पाले परे प्रान पर बस के ॥
 'हरीचंद' अंग हू हवाले परे रोगन के सोगन के भाले परे तन बल खसके ।
 पगन में छाले परे वाँधिवे को नाले परे तऊ लाल लाले परे रावरे-दरस के ॥

चलते चलते उसके पैर ऐसे थक गए कि मानों उनमें ताले पड़ गए । महाविरा है कि बहुत थक जाने पर जब कोई चल नहीं सकता तब कहता है कि पैरों में ताला पड़ गया है । वास्तव में नसों के अकर्मण्य हो जाने पर पैर आगे नहीं पड़ते तभी ऐसे कहा जाता है; इसीलिए कवि ने नस के ताले कहा है । नेत्रों की रोते रोते बुरी दशा है, शरीर भी रोगों तथा शोक के भालों से जर्जरित हो गया है । सुकुमार स्त्रियों के लिए न करने योग्य नाले तक लाँघने पड़े तब भी 'रावरे दरस के लाले परे' ही रहे । महाविरों की अच्छी छटा है ।

खंडिता नायिका उसे कहते हैं जिसका पति रात्रि भर कहीं अन्य के यहाँ व्यतीत कर सुवह लौट आवे । निम्न-लिखित पद ऐसी ही एक नायिका की उक्ति है जो क्रोध को विलकुल हृदयस्थ करके पति का उसी प्रकार स्वागत कर रही है, जिस प्रकार दिन भर के भूले-भटके का संध्या को घर पहुँचने पर होता है । यह नायिका प्रौढ़ा धीरा है । वह पति के इस प्रकार लौटने पर अपना सौभाग्य सराह रही है कि आज सवेरे ही उनके दर्शन हो गए । सबसे

बढ़कर व्यंग्य वह यह करती है कि भला हमें भूने तो नहीं यही सब कुछ है। सुनिए वह कहती है—

आजु मेरे भोरहि जागे भाग ।

आए पिया तिया रस भीने खेलत द्यग जुग फाग ॥

भलौ हमैं भूले तौ नाही राख्यौ जिय अनुराग ।

साँस भोर एक ही हमारैं तुव आवन को लाग ॥

मङ्गल भयो भोर मुख निरखत मिटे सकल निसि-दाग ।

‘हरीचन्द’ आओ गर लागो साँचो करौ सोहाग ॥

कितनी मधुर तथा सरल चुटकियाँ हैं जो हृदय तिलमिला डालती हैं। ऐसे व्यंग्य वाणों को पूरा ‘शठ या धृष्ट’ नायक ही सहन कर सकता है।

हिन्दी-साहित्य में भारतेन्दु जी का स्थान

जो कुछ आलोचना लिखी गई है, वह अनेक भावों से भावित तथा अनेक विषयों पर लिखित शताधिक रचनाओं के लिए पर्याप्त नहीं है और इसके लिये एक से अधिक विद्वानों को लेखनी उठानी पड़ेगी। इतने पर भी जो कुछ लिखा गया है उससे इनकी विशेषताओं का बहुत कुछ स्पष्टीकरण हो गया है। यह केवल कवि ही नहीं, गद्य के सुलेखक भी थे। यह राज-भक्त तथा देशभक्त दोनों ही थे। प्राचीन गौरव का पूर्ण आदर करते हुए यह नवीन विचारों के प्रति भी पूर्णतया उदार थे। इस प्राचीनता तथा नवीनता के सुन्दर सामंजस्य के साथ इनकी सबसे बड़ी विशेषता आधुनिक हिन्दी को जन्म देकर, उसे भारत की राष्ट्र भाषा बनाने का सफल प्रयास है और इसी से वे आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता कहे गये हैं। इनके समय के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों तथा सुलेखकों ने इनको जिस सम्मान की दृष्टि से देखा था, वह अभूतपूर्व है और इसका उल्लेख कई स्थलों पर हुआ भी है।

पं० श्रद्धाराम जी हिन्दी के सच्चे हितैषी और सिद्धहस्त लेखक थे। इनकी सं० १९३८ में मृत्यु हुई थी। जिस दिन उनका देहान्त हुआ था उस दिन इनके मुँह से सहसा निकला कि ‘भारत में भाषा के लेखक दो हैं—एक

काशी में दूसरा पंजाब में। परन्तु आज एक ही रह जायगा।' कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय हरिश्चन्द्र से था।"

जिस प्रकार भारतेन्दु जी ने हिन्दी गद्य को सुव्यवस्थित चलता मधुर रूप देकर उसमें नाटक, इतिहास, पुरावृत्त, धर्म, आख्यान निबन्धादि अनेक काव्य विषयक ग्रंथों की रचना की थी उसी प्रकार हिन्दी पद्य साहित्य की भाषा को परिमार्जित कर उसमें नवीनयुग के अनुकूल कविता धारा को प्रवाहित कर हिन्दी साहित्य को अपना चिरञ्जयी कर रखा है। इनकी प्रतिभा अपनी मातृभूमि तथा मातृभाषा की त्रुटियों के निरीक्षण में जितनी पटु थी उतनी ही उसके उत्थान के प्रयत्न में भी दत्तचित्त रही थी। भारत की चिन्ता में व्यग्र तथा हिन्दी के प्रेम के मतवाले भारतेन्दु जी ने अपना तन, मन, धन सब कुछ इन्हीं दो पर निछावर कर दिया। हिन्दी-साहित्य में इनका स्थान बहुत ऊँचा है और अमर है।

*“जब लौं ये जागृत रहै जग में हरि औ चंद ।
तब लौं तुव कीरतिलता फूलहु श्री हरिचंद ।”

परिशिष्ट अ

पत्र-व्यवहार

सुप्रसिद्ध साहित्य-सेवियों के पत्र-व्यवहार अन्य साहित्य-जगत में बड़े आदर से देखे जाते हैं पर हिन्दी के दुर्भाग्य से इसमें इस तरह के संग्रह बहुत ही कम हैं। हिन्दी के अत्येक पाठक का यह धर्म होना चाहिए कि यदि इस प्रकार के पत्र उनके पास हों तो वे उन्हें पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कर दिया करें। यहाँ कुछ चुने हुए पत्र, जो या तो भारतेन्दु जी के लिखे हैं या उनको लिखे गए हैं, पाठको के मनोरंजनार्थ प्रकाशित कर दिये जाते हैं।

१—श्रीगोस्वामी राधाचरण जी को लिखित

अनेक कोटि साष्टाङ्ग प्रणाम—

आपका कृपापत्र मिला, चन्द्रिका सेवा में भेजी है स्वीकृत हो। आप अनेक ग्रंथों का अनुवाद करते हैं तो चैतन्य चन्द्रोदय का अनुवाद क्यों नहीं करते? बड़ा प्रेममय नाटक है इसके छन्द मात्र मैं दत्तचित्त होकर बना दूँगा, उत्साह कीजिए, जातीय गीत भी कुछ बने और छपें, मैं बहुत उद्योग करता हूँ किन्तु किसी ने न बनाकर भेजे।

गुरु

आपका
हरिश्चन्द्र

२—श्रीगोस्वामी राधाचरण जी को लिखा गया

श्रीकृष्ण

हम लोगों का बड़ा दिन

अनेक कोटि साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणामानन्तर निवेदयति—

महात्माओं ने जो पद बनाए हैं उनमें प्रियापीतम का जो संवाद है वा अन्य सखियों की उक्ति है उन्हीं सबों के यथास्थान नियोजन से एक रूपक बनने तो बहुत ही चमत्कार हो अर्थात् नाटक की और जितनी बातें हैं, अमुक आया गया इत्यादि अंक दृश्य इत्यादि मात्र तो अपनी सृष्टि रहै किन्तु संवाद मात्र उन्हीं प्रवीनों के पदों की योजना से हों। जहाँ कहीं पूरा पद रहै वहाँ पूरा कहीं आधा चौथाई एक टुकड़ा जितना आवश्यक हो उतना मात्र उनमें से ले लिया जाय। यह भी यों ही कि एक बेर पदों में से चुनकर अत्यंत चोखे चोखे जो हों वा जिनमें कोई एक टुकड़ा भी अपूर्व हो वह चिन्हित रहै फिर यथास्थान उनकी नियोजना हो। ऐसा ही गीतगोविन्द से एक संस्कृत में हो, बहुत ही उत्तम ग्रंथ होगा। आप परिश्रम करें तो हो मैं तो ऐसा निर्बल हो गया हूँ कि बरसों में सुधरूँगा।

दासानुदास

हरिश्चन्द्र

३—उक्त ही सज्जन को लिखा हुआ

श्री हरिः ।

अनेक कोटि साष्टाङ्ग दण्डवत्

प्रणामानन्तरं निवेदनम्—

आज के भारतेन्दु में प्रथम पत्र आर्यसमाजियों के विषय में जो है उसमें मेरी बुद्धि से यह बात आती है कि ब्राह्मणों को एक ही बेर छोड़ देने की अपेक्षा उनको सुधारना उत्तम है—

भारतेन्दु टाइप मे छपै तो बड़ी उत्तम बात है। २४ पेज में टाइटिल पेज के २५० कापी छपाई कागज समेत २५) ६० मे उत्तम छप सकता है, यहाँ छपे तो मै प्रूफ आदि भी शोध दिया करूँ।

मै इन दिनों महात्माओं के चित्रों की फोटोग्राफ में कापी करके संग्रह कर रहा हूँ, नागरीदास, श्री महाप्रभु आदि कई चित्र तो हैं, कुछ वहाँ भी मिलेगे ?

आगरे के उपद्रव का वृत्तांत मैने विलायत कई मित्रों को लिखा है उसके प्रमाण के हेतु कई समाचार पत्र भी भेजे हैं। इस मास का भेजूँगा इससे इसकी एक कापी और दीजिए।

अब की इसमे समालोचना छोटी छोटी बहुत सुन्दर हैं। शृंगारलतिका पर नकछेदी जी ने रजिस्टरी भी करा ली। यह मजा देखिए राजा मानसिंह के मानों आप पोष्यपुत्र है। ललिता ना० चन्द्रावली की छाया पर बनी है, अस्तु, बिचारे वैष्णवमत का न भेद जानें न आप वैष्णव, पर वैष्णव पत्रिका के संपादक तो हैं—नाटको मे गँवारी बैसवारे की मेरी बुद्धि में उत्तम होगी क्योंकि इस प्रदेश में दूर तक बोली जाती है।

दासानुदास

प्रतिपदा—

हरिश्चन्द्र

४—उक्त सज्जन ही को पत्र

अनेक कौटि साष्टाङ्ग दंडवत् प्रणामानन्तर निवेदयति—

निस्संदेह आप मुझसे व्यर्थ रुष्ट हुए, इस वर्ष के पहिले ही नम्बर में आप का प्रतिवाद छपा है, भला इसमें मेरा क्या दोष है। जिसने आप की निन्दा किया है उसको दो हजार गाली आप दीजिए देखिए छपता है कि नहीं। चन्द्रिका भेजने का प्रबन्ध आदि सब अब पं० गोपीनाथ जी के जिम्मे है। मैं उनसे पूछूँगा कि क्यों नहीं गई और भिजवा दूँगा। संसार में भले-दुरे सब प्रकार के लोग हैं कोई किसी की निन्दा, कोई स्तुति करता है। हम तो केवल

तटस्थ हैं, हमारे चित्त में कल्मष तो तब आप को प्रतीत करना था जब आप का प्रतिवाद न छपता ।

श्री वन से हमें कई पुस्तकें मँगाना है आप कृपापूर्वक उसका प्रबन्ध कर दें तो हम नामादिक लिख भेजें । और सर्व्व कुशल है ।

शनि

आप का दासानुदास

हरिश्चन्द्र

५—उक्त सज्जन को पत्र

शतकोटि दण्डवत् प्रणामानन्तरं निवेदयति—

बाबू राजेन्द्रलाल मित्र ने एक प्रबन्ध में इस बात का खंडन किया है कि महाप्रभु जी माध्वमतावलम्बी थे इसमें प्रमाण, उन्होंने यह आज्ञा किया था कि “यत श्रीधर विरुद्धं तन्नामास्माकमादरणीयम् ।” वह कहते हैं कि माध्वमत के ग्रंथ मात्र ही श्रीधर के विरुद्ध हैं । इसका क्या उत्तर है ? वैष्णव दीक्षा आप ने कब और किससे लिया था ? मैं इन दिनों महाप्रभु जी के चरित्र का नाटक लिखता हूँ उसी के हेतु इन बातों के जानने की जल्दी है ।

दासानुदास

हरिश्चन्द्र

६—श्रीराधा कृष्णदास जी उर्फ वच्चा बाबू को लिखा गया

“अज्ञीज्ञ अज्ञ जान मन^१ वच्चा बहादुर ।
मेरे दिल के सदक^२ के वेवहा^३ दुर^४ ॥
बहुत ही जल्द भेजो नीलदेवी ।
इसी दम चाहिए इक उसकी कापी ॥
वहाँ पर कृप्या खैरियत से पहुँचा ।
तुम इसका हाल भी चट हमको लिखना ॥

१. मेरी जान से अधिक प्रिय । २. सीप । ३. अमूल्य । ४. मोती ।

कोई था माधवी के याँ से आया ।
य भी दर्याप्रत कर इर्काम करना^६ ॥
मँगाना चाहिए चन्द्रावली कल ।
बिरज, बी०, दास के हाँ से मुबइल ॥
हरिश्चन्द्र ।”

७—भारतेन्दुजी का राजा शिवप्रसाद को लिखा गया पत्र

श्रीयुत राजा शिवप्रसाद साहब सी० एस० आई० को मैंने एक बेर एक रुक्का लिखा था । (उन्होंने अपना फोटोग्राफ देने कहा था वह माँगने के हेतु)

‘इसी शैर के मुताबिक जबाब दीजिएगा ।

कमाल शौक्रे मुलाक़ात उसने लिखा है ।

चलूँ मैं आप ही क़ासिद जबाब के बदले ॥

उन्होंने लिफाफे मे अपना फोटोग्राफ रख दिया और मेरे रुक्के को थों काट दिया ।

‘इसी शैर के मुताबिक जबाब दीजिएगा, दिया है,

कमाल शौक्रे मुलाक़ात उसने लिखा है ।

चला मैं आप ही क़ासिद जबाब के बदले ॥’

८. पं० विष्णुलाल मोहनलाल पंड्या जी को यह पत्र उदयपुर पहुँचने के पहिले लिखा गया था ।

श्री चरण युगल सरसीरुहेषु निवेदनम् ।

कहौ वृत्त सब आजु को, पंड्या जू समभाय ।

जल प्रयान सह श्री चरण, दरसन हेतु उपाय ॥ १ ॥

कवि स्यामल स्यामल करत, कच स्यामल उद्यान ।

मोहन राजसभा रहे, काज करन के ध्यान ॥ २ ॥

मैं बिनु तिनके श्रीसभा, हूँ इकलो हत ज्ञान ।
सकित ही रहिहौं सतत, सब विधि इतहि अज्ञान ॥ ३ ॥
तासों उचित विचारि जौ, आयसु दीजै जेहि ।
मोहन मोहि न छाड़हीं, पद जोहन लौं मोह ॥ ४ ॥

९. बा० रामदीनसिंह को यह पत्र लिखा था ।

प्रियवरेषु

अब की बकरीद मे भारतवर्ष के प्रायः अनेक नगरों में मुसलमानों ने प्रकाश रूप से जो गोबध किया है उससे हिन्दुओं की सब प्रकार से जो मानहानि हुई है वह अकथनीय है। पालिसी-पर-तन्त्र गवर्नमेट पर हिन्दुओं की अकिंचित्करता और मुसलमानों की उग्रता भली भाँति विदित है। यही कारण है कि जान बूझ कर भी वह कुछ नहीं बोलती, किन्तु हम लोगों को जो भारतवर्ष मे हिन्दुओं के ही वीर्य से उत्पन्न हैं ऐसे अवसर पर गवर्नमेन्ट के कान खोलने का उपाय अवश्य करणीय है। इस हेतु आप से इस पत्र द्वारा निवेदन है कि जहाँ तक हो सके इस विषय मे प्रयत्न कीजिए। भागलपुर, मिर्जापुर, काशी इत्यादि कई स्थानों में प्रकाशरूप से केवल हमारा जी दुःखाने के दौंका ठोकी यह अत्याचार हुआ है जो किसी किसी समाचार पत्र में प्रकाश भी हुआ है। आप भी अपने पत्र मे इस विषय का भलीभाँति आन्दोलन कीजिएगा। सब पत्र एक साथ केलाहल करेगे तब काम चलेगा। हिन्दी, उर्दू, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी सब भाषा के पत्रों में जिनके संपादक हिन्दू हों एक वेर बड़े धूम से इसका आन्दोलन होना अवश्य है, आशा है कि अपने शक्य भर आप इस विषय में कोई बात उठा न रक्खेंगे।

भवदीय

हरिश्चन्द्र

१०. पं० लोकनाथ जी का पत्र

श्री वृजराज समाज कौ, तुम सुन्दर सिरताज ।

दीजै टिकट नेवाज करि, नाथ हाथ हित काज ॥

चतुर्वेद्युपाह्वय श्री लोकनाथ शर्मणो विज्ञप्ति पत्रमेतत् ॥

शुभम्

२२ जनवरी स० १८७४

११. श्री शालिग्रामदास जी का पत्र

श्री जानकीजानिर्जयति

श्री तदीय समाज सभापति सभासद समुदायेषु समुचित सम्मान पुरस्सर निवेदनमिदम् । परम पवित्र हृदयाह्लाददायक पत्र देखि महामहोत्साह प्रकट भया । आप लोगों के धन्यवाद देने मे असमर्थ हूँ । यदि सहस्र मुख होता तौ तो कुछेक धन्यवाद दे सक्ता । धन्य वह करुणा-वरुणायतन परमेश्वर है कि मेरे मनोभिलाष कों परिपूरण किया है । महाशय ! बहुत दिन से उत्कण्ठा थी कि कोई ऐसा अनन्य भक्त होवै । प्रभु के अनन्य पद्धति को शोधन करि अनंत जीवों की व्यथा विध्वंस करै । इसी चिन्ता में मग्न था कि दो मास हुए एक हमारे परम मित्र अनन्योपासक श्रीयुक्त जवाहिर लाल जी ने अत्युद्योग से सभा बनाने में नियुक्त भये । और शीघ्र ही सकल श्री वैष्णव महाशयों को एकत्र किया । तब मैंने सब महानुभावों से विज्ञापन किया कि हम लोगों को योग्य है कि श्री मन्नारायण का संकीर्तन स्मरण सतत किया करै और प्रति सप्ताह में एक दिन एकत्र होके गोष्ठी किया करै । इस सप्ताह को सब महानुभावों ने सौत्साह स्वीकार किया और उक्त महाशय को अत्यंत धन्यवाद दिया । तिसी समय यह नियत भया कि प्रति गुरुवार को सात बजे से प्रारम्भ हो नव बजे तक यह सभा लगा करैगी । निरंतर श्री मन्नारायण की अनुवृत्ति किया करैगे । और श्रीवैष्णव सभा इसका नाम धरा गया तब से प्रति गुरुवार को यह सभा लगा करती है । और श्री महाराज

रत्नहरिदास महानुभाव इस सभा के सभापति हैं । तथा श्री संप्रदाय के विविध ग्रंथों की इसमें चर्चा हुआ करती है । अब आपका परमोत्साह संपादक पत्र पाय के अत्युल्लास प्राप्त भया । और अब आनन्दवन का काशी नाम सार्थक प्रतीत हुआ : और यह भी निश्चित किया कि अब तक तो रस बिगड़ा था परंच अब बनारस नाम भी वाराणसी का अन्वर्थक भया । तथा अब से तदीय समाज की वृद्धि परमेश्वर से याचना किया करैगे और आप कृपा करि निज डोर से तदीय समाज मे जो प्रश्न वा उत्तर वा सिद्धान्त हुआ करै । सो अवश्यमेव भेजि के इस शाखा को भी सिंचन किया करिये । क्योंकि आज कल के समय में अनन्त विघ्न विस्तरित हो रहे हैं प्रति दिन सिंचन से सदा हरित बना रहैगा और दुर्जन अजा भी आश्रित हो जाँयगे ।

इत्यलम्बहुना

संवत् १९३० पौष शुक्ल १३

विज्ञवरेषु

शालिग्राम दास

श्री वैष्णव सभा कार्य्य साधक

अमृतसर

परिशिष्ट (आ)

भारतेन्दु के विषय में कुछ सम्मतियाँ

(श्रीयुत पं० बन्नीनारायण चौधुरी 'प्रेमघन' के तृतीय साहित्य-सम्मेलन के भाषण से उद्धृत)

एक दिन मैं अपने अभिन्न-हृदय माननीय मित्र भारतेन्दु से कह उठा कि मैंने सब की लिखी हिन्दी पढ़ी, परन्तु जो स्वाद मुझे राजा साहिव की लिखावट में मिलता है, दूसरों की में कदापि नहीं। वह मुसकुरा कर बोले, कि 'क्या कहे, वैसी लच्छेदार इबारत कोई लिखी नहीं सकता, पसन्द कैसे आवै? सचमुच उनके कलम में जादू का असर है।' अवश्य ही वह सरल उर्दू शब्दों के मेल को बुरा नहीं समझते थे और अप्रचलित संस्कृत शब्दों के भरने के विरोधी थे। वह केवल ठेठ बोलचाल की हिन्दी के पक्षपाती थे। एक दिन भारतेन्दु के साथ मैं उनके घर पर गया, तो और बातों के साथ हिन्दी की लिखावट की बात चली, तो कहा कि 'आप लोग क्या पाणिनि का जमाना लाना चाहते हैं? इबारत वही अच्छी कही जायगी कि जो आम फहम और खास पसन्द हो।' बाबू साहब ने कहा कि 'हुजूर क्या किया जाय, अरबी फारसी के अलफाज के मेल से तो उर्दू हिन्दी में कुछ भेद नहीं रह जाता।' कहा कि 'भेद तो दर अस्त हई नहीं है, लोग दोनों तरफ से खींच तान करके भेद बढ़ा रहे हैं।'

पिछले दिनों राजा साहेब अपनी भाषा में उर्दूपन अधिक ला चले थे, जिसके कारण शायद उनके अफसर डाइरेक्टर शिक्षाविभाग हुए हों, अथवा सरकारी कचहरियों में उर्दू के स्थान पर हिन्दी के प्रचार के अर्थ बहुत उद्योग करके भी हताश हो, कदाचित् उन्होंने यह सिद्धान्त कर लिया था कि, अब हिन्दी को ही उर्दू बना चलो। क्योंकि रोजभाषा से प्रजा को परिचित कराना अति ही आवश्यक है। जो हो, उन्होंने पाठ्य पुस्तकों में अपनी भाषा की शैली बदल दी। तृतीयभाग इतिहास तिमिरनाशक के अन्त की भाषा खरी, वरञ्च उच्च कोटि की उर्दू कही जा सकती है, जिसे कम लियाकत के मुद्दरिस तो प्रायः समझ भी नहीं सकते, पढ़ाते क्या ? वैसा ही उन्होंने अपनी भाषा के लिए एक व्याकरण भी बनाया, जिसमें फारसी और अरबी के नियम और गर्दान लिखकर अवश्य ही हमारी भाषा में एक अच्छी वस्तु छोड़ गए, पर उस काम के लिए उपयुक्त नहीं, जिसके लिए उनका श्रम था। यह तो अनहोनी बात थी कि 'दूसरे वर्णों द्वारा दूसरी दूसरी भाषाओं का सम्यक् ज्ञान हो सके। कविवचनसुधा में बहुत दिनों तक उसकी समालोचना हुई थी। फजीहत राय के नाम से बाबू हरिश्चन्द्र लिखते थे। उस लेखमाला का एक शीर्षक ही था कि—“भला यह व्याकरण पढ़ावेगा कौन ?”

हमारी गवर्नमेन्ट यह चाहती है कि एक ही भाषा दो भिन्न भिन्न अक्षरों में लिखी जाय, परन्तु यह कब सम्भव है। परिणाम यह होता है कि हिन्दी उर्दू बनती जाती है। क्योंकि फारसी अक्षरों में हिन्दी के शब्द तो पढ़े ही नहीं जाते, इसी से हिन्दी का गला घोंटा जाता है। निदान जब तक सरकार इस भूल को न सुधारेगी, प्रजा की दशा न सुधरेगी और न हमारी भाषा का उद्धार होगा।

बाबू हरिश्चन्द्र आरम्भ में उन्हीं के अनुकरणकर्ता हुए। वे राजा साहिव को अपना गुरु मानते थे। कुछ दिनों दोनों की भाषाएँ एक सी थीं। परन्तु पीछे दोनों की शैलियाँ भिन्न भिन्न हो गयीं। वे विदेशी शब्दों पर भुके और ये स्वदेशी शब्दों पर। वे कदाचित् गवर्नमेंट की इच्छा से लाचार थे, क्योंकि तबसे आज तक पाठ्य पुस्तकों की भाषा उर्दू मिली ही देखी गई।

बहुतेरों ने इधर नई नई पुस्तकें लिखीं, परन्तु भाषा उनकी निरी उर्दू ही है। यों ही लेख भी सर्वथा सूखे और निर्जीव से थे जिनमें राजा साहिब की उर्दू मिली भाषा की शतांश भी रोचकता और पुष्टता नहीं। कुछ अन्य लोग भी इसी भ्रम में पड़ कर अपनी भाषा में उर्दूपन ला चले। कदाचित् उन्होंने समझा कि, पारसी अरबी शब्द भर देने से ही इबारात दिलचस्प हो जायगी। परन्तु सिर्फ इसी एक बात से उस नबात की मिठास कब आ सकती थी।

अस्तु, राजा साहिब केवल पाठ्य पुस्तकों को ही लिख गए और वे केवल अच्छा गद्य ही लिख सकते थे, परन्तु बाबू हरिश्चन्द्र ने साहित्य का कोई भाग ही अछूता न छोड़ा और सब में अपनी समान योग्यता दिखला कर सभी रुचि के लोगो के मन में स्थान किया। न स्वयं उन्होने ही लिखा, परन्तु औरों से भी लिखवाया एवं लोगों में लिखने पढ़ने की रुचि फैलाई। लिखने में वे स्वयं इतने अभ्यस्त और सिद्धहस्त थे कि, यदि यह कहे कि, यावज्जीवन उनकी लेखनी चलती ही रही, तौ भी अयुक्त न होगा। वास्तव में वह सदैव लिखने ही पढ़ने में व्यस्त रहते थे, और विचित्रता तो यह कि सैकड़ों मनुष्यों में बैठे भाँति भाँति का गप्पाष्टक होता, तौ भी उनकी लेखनी चली ही जाती था। इसी से वे इतनी थोड़ी अवस्था में इतने ग्रंथ लिख सके। चार सामयिक पत्रों का सम्पादन भी करते थे; अर्थात् कविवचन सुधा, हरिश्चन्द्र मैगज़ीन वा हरिश्चन्द्र चन्द्रिका, बालाबोधिनी (जो बरस ही ६ महीने चली) और भगवद्भक्ति तोषिणी (यह दोई चार संख्या छप सकी)। सब में प्रधान कवि-वचन सुधा थी, जो प्रथम मासिक, फिर साप्ताहिक हुई और जो उनकी ख्याति की प्रधान सामग्री थी। उससे आगे नागरी में दो एक पत्र और भी छपते थे, परन्तु वह गिनती के योग्य नहीं थे। अतः प्रथम पत्र यही कहा जा सकता है। पहिले उसमें केवल कवित्तों का संग्रह, फिर काल के सब प्रकार के ग्रंथ, फिर समाचार आदि छपने लगे। उस समय जितने अच्छे लेखक थे सभी उसमें लिखते थे, जिनमें से कई पीछे से पत्र सम्पादक होगए और अपने अपने नए पत्र निकाल चले।

बाबू हरिश्चन्द्र न केवल अनेक प्रकार के गद्य ही लिख सकते थे, किन्तु कविता भी सभी चाल की करते थे। उनके पिता उनसे भी अच्छे कवि थे, किन्तु केवल पुरानी चाल की ब्रजभाषा के ही। उनके रचित ४० ग्रंथ हैं, जिनमें उनकी प्रौढ़ कवित्व शक्ति का परिचय मिलता है। बाबू हरिश्चन्द्र सभी कुछ लिख सकते थे। परन्तु समाचार पत्र सम्पादक वैसा कोई फिर आज तक न हो सका। हँसी दिल्ली के मजूमन तो वह ऐसा लिखते थे, कि कैसा कुछ। उन्होंने हमारी भाषा में सामयिक लेख और कविता की चाल चलाई, स्वदेशानुराग उत्पन्न किया और जातीयता का बीजारोपण किया। इस अंश में वे सर्वथा अनूठे हुए।

राजा साहिब यदि कनसर्वेतिव थे, तो बाबू साहिब लिबरल। वे यदि सदैव राजा के पक्षपाती थे तो ये प्रजा के। वे यदि अपनी उन्नति को प्रधान समझते, तो ये देश और जाति की उन्नति को। इसी से उनसे और इनसे क्रमशः वैमनस्य भी बढ़ा। उन्होंने इनकी वृद्धि में बड़ी हानि की और इन्होंने उन्हें देश की आँखों से गिरा दिया। अन्त तक इन दोनों का वैर बढ़ता ही गया और मेल न हुआ।

जो हो, ये दोनों काशीवासी गुरु और चेले हमारे समान सम्मान के भाजन हैं, क्योंकि हमारी वर्तमान भाषा के यही दो प्रधान संस्कारक वा परिपोषक हैं। इस देश रूपी खेत में जो हमारी भाषा का बीज छिप रहा था, उसे लल्लूलाल रूपी वर्षा ऋतु ने अंकुरित किया, तो शिवप्रसाद शारद ने उसे बेल बूटे का आकार दिया और हरिश्चन्द्र बसन्त ने उसमें फूल फल दिखलाये अथवा यों कहे, कि लल्लूलाल उसके जन्मदाता तो राजा साहिब उसके पालन कर्ता हैं, क्योंकि उन्हीं ने उस भाषा को ऐसा रूप दिया कि जिससे वह उर्दू से टकर लेने में समर्थ हुई, जिसे पढ़ कर लोग लेख का आनन्द पाने लगे और यह समझ सके कि उर्दू को छोड़ हिन्दी में भी लेख लालित्य दिखलाया जा सकता है। बाबू साहिब मानो उसके शिक्षक थे कि, जो उसे अनेक गुणों से युक्त कर लोगों को दिखला सके, अथवा राजा

साहिब की जगाईं भूख को वह भाँति भाँति की सामग्री देकर वाचक वृन्द को तृप्त कर सके ।

काशी हमारा सदा का विद्यापीठ है । वहाँ से यदि संस्कृत की धारा बहती थी, तो उसकी बच्ची हमारी भाषा की सोती का भी वहाँ से निकलना परम स्वाभाविक है । भारतेन्दु के अस्त होने पर जो वहाँ काशी नागरी प्रचारिणी सभा खुली, मानों वह आज भी उनकी प्रतिनिधि बनी बहुत कुछ उनके किये की लाज रख रही है । उसने कई काम ऐसे किये कि, जो हमारी भाषा के हितैषियों के धैर्य के हेतु हैं । विशेषतः पृथ्वीराज रासो का प्रकाशित करना, हिन्दी कोष का निर्माण, प्राचीन भाषा ग्रंथों की खोज और उनमें कुछ का उद्धार करना । सम्मेलन-स्थापन का सुयश भी उसी को मिला और यह भी उसके बड़े कामों में है । आज ईश्वर की कृपा से यह जिसका तृतीय अधिवेशन है, मानों काशी क्षेत्र से जो हमारी भाषा का नया अंकुर उगा था, वह क्रमशः इतना बड़ा वृक्ष हो गया कि जिसकी छाया आज भारत की सीमाओं तक पहुँची है । एक दिन वह था कि जब उसके एकमेव हितैषी राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द का किसी अंग्रेजी कवि के कथनानुसार—

जुगजुगात छोटे से तारे,
अचरज मोहि अहै तू क्या रे ।
धरनी सों अति ऊपर ऐसे,
चमकत नभ में हीरक जैसे ॥

काशी आकाश से कुछ प्रकाश फैल चला था कि, साथ ही उसके उस का अनुयायी भारतेन्दु भी उगा एव अपनी द्वितीया की सूक्ष्म कला की मन्द ज्योत्स्ना उद्योग के संग साहित्य सुधा सिञ्चन में प्रवृत्त हुआ और हमारे नवीन भाषाशास्य को लहलहा चला, जिसका उद्योग पूर्ण सफलता को प्राप्त हो आज मानों द्वादशी की मयङ्कमरीचिमाला से भारत को उँजाला कर रहा है ।

एलेन्स इण्डियन मेल, लंडन

(मार्च सन् १८८३ ई०)

‘विजयिनी विजय वैजयंती’ के विषय में लिखा गया है कि यह एक वीर रसात्मक काव्य है, जो लॉर्ड बेकन्गफील्ड की नीति का समर्थन करता है। यह बाबू हरिश्चन्द्र कृत है, जिनका नाम सभी को बहुत दिनों से अच्छी तरह विदित है और जो हिन्दी के कवियों में बड़े ही प्रसिद्ध हैं। जो लोग यह कहते फिरते हैं कि भारतवासियों में सच्ची देशभक्ति नहीं है उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे इसका अवलोकन करें।

माननीय आनरेरी मैजिस्ट्रेट और विजयानगरम् राज्य के सुपरिंटेंडेंट डाक्टर लाजरस साहब

बा० हरिश्चन्द्र के कहने पर उनके विषय में मैं अपनी सम्मति इस प्रकार देता हूँ कि कुछ वर्ष हुए कि मुझसे और उनसे परिचय हुआ था और तब से मैं बराबर उन्हे बड़े सम्मान और आदर की दृष्टि से इसलिये देखता आता हूँ क्योंकि उनमें सामाजिक तथा राजनैतिक बहुत से गुण हैं। इस नगर में मैं उनके साथ चार वर्ष तक आनरेरी मैजिस्ट्रेट रहा था।

यहाँ के गण्यमान्य रईस की हैसियत से इन्होंने सभी नागरिक कार्यों में योग दिया है जिसके लिये यह शिक्षा आदि के कारण बहुत ही योग्य हैं। बालकों के लिये इन्होंने बहुत दिन हुए एक स्कूल संस्थापित किया था, जिससे बहुत लाभ पहुँच रहा है। राजनैतिक लेखक की हैसियत में तथा उनके पारिवारिक और नागरिक जीवन से मैं सर्वदा विश्वास करता आया हूँ कि सच्चे और पूर्ण राजभक्त हैं। देशीय भाषाओं पर विस्तृत अधिकार रखते हुए और उच्च कोटि के कवि होते हुए यह अपनी रचना में हास्य रस का पुट अवश्य देते थे जिससे यह कभी कभी व्यंग्यात्मक लेख लिख देते थे। दुर्भाग्य से ऐसे ही लेख से तत्कालीन हाकिम इनपर क्रुद्ध होगए और यह कोप दृष्टि अब तक उनपर बनी रही। बनारस के प्रत्येक नगरवासी बा० हरिश्चन्द्र का

सच्चा आदर करते हैं और वे सभी इसपर प्रसन्न होंगे यदि यह कोपदृष्टि हटा ली जाय और सर्कार उनपर पुनः विश्वास कर ले ।

बनारस, १५ जुलाई १८८० ई० ह० ई० जे० लाजरस एम० डी०

मिस्टर एडविन ग्रीन्स

यह गद्य तथा पद्य दोनों ही के भारी लेखक थे और इनका एक भारी मंडल पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था । हिंदी साहित्य के विकास पर इनका कितना प्रभाव पड़ा था और दोनों गद्य पद्य के लेखक होने से उसके इतिहास में इनका ठीक कहां स्थान होगा, इसका ठीक ठीक निश्चय करना कठिन है । इनके कुछ प्रशंसकों ने इनकी इतनी अधिक प्रशंसा की है कि कुछ लोगों के मस्तिष्क में ऐसा सशय उत्पन्न होगया जिससे उनकी भारी योग्यताओं, कर्मशीलता तथा उत्साह का और उनके हृदयस्थ कार्य की औदार्यपूर्ण सहायता का वे उचित रूप से आदर न कर सके जिसके वे पात्र थे । उनकी अपूर्व योग्यता तथा हिंदी साहित्य की उन्नति के लिए जो कुछ इन्होंने किया है, ये इतने सत्य हैं कि उनपर कोई भी कुछ नहीं कह सकता पर, कुछ लोगों का यह कथन कि वे आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता थे, उसी प्रकार साबित नहीं किया जा सकता ।

इनके ग्रंथों की संख्या—..... । इतनी रचना अवश्य ही उस मनुष्य के लिए अभूतपूर्व है जिसने उसके लिये बहुत कम समय पाया था और यह उसके परिश्रम का द्योतक है । यह भी है कि उन्हें बहुत से सहायक भी प्राप्त थे । इनके लेखों के प्रतिलिपिकर्ताओं को कभी कभी कड़े निरीक्षण तथा लिखाने से स्वातंत्र्य भी मिल जाता था । दूसरों में अपना उत्साह प्रतिष्ठित करने की इनकी शक्ति अद्भुत थी । यह बड़े ही सजीव पुरुष थे और अनेक मनुष्यों तथा अनेक कार्यों में उनका मन लगा रहता था । विद्वत्तापूर्ण कर्म पर प्रतिभान्वित विशेष होने से उनकी प्रतिभा सहज ही में वह कार्य संपादन कर सकी थी जो बहुतेरे बहुत अधिक मनन तथा सतत परिश्रम करने पर भी न कर सकते ।

मि० एफ०, ई० की एम० ए०

पाश्चात्य संसर्ग ने हिंदी कविता के विकास को प्रोत्साहित किया है और उसे रोका नहीं है, इसके सबूत में काशी के बा० हरिश्चंद्र पेश किए जा सकते हैं, जो अधिकतर भारतेंदु के नाम से पुकारे जाते हैं। इन्होंने बनारस के क्रीन्स कालेज में शिक्षा प्राप्त की थी और कई शैलियों में सफलता पूर्वक बहुत सी कविता लिखी है। इन्होंने सोलह वर्ष की अवस्था से लिखना आरंभ किया था और कुल मिला कर एक सौ पचहत्तर पुस्तकें तैयार की थीं। इनमें अठारह नाटक भी सम्मिलित हैं और हरिश्चंद्र ही वास्तव में भारत के वर्तमान नाटक के संस्थापक थे। इन नाटकों में इनकी कुछ सर्वोत्तम रचनाएँ भी हैं और इनसे इनकी भारत की उन्नति तथा उसके दिमागी स्वातंत्र्य के उत्कर्ष की उत्कट इच्छा प्रकट हो रही है।

हरिश्चंद्र ने भिन्न भिन्न कई विषयों पर लिखा है, जिनमें इतिहास, राज-भक्ति, धार्मिकता तथा प्रेम प्रधान हैं। परिहासमय कविताएँ भी इन्होंने लिखी हैं। ऐतिहासिक रचनाओं में काश्मीर कुसुम और चरितावली है। दूसरे में भारतीय तथा यूरोपीय महान् व्यक्तियों की जीवनियाँ दी हुई हैं। नाटकों के बाद इनकी शृंगारिक कविताएँ बहुत उत्तम समझी जाती हैं। इनकी कविता में प्रेम तथा परिहास मुख्य हैं और जो सबलता से परिप्लुत हैं। हिंदी साहित्य के बड़े बड़े लेखकों में इनकी गणना होनी चाहिए। इनकी काव्यभाषा ब्रज-भाषा थी। हरिश्चंद्र ने हिंदी कविता के प्रति लोगों में प्रेम उत्पन्न करने में बहुत प्रयास किया था। इस कार्य के लिए इन्होंने एक मासिक पत्रिका हरिश्चंद्रचंद्रिका प्रकाशित किया जिसमें बहुत से प्राचीन ग्रंथ भी निकले थे।

इंडियन मैगज़ीन

(जनवरी सन् १८८८ ई०)

‘हरिश्चंद्र से बढ़ कर अंग्रेजी राज्य का कोई दूसरा सच्चा शुभचिंतक नहीं था और मैं इस बात को उनके उन चिट्ठियों से अच्छी तरह जानता हूँ

जिन्हें उन्होंने बहुत वर्षों तक बराबर मुझे लिखी थी ।' इस लेख में भारतेन्दु जी के ग्रंथों की समालोचना भी निकली है, जो विद्वान लेखक के योग्य हैं ।

सी० ई० बकलैंड सी० आई० ई०

‘काशी के गोपालचंद्र साहू के पुत्र थे…………। यह वर्तमानकाल के सब से अधिक विख्यात कवि हुए और अंतिम शताब्दि के सभी अन्य भारतीय सज्जनों से हिंदी साहित्य के प्रचार के लिए इन्होंने अधिक प्रयास किया था ।……कई वर्षों तक इन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक एक अति उत्तम पत्रिका प्रकाशित की थी । सन् १८८० ई० मे इन्हे देश के सभी पत्र संपादकों ने एकमत होकर भारतेन्दु की पदवी दी थी और सत्यतः उत्तरी भारत में अब तक यह सर्वश्रेष्ठ समालोचक हो गए हैं ।’

सर जॉर्ज ए० ग्रिअर्सन के० सी० एस० आई०, डी० लिट० आदि

‘वर्तमान काल के भारतीय कवियों में यह सब से अधिक प्रसिद्ध हैं । देशीय साहित्य के प्रचार मे इन्होंने जो प्रयास किया है उससे बढ़ कर किसी भी जीवित भारतीय ने नहीं किया है । इन्होंने कई शैलियों में बहुत सी रचनाएँ की हैं और सभी मे यह बढ़ गए हैं ।’

देशीय भाषाओं के पत्रों की सरकारी रिपोर्ट

‘कविवचनसुधा, हिंदी भाषा का प्रसिद्ध और सर्वजनप्रिय पत्र है । उसकी भाषा शुद्ध और आदर्श होती है । उसके विषय उत्तम और मनोरंजक होते हैं जो उसके योग्य तथा विद्वान संपादक के प्रयास का फल है । उसके संपादक देशी भाषाओं के पंडित ही नहीं हैं किन्तु एक असाधारण कवि हैं ।’

गार्सिन द तासी

‘कविवचनसुधा, अपने नाम के अनुसार बराबर हिंदी के प्राचीन ग्रंथों को प्रकाशित करता रहता है । यह हिंदी तथा उर्दू के अन्य पत्रिकाओं

से भिन्न अपनी विशेषता रखता है और इसलिए विख्यात है। इसके संपादक वा० हरिश्चंद्र हैं ।'

श्रीयुत कालीकुमार मुखोपाध्याय एम० ए० (हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू)

हरिश्चंद्र का हाल भी प्रतिभाशाली पुरुषव्याघ्रों के नियमानुसार हुआ। माता पिता के सर जाने से ऐसे विलक्षण लड़के के हक में अच्छा हुआ।

साहित्य के जितने अंग हैं लगभग सभी अंगों पर भारतेन्दु की छाया पड़ी, परंतु मुख्य तीन विषयों पर तो इनकी छाप या मोहर ही लग गई है। प्रथम—हिन्दी गद्यशैली निर्वाचन और उसका संस्करण; द्वितीय—हिंदी नाटक का आविष्करण और सामयिक प्रोत्साहन; तृतीय—हिन्दी भाषा की कवित्व शक्ति का प्रदर्शन और अपने सिद्धहस्त का निदर्शन।

भारतेन्दु की कविता में मानसिक उड़ान के साथ साथ चित्रचित्रण भी होता चलता है, बल्कि चित्रकारी में ही आप सिद्धहस्त हैं। रंगविरंग के चित्रपट आप बात की बात में सामने खींच सकते हैं। इनके शब्द मानों भिन्न भिन्न रंगों में शराबोर हैं। जहाँ जैसी छवि उतारनी है, ठीक उसी के अनुयायी उचित शब्दों को चुन चुन कर बिठा देते हैं और तुरंत मालूम पड़ता है कि घटना मूर्तिमती है।

काशी में गंगाजी का जो वर्णन भारतेन्दु ने किया है, वह लाजवाब है। '...भारतेन्दु से बढ़कर भाव-विशद वर्णन होना कठिन है। वर्णन स्वाभाविकता से भरा है, सत्य और प्राकृतिक है। इस स्वाभाविक Realistic वर्णन में भारतेन्दु अँगरेजी कवि स्कॉट की शैली का अनुकरण करते हैं।

परिशिष्ट इ

भारतेन्दु जी की रचनाओं की सूची

हरिश्चंद्र कला, खड्गविलास प्रेस द्वारा प्रकाशित

प्रथम खंड (नाटक)

- १—नाटक (गद्य)
- २—सत्य हरिश्चन्द्र (मौलिक)
- ३—मुद्राराक्षस (अनुवाद)
- ४—धनंजय विजय (अनुवाद)
- ५—कर्पूर मञ्जरी (अनुवाद)
- ६—चंद्रावली (मौलिक)
- ७—विद्यासुंदर (अनु० ?)
- ८—भारत जननी (अनु०)
- ९—भारत दुर्दशा (मौलिक)
- १०—याषढ विहंग्वन (अनुवाद)
- ११—नीलदेवी (मौलिक)
- १२—अंधेरनगरी (मौलिक)
- १३—वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति
(मौलिक)

- १४—विषस्यविषमौषधम् (मौलिक)
- १५—दुर्लभ बंधु (अनु०, अपूर्ण)
- १६—सती प्रताप (अपूर्ण, मौलिक)
- १७—रत्नावली नाटिका (अनुवाद
अपूर्ण प्राप्त)
- १८—प्रेमयोगिनी (अपूर्ण)

द्वितीय खंड (इतिहास)

- १—काश्मीर कुसुम
- २—महाराष्ट्र देश का इतिहास
- ३—बूँदी का राजवंश
- ४—रामायण का समय
- ५—अग्रवाल्लों की उत्पत्ति
- ६—खत्रियों की उत्पत्ति
- ७—बादशाह दर्पण

८—उदयपुरोदय अर्थात् मेवाड़ का
पुरावृत्त संग्रह

९—पुरावृत्त संग्रह

१०—चरितावली

११—पंचपवित्रात्मा

१२—दिल्ली दरबार दर्पण

१३—काल चक्र

तृतीय खंड (राजभक्ति)

१—विजयिनी-विजय-वैजयंती

२—भारत-वीरत्व

३—भारत-भिन्ना

४—विजय वल्लरी

५—मुँह दिखावनी

६—श्रीरिपनाष्टक

७—श्रीराजकुमार स्वागत पत्र

८—मनोमुकुल माला

९—मानसोपायन

१०—सुमनोंजलि

११—जातीय संगीत

१२—प्रिंस ऑव वेल्स के पीड़ित
होने पर कविता

चतुर्थ खंड (भक्ति रहस्य)

१—भक्त सर्वस्व

२—वैष्णव सर्वस्व

३—वल्लभीय सर्वस्व

४—युगुज सर्वस्व

५—तदोय सर्वस्व

६—भक्ति सूत्र वैजयंती

७—सर्वोत्तम स्तोत्र भाषा

८—उत्तरार्ध भक्तमाला

९—उत्सवावली

१०—वैष्णवता और भारतवर्ष

११—अष्टादश पुराणोपक्रमणिका

१२—वैशाख माहात्म्य

१३—कार्तिक कर्मविधि

१४—कार्तिक नौमित्तिक कृत्य

१५—मार्गशीर्ष महिमा

१६—माघस्नान विधि

१७—पुरुषोत्तम मास विधान

१८—पुरुषोत्तम पंचक

१९—कार्तिक स्नान

२०—गीतगोविंदानंद

पंचम खंड (काव्य ग्रन्थ)

१—होली

२—मधुमुकुल

३—प्रेमफुलवारी

४—फूलों का गुच्छा

५—विनयप्रेम पचासा

६—नए जमाने की मुकरी

७—प्रेम प्रलाप

८—देवी छद्मलीला

९—प्रातःस्मरणीय मंगलपाठ

१०—भीष्मस्तवराज

११—श्रीनाथस्तुति

- १२—अपवर्ग पंचक
 १३—श्रीसीतावल्लभस्तोत्र
 १४—प्रेमाश्रुवर्षण
 १५—वर्षा विनोद
 १६—प्रेममाधुरी
 १७—सतसई सिंगार
 १८—जैनकुतूहल
 १९—प्रेममालिका
 २०—वेणुगीत
 २१—प्रेमतरंग
 २२—रागसंग्रह
 २३—प्रातःस्मरण स्तोत्र
 २४—स्वरूपचिंतन
 २५—प्रेमसरोवर
 २६—प्रबोधिनी
 २७—प्रातः समीरन
 २८—कृष्णचरित
- षष्ठ खंड (इसमें भारतेन्दुजी की रचनाएँ कम तथा अन्य लोगों के संग्रहादि अधिक संकलित हैं अतः इसकी तालिका न देकर प्रथम पाँच खंड के सिवा बाबू साहब की अन्य सभी रचनाओं की अब सूची दी जाती है ।)
- १—नवमल्लिका नाटक (अपूर्ण, अप्रकाशित)
 २—मृच्छकटिक (अपूर्ण, अप्राप्य अप्रकाशित)
 ३—रामलीला (मिश्रकाव्य)
 ४—हमीरहठ (अपूर्ण, अप्रकाशित, गद्य)
 ५—राजसिंह (अपूर्ण गद्य)
 ६—एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती (अपूर्ण)
 ७—सुलोचना (आख्यान)
 ८—मदालसा उपाख्यान (आख्यान)
 ९—शीलवती (आख्यान)
 १०—सावित्री चरित (आख्यान)
 ११—मानलीला (कविता)
 १२—दानलीला (कविता)
 १३—चिनोदिनी (बंगला)
 १४—उलहना
 १५—तन्मयलीला
 १६—चित्रकाव्य
 १७—श्रुतिरहस्य
 १८—नारदसूत्र
 १९—कुरान का अनुवाद
 २०—प्रेमसूत्र (अपूर्ण)
 २१—चतुःश्लोकी
 २२—पाँचवाँ पैगम्बर
 २३—स्वर्ग में विचार समा
 २४—बंदरसभा (अपूर्ण)
 २५—श्रावण कृत्य

२६—परिहासिनी

३०—कृष्णपाक

२७—सीतावट निर्णय

३१—तहक्रीकात पुरी की तहक्रीकात

२८—हिन्दी भाषा

३२—प्रशस्तिसंग्रह

२९—संगीतसार

इनके सिवा इनके लेख, निबंध, यात्रा विवरण आदि सैकड़ों पत्र-पत्रिकाओं में बंद पड़े हैं, जिनके छोटे छोटे संग्रह अत्यंत मनोरंजक होंगे। उनकी सूची यहाँ देना अनावश्यक होगा।

परिशिष्ट (ई)

सहायक पुस्तकों तथा पत्रों की सूची

—:०:—

- १—भारतेन्दु बा० हरिश्चंद्र का जीवनचरित—श्री बा० राधाकृष्णदास कृत
- २— ,, ,, ,, ,, —श्री बा० शिवनंदन सहाय
- ३—जालिया क्राइव (हिन्दी अनुवाद) —पं० पारसनाथ त्रिपाठी
- ४—सिराजुद्दौला (हिन्दी अनुवाद)
- ५—हरिश्चन्द्रकला ६ खंड —खड्गविलास प्रेस द्वारा प्रकाशित
- ६—भारतेन्दु नाटकावली —सं० राय बहादुर बा० श्यामसुंदरदास
- ७—हिन्दी साहित्य का इतिहास —श्रीयुत पं० रामचंद्र शुक्ल
- ८—जरासंध वध महाकाव्य —श्री बा० गोपालचंद्र कृत और ब्रज-
रत्नदास द्वारा संपादित
- ९—बा० राधाकृष्णदास की जीवनी —श्री पं० रामचंद्र शुक्ल
- १०—ग्रंथ हृदय ,, दामोदर शास्त्री
- ११—चंद्रास्त ,, रामशंकर व्यास
- १२—रामकहानी —महा० पं० सुधाकर द्विवेदी
- १३—नवरत्न —मिश्रबंधुत्रय
- १४—भंग दरभंग

१५—शोकावली

१६—मिश्रबंधुविनोद तीन भाग

१७—विहारी-विहार

—पं० अंबिकादत्त व्यास

१८—राधाकृष्णग्रंथावली पहिला खंड

१९—तृतीय अखिल भारतीय साहित्य-

सम्मेलन की रिपोर्ट

२०—राजदर्पण

बंगला

१—सिराजुद्दौला

—बा० अक्षयकुमार मैत्र

२—कालिकाता से कालेर औ एकालेर

—बा० हरिसाधन मुखोपाध्याय

३—नदिया काहिनी

४—साहित्य संहिता खं० १ सं० १ और ३

फारसी

१—रियाजुस्सलातीन

—मौ० गुलाम हुसेन “सलीम”

२—मिरातुस्सलातीन या सैरुलमुताख्किरीन

३—मआसिरुल् उमरा

—नवाब शाहनवाज़ख़ाँ

अंग्रेजी

१—एसे ऑन क्लाइव

—लॉर्ड मेकौले

२—दि ब्लैकहोल्स ऑव कैलकटा

—मि० रावर्ट ओर्म

३—ए कौग्निहेंसिव हिस्ट्री ऑव इंडिया

—एडवोकेट वेवरिज

जि० १

४—दि हिस्ट्री ऑव इंडिया

—मि० जेम्स ब्रांट

५—हिस्ट्री ऑव इंडिया एज़ टोल्ड वाई

—इलिअट एन्ड डारसन

इट्स ओन हिस्टोरियन्स जि० ८

पत्र-पत्रिका

- १—श्री हरिश्चंद्र मैगज़ीन
 - २—श्री हरिश्चंद्रचंद्रिका
 - ३—कविवचनसुधा
 - ४—बालाबोधिनी
 - ५—श्री हरिश्चंद्रचंद्रिका और मोहनचंद्रिका
 - ६—बनारस अखबार
 - ७—सुधाकर
 - ८—नवोदिता हरिश्चंद्रचंद्रिका
 - ९—हिन्दी प्रदीप
 - १०—सरस्वती (प्रथम वर्ष)
 - ११—मर्यादा
-

अनुक्रम

अ	ए
अंबिकादत्त व्यास—६५, ७३, ८१-२, ८७, ९५	एडम्स, मि०—१४
अक्षय कुमार मित्र—६	एडवर्ड सप्तम, युवराज—१००
अजीमुशान—३-४	ऐ
अतर सिंह भदौड़िया—११२	ऐलकॉट, कर्नल—६६, १००
अद्वैत प्रसाद—३१	ओ
अप्पयाचार्य—८२	ओर्म—७, १७
अमान सिंह गोठिया—१३४	ओ
अमीन चन्द—२, ३, ५-१८, २०	औरंगजेब—३
अमीर बेग—१५	क
अलीवर्दी खाँ—३, ६	कन्हैयालाल—३७, ४८
अहमद, सर सैय्यद—७३, ११६	कल्याणदास—१४८
आ	कारपेन्टर, मिस मेरी—६१
आबिद, मिर्जा—८३	कारमाइकेल, मि०—८४
ई	कुन्दनलाल—८८
ईश्वरचन्द्र चौधुरी—१२८	कुमुदचन्द्र—१२५
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर—१००, १४५-६	कृष्णचन्द्र—४०, ५६, १२५
ईश्वरदत्त जी 'ईश्वर'—३८, ५६	कृष्णदास पाल—११२
ईश्वरी नारायण सिंह—१०८	कृष्णदास, राय—३१
ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह, महाराज— २४, ८२	कृष्णदेव शरय सिंह, राव -- ६६, ११३, १३३
	कृष्ण वल्लभ—६, ७, ६

कृष्णसिंह धारट—६२

केशवराम—७५, ११८, १२२, १४७-८

केशवशरण सिंह, राजा—१३५

कैपसन, डाइरेक्टर—१०७

कोरम, कैप्टेन—१७

छाडव, लॉर्ड—१०-१७

ख

खिरोधरलाल—३१-३३, १०५

खोजा पैट्रोस—१०

ग

गंगा बीबी—३१

गट्टलाल जी—७६, ८८

गयेशदत्त—८२

गयेशराम व्यास—६५

गयेश वासुदेव जोशी—११२

गदाधरप्रसाद सिंह—६६

गदाधर सिंह—४८, १३६

गविन्स, रिचर्ड—२२

गिरधरलाल, गोस्वामी—२६, ३०

गिरिधारीलाल—२०, ३४

ग्रिफिथ, मि०—७६

गुरुप्रसाद—१४१

गुलावराय—४०, ५६, ७६

गुलावराय नागर—३८

गोकुलचन्द्र—४०, ६६, ७०, ८७, ६३

६७, ६६, १०२-३, १०५-६,

१२५, १३२

गोकुलचन्द्र, सेठ—१८, २०

गोपालचन्द्र—२०, २२, २४, २६-७

३०-४१, ५४-६

गोपीकृष्ण, राय—४०

गोपीचन्द्र—२६

गोविन्दचन्द्र—२०

गोविन्द दास—६४, १४८

गोविन्दी बीबी—४०

घ

घनश्याम गौड़—५५

घसीटी बेगम—६

च

चम्पतराय श्रीमीन—३०

चिन्तामणि राव धड़फुल्ले,—६६, ६७

चेतसिंह, राजा—१६

ज

जगत सेठ—१०, ११, १३

जगन्नाथप्रसाद—३१

जगन्नाथदास 'रत्नाकर'—७५

जगन्नाथ सिंह—८

जगमोहन सिंह, ठाकुर—१३४

जयकरण जी—६२

जयगोविन्द सिंह—२३

जयाजी राव सिंधिया—१०८

जल्ला पंडित—११३

जानकीदास—२२, २७

जीवन जी, गोस्वामी—७१

जीवनदास—३१

ज्वालादत्त प्रसाद, गोस्वामी—१४०

ज्वालाप्रसाद, मुं०—१४७

ट

टॉम्सन्, लेफ० ग०—३५

ड

डंकन, जोनाथन—१६

डाइटन—१०६

डेक—६७, ६८

त

ताजश्रली—५६

ताराचरण तर्करत्न—८८

तुलसीदास बाबा—८०

तुलसीराम जी—३७

तेगश्रली—६६

तोताराम—१६८

द

दामोदर दास—७३

दामोदर शर्मा—६८

दामोदर शास्त्री—१४०

दीनदयाल गिरि—३८, ६५

दुर्गादत्त गौड़—६५

दुर्गासिंह—२३

दुर्लभराम, राय—६, ११-३, १६

देवीप्रसाद—१२४

देवीप्रसाद मसरक—१३५

देवीसेन Davison—२३

द्वारकानाथ विद्याभूषण—११२

न

नन्दकिशोर—५६

नन्दकुमार—११, १२

नन्हीं बीवी—१०५

नवीनचन्द्र राय—११२

नारायण—६५

नारायण चन्द्र—१२५

नारायण मार्तण्ड—७६

नारायण राव—६८

निहाल मल्लाह—२१

नृसिंहदास, राय—३१, ४०, ७४,

१०२-३

प

पटनीमल्ल, राजा—३१

परमानन्द जी—८०-१

पार्वती देवी—३१

पिनकाट, फ्रेडरिक—११०, १४४-६

पुरुषोत्तम दास—७५, १४७, १५५

पूर्णचन्द्र, डाक्टर—११२

प्रतापनारायण मिश्र—१३६

प्रमदादास मिश्र—१००, १४३

प्रयागदत्त—१५६

प्रह्लाद दास, राय—३१

फ

फतेचन्द—१८-२२, २४

फुन्दनलाल—८८

व

- वंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय—११२
 वन्दन पाठक—१५६
 वदाम कुँअर—२०
 वद्रीनारायण चौधरी—१३५
 बलदेवदास—१२४-५
 बलभद्रदास, राय—६६
 बलवन्त सिंह, राजा—१६
 बापूदेव शास्त्री—७८
 बालकृष्ण दास—३१
 बालकृष्ण दास टकसाली—३८
 बालकृष्ण भट्ट—१३६
 बालकृष्णाचार्य—१००
 बालमुकुन्द गुप्त—१०७
 बालशास्त्री—११३
 बालेश्वरप्रसाद—१४७-८
 बिज्जीलाल—३२, ३३
 बुलाकी दास—२५, १२४
 वृन्दावन दास—३०, ३२
 बेंकट-सुपैय्या—७६
 बेचनराम तिवारी—६८
 बेचनराम रामायणी—१४०
 बेसेंट, मिसेज़—६६
 बौदल बाबा—८२
 ब्रह्मदत्त—६८

म

भगवतदास जी—३७

भगवानदास, डाक्टर—१४८

भाऊदाजी, डा०—१४८

म

- मंसाराम—१८-६
 मन्नालाल द्विज-६५
 मन्नोदेवी—४०, ५६, १२५
 मह्लिका—१३०-२
 महताव राय—१३, १५
 महावीरप्रसाद—२२, ४०
 माणिकलाल जोशी—६६, १८
 माधवी—१२८-३०
 माधोजी, शाह—७६-७
 माधोदास—११८, १४७-८
 माधोराम गौड़—३८
 मानिकचन्द, राजा—६, १३
 माहेश्वर सिंह, राजा—१३३-४
 मिनचिन, कैप्टेन—८
 मीर कासिम—१७
 मीर जाफर—१२, ३७
 मीरन—१५, १७
 मीरमदन—१६
 मुकुन्दी बीबी—४०
 मुहम्मदशाह—१८
 मेयो, लॉर्ड—१०६
 मैलेसन, कर्नल—१४, ११०
 मोतीचन्द—१२५
 मोहनचन्द—१२५

मोहन बीबी—४०

मोहनलाल—१६

मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या—६२, १४०

म्योर, सर विल्लिध्रम—७२, ६६

य

यदुनाथप्रसाद—३१

यमुना बीबी—३१

यारलतीफ खाँ—१३

ए

रंजीत राय—११, १४

रणवीर सिंह, महाराज—१०८, ११३

रघुनाथ पंडित—८१, ११३

रघुराज सिंह, महाराज—१०८

रत्नचन्द्र, रायबहादुर—१६-२१

राजवल्लभ, राजा—१७

राजेन्द्रलाल मित्र, डा०—३४, ८६, १४२

राजरजेश्वर सिंह, राजा—१३५

राधाकृष्ण दास बी० ए०—१४८

राधाकृष्ण दास—२४, २७, ३१, ४८,

५२-३ ५५, ६२, १४८-६, १५५

राधाकृष्ण, राय—४०

राधाचरण, गोस्वामी—१३८-४०

राधिकारमयाप्रसाद सिंह, राजा—१११

राधिकादास जी—३७

राधेचरण—१४८

रामकृष्ण वर्मा—१५२

रामकिंकर दासजी—३७

रामदीन सिंह—१५५

रामप्रसाद उदासी—७५

रामेश्वरदत्त—१४३-४

रामराय सिंह, राजा—६७

रायचन्द्र—२०-१

रामराव—१००

रामशकर व्यास—११३, १४३

रिपन, लॉर्ड—११०, ११४

रेडिची, मि०—६४

ल

लक्ष्मीचन्द्र—१२५

लक्ष्मी देवी—३१

लक्ष्मीशंकर व्यास—३७

लाला बाबू—३०

लिटन, लॉर्ड—१०८

लूसिंगटन—१५

लोकनाथ चौबे—६७

व

वजीर, ख्वाजा—१५३

वानिदअली शाह—८३

वाट्स, मि०—६, ११-६

वाट्सन, एडमिरल—१५

वार्ड, जे० ई०—१०६

वॉल्श—११

विद्यावती—१२५, १४८

वियोगी हरि—१३६

विश्वेश्वरप्रसाद 'ईश्वर'—३८

विश्वेश्वरप्रसाद—६३

वेंकट गिरि, राजा—१११

वैद्यनाथप्रसाद—३१

व्रजचन्द्र—१२५

व्रजजीवन दास—१२५

व्रजभूषण दास—१२५

व्रजमोहन दास—१२५

व्रजरमण दास—१२५

श

शंभु—३८

शंभूचरण सुकुर्जी—१०६

शारदाचरण मित्र—१७

शालिग्राम दास—११२

शाहजहाँ, वेगम—१११

शिवकुमार जी—१४१-२

शिवनन्दनसहाय—१५८

शिवनाथजी, मनीपानन्द—४०

शिवप्रसाद, राजा—५६, ७६, ८२, ६४

६६, ११४

शिवलाल, राजा—२७

शीतलप्रसाद—२५

शीतलाप्रसाद—१४४

शुकदेव—६८

शुजाउद्दौला—१६

शौकतलंग—७

श्यामल दास—६२, १२१

श्यामा वीवी—३०

श्यामा बेटी जी—२६

श्रीधर पाठक—१२४

श्रीनिवास दास—१३६-७

स

संतोष सिंह, बाबा—११२

सञ्जादत खाँ, नवाब—१८

सज्जनसिंह, महाराणा—६४, १११, १२२

सरदार कवि—३८, ६५

सिराजुद्दौला—६-८, ११-३, १६-७

सीताराम—१४८

सुन्दरदास—२५

सुधाकर जी—७८, १००, ११३

सुभद्रा वीवी—३१

सुमेर सिंह साहिबजादे—८१, १४६

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी—१००

सेवक—६५

स्वरूपचन्द्र—१३, १५

स्क्राफ्टन—११, १५, १६

ह

हजारीमल्ल—७-८

हनुमान—६५

हर्षचन्द्र—१८-२७, ३०-२

हरिकृष्णदास—३१

हरीदास—२२

हालवेल—६-८

हेनेसी, एस्० पी०—११०

हेमचन्द्र बनर्जी—११२

